



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 3—जून 9, 2017 (ज्येष्ठ 13, 1939)
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 3—JUNE 9, 2017 (JYAISTHA 13, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV

[PART IV]

[गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं]

[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies]

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Controller of Publication

CHANGE OF NAME

I hitherto known as JARNAIL GHUMAN Son of DALIP SINGH, residing at Village Salarpur, PO Raipur, District Jalandhar, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as JARNAIL SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JARNAIL GHUMAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JAGDISH KAUR GHUMAN Wife of JARNAIL SINGH, residing at Village Salarpur, Po Raipur, District Jalandhar, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as JAGDISH KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JAGDISH KAUR GHUMAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JAGDISH KAUR GHUMAN ALIAS ABDISH KAUR Wife of JARNAIL SINGH, residing at Village Salarpur, PO Raipur, District Jalandhar, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as JAGDISH KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JAGDISH KAUR GHUMAN ALIAS ABDISH KAUR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NIKHIL GUPTA Son of Shri RAJENDER PRASHAD GUPTA, residing at 6-A, Shankara Charya Marg, Civil Lines, Delhi-110054, have changed my name and shall hereafter be known as NIKHIL CHANDRA GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NIKHIL GUPTA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MOHAMMAD ZAMIRUDDIN S/o NASIRUDDIN, employed as Office Attendant in the Zakir Husain Delhi College, residing at 4810, Phatak Namak Hauz Qazi Delhi-110006, have changed my name and shall hereafter be known as (ZAMEERUDDIN).

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MOHAMMAD ZAMIRUDDIN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NEHA ATREY D/o Late CHANDER BHUSHAN SHARMA, residing at 208, Type-3, Sector-1, Sadiq Nagar, Delhi-110049, have changed my name and shall hereafter be known as NEHHA SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NEHA ATREY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as DANIEL SHILSHI LAMKANG Son of Late KOJING SHETOI, employed as Head Constable in the ITB Police, residing at Kongpe Village, P.O.-Pallel, Distt.-Chandel, Manipur, have changed my name and shall hereafter be known as ROBINSON D. S. LAMKANG.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DANIEL SHILSHI LAMKANG
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KAMALJEET KAUR Wife of KULWINDER SINGH, resident of Vill-Salarpur, PO Raipur Pharala, Jalandhar, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as SHARNJIT KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAMALJEET KAUR
[Signature (in existing old name)]

I, VENKATACHALAM MAKUDESWARAN S/o Shri P R MAKUDESWARAN, residing at Flat 29A, Pocket-B, DDA SFS Flats, New Kondli, Mayur Vihar Phase-III, Delhi-110096, have changed the name of my minor son V. ARJUN MUTHIAH aged 16 to ARJUN MUTHIAH for all purposes.

VENKATACHALAM MAKUDESWARAN
[Signature of Guardian]

I hitherto known as VANDANA GUPTA Wife of ALOK KUMAR, residing at 4.2, MS Flats, Shahjahan Road, New Delhi-110011, have changed my name and shall hereafter be known as VANDANA KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VANDANA GUPTA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NEERU GUPTA Wife of NIRMAL KANT GUPTA, residing at House No. 114, Sector-14, Gurgaon, Haryana-122001, have changed my name and shall hereafter be known as LILA AGRAWAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NEERU GUPTA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as G. S. CHANDOK S/o Sh. PARVINDER SINGH, R/o 236, Dhudial Apartment, Pitampura, North West Delhi, Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be known as GURPREET SINGH CHANDOK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

G. S. CHANDOK
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SURBHI POPLI D/o Dr. P.S. POPLI W/o Sh. GURPREET SINGH CHANDOK, R/o Flat No. 236, Dhudial Apartment, Madhuban Chowk, Pitampura, North West Delhi, Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be known as SURBHI POPLI CHANDOK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SURBHI POPLI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as AJAI SINGH Son of SHRI DHARAM PAL, employed as Master-Chief- At-Arms II, P.No.172157-T in the Indian Navy, residing at Village & Post Office-Khandewla, Distt-Gurugram, Haryana-122504, have changed my name and shall thereafter be known as AJAY SINGH RATHEE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AJAI SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as BISMILLAH Daughter of SHEKH BACHCHU, residing at H.No-121, 5th Floor, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi-110017, have changed my name and shall hereafter be known as FATIMAH ALI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BISMILLAH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ATUL KUMAR S/o ASHOK KUMAR, residing at Flat No. 888, First Floor, Sanskriti Apartment, Pocket-GH1, Rohini Sector-28, New Delhi-110042, have changed my name and shall hereafter be known as ATUL SINGHRAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ATUL KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as OM PRAKASH Son of SRI RAM PADARATH SINGH, residing at E-301 Exotica Fresco, Sector 137, Noida-201304, U.P., have changed my name and shall hereafter be known as OM PRAKASH SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

OM PRAKASH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as AAKASH MALHOTRA Son of Shri ANIL MALHOTRA, by profession Businessman and resident of I-202, Bestech Park View Spa Sector 47 Gurgaon, Haryana-122001, have changed my name and shall hereafter be known as AAKASHH ANIL MALHOTRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AAKASH MALHOTRA
[Signature (in existing old name)]

I, ANSHU CHAUDHARY W/o VISHAL SHARMA, employed as Airport Manager in the IGI Airport, Terminal-3 residing at B707, Vasundhra Apartment Plot No. 16, Sector-6, Dwarka, New Delhi-110075, have changed the name of my minor son TUSHAR SHARMA aged 13 years and he shall hereafter be known as TUSHAR CHAUDHARY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANSHU CHAUDHARY
[Signature of Guardian]

I hitherto known as KRISHAN LAL SATIA Son of Sh KHUB CHAND SATIA, residing at H. No. B-3/15 Raghunath Mandir Road, Krishna Nagar, Delhi-110051, have changed my name and shall hereafter be known as KRRISHAN LAL SATIA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KRISHAN LAL SATIA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as VISHAL S/o RAMBHROSHE, residing at 134 Purva Vidhayak Kai Makan Kai Pas Gram or Post- Sapnawat, Zila - Hapur, Uttar Pradesh-245101, have changed my name and shall hereafter be known as VISHAL SINGH RANA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VISHAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as VIPIN KUMAR S/o Shri KIRANPAL SINGH, residing at Ho. No. 478, Dholana Road, Village + Post-Sapnawat, Distt- Hapur, Uttar Pradesh-245101, have changed my name and shall hereafter be known as VIPIN KUMAR SHISHODIA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIPIN KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUKHWANT SINGH SETHI S/o SURINDER SINGH SETHI, residing at House No. 15, Road No. 48, West Punjabi Bagh, Delhi-110026, have changed the name of my minor daughter AARJA SETHI, aged about 18 years and she shall hereafter be known as AARJA KAUR SETHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUKHWANT SINGH SETHI
[Signature of Guardian]

I hitherto known as SURESH S/o CHANNU LAL, residing at H. No. 227, Group-I, DDA, Janta Flats, Hastal, Vikaspuri, Near By Police Line, New Delhi-110059, have changed my name and shall hereafter be known as SURESH KANOJIA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SURESH
[Signature (in existing old name)]

I, JANOD SHARMA Son of KEWAL KRISHAN, residing at H.No.772, 3rd Floor, Akshardham Apartment, Pocket-3, Sector-19, Dwarka, Delhi-110075, have changed the name of my minor son NEELKANTH aged 5 year and he shall hereafter be known as KSHIRAJ BALI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JANOD SHARMA
[Signature of Guardian]

I hitherto known as RANJIT KUMAR @ RANJEET S/o ASHOK KUMAR, residing at 62-F/F, Block-9, Subhash Nagar New Delhi-110027, have changed my name and shall hereafter be known as RANJEET CHAUHAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RANJIT KUMAR @ RANJEET
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NANCY Daughter of NARESH KUMAR residing at P-403, Jaipuria Sunrise Greens, Ahinsa Khand-2, Indirapuram, Ghaziabad, U.P., have changed my name and shall hereafter be known as NANCY KAY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NANCY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as DURGA PRASAD AGGARWAL/ DURGA Son of Shri SITA RAM GUPTA, by profession Self Business and resident of B-4/225, Sultan Puri, Delhi-110086, have changed my name and shall hereafter be known as DURGESH AGGARWAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DURGA PRASAD AGGARWAL/DURGA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as URMILA UPADHYAYA Wife of RAJINDER KUMAR UPADHAYA, employed as Special Assistant in the Punjab National Bank, residing at B-133, First Floor Hari Nagar, New Delhi-110064, have changed my name and shall hereafter be known as URMIL UPADHYAY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

URMILA UPADHYAYA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as FAQIR SINGH S/o BALVIR SINGH, residing at H.NO.686, BAND PHATAK, KABIR NAGAR, MOGA, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as FAKIR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirement in this connection.

FAQIR SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SIMRAN GILL Daughter of SUKHBINDER SING GILL, residing at A62, ff, Palladians Mayfield garden, sec.-47, Gurgaon, have changed my name and shall hereafter be known as SIMRAN KAUR GILL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SIMRAN GILL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as HIMANSHU S/O SANJEEV KUMAR, residing at 1/6787, East Rohtash Nagar, Shahdara, Delhi - 110032, have changed my name and shall hereafter be known as HIMANSHU UPADHYAY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HIMANSHU
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JASMINE BHUI Daughter of SARDAR NAVNEET SINGH, employed as student in the Holy Child School, residing at C-61, Backside, Rajouri Garden, New Delhi-110027, have changed my name and shall hereafter be known as JASMINE KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JASMINE BHUI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NISHA KUMARI wife of SHIV SHAKTI NATH BAKSHI, employed as lecturer in Kalindi College, University of Delhi, residing at PP-66, Dr. Mukherjee Smruti Nyas, Subramania Bharti Road, New Delhi-110003, have changed my name and shall hereafter be known as NISHA BAKSHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NISHA KUMARI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KARAM CHAND NAGAR Son of HOSHIYAR SINGH, residing at C-152, Alpha -I, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, UP., have changed my name and shall hereafter be known as KARAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KARAM CHAND NAGAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JASWINDER SINGH alias RAJAN KUMAR Son of PURAN CHAND, residing at VPO Lidhran, Jalandhar, Punjab-144027, have changed my name and shall hereafter be known as JASWINDER SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JASWINDER SINGH alias RAJAN KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as LAXHMI NARAYAN S/o PURSHOTTAM, employed as NK (opr) 14444097A in the Indian army, residing at Village Bhulwana, Post - Hodal, Tehsil Hodal, Distt Palwal, Haryana-121106, have changed my name and shall thereafter be known as LAXMI NARAYAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LAXHMI NARAYAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NARBIR S/O YADRAM SHARMA, residing at V.P.O. - Andhop, Andhop (287), Andhop, Palwal, Haryana-121106, have changed my name and shall hereafter be known as NARVEER.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NARBIR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SURINDER KUMAR S/o Late Sh. PRESH DATT, employed as Deputy Director in the office of the Principal Chief Commissioner of Income Tax, Chandigarh and residing at House No. 717-GF, Sector 36-B, Chandigarh, have changed my name and shall hereafter be known as Dr. SURENDER KUMAR SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SURINDER KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as BALRAM Son of Shri RAM RATAN, employed as Manager (PF ID :JB0123) in the Reserve Bank of India, Residing at Flat No. 204, Oliva Apartment, Behind Lakme Company, Govandi, Mumbai-400 088, have changed my name and shall hereafter be known as BALRAM CHAUDHARY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BALRAM
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MADHUMITA wife of ARVIND KUMAR, residing at A-1565, 2nd Floor, Gate No.5, Greenfield Colony, NHPC Chowk, Faridabad, Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as NEETU.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MADHUMITA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NITU SEHGAL Wife of SANJEEV CHOPRA, residing at 26, ADARSH NAGAR, JALANDHAR CITY, PUNJAB, have changed my name and shall hereafter be known as PAYAL CHOPRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NITU SEHGAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MOULSHREE MITTAL wife of Shri SIDDHARTH KUMAR, resident of House No.14, Arya Samaj Road, Daltonganj, Distt-Palamau, Jharkhand - 822 101, have changed my name and shall hereafter be known as MOULSHREE AGRAWAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MOULSHREE MITTAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAMPHALEL Son of SATBIR SINGH, working as RANK-AA3, P.NO-500274-N, in Indian Navy, Room no-69, A-Block Hutment, Dalhousie Road, New Delhi-110011, residing at V.P.O Thurana, Tehsil:-Hansi, Distt-Hisar, Haryana-125033, have changed my name and shall hereafter be known as RAM MALIK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAMPHALEL
[Signature (in existing old name)]

I, JATINDER PAL SINGH KOHLI S/o S. SURINDER JIT SINGH KOHLI, Advocate P/321/1999, District & Session Courts, Jalandhar R/o 842-C, Urban Estate Phase-1, Jalandhar, have changed the name of my minor son AAGMAN KOHLI, aged 16 yrs and he shall hereafter be known as AAGMAN SINGH KOHLI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JATINDER PAL SINGH KOHLI
[Signature of Guardian]

I hitherto known as SRI JAYANTH MALLIK Alias APARESH MALLICK S/o Late BINOY BHUSAN MALLIK, residing at Flat No. 260A, Block No.13, Phase No.1, Janapriya Apartment, Miyapur, R.R.Dist., Telangana State (India), have Changed my Name and shall hereafter be known as JAYANTH MALLIK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JAYANTH MALLIK Alias APARESH MALLICK
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUDHIRCHANDRA S/o MAHADEORAO HOTEY, employed as Sr Auditor in the office of ACCOUNTS OFFICE, ORDNANCE FACTORY, AMBAJHARI, NAGPUR, residing at KW-20, Orbital Empire, Ekatmata Nagar Road, Jaitala, Nagpur-440 036, I have changed my name and shall hereafter be known as SUDHIR MAHADEORAO HOTEY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUDHIRCHANDRA MAHADEORAO HOTEY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as DILBAG SINGH son of LAKHA SINGH, residing at Village-Feroze, P.O-Mandi Distt. Jalandhar, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as DILBAGH SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DILBAG SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NISHANT PARULKUMAR MODY Son of PARULKUMAR MANHARLAL MODY, employed as Sorting Assistant in the Department of Post Rms "RJ" Division Rajkot, residing at "Manu Smruti", 15 Mill Para, Kanta Stri Vikas Gruh Road Rajkot-360002, have changed my name and shall hereafter be known as NISHANT PARULKUMAR MODI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NISHANT PARULKUMAR MODY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SALINDER KAUR W/o RASHPAL SINGH, residing at 206, Rose Garden, Near Paras Estate Extention Jalandhar, have changed my name and shall hereafter be known as NARINDER KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SALINDER KAUR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PARMAR NATVARBHAI DAHYABHAI Son of PARMAR DAHYABHAI MAGANBHAI, employed as SDE (Sub Divisional Engineer) in the Office of BSNL Panigate Vadodara, residing at Vadodara 12, Nandalay SOC, B/H Ambe Vidhyalay, Sama Savli Road, Vadadara, Gujrat-390008, have changed my name and shall hereafter be known as SAGAR NATVARLAL DAHYABHAI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PARMAR NATVARBHAI DAHYABHAI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KAKA alias GULZAR SINGH Son of Sh. HARCHARAN SINGH, residing at V.P.O- Bassi Gulam, Hussain, Distt.- Hoshiarpur, Punjab-146001, have changed my name and shall hereafter be known as GULZAR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAKA alias GULZAR SINGH
[Signature (in existing old name)]

I, MOHAN Son of SHARVAN LAL, residing at H-2/127, Madangir, New Delhi-110062, have changed the name of my minor daughter RITISHA aged 14 Years and she shall hereafter be known as RITISHA MOHAN SANWARIYA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MOHAN
[Signature of Guardian]

I hitherto known as AMANPREET KAUR alias AMANDEEP KAUR D/O Sh. MANJIT SINGH, residing at Village-Rampur Sainian, P.O.-Rampur Jhanjowal, Distt.-Hoshiarpur, Punjab-144530, have changed my name and shall hereafter be known as AMANPREET KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AMANPREET KAUR alias AMANDEEP KAUR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as BABY SONI D/O BABU RAM SONI, residing at 501/4, Jaccubpura, Near S.D. Girls School, Gurgaon (Haryana), have changed my name and shall hereafter be known as PREETI SONI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BABY SONI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MITRA SEN alias MITHRASEN alias MITTAR SAIN alias MITTARSAIN Son of HARI CHAND, residing at 106-A, Taimoor Nagar, New Friends Colony, and New Delhi-110065 have changed my name and shall hereafter be known as MITTERSEN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MITRA SEN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto Known as TANU KUMAR son of LIKHAWAR SINGH, residing at K-3/14, Street No.11, West Ghonda, Gangotri Vihar, Delhi-110053, have changed my name and shall hereafter be known as TARUN SINGH RAWAT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

TANU KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as YASHODA alias SHALU MEHTA, YASHODA RANI, YASHODA RANI MEHTA, MADHU MEHTA Wife of AJAY MEHTA, residing at 268, Hakikat Nagar, Kingsway Camp, Delhi-110009, have changed my name and shall hereafter be known as SHALU MEHTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

YASHODA alias SHALU MEHTA, YASHODA RANI,
YASHODA RANI MEHTA, MADHU MEHTA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ANITA KUMARI Wife of DANESH KUMAR, resident of Patti Lalu Ki, VPO-Bara Pind Tehsil-Phillaur Jalandhar-144418, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as ANEETA SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANITA KUMARI
[Signature (in existing old name)]

I, MUKESH GUPTA Son of Shri MITTHAN LAL, residing at H.No.N-22, Tagore Gali No.13, Brahampuri, Bhajan Pura, Delhi-110053 have changed the name of my minor daughter GUN GUPTA aged 13 Years and she shall hereafter be known as SANSKRITI GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MUKESH GUPTA
[Signature of Guardian]

I hitherto known as DEEPAK KOTTAN THARIAN S/o KOTTAM MATHEW THARIAN, employed as Sr. Assistant General Manager in the Air India Ltd., residing at C-3/53, Air India Colony, Vasant Vihar, New Delhi-110057, have changed my name and shall hereafter be known as DEEPAK KOTTAM THARIAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DEEPAK KOTTAN THARIAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as GURLEEN SODHI D/o S. GURVINDER SINGH SODHI, residing at E-60, Vishnu Garden, New Delhi-110018, have changed my name and shall hereafter be known as GURLEEN KAUR SODHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GURLEEN SODHI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JAS RAJ SINGH S/o AMAR SINGH, residing at Vpo Purana Shalla, Distt Gurdaspur-143530 Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as JOGRAJ SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JAS RAJ SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PRAVEEN KUMAR S/o MAHABIR SINGH, residing at E-171, G.F. Masjid Moth, Greater Kailash-III, New Delhi-110048, have changed my name and shall hereafter be known as PRAVEEN SEHRAWAT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRAVEEN KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, RISHI TIWARI Son of Sh. ARUN KUMAR TIWARI, residing at Flat No. 8150, B-XI, Vasant Kunj, New Delhi-110070, have changed the name of my minor son VIVEK TIWARI aged 07 Years and he shall hereafter be known as VIVEK DEV TIWARI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RISHI TIWARI
[Signature of Guardian]

I hitherto known as SUNIL KUMAR DAS S/o Late Sh. SUDARSAN DASH, presently working as Chief Prosecutor in Directorate of Prosecution, Government of NCT of Delhi and residing at H.No. 1234, Sector-29, Noida, UP, have changed my name and shall hereafter be known as SUNIL KUMAR DASH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUNIL KUMAR DAS
[Signature (in existing old name)]

I, HARISH S/o Sh. JAI DUTT, R/o M-Block, H.No. 399, Mangol Puri, New Delhi-110083, have changed the name of my minor daughter from PAYAL age 11 Years and she shall hereafter be known as SWATI PANDEY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HARISH
[Signature of Guardian]

I hitherto known as KANIKA KAPUR Wife of Mr. PARAS CHAWLA, employed as Scientific Assistant in the Delhi FSL, Home Department, Rohini, Sector-14, residing at H.No.-2091, Gali No.37, Naiwala, Karol Bagh, New Delhi-110005, have changed my name and shall hereafter be known as KANIKA CHAWLA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KANIKA KAPUR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MANYTA D/o GYASUDDIN, residing at B-1/38 JJ Colony Madanpur Khadar Sarita Vihar New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as MUMTAZ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANYTA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known As SURENDER KUMAR son of Shri VED PRAKASH GUPTA employed as TRADESMAN-G(DEO) in NATIONAL INFORMATICS CENTRE, residing at 88D BLOCK AD, SHALIMAR BAGH, DELHI-110088, changed my name and shall hereafter be known as SURENDER KUMAR GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SURENDER KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, BRIJ MOHAN LAL AHIR Son of Sh. MALKIT RAM AHIR, residing at 86A/2, 3rd Floor, Street No.3, Krishna Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029, have changed the name of my minor son CHAMAN PREET AHIR aged 15 Years and he shall hereafter be known as RISHABH AHIR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BRIJ MOHAN LAL AHIR
[Signature of Guardian]

I hitherto known as ANSHUL JAIN D/o Sh. RAJESH JAIN W/o Sh. ABHISHEK VAISH, R/o 94, Ground Floor, Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025, have changed my name and shall hereafter be known as RIYA VAISH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANSHUL JAIN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RITIKA daughter of Sh. RISHI PAL, residing at 302, Gali No. 3, Khurana Road, DAV Colony, Kaithal, Haryana-136027, have changed my name and shall hereafter be known as RITIKA LOAT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RITIKA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SAJAUDDIN KHAN S/o SHARAFAT HUSAAN, residing at H.No. 415, Timarpur Lancer Road, Delhi-110054, have changed my name and shall hereafter be known as BABU KHAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SAJAUDDIN KHAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as THAMBI RAJA Son of Shri MB RAJAN, employed as Commissioned Officer in the Indian Air Force, residing at P-152/602, Sekhon Vihar, New Delhi - 110010, have changed my name and shall hereafter be known as RAJA THAMBI NEILL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

THAMBI RAJA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as BHUPESH S/o Sh. BHARAT SINGH SAINI, R/o 203, Raj Park, Sultanpuri, Delhi-110086, have changed my name and shall hereafter be known as BHUPESH SAINI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BHUPESH
[Signature (in existing old name)]

I, RAMESH CHAND SHARMA Son of Late Sh. SHIROMANI SHARMA, residing at S-449, School Block, Shakarpur, Delhi-110092, have changed the name of my minor son UJJAWAL SHARMA, aged 14 years and he shall hereafter be known as ADITYA SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAMESH CHAND SHARMA
[Signature of Guardian]

I hitherto known as MOHAN LAL S/o Shri PREM SINGH RAWAT, R/o 2303, Dharam Pura, Dariba Kalaan, Gali Guliyar, Chandni Chowk, Delhi-110006, have changed my name and shall be known as MOHAN RAWAT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MOHAN LAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ASHISH PRASAD Son of CHHANGUR PRASAD, residing at D/601, Delhi Metro Quarters, Sarita Vihar, Delhi-110076, have changed my name and shall hereafter be known as ASHISH KUMAR PRASAD.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ASHISH PRASAD
[Signature (in existing old name)]

I, TARUNPREET ARORA W/o GAGANDEEP SINGH ARORA, residing at L-12, First Floor, Rajouri Garden, New Delhi-110027, have changed the name of my minor daughter SANNA ARORA, aged 17 years and she shall hereafter be known as SANNA KAUR ARORA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

TARUNPREET ARORA
[Signature of Guardian]

I hitherto known as ANITA ARORA Wife of JAGDEEP PRUTHI, employed as an Executive (In Private Company), residing at 2/12-A, Moti Nagar, New Delhi-110015, have changed my name and shall hereafter be known as ANNU PRUTHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANITA ARORA
[Signature (in existing old name)]

I, SHEETAL CHADHA Daughter of Mr. PRADEEP KUMAR CHADHA, residing at BD1, Eden Wood Cooperative Housing Society, Taleigao, Goa-403002, have changed the name of my minor son AAHAN DEWAN, aged 13 years and he shall hereafter be known as AAHAN CHADHA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHEETAL CHADHA
[Signature of Guardian]

I hitherto known as SRINIBAS NAIK Son of HARIHAR NAIK, a Government employee in Power Grid Corporation of India Limited (Assistant Finance) and residing at Plot No.171/2274, Pragativihar, Damana, Ps.Chandrasekharpur, Bhubaneswar-751016, have changed my name and shall hereafter be known as SRINIBAS NAYAK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SRINIBAS NAIK
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PALLAWI SINGH wife of DEEP GAURAB, resident of C-302, Aparna Hillpark Lakebreeze, PJR Layout, Chandagar, Hyderabad, Telangana, have changed my name and shall hereafter be known as PALLAWI GAURAB.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PALLAWI SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAJNISH KUMAR Son of Sh. LAL CHAND, residing at 583, New Model House, Jalandhar, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as RAJNISH DHAWAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJNISH KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MUKTA VARMA W/o VINEET SEHGAL, R/o 19, North Avenue, Punjabi Bagh, New Delhi-110026, have changed my name and shall hereafter be known as MUKTA SEHGAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MUKTA VARMA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as LOVENEESH GOTHWAL S/o Shri PRITAM SINGH, residing at BR 51 B, Shalimar Bagh, New Delhi-110088, have changed my name and shall hereafter be known as KABIR GOTHWAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LOVENEESH GOTHWAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NARMADA GOUD C S W/o HEMANTH REDDY Y, residing at #422, 4th Floor, Pyramid Banksia Apartment, Shivanahalli, Yelahanka, Bangalore, Karnataka-560064, India, have changed my name and shall hereafter be known as NARMADA REDDY Y.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NARMADA GOUD C S
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PALLA CHANDRA MOULI S/o RAJESWARA RAO, R/o H. No. 3-172, Dorasanipalli, Proddutur (M), Cuddapah dist, A.P, Pin-516360, have changed my name and shall hereafter be known as ABDULLAH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PALLA CHANDRA MOULI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as U B V S S N VARMA ALLURI S/o BRK NARASIMHA RAJU R/o H. No. LIG291, Floor-2, Phase-7, KPHB Colony, R.R. Distt. T.S Pin-500072, have changed my name and shall hereafter be known as SURYA ALLURI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

U B V S S N VARMA ALLURI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUBBA RAO T S/o KRISHNA RAO, R/o Flat No. 1 LIG, Block-212, Chitrapuri Colony, Raidurgam, Rajendra Nagar (M), Manikonda (Jagir), R.R. Distt. T.S Pin-500089, have changed my name and shall hereafter be known as SUBHASH THOTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUBBA RAO T
[Signature (in existing old name)]

I, GALI DAMODAR NAIDU S/o GALI VENKATESWARLU, R/o Plot No. 13 and 14, Flat No. 202, Sri Sai Raghava Residency, Balaji Nagar, Kukatpally, Hyderabad, T.S, Pin-500072, India, have changed the name of my minor son GALI RITHWIK CHOWDARY, aged 6 years and he shall hereafter be known as GALI K THEJDEEP.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GALI DAMODAR NAIDU
[Signature of Guardian]

I, GALI DAMODAR NAIDU S/o GALI VENKATESWARLU, R/o Plot No. 13 and 14, Flat No 202, Sri Sai Raghava Residency, Balaji Nagar, Kukatpally, Hyderabad, T.S, Pin-500072, India, have changed the name of my minor daughter's name GALI SUCHARITA aged 9 years and she shall hereafter be known as GALI K MOUKTHIKA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GALI DAMODAR NAIDU
[Signature of Guardian]

I, MYCHERLA SRINIVASARAO S/o MYCHERLA PRASAD RAO, R/o D No. 5-72, Jodugullu, Sabbavaram, (Po) (M) Visakhapatnam Distt. A.P., have changed the name of my minor son MYCHERLA JASWANTH aged 9 years and he shall hereafter be known as MYCHERLA HONOCK

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MYCHERLA SRINIVASARAO
[Signature of Guardian]

I hitherto known as MADDINENI PALANKAIAH S/o MADDINENI KOTI VENKATA RAMANAIAH, R/o H.No. 2-48, Kothuru main road, Kallur, Prakasam Distt. A.P, Pin-523304, have changed my name and shall hereafter be known as MADDINENI PRAVEEN KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MADDINENI PALANKAIAH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as G APPARAO S/o APPALA SWAMY APPA RAO, R/o H. No. 45-2-60/58/6/1, Ramachandra Nagar, 80 Feet Road, Akkayyapalem, Visakapatnam, A.P, Pin-530016, have changed my name and shall hereafter be known as KARRI APPARAO.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

G APPARAO
[Signature (in existing old name)]

I, DASARI RAMA KRISHNA S/o DASARI KOTESHWARA RAO, R/o D Flat No. 305, Sai Gouthami Residency, Meenakshi Estates, Behind Old Deewan Dhaba, Secundrabad, Jeedimetla, T.S. Pin-500055, have changed the name of my minor son DASARI HEMANTH aged 12 years and he shall hereafter be known as DASARI THUSHAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DASARI RAMA KRISHNA
[Signature of Guardian]

I hitherto known as SAI DHEERENDRA PAL KOPPULA REDDY Son of DHARAM PAL KOPPULA, Private Employee, Residing at H. No. 5-4-384, Plot No.87, Vanasthalipuram, Hyderabad-500070, have changed my name and shall hereafter be known as SAI DHEERENDRA PAL KOPPULA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SAI DHEERENDRA PAL KOPPULA REDDY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NIHAR SINGH Son of MAHESHWAR SINGH, Private Employee, residing at Plot No. 47, Aadhaar, Brook Bond Colony, Kakaguda, Secunderabad-500015, Telangana State, have changed my name and shall hereafter be known as NEEHAR MAHESH SINH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NIHAR SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as REMIDALA PUSHPAVATHI D/o REMIDALA CHINNA VENKATESWARLU, Private Employee, R/o H. No. 3-46, Thakkellapadu Village, Jaggaiahpet Mandal, Krishna District-521175, Andhra Pradesh, have changed my name and shall hereafter be known as REMIDALA PUSHPA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

REMIDALA PUSHPAVATHI
[Signature (in existing old name)]

I, ANIL JOHAR Son of D.V. JOHAR, residing at C-4E/39, Janakpuri, New Delhi-110058, have changed the name of my minor son HITHARTH JOHAR aged 05 Years and he shall hereafter be known as HITARTH JOHAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANIL JOHAR
[Signature of Guardian]

I hitherto known as ROJI MISHRA @ ROJEE KUMARI daughter of Shri RAMESHWAR PRASAD SINGH W/o Shri RUPESH MISHRA, residing at 1310-A, Mahagun Mosaic-2, Block Osimo, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad, U.P-201010, have changed my name and shall hereafter be known as ROSY MISHRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ROJI MISHRA @ ROJEE KUMARI
[Signature (in existing old name)]

I, SUNIL KUMAR SARAOGI Son of SHYAM LAL SARAOGI, residing at F-304, Rashimi Apartment, Harsh Vihar, Pitam Pura, Delhi-110034, have changed the name of my minor son TANMAY AGGARWAL aged 08 Years and he shall hereafter be known as TANMAY SARAOGI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUNIL KUMAR SARAOGI
[Signature of Guardian]

I, SUNIL KUMAR SARAOGI Son of SHYAM LAL SARAOGI, residing at F-304, Rashimi Apartment, Harsh Vihar, Pitam Pura, Delhi-110034, have changed the name of my minor son KRISH AGGARWAL aged 11 Years and he shall hereafter be known as KRISH SARAOGI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUNIL KUMAR SARAOGI
[Signature of Guardian]

I hitherto known as MANOJ S/o Shri DAYANAND, Resident of Village Khera Khurampur P.O. Farrukh Nagar Tehsil Farrukh Nagar Distt. Gurugram Haryana, Pin-122506, have changed my name and shall hereafter be known as MANOJ KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANOJ
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as NARINDER BUDHIRAJA, NARINDER KUMAR BUDHIRAJA, NARENDER BUDHIRAJA, NARENDER KUMAR AND NARENDRA BUDHIRAJA Son of Late Shri BHAGWAN DASS BUDHIRAJA, residing at 61, First Floor, NRI Complex, Mandakini, Greater Kailash-IV, New Delhi-110019, have changed my name and shall hereafter be known as NARENDER KUMAR BUDHIRAJA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NARINDER BUDHIRAJA, NARINDER KUMAR BUDHIRAJA, NARENDER BUDHIRAJA, NARENDER KUMAR AND NARENDRA BUDHIRAJA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto know as ANAND SWAROOP Son of Shri CHOTEY LAL SHARMA, residing at the C-163, Chandan Vihar, Nihal Vihar, Nangloi Jat, New Delhi-110041, have changed my name and shall hereafter be known as ANAND SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANAND SWAROOP
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PARVEEN KUMAR Son of KEHAR SINGH, residing at 112, Village Karewari, District Sonapat, state Haryana-131024, have changed my name and shall hereafter be known as PRAVEEN CHHIKARA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PARVEEN KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KANHAIYA LAL CHIB Son of Late Sh. CHAMAN LAL CHIB, residing at I-/259, Bapa Nagar, Road No. 3, Hardhyan Singh Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, have changed my name and shall hereafter be known as KAMAL CHIB.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KANHAIYA LAL CHIB
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KOSHINDRA S/o RISHIPAL SINGH, employed as Constable in the CISF Unit JNPT Sewa Navi Mumbai, residing at V.P.O.-Kakoer Kalan, Baghpat, U.P.-250617, have changed my name and shall hereafter be known as KOSHINDER KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KOSHINDRA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JOGENDER MOHAN S/o Sh. NAGAR MAL R/o DDA Flat No. 209B, First Floor, Pocket-E, GTB Enclave, Delhi-110093, have changed my name and shall hereafter be known as JOGENDER MOHAN MAHAJAN.

It is certified that I have complied with all other legal requirements in the connection.

JOGENDER MOHAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ABHISHEK SHAH S/o Sh. HEMANT SHAH, residing at D-148, Sector-61, Noida Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201301, have changed my name and shall hereafter be known as ABHISHEK SHAH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ABHISHEK SHAH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KAMAL KISHORE RIYAR S/o Sh. GIRDHARI LAL residing at A-32, Sunlight Colony No. 2 Ashram, Delhi-110014, have changed my name and shall hereafter be known as KAMAL KISHORRE RIYAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAMAL KISHORE RIYAR
[Signature (in existing old name)]

I, SURENDER SINGH Son of Sh. MAHENDER SINGH, Employed as Government Servant in the All India Radio & Doordarshan (Ministry of I & B), residing at RZ-B-16, Bindapur Ext., Uttam Nagar, New Delhi-110059, have changed the name of my minor son NIKHIL, aged 17.5 years and he shall hereafter be known as NIKHIL SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SURENDER SINGH
[Signature of Guardian]

I, RISHI TIWARI Son of Sh. ARUN KUMAR TIWARI, residing at Flat No. 8150, B-XI, Vasant Kunj, New Delhi-110070, have changed the name of my minor daughter SIMRAN TIWARI, aged 05 years and she shall hereafter be known as SIMRANH TIWARI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RISHI TIWARI
[Signature of Guardian]

I hitherto known as AVNEET BHATIA daughter of RUPINDER SINGH BHATIA, residing at D-1/9, Model Town 3rd, Delhi-110009, have changed my name and shall hereafter be known as AVNEET KAUR BHATIA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AVNEET BHATIA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAHUL S/o Shri BHAWNESH KUMAR, R/o E-163, Amar Colony, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024, have changed my name and shall hereafter be known as RAHUL ARYA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAHUL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MANOJ BHAWNA Son of Shri BHAWNESH KUMAR, R/o E-163, Amar Colony, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024, have changed my name and shall hereafter be known as MANOJ ARYA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANOJ BHAWNA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as UTKARSH S/o Shri BIJAY KUMAR SINHA, R/o J-72, Vijay Laxmi Apartment, I.P. Extension, Patparganj, Delhi-110092, have changed my name and shall hereafter be known as UTKARSH SINHA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

UTKARSH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KULWINDER SINGH Son of Late Sh. SARDAR SINGH, residing at VPO-Talwandi Dadian, Tehsil-Dasuya, Distt.-Hoshiarpur, Punjab-144203, have changed my name and shall hereafter be known as BALWINDER SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KULWINDER SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JATINDER KUMAR Son of Shri TARSEM CHALANA, residing at 58, Lord Budha Apartment, Inder Enclave, Paschim Vihar, Sunder Vihar, Delhi-110087, have changed my name and shall hereafter be known as JATINDER CHALANA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JATINDER KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ANITA VAISHNAVA Daughter of Sh. CHANDER MOHAN VAISHNAV, residing at 181, Naval Technical Officer's Society, Plot No. 3A, Sector-22, Dwarka, New Delhi-110077, have changed my name and shall hereafter be known as AANIEETAA VAISSNAVA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANITA VAISHNAVA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RIPON S/o Sh. GIAN CHAND, R/o 6/19, Subhash Nagar, N. Delhi-110027, employed as Technician in All India Radio, Sansad Marg, New Delhi-110001, have changed my name and shall hereafter be known as RIPON KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RIPON
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as JAI Son of PURUSHOTAM LAL, residing at 1583 A, Housing Board Colony, Sector-10 A, Gurugram-122001, Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as JAI KHALYAV.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JAI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SINGH MANJIT Son of JASBIR SINGH, residing at H. No. 370, Ward No.14, New Sant Nagar Trimo Road, Gurdaspur, Punjab-143521, have changed my name and shall hereafter be known as MANJIT SINGH MALHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SINGH MANJIT
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as DOLLY D/o Shri BHAWNESH KUMAR, R/o E-163, Amar Colony, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024, have changed my name and shall hereafter be known as KHUSHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DOLLY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as KRISHNA KUMARI Wife of RAJINDER SINGH, residing at Village-Chanota, P.O.-Jhingar Kalan, Tehsil-Dasuya, Distt.-Hoshiarpur, Punjab-144205, have changed my name and shall hereafter be known as SUMANJIT KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KRISHNA KUMARI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ANIL MASON Son of Sh. KASHMIRI LAL, residing at 182, Gali No .6, New Lahore Colony, Shastri Nagar, Delhi-110031, have changed my name and shall hereafter be known as ANIL BHARDWAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANIL MASON
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as TUSHAR Son of Sh. SUBHASH CHAND, residing at 1313, Laxmi Bai Nagar, New Delhi-110023, have changed my name and shall hereafter be known as TUSHAR BHARDWAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

TUSHAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PRADEEP KUMAR KAUSHIK @ PARDEEP KUMAR S/o Sh. BASHESHER DAYAL, residing at Village-Bhagdana, P.O.-Palri Panihara, Mahendragarh, Haryana-123029, have changed my name and shall hereafter be known as PRADEEP KUMAR KAUSHIK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRADEEP KUMAR KAUSHIK @ PARDEEP KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ANAND KUMAR S/o Sh. RAJBIR SINGH, R/o House No. A-7, Khanpur Extn., Devli Road, New Delhi-110080, have changed my name and shall hereafter be known as ANAND KUMAR CHAUDHARY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANAND KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as ANAND JOSHI Son of Shri DAYA KISHAN JOSHI, residing at E-1683, Jahangirpuri, Delhi-110033, have changed my name and shall hereafter be known as NAND KISHOR JOSHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANAND JOSHI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as GURBUX KAUR Wife of JARNAIL SINGH, residing at 1391, Gali No.13, Govindpuri, Kalka Ji, Aali, Ali, Delhi-110019, have changed my name and shall hereafter be known as MANPREET KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GURBUX KAUR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as VIKASH @ VIKAS son of RAJESHWAR TYAGI, residing at D-1/A-8, Gali No.1, Amar Colony, East Gokal Pur, Delhi-110094, have changed my name and shall hereafter be known as VIKAS TYAGI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIKASH @ VIKAS
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as DUMPY DIGRA Son of MADAN LAL DIGRA, residing at H. No.730, Sector-3, Bhagwati Nagar, Canal Road, Jammu, Jammu and Kashmir-180016, have changed my name and shall hereafter be known as ROHAN DIGRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DUMPY DIGRA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUSHEELA DEVI Wife of MAHENDER SINGH, residing at H. No.125, Shahpur Jat, New Delhi-110049, have changed my name and shall hereafter be known as SHEELA DEVI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUSHEELA DEVI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RAJPAL @ PARSHOTAM LAL RAJPAL @ PARSHOTAM LAL S/o Shri RAM LAL, R/o B-6/103, Pocket-B-6, Sector-3, Rohini, Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as PARSHOTAM LAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJPAL @ PARSHOTAM LAL RAJPAL @
PARSHOTAM LAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as REKHA MITTAL alias DEEPALI GUPTA alias DIPALI GUPTA Wife of JITENDER KUMAR GUPTA, residing at BH-318, East Shalimar Bagh, Delhi-110088, have changed my name and shall hereafter be known as DEEPALI GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

REKHA MITTAL alias DEEPALI GUPTA alias DIPALI
GUPTA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as MUNNI KUMARI daughter of AMAR KANT JHA, residing at B-353, Agar Nagar, Prem Nagar-III, Delhi-110086, have changed my name and shall hereafter be known as NAVYA JHA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MUNNI KUMARI
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as LAXMI KANT PANDEY S/o Sh. HARI PHOOL DUTT PANDEY, R/o F-138, Street No. 5, Shastri Park, Delhi-110053, have changed my name and shall hereafter be known as VISHAL PANDEY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LAXMI KANT PANDEY
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RICHA LAKHANPAL daughter of Brig ARUN KUMAR SHARMA, residing at A-406, Sujjan Vihar, Sector-43, Gurgaon, Haryana-122009, have changed my name and shall hereafter be known as RICHA SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RICHA LAKHANPAL
[Signature (in existing old name)]

I, DHARMANA SEETAYYA Son of PROSHATAM, residing at H. No. E-511, Shakur Pur, J.J. Colony, Delhi-110034, have changed the name of my minor son D SHANKAR aged 16 Years and he shall hereafter be known as DHARMANA SHANKAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DHARMANA SEETAYYA
[Signature of Guardian]

I hitherto known as AJAY KUMAR SINGH S/o Sh. G.S. SINGH, residing at 423, Dhruva Apartments, 4 I.P. Extension, Patparganj, East Delhi, Delhi-110092, have changed my name and shall hereafter be known as AJAY SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AJAY KUMAR SINGH
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as VIMAL KUMAR S/o MURARI LAL TANEJA, residing at B-3/123 SF, Janakpuri, Delhi-110058, have changed my name and shall hereafter be known as VIMAL TANEJA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIMAL KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as RANJANA GARG Wife of SHAILENDRA GUPTA, residing at B-858, Jahangir Puri, Delhi-110033, have changed my name and shall hereafter be known as SHAILY GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RANJANA GARG
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as UTSAV Son of SURENDER KUMAR, residing at T-1, Plot No. 241, NITI Khand-1, Indirapuram, Ghaziabad, U.P.-201014, have changed my name and shall hereafter be known as UTSAV KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

UTSAV
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SODHI RAM Son of RAJU RAM, residing at Village-Chhadauri, P.O.-Begam Pur, Tehsil-Balachur, Distt.-SBS Nagar, Punjab-144524, have changed my name and shall hereafter be known as SODHI SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SODHI RAM
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as PRACHI TANWAR Wife of NARENDER VERMA, residing at House No. 2, Chauhan Mohalla, Sarai Pipal Thala, Near Adarsh Nagar, Azadpur, Delhi-110033, have changed my name and shall hereafter be known as PRACHI NARENDER VERMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRACHI TANWAR
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SUKHVIR Son of Late Sh. SUNDER LAL, residing at H. No. A-487, Gokal Puri, Delhi-110094, have changed my name and shall hereafter be known as SUKHBIR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUKHVIR
[Signature (in existing old name)]

I, VIPIN GUPTA S/o Sh. RAJESH GUPTA, residing at 402-A, Shree Shyam Society, Sector-3, Rewari, have changed the name of my minor daughter VAISHNAVI aged 14 yrs. and she shall hereafter be known as NANDINI GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIPIN GUPTA
[Signature of Guardian]

I, ADESH YADAV Son of LAKSHMI NARAIN YADAV, residing at WZ-552, Madipur Village, New Delhi-110063, have changed the name of my minor son SHOURYA aged 08 Years and he shall hereafter be known as SHOURYA YADAV.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ADESH YADAV
[Signature of Guardian]

I hitherto known as PRABHNOOR UPPAL daughter of Mr. AMARPREET SINGH UPPAL, residing at 11/24, East Patel Nagar, New Delhi-110008, have changed my name and shall hereafter be known as PRABHNOOR KAUR UPPAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRABHNOOR UPPAL
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as YATIN YADAV S/o Sh. DEVENDER KUMAR YADAV, residing at 246, DDA, Janta Flats, Badarpur, New Delhi-110044, have changed my name and shall hereafter be known as YATIN BATRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

YATIN YADAV
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as CHITRANGADA SHUKLA wife of Shri ASHHAR MUSTAFA, employed as Advocate at the High Court of Judicature at Patna, residing at Khelafat Bagh, Mehsoul Chowk, Sitamarhi, Bihar, have changed my name and shall hereafter be known as CHITRANGADA MUSTAFA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHITRANGADA SHUKLA
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as SHAHANA KHAN D/o Mr. ABDUL RASHID W/o Sh. VIVEK KUMAR, R/o 271, Ward No. 4, Chakki Mohalla, Rawat Bhatta Bazar, Chittorgarh (Rajasthan), have changed my name and shall hereafter be known as KHUSHI KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHAHANA KHAN
[Signature (in existing old name)]

I hitherto known as CHITRA KHAN D/o PARAS RAM, residing at Flat 501, Tower 14, Paras Tiera, Felix Hospital, Sector 135, Noida, G. B. Nagar, U.P., have changed my name and shall hereafter be known as CHITRA KALYAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHITRA KHAN
[Signature (in existing old name)]

CHANGE OF RELIGION

I, CHITRANGADA SHUKLA wife of Shri ASHHAR MUSTAFA, employed as Advocate at the High Court of Judicature at Patna, residing at Khelafat Bagh, Mehsoul Chowk, Sitamarhi, Bihar, do hereby solemnly affirm and declare that I have embraced ISLAM and renounced HINDUISM with effect from 03.06.2011.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHITRANGADA SHUKLA
[Signature]

I, CHENNUPALLI VINEESHA D/o CH. VENKATA KRISHNA RAO, Occu : Private Employee, R/o. D. No. 61-3/5-6/75 89, Bhupesh Guptha Nagar, Krishnalanka, Vijayawada (Urban), Krishna District, Andhra Pradesh, do hereby solemnly affirm and declare that I have embraced CHRISTIANITY and Renounced HINDUISM with effect from 22-05-2016.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHENNUPALLI VINEESHA
[Signature]

I, GANGOLU KAMALA KUMARI D/o Late G. VENKATEWARA RAO, Occu: Private Employee, R/o D. No. 52-1-31, Harizanawada, Gunadala, Vijayawada (Urban), Krishna District, Andhra Pradesh, dohere by solemnly affirm and declare that I have embraced CHRISTIANITY and renounced HINDUISM with effect from 20-5-2016.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GANGOLU KAMALA KUMARI
[Signature]

I, SHAHANA KHAN D/o Mr. ABDUL RASHID W/o Sh. VIVEK KUMAR, R/o 271, Ward No. 4, Chakki Mohalla, Rawat Bhatta Bazar, Chittorgarh (Rajasthan), do hereby solemnly affirm and declare that I have embraced HINDU and renounced ISLAM Religion since 16.05.2017.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHAHANA KHAN
[Signature]

I, CHITRA KHAN D/o PARAS RAM, residing at Flat 501, Tower 14, Paras Tiera, Felix Hospital, Sector 135, Noida, G. B. Nagar, U.P., do hereby solemnly afirm and declare that I have embraced HINDUISM and renounce ISLAM with effect from 15/10/2016.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHITRA KHAN
[Signature]

I hitherto known as TANVI W/o Sh. RAJESH R/o 236-E, PratapVihar, Sector-11, Block-E, Police Station Vijay Nagar, Ghaziabad, U.P.-201009 (E-236-S, Second Floor, Sec.-12, Vijay Nagar, Ghaziabad, U.P.-201009) do hereby solemnly affirm and declare that I have embraced ISLAM and renounced HINDUISM with effect from 05.08.2016.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

TANVI
[Signature]

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, MANOJ MAHESHWARI S/o SURESH CHAND, residing at R-175A, Sahid Bhagar Singh Nagar, Karala, Delhi-110081, declare that name of mine has been wrongly written as MONU in my All educational documents. The Actual name of mine is MANOJ MAHESHWARI, which may be amended accordingly

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANOJ MAHESHWARI
[Signature]

It is for general information that I, ANIL KHATRI S/o INDER KHATRI, residing at H. No. 437, Main Stand Wali Gali, Village Banenar, Narela, Delhi-110040, declare that name of my father has been wrongly written as INDER SINGH KHATRI in my Driving License. The Actual name of my father is INDER KHATRI, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANIL KHATRI
[Signature]

It is for general information that I, DAYA SHANKAR JOSHI S/o Late Sh. SRIRAM JOSHI, residing at House No. 5 (Swargashram Kutir No. 5), Near Ram Jhula, Jonk, Pauri Garhwal, Uttarakhand-249304, had taken voluntary retirement from Service in September, 1997, where I was working as U.D.C. My PPO No. is 57288980445. I have taken Sannyas and my actual name is SWAMI BRAHMA SWAROOPANANDA and my Guru's name is SRI SWAMI SHIWANAND, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DAYA SHANKAR JOSHI
[Signature]

It is for general information that I, ROHAN KUMAR S/o Sh. SURENDER KUMAR, R/o 7367, Block-B-10, Vasant Kunj, West Delhi, Delhi-110070, declare that after divorce of my mother Smt. MEENU with Sh. SURENDER KUMAR vide decree dated 25.08.2011 passed by Ms. SHAIL JAIN, Judge, Family Courts, Rohini, Delhi in HMA No. 317/2010, she remarried with Sh. SUNDEEP SRIVASTAVA on dated 20.02.2012 henceforth I have changed my name from ROHAN KUMAR to ROHAN KUMAR SRIVASTAVA and my father's name as SUNDEEP SRIVASTAVA for all future purposes.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ROHAN KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, PARAN KUMAR S/o Sh. SURENDER KUMAR, R/o 7367, Block-B-10, Vasant Kunj, West Delhi, Delhi-110070, declare that after divorce of my mother Smt. MEENU with Sh. SURENDER KUMAR vide decree dated 25.08.2011 passed by Ms. SHAIL JAIN, Judge, Family Courts, Rohini, Delhi in HMA No. 317/2010, she remarried with Sh. SUNDEEP SRIVASTAVA on dated 20.02.2012 henceforth I have changed my name from PARAN KUMAR to PARAN KUMAR SRIVASTAVA and my father's name as SUNDEEP SRIVASTAVA for all future purposes.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PARAN KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, RAJESH SHARMA S/o Sh. VISHWANATH SHARMA, residing at K1/32, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059, declare that name of mine has been wrongly written as RAJESH KUMAR SEN in my educational documents. The Actual name of mine is RAJESH SHARMA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJESH SHARMA
[Signature]

It is for general information that I, NEETU W/o SANJEEV, residing at A-6/333C, DDA Flats, Paschim Vihar, New Delhi-110063, declare that name of mine, my husband and my minor daughter CHARU aged 13 Years has been wrongly written as NEETU MARWAH, SANJEEV MARWAH and CHARU MARWAH in her School Documents. The Actual name of mine, my husband and my minor daughter are NEETU, SANJEEV and CHARU, respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NEETU
[Signature]

It is for general information that I, VINITA D/o MAHENDERA SINGH, residing at H. No. W-243, Gali No. 6, Gola Factory, Govind Vihar, Karawal Nagar, Delhi-110094, declare that name of my father has been wrongly written as MAHINDER SINGH in my Caste Certificate No. OBC/04/42/3916/3/1/2008/55356/1520 dated 21/2/2008. The Actual name of my father is MAHENDERA SINGH, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VINITA
[Signature]

It is for general information that I, BISHAN SINGH S/o MELA SINGH, residing at Golden Avenue, Mehar Chand Road, Distt. Gurdaspur, Punjab-143521, declare that name of my wife has been wrongly written as PARAMPREET KAUR in my Pass Port. The actual name of my wife is PARAMJIT KAUR, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BISHAN SINGH
[Signature]

It is for general information that I, JAI PRAKASH S/o Sh. RAM BABU PIPEL, residing at B-3/28, Janak Puri, New Delhi-110058, declare that the name of my father has been wrongly written as R.B. PIPEL in my Driving Licence. The actual name of my father is RAM BABU PIPEL, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JAI PRAKASH
[Signature]

It is for general information that I, BAL KUMAR SHARMA S/o Sh. SUKKHI LAL, R/o K-2/3, Krishan Vihar, Sultanpuri C-Block, North West Delhi, Delhi-110086, do hereby declare that name of mine has been wrongly written as B K SHARMA in my minor's son JANARDHAN 10th class marksheet and certificate. The actual name of mine is BAL KUMAR SHARMA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BAL KUMAR SHARMA
[Signature]

It is for general information that I, PUSHPA TYAGI W/o Sh. MANOJ TYAGI, R/o WZ-419, Village Hastal, Delhi-110059, do hereby declare that name of mine has been wrongly written as NEHA TYAGI in my minor's daughter MADHUR TYAGI 10th and 12th class marksheet and certificate. The actual name of mine is PUSHPA TYAGI, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUSHPA TYAGI
[Signature]

It is for general information that I, WAHID HUSSAIN S/o MUZAMMIL HUSSAIN, residing at M-104A, Block-M, Laxmi Nagar, Delhi-110092, declare that name of mine has been wrongly written as WAHID ANSARI in my minor daughter AASHI ANSARI aged, 16 Years 10th Class Mark-Sheet and Certificate. The Actual name of mine is WAHID HUSSAIN, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

WAHID HUSSAIN
[Signature]

It is for general information that I, RASPINDER PAL SINGH S/o Shri KARNAIL SINGH, R/o Qtr. No. 35D, Type -I, Sec-IV, Pushp Vihar, New Delhi-110017, declare that the name of mine has been wrongly written as RASHPINDER SINGH in the school record of my minor son NAVJOT SINGH, aged about 17 years. The actual name of mine is RASPINDER PAL SINGH, respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RASPINDER PAL SINGH
[Signature]

It is for general information that I, DEVENDER SINGH BISHT S/o JAGAT SINGH BISHT, residing at P-137/4, Kabul Line, Sadar Bazar, Delhi Cantt., South West Delhi, Delhi-110010, declare that name of mine has been wrongly written as DEVENDER BIST in my educational documents of Class 10th. The actual name of mine is DEVENDER SINGH BISHT, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DEVENDER SINGH BISHT
[Signature]

It is for general information that I, SUSHMA W/o MADHU SUDAN, residing at B-64, Sector-47, Noida, U.P.-201301, declare that name of mine has been wrongly written as SUSHMA RANI in my Pass Port. The actual name of mine is SUSHMA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUSHMA
[Signature]

It is for general information that I, SONIKA MANN W/o YUDHVENDER SINGH RATHEE, residing at 58-B, GH 2, Ankur Apartment, Paschim Vihar, New Delhi-110063, declare that name of mine and my father has been wrongly written as SONIKA MAAN D/o MAHIPAL MAAN in my 12th class certificate and marksheet. The actual name of mine and my father are SONIKA MANN and MAHIPAL MANN, respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SONIKA MANN
[Signature]

It is for general information that I, R. KARTHIK S/o R. INDERAJITH, residing at S-499, K.D. Colony, Sector-12, R.K. Puram, New Delhi-110022, declare that name of my father has been wrongly written as R. RAMU in my educational documents. The actual name of my father is R. INDERAJITH, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

R. KARTHIK
[Signature]

It is for general information that I, YUSRA RAFI D/o Mr. RAFIUDDIN, R/o H. No. 106, Gali No.17, Zakir Nagar, Okhla, New Delhi, do hereby declare that name of mine has been wrongly written as YUSRA SAIFI in my 12th class marksheet, provisional certificate, transfer certificate, character certificate and migration certificate. The actual name of mine is YUSRA RAFI, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

YUSRA RAFI
[Signature]

It is for general information that I, ARSHAD HUSAIN KHAN S/o Late MOHD TAYYAB KHAN, R/o 2240, Gali Chamde Wali, Chitli Qabar, Jama Masjid, Matia Mahal, Delhi-110006, do hereby declare that name of mine, my father and my mother has been wrongly written as ARSHAD HUSSAIN KHAN, MOHD TAYYB KHAN and NOOJAH BÉGUM in my educational documents and in the other documents. The actual name of mine, my father and mother is ARSHAD HUSAIN KHAN, MOHD TAYYAB KHAN and NOORJAHAN BÉGUM, respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ARSHAD HUSAIN KHAN
[Signature]

It is for general information that I, GAMBHIR SINGH BHANDARI S/o RANJEET SINGH BHANDARI, residing at H.No. 283, Type-II, Sector-5, Pushp Vihar, New Delhi-110017, declare that name of mine has been wrongly written as GAMBHIR SINGH in my Service Book. The Actual name of mine is GAMBHIR SINGH BHANDARI, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GAMBHIR SINGH BHANDARI
[Signature]

It is for general information that I, AJIT ADINATH IRAJ Son of ADINATH NARASAPPA IRAJ, Resident of : At/ Post : Shedbal, Taluka : Athani, District : Belgaum, State : Karnataka, Pin-591315, declare that my father name has been wrongly written as ADAGOUDA in my educational documents, service records and in the other documents. The correct and actual name my father is ADINATH and my correct name is AJIT ADINATH IRAJ, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AJIT ADINATH IRAJ
[Signature]

It is for general information that I, DHANANJAY KUMAR VISHWAKARMA Son of SHAMBHOO RAM VISHWAKARMA, residing at 1537, Pragati Parisar, Professor Colony, Suhagi, Adhartal, Jabalpur (MP), declare that name of mine and my father has been wrongly written as DHANANJAY KUMAR and SHAMBHOO RAM in my service book and in the other documents. The actual name of mine and my father are DHANANJAY KUMAR VISHWAKARMA and SHAMBHOO RAM VISHWAKARMA, respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DHANANJAY KUMAR VISHWAKARMA
[Signature]

It is for general information that I, BATOHI RAY S/o RAM LAKHAN RAY, residing at N-16, Sector-1, Bawana, New Delhi-110039, declare that name of mine has been wrongly written as SHANKER YADAV in my son AJAY KUMAR, aged 17 Years School Record. The Actual name of mine is BATOHI RAY, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BATOHI RAY
[Signature]

It is for general information that I, MONIKA GUPTA W/o Lt. SOMENDRA SHUKLA R/o Flat No 3, C-105, Paryavaran Complex, IGNOU Road, New Delhi-110030, declare that after death of my husband (Registration No. MCDOLIR-0212-004515764 Dated 12/12/2012) I, MONIKA GUPTA have remarried with Sh. APURV GUPTA on dated 25/01/2015, henceforth my son namely SAMARTH SHUKLA father's name may be known as Sh. APURV GUPTA and his name may be known as SAMARTH GUPTA in future for all purposes.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MONIKA GUPTA
[Signature]

It is for general information that I, RAKESH KUMAR GOSWAMI S/o RAM NARAYAN GOSWAMI, residing at A-2/19, Dayalpur Ext., Delhi-110094 declare that name of my minor son HITESH KUMAR GOSWAMI aged 17 Years has been wrongly written as HITESH GOSWAMI in my minor son's OBC (Other Backward Class) Caste Certificate No.OBC/04/42/34296/4/9/2012/9421104181/21320. The actual name of my son is HITESH KUMAR GOSWAMI which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAKESH KUMAR GOSWAMI
[Signature]

It is for general information that I, SONMATI W/o THAKUR DIN, residing at C-383, C-Block, Kusum Pur Pahari, South West Delhi, New Delhi-110057, declare that name of mine has been wrongly written as SATYAWATI in my minor son SACHIN aged 14 Years School Record. The Actual name of mine is SONMATI which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Thumb Impression of SONMATI

It is for general information that I, MOHD. RAZA S/o RAFIQ AHMED, residing at S/2-401, M.S. Apartment, K.G. Marg, New Delhi-110001, declare that name of my father has been wrongly written as MOHD RAFIQ in my educational documents. The Actual name of my father is RAFIQ AHMED which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MOHD. RAZA
[Signature]

It is for general information that I, SHUKHVINDER KUMARI W/o MAJ MADAN LAL, residing at 80, Salaria Vihar, UEP-I, Radio Station Road, Awho Complex, Patiala, Punjab-147002, declare that name of mine has been wrongly written as SUKHVINDER in my husband PPO No.M/003935/2004 and Service Record. The actual name of mine is SHUKHVINDER KUMARI which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHUKHVINDER KUMARI
[Signature]

It is for general information that I, SUNITA UPADHYAY W/o RAJU UPADHYAY, residing at B-1289, Gali No.17, I Pusta Sonia Vihar New Delhi-110094 declare that name of mine and my husband has been wrongly written as SUNITA and RAJU in my minor daughter SHENA UPADHYAY aged 10 Years School record and minor son PRINCE UPADHYAY aged 08 Years has been wrongly written as PRINCE in his School record. The Actual name of mine, my husband and my minor son are SUNITA UPADHYAY, RAJU UPADHYAY and PRINCE UPADHYAY respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUNITA UPADHYAY
[Signature]

It is for general information that I, GAYATRI DEVI GAUR D/o Late Shri RAM CHANDRA SINGH GAUR, R/o A-235, Double Storey, Kalkaji, New Delhi-110019, declare that name of mine has been written as GAYATRI DEVI @ GARIMA in my Decree of Divorce and wrongly written as GARIMA in my son MUKUL KUMAR'S school certificates. The actual name of mine is GAYATRI DEVI GAUR, respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GAYATRI DEVI GAUR
[Signature]

It is for general information that I, AMIT GAHLOT S/o RAM KUMAR GAHLOT, residing at H. NO. 449/7 Ashok Mohalla Nangloi, Delhi-110041, declare that name of mine and my father has been wrongly written as AMIT GAHLAUT and RAM KUMAR GAHLAUT in my OBC Certificate. The actual name of mine and my father is AMIT GAHLOT and RAM KUMAR GAHLOT respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AMIT GAHLAUT
[Signature]

It is for general information that I, NITYA NAND S/o DEVKI PRASAD, permanent residential at Mahamoodganj Marehra Etah, U.P-207401 and currently residing at Adrash Colony Kathgodam, Nainital, U.K-263126, declare that name of mine has been wrongly written as NITYANAND in my CBSE 10th Class Mark-sheet and certificate. The actual name of mine is NITYA NAND which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NITYA NAND
[Signature]

It is for general information that I, VIVEK KUMAR S/o Sh. DEVKI NANDAN LAL, R/o 148-C, Pocket-A, Dilshad Garden, Delhi-110095, do hereby declare that name of mine has been wrongly written as VIVEK KUMAR SAXENA in my minor's son and daughter ABHAY SAXENA and SHWETA SAXENA School Record. The actual name of mine is VIVEK KUMAR respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIVEK KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, MOHD ASLAM S/o MOHD SIKANDER, residing at E-3528, J.J. Colony, Block-E, Bawana, Delhi-110039, declare that name of mine and my father has been wrongly written as ASLAM and MOHD SIKANDAR in my 10th and 12th Class Marksheet and Certificate and MOHD ASSLAM and MOHD SIKNDER in my Driving License and ASLAM in my Conductors's Licence. The actual name of mine and my father are MOHD ASLAM and MOHD SIKANDER respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MOHD ASLAM
[Signature]

It is for general information that I, GHAZALA PARVEEN W/o MOHD. NASRULLAH, R/o 2208/13, 3rd Floor, Sita Ram Bazar, Shankar Gali, North Delhi, Delhi-110006, do hereby declare that name of my mine and my husband has been wrongly written as GHAZALA JABEEN and MOHD. NASURULA in the school records of my minor sons MAMOON NASAR and ADNAN NASAR. The actual name of mine is GHAZALA PARVEEN and MOHD. NASRULLAH respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GHAZALA PARVEEN
[Signature]

It is for general information that I, DULARI DEVI W/o LATE SH. DEBU RAM residing at H.No. RZ-5-A, Raghu Nagar, Dabri, New Delhi-110045, declare that name of mine and my late husband has been wrongly written as RAM DULARI and DEBU in my minor daughter NEETU aged 17 Years educational documents and in the other documents. The actual name of mine and my late husband are DULARI DEVI and DEBU RAM respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DULARI DEVI
[Signature]

It is for general information that I, RACHNA KUMARI D/o Shri JAG RAM, R/o H. No. D/465, Ground Floor, Pul Prehladpur, New Delhi-110044, declare that my father name has been wrongly written as JAG RAJ in my 12th Class Marksheet and Graduation Certificates. The actual name of my father is JAG RAM respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RACHNA KUMARI
[Signature]

It is for general information that I, KASHIFA D/o AHMED MIAN, residing at 2849, Gali Bahishtiyan Kucha Challan, Darya Ganj, New Delhi-110002, declare that name of mine has been wrongly written as KHASIFA in my 10th and 12th Class MarkSheet and Certificates. The Actual name of mine is KASHIFA which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KASHIFA
[Signature]

It is for general information that I, SANJEEV KUMAR S/o AMAR NATH ARORA, residing at BK-1/119C, Shalimar Bagh, Delhi-110088, declare that name of mine has been wrongly written as SANJEEV ARORA in my minor son CHIRAG ARORA aged 14 Years School Record. The Actual name of mine is SANJEEV KUMAR which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANJEEV KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, VIKRAM SINGH S/o Late Sh. CHARAN SINGH, residing at H.No.250, Gali No.9, Fase No.4, Shiv Vihar, Karawal Nagar, Delhi-110094, declare that name of my minor son aged 17 Years has been wrongly written as ANMOL SINGH in his Caste Certificate No.SC/04/42/7458/5/5/2008/62282/10956 dated 21/8/2008. The actual name of my minor son is ANMOL which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIKRAM SINGH
[Signature]

It is for general information that I, TAPASH BHATTACHARYA S/o Late SHYAMALENDU BHATTACHARYA, residing at 1/17A, Rishi Bankim Chandra Road Extension, P.S. : Dum Dum, Kolkata-700028, North 24 Parganas, declare that name of mine has been wrongly written as TAPASH BHATTACHARYA in my Appointment Part II Order in my Service Book. The actual name of mine is TAPASH BHATTACHARYA which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

TAPASH BHATTACHARYA
[Signature]

It is for general information that I, SANJAY KUMAR SHRIPAL S/o SHRI LAKHAN LAL SHRIPAL, residing at H. No. 2294/29, Bajrang Nagar, Jhanda Chowk, P.O. - VFJ, Ranjhi, Jabalpur (M.P.) - 482009, declare that name of mine and my father has been wrongly written as SANJAY KUMAR and SHRI LAKHAN LAL in my educational documents, Service Book, Driving Licence and in the other documents. The actual name of mine and my father are SANJAY KUMAR SHRIPAL and SHRI LAKHAN LAL SHRIPAL respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANJAY KUMAR SHRIPAL
[Signature]

It is for general information that I, AJIT KUMAR KETCHUA S/o BHUTKU KETCHUA, residing at Garacharma under Port Blair Tehsil in South Andaman District declare that the name of mine and my father has been wrongly written as AJIT KUMAR KACHAP and BHUTKU KACHAP in my Service Book. The actual name of mine and my father

is AJIT KUMAR KETCHUA and BHUTKU KETCHUA respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AJIT KUMAR KETCHUA
[Signature]

It is for general information that I, POOJA YADAV W/o BALISTER YADAV, residing at D-110/1, Gali No.5, Block-D, Gamri Extension, Delhi-110053, declare that name of my minor son YASH aged 06 Years has been wrongly written as BALISTER YADAV in his School Record. The actual name of my minor son is YASH which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

POOJA YADAV
[Signature]

It is for general information that I, MACHHIRAN KHATUN W/o GOPAL KOL, residing at WZ-119, Street No.2, Guru Nanak Nagar, Tilak Nagar, Delhi-110018 declare that name of mine and my minor son DHANANJAY KOL aged 13 years has been wrongly written as MONIKA and DHANANJAY in his School Record. The Actual name of mine and my minor son are MACHHIRAN KHATUN and DHANANJAY KOL respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MACHHIRAN KHATUN
[Signature]

It is for general information that I, VINOD KUMAR S/o Sh. PRATAP SINGH, R/o A-1/14, Nand Nagri, Delhi-110093, do hereby declare that name of my father has been wrongly written as PRATAB SINGH in my 10th class, 12th class Marksheet and certificate and Graduation Marksheet & Degree Certificate and in other documents. The actual name of my father is PRATAP SINGH respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VINOD KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, NITIKA YADAV D/o Sh. ZILE SINGH YADAV, R/o H. No. 239, Gali No.11, Samey Pur, Delhi-110042, do hereby declare that name of mine has been wrongly written as NITIKA in my 10th class, 12th class Certificates & Mark-sheets, CTET (Certificate) Mark-sheet, B.A. Degree & mark-sheet, B.Ed. provisional certificate & Mark-sheet. The actual name of mine is NITIKA YADAV, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NITIKA YADAV
[Signature]

It is for general information that I, KHUSHAL CHAND SHARMA Son of BANWARI LAL SHARMA, residing at A-397, Nehru Vihar, Delhi-110054, declare that name of mine has been wrongly written as KHUSHAL SHARMA in my Driving License. The actual name of mine is KHUSHAL CHAND SHARMA respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KHUSHAL CHAND SHARMA
[Signature]

It is for general information that I, GOPAL VERMA S/o Sh. MALKHAN SINGH, residing at D-30, School Block, Nathu Colony, Shahadara, Delhi-110093, declare that name of my father has been wrongly written as MAKHAN SINGH VERMA in my Pan Card No.ACQP344B. The Actual name of my father is MALKHAN SINGH which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GOPAL VERMA
[Signature]

It is for general information that I, SHAHRUKH KHAN S/o MUNSHI KHAN, residing at D-19, Street No. 6, Old Mustafabad, Delhi-110094, declare that name of my father has been wrongly written as MUNSIF ALI in my Educational Documents, Pan Card, Driving License and Birth Certificate. The actual name of my father is MUNSHI KHAN which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHAHRUKH KHAN
[Signature]

It is for general information that I, DEVENDER LAKRA S/o KRISHAN LAKRA, residing at D-4/71, Kunwar Singh Nagar, Nangloi, Delhi-110041 declare that name of my father has been wrongly written as KRISHAN KUMAR LAKRA in my Conductor License. The actual name of my father is KRISHAN LAKRA which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DEVENDER LAKRA
[Signature]

It is for general information that I, JITENDRA KATARIA S/o Late Sh. JAGDISH CHAND, residing at A-43, Subhash Market, Kotla Mubarakpur, New Delhi-110003 declare that name of mine has been wrongly written as JATIN KATARIA in my minor daughter RIDHI KATARIA aged 13 Years School Record and Ladli Scheme 2008 Master Policy No. 62001000104. The actual name of mine is JITENDRA KATARIA which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JITENDRA KATARIA
[Signature]

It is for general information that I, SAWINDER SINGH S/o SOHAN SINGH, residing at Village-Talwandi Bharath Patti Kothe, P.O.-Aliwal, Tehsil-Batala, Distt.-Gurdaspur, Punjab-143507, declare that name of my wife has been wrongly written as SUKHRAJ KAUR in my Pass Port. The actual name of my wife is LAKHWINDER KAUR which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SAWINDER SINGH
[Signature]

It is for general information that I, ANOOP KUMAR S/o RAM PAL, residing at VPO- Sarabha, Distt.-Ludhiana, Punjab-141105, declare that name of mine has been wrongly written as ANOOP SHARDA in my minor daughter SEHAJ SHARDA aged 15 years School Record. The actual name of mine is ANOOP KUMAR which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANOOP KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, ANNAND SHIVA S/o SHRI KRISHNAN ANAND, residing at G-114, Medha Apartment, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091, declare that name of mine has been wrongly written as SHIV KUMAR in Registered Will of Late K. NARAYANAN vide will dated 9.11.1998 and Probate Order of Hon'ble Court of Distt. and Sessions Judge vide Probate case No.218/2002 dt.19.11.2003 and SHIVA KUMAR in Mutation Letter issued by the Delhi Development Authority vide order No.15(333)/89/RO/NP/LAB(H)/837 dt.21.5.2015. The actual name of mine is ANNAND SHIVA respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANNAND SHIVA
[Signature]

It is for general information that I, ISHTIYAQ AHMED S/o MUSHTAQ AHMED, residing at 6719, Gali No.5, Kothi Mem, Bara Hindu Rao, Near Dispensary, Delhi-110006, declare that name of mine/my wife and my minor son name have been wrongly written as ISHTIYAQ AHMAD, NISHAD JAHAN, MOHAMMED RAYYAN, in his T.C. Regn. No. 2120 Dt.13/04/2016, Educational Document. That actual name of mine and my wife and my minor son are ISHTIYAQ AHMED, NISHAT JAHAN and MUHAMMAD RAYYAN ANSARI respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ISHTIYAQ AHMED
[Signature]

It is for general information that I, ATIYA RAHMAN W/o Sh. SYED ARSHAD ALI, residing at J-7, First Floor, Extn. Part-2, Gali No.-12, Laxmi Nagar, Delhi-110092, declare that the name of mine has been wrongly written as ATYA MASUD in my Share Certificates. The actual name of mine is ATIYA RAHMAN which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ATIYA RAHMAN
[Signature]

It is for general information that I, URMILA SHARMA D/o Late Sh. RAJ KISHOR, residing at A-143, Raj Park Sultanpuri, Delhi-110086, declare that name of mine has been wrongly written as URMILA DEVI in my 10th Class Education and Service Record. The actual name of mine is URMILA SHARMA which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

URMILA SHARMA
[Signature]

It is for general information that I, AMIT SINGHAL S/o SUBHASH CHAND SINGHAL, residing at F-11, Main Road, Mandawali, Delhi-110092, declare that name of mine and my father has been wrongly written as AMIT GUPTA and SUBHASH CHAND GUPTA in my Educational Documents. The actual name of mine and my father are AMIT SINGHAL and SUBHASH CHAND SINGHAL respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AMIT SINGHAL
[Signature]

It is for general information that I, HARSH VOHRA S/o Sh. ANIL VOHRA, R/o H. No. 1H/42A, NIT Faridabad, Haryana, declare that after death of my father Sh. MANOJ GANDHI (N/F) on 31.03.2002. Further, my mother Smt. MAMTA VOHRA remarried with Sh. ANIL VOHRA on 19.06.2004, henceforth my father's name may be known as ANIL VOHRA in future for all purposes.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HARSH VOHRA
[Signature]

It is for general information that I, PAL RAM S/o DEV RAM, residing at Bachhowal-Phillour, Distt.-Jalandhar, Punjab-144410, declare that name of mine and my wife has been wrongly written as HARPAL RAM and TARO in my Pass Port. The actual name of mine and my wife are PAL RAM and AVTAR KAUR respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PAL RAM
[Signature]

It is for general information that I, SHAURYA SINGH RAJIAN S/o RANVIR SINGH RAJAIN, residing at Flat No.66/62, Urban Village, Delhi Cantt, declare that name of my father has been wrongly written as RANVIR SINGH RAJIAN in my Educational Documents and in the other document. The actual name of my father is RANVIR SINGH RAJAIN respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHAURYA SINGH RAJIAN
[Signature]

It is for general information that I, BINDER KAUR W/o Late HARBAKSH SINGH, residing at Gali No.6, main Road, New Mansa Devi Nagar, Phagwara Distt. Kapurthala, Punjab, declare that after the death of my husband HARBAKSH SINGH Vide Date 11/04/2008 Registration No.16, Dated 12/04/2008, further I remarried with BOOTA SINGH Dated 01/10/2009 and then divorce on 21/09/2013, than I was again remarried with Shri AMIT OHRI on Dated 13/03/2015, marriage Registration No. KPT/800158/2017/051767 on Dated 15/05/2017 henceforth my minor son aged 10 years namely SAHEJDEEP SINGH father's name may be known as AMIT OHRI and his name may be know as SHIVAM OHRI in Future for all Purposes.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BINDER KAUR
[Signature]

It is for general information that I, TANUJ CHAUHAN Son of ANIL KUMAR CHAUHAN, residing at 272, Satya Niketan, Moti Bagh-II, New Delhi-110021, declare that name of mine has been wrongly written as TANUJ CHOUHAN in my Driving License. The actual name of mine is TANUJ CHAUHAN respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

TANUJ CHAUHAN
[Signature]

It is for general information that I, AJAY PAL Son of Late YASHPAL, R/o WZ-1549, Nangal Raya, New Delhi-110046, declare that name of mine has been wrongly written as AJAY KUMAR in my Minor daughter's SONAL aged 13 Years educational documents. The actual name of mine is AJAY PAL which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AJAY PAL
[Signature]

It is for general information that I, VICKY S/o GYAN CHAND, residing at C-5/256-257, Mangolpuri, N Block, Mangolpuri, Delhi-110083, declare that name of mine has been wrongly written as VICKY VERMA in minor daughter VISHAKHA aged 12 Years School Record. The Actual name of mine is VICKY which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VICKY
[Signature]

It is for general information that I, YOGESH KUMAR S/o DHARAM PAL, residing at 100C, DDA Janta Flat, Ram Pura, New Delhi-110035, declare that name of mine and my father has been wrongly written as Y. K. BANSAL and D. P. BANSAL in my Driving License. The Actual name of mine and my father are YOGESH KUMAR and DHARAM PAL respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

YOGESH KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, ANITA DEVI KANNOJIYA W/o MOHAN LAL KANNOJIYA, residing at H.No. A/254, Gali No.11, Part-6, Sonia Vihar Water Tank, CRPF Camp, Krawal Nagar, North East, Delhi-110094, declare that name of my minor son VINAY KUMAR KANNOJIYA aged 15 Years has been wrongly written as VINAY KANOJIYA in his Caste Certificate No.SC/04/948/4034/7/10/2013/90519489456302/1910 dated 11/10/2013. The Actual name of my minor son is VINAY KUMAR KANNOJIYA which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANITA DEVI KANNOJIYA
[Signature]

It is for general information that I, AKASH S/o MOHAN LAL, residing at H.No. A/254, Gali No.11, Part-6, Sonia Vihar, Delhi-110094, declare that name of mine has been wrongly written as AAKASH KUMAR in my Caste Certificate No.SC/04/42/13657/18/5/2009/9420107652/9348 dated 18/8/2009. The actual name of mine is AKASH which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AKASH
[Signature]

CORRIGENDA

In Gazette of India, Part-IV, Issue No. 14 (08-14, April, 2017), page no. 609, last line of first para applicant's name may be read as SHANKAR instead of SHONKAR.

In Gazette of India, Part-IV, Issue No. 15 (15-21, April, 2017), page no. 631, Column I, second para applicant's name may be read as Gowardhan Somdeve S/o Late Namdeo, Advocate instead of Gowardhan Somdeve S/o Late Namdeo Advocate,

ओ.बी.एस सैल्स प्राइवेट लिमिटेड
नई दिल्ली-110020
सी.आई.एन : U51109DL2011FTC216633

सदस्यों का स्वैच्छिक समापन
अंतिम सामान्य बैठक बुलाने का नोटिस

नोटिस के अनुसार यह बताया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 318 के अनुपालन में (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 497 से मेल खाती है) कंपनी के सदस्यों की एक अंतिम सामान्य बैठक को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 225, तीसरे तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र चरण III, नई दिल्ली-110020 में सुबह 10:00 बजे गुरुवार, 22 जून, 2017 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें सदस्यों के सामने खाता रखने के उद्देश्य से उनको दिखाया जायेगा कि किस तरह से समापन किया गया है और कंपनी की संपत्ति का निपटारा किया गया है और सदस्यों की संतुष्टि के लिए पूरी तरह से ऋण छुट्टी दे दी गई है। किसी भी स्पष्टीकरण को सुनवाई जो परिसमापक द्वारा दी जा सकती है और कंपनी के विशेष समाधान द्वारा निर्धारित करने के तरीके से, जिस तरीके से पुस्तकों, खातों और कंपनी के दस्तावेजों और परिसमापक का निपटान किया जाएगा।

दिनांक : 08.05.2017
जगह : नई दिल्ली

सुरेश कुमार गुप्ता
(परिसमापक)

प्रपत्र 155
(नियम 329 देखें)
(सदस्य का स्वैच्छिक समापन)

कम्पनी का नाम : अलेक्स स्ट्यूअर्ट असेयर्स प्राइवेट लिमिटेड

अंतिम बैठक के आयोजन की सूचना

एतद्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 497 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि उपरोक्त नामक कम्पनी के सदस्यों की आम सभा यूनिट नंबर डी-1, उद्योग सदन नंबर 3, एम. आई.डी.सी. सेन्ट्रल रोड, अंधेरी (ई) मुंबई - 400 093 में दिनांक 21 जून, 2017 को पूर्वा. 11.00 बजे उनके समक्ष समापन के संचालन, कम्पनी की सम्पत्ति के निपटान की विधि का विवरण प्रस्तुत करने तथा परिसमापक द्वारा दी जाने वाली किसी व्याख्या की सुनवाई और कम्पनी के विशेष प्रस्ताव द्वारा कम्पनी की बहियों,

लेखा तथा कम्पनी और परिसमापक के दस्तावेजों के निपटान की विधि निर्धारण के प्रयोजनार्थ आयोजित की जाएगी।

दिनांक 15 मई, 2017

अजय कुमार अग्रवाल
(परिसमापक)

पता : मकान नंबर टी-6-804,
पार्क व्यू रेजिडेंसी, सेक्टर-3, पालम विहार,
कार्टरपुरी उपनाम, दौलतपुर नसीराबाद 63, गुरुग्राम,
हरियाणा-122017

फॉर्म नं. 155 (नियम 329 को देखें)

ऋणदाता का स्वैच्छिक समापन

कंपनी का नाम : औजन बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड

सी. आई. एन. नंबर : यू 15122 डी.एल. 2008 पी.टी.सी. 172432

अंतिम बैठक का आयोजन करने की सूचना

उपरोक्त नामित कंपनी के सदस्यों की एक सामान्य बैठक एएलएमटी लीगल, 1 लाल, फ्री प्रेस हाउस, 215, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400 021 में आयोजित होगी। जून 2017 का 9 वें दिन, शुक्रवार को सुबह 11:00 बजे और लेनदारों की एक बैठक में एएलएमटी लीगल, 1 लाल, फ्री प्रेस हाउस, 215, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400 021 जून 2017 के 9 वें दिन आयोजित किया जाएगा। 11:30 बजे शुक्रवार को एक खाता रखने के प्रयोजन के लिए उन्हें दिखाया गया था कि किस तरह से समापन-अप का आयोजन किया गया है और कंपनी की संपत्ति का निपटारा किया गया है और परिसमापक द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण की सुनवाई कर सकते हैं। कंपनी के विशेष समाधान द्वारा निर्धारित, जिस तरीके से कंपनी की पुस्तकों, खातों और दस्तावेजों और परिसमापक का निपटान किया जाएगा।

17 मार्च 2017 को दिनांकित औजन बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए

एसडी/-

कृति देसाई

स्वैच्छिक परिसमापक

OBS SALES PRIVATE LIMITED

New Delhi-110020

CIN: U51109DL2011FTC216633

Members' Voluntary winding-up

NOTICE FOR CONVENING FINAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that in pursuance of section 318 of the Companies Act, 2013 [corresponds to section 497 of

the Companies Act, 1956] a final General Meeting of the members of the company will be held at Registered office of the Company at Plot No. 225, 3rd Floor, Okhla Industrial Area Phase III, New Delhi - 110020 at 10:00 A.M. on Thursday, the 22nd June, 2017 for the purpose of having an account laid before them showing the manner in which the winding up has been conducted and the property & assets of the company disposed of and debts fully discharged to the satisfaction of Creditors and of hearing any explanation that may be given by the liquidator and also of determining by a special resolution of the company, the manner in which the books, accounts and the documents of the company and of the liquidator shall be disposed of.

Dated: 08.05.2017

Place: New Delhi

SURESH KUMAR GUPTA
(Liquidator)

FORM No. 155

(See rule 329)

[Member's Voluntary Winding-up]

Name of Company: Alex Stewart Assayers Private Limited

Notice convening Final meeting

Notice is hereby given in pursuance of section 497 of the Companies Act, 1956 that a general meeting of the members of the above named company will be held at Unit No. D-1, Udyog Sadan No. 3 M.I.D.C. Central Road Andheri (E) Mumbai-400093 on the 21st June, 2017 at 11.00 AM for the purpose of having an account laid before them showing the manner in which the winding-up has been conducted and the property of the company disposed of and of hearing any explanation that may be given by the liquidator and also of determining by a special resolution of the company,

the manner in which the books, accounts and documents of the company and of the liquidator shall be disposed of.

Date this 15th May, 2017

AJAY KUMAR AGARWAL

(Liquidator)

Address : House No. T6-804,

Park View Residency, Sector 3 Palam Vihar,

Cartarpuri Alias, Daulatpur Nasirabad 63, Gurgaon,

Haryana-122017

FORM NO. 155

[See Rule 329]

Creditor's Voluntary winding-up

Name of Company: Aujan Beverages Private Limited

CIN No: U15122DL2008PTC172432

Notice convening final meeting

Notice is hereby given in pursuance of section 509 that a general meeting of the members of the above-named company will be held at ALMT Legal, 1st Floor, Free Press House, 215, Free Press Journal Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021 on the 9th day of June 2017, Friday at 11.00 am and a meeting of the creditors will be held ALMT Legal, 1st Floor, Free Press House, 215, Free Press Journal Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021 on the 9th day of June 2017, Friday at 11.30 am for the purpose of having an account laid before them showing the manner in which the winding-up has been conducted and the property of the company disposed of and of hearing any explanation that may be given by the liquidator and also of determining by special resolution of the company, the manner in which the books, accounts and documents of the company and of the liquidator shall be disposed of.

Dated this 17th day of March 2017

For Aujan Beverages Private Limited

Sd/-

KRUTI DESAI

Voluntary Liquidator

एनएसई आईएफएससी लिमिटेड

संख्या: 48 से 53, जीआईएफटी एस्पाइर, एक बिजनेस सेंटर, 1 तल, ब्लॉक 12, रोड 1-डी, जोन -1, जीआईएफटी सेज,
गांधीनगर जिला, गुजरात - 382355

एनएसई आईएफएससी लिमिटेड के नियमों में निहित प्रावधान यहां समायोजित हैं

एनएसई आईएफएससी लिमिटेड

नियम

अध्याय की व्यवस्था

अध्याय विवरण

- i. मंडल
- ii. समिति
- iii. व्यापार सदस्यता
- iv. अनुशासनात्मक कार्यवाही, दंड निलंबन और निष्कासन

1. बोर्ड

- (1) कंपनी के संगति के लेखों के प्रावधानों के अनुसार गठित एनएसई आईएससीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल (यहां पर बोर्ड के रूप में संदर्भित है), विनियम और प्रतिभूतियों के संचालन को व्यवस्थित, नियंत्रण, विनियमन और सुविधा प्रदान कर सकता है प्रतिभूति अनुबंध (नियम) अधिनियम, 1992 और नियमों, नियमों या दिशा-निर्देशों के तहत प्रावधानों के अधीन विनियम के व्यापारिक सदस्यों द्वारा लेनदेन और नियमों और निर्देश जो भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं।
- (2) एनएसई आईएफएससी लिमिटेड के निदेशकों को समय-समय पर और 116, 116ए, 117, 118(ए), 118(एए), 118(बी), 119, 120 के विशेष रूप से संशोधित कंपनी के संगति के लेख के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। निदेशकों की ऐसी किसी भी नियुक्ति को इन नियमों के प्रावधानों के तहत बनाया गया माना जाएगा।
- (3) प्रतिभूतियों अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उन नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अधीन जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और नियमों, नियमों या दिशानिर्देशों या दिशानिर्देशों के तहत और नियमों या निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर लिख सकता है, बोर्ड को समय-समय पर कानून, नियम और विनियमों के द्वारा सभी या किसी भी तरह के मामलों के लिए व्यापार के आचरण, व्यापार और व्यापारिक सदस्यों के बीच व्यापारिक सदस्यों के लेनदेन के संबंध में सशक्त बनाया जाता है। व्यापारिक सदस्यों और व्यक्तियों के बीच व्यापार और लेन-देन के बीच-साथ ही ऐसे सभी लेनदेन और व्यवहार को नियंत्रित करना, परिभाषित करना और उनका विनियमन करना और ऐसे कृत्यों और चीजों को करना जो एक्सचेंज के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं।
- (4) एनएसई आईएफएससी के निदेशकों को समय-समय पर संशोधित कंपनी के संघ के आलेखों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। निदेशकों की ऐसी किसी भी नियुक्ति को इन नियमों के प्रावधानों के तहत बनाया गया माना जाएगा।
- (5) पूर्वगामी की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बोर्ड को प्रतिभूतियों अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और नियमों और विनियमों के अधीन नियमन करने का सशक्त अधिकार है, प्रतिभूतियों और विनियम बोर्ड ऑफ भारत अधिनियम, 1992 और नियम, नियम या दिशानिर्देशों या दिशानिर्देशों के तहत और नियमों और निर्देश जो भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर सभी या किसी भी निम्न मामलों के लिए निर्धारित कर सकते हैं:

- (ए) एक्सचेंज की सदस्यता में प्रवेश के लिए शर्तें;
- (बी) एक्सचेंज के कारोबार का संचालन;
- (सी) एक्सचेंज के व्यापार के संबंध में व्यापारिक सदस्यों का संचालन;
- (डी) एक्सचेंज के कानूनों और नियमों या व्यापार सदस्यों के निष्कासन या निलंबन सहित एक्सचेंज के सामान्य अनुशासन द्वारा नियमों की अवज्ञा या उल्लंघन के लिए दंड;
- (इ) किसी भी व्यापार सदस्य को एक्सचेंज की व्यापार सदस्यता और उसके बाद की अधिसूचना से दोषी या निलंबन या निष्कासन के रूप में घोषणा;
- (एफ) वर्गीकरण, प्रवेश के लिए स्तर या प्रवेश के लिए सदस्यता या विनियम की व्यापार सदस्यता जारी रखने;

- (जी) ऐसी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए व्यापार सदस्यों द्वारा देय शुल्क, जिन्हें समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है;
- (एच) वित्तीय स्थिति की जांच, व्यापार आचरण और व्यापार के सदस्यों के व्यवहार;
- (आई) एक्सचेंज के किसी भी उद्देश्य के लिए समिति या समितियों की नियुक्ति;
- (जे) एक्सचेंज के संबंध में ऐसे अन्य मामलों जो संघ के लेखों के प्रावधानों के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं, विनियम के संचालन में कानून या इन नियमों के द्वारा या संगठन, रखरखाव, नियंत्रण, प्रबंधन, विनियमन और सुगमता के लिए आवश्यक या समीचीन हो सकता है।
- (6) बोर्ड को समय-समय पर, ऐसी समिति (या) को प्रबंध निदेशक या किसी भी व्यक्ति को, उसमें निहित शक्तियों और ऐसी शर्तों के अनुसार, जो कि फिट लग सकता है, का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त करने का अधिकार है सभी या किसी भी और विनियम के मामलों और समय-समय पर, सभी या किसी भी ऐसी शक्तियों को निरस्त करने, वापस लेने, बदलने या भिन्न करने के लिए।
- (7) बोर्ड, समय-समय पर, बोर्ड या ऐसे अन्य सदस्यों के शामिल एक या एक से अधिक समितियों का गठन कर सकता है, क्योंकि बोर्ड अपने विवेक के योग्य या आवश्यक समझ सकता है और ऐसी समितियों को ऐसी शक्तियों के रूप में सौंप सकता है, बोर्ड समय-समय पर इस तरह के प्रतिनिधिमंडल को रद्द कर सकता है। बोर्ड द्वारा गठित समितियां अंतराल में शामिल हो सकती हैं;
- ए एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों में प्रवेश के लिए प्रवेश समिति;
- (इ) बुनियादी ढांचा समिति उपयुक्त बुनियादी ढांचे की सिफारिश करने और उसी का कार्यान्वयन;
- (ब) सिस्टम कमेटी एक्सचेंज के कामकाज को चलाने के लिए सिस्टम की स्थापना की सिफारिश करने के लिए और इसे लागू करने और मॉनिटर करने के लिए;
- (क) किसी भी अन्य मामले, जो बोर्ड फिट समझ सकता है।
- (8) बोर्ड को किसी भी समिति (या) किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को समय-समय पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी शक्तियों के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। इस शक्ति के प्रयोग में जारी इस तरह के निर्देश, जो नीति प्रकृति का हो सकता है या इसमें किसी विशेष मामले या मुद्दे को निपटाने के निर्देश शामिल हो सकते हैं, संबंधित समितियों (या) या व्यक्ति (यों) पर बाध्यकारी होंगे।
- (9) प्रतिभूतियों अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उन नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अधीन, जो प्रतिभूतियां और विनियम बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम, 1992 और नियम, विनियम या दिशानिर्देश या इसके तहत दिशानिर्देश और नियमों या निर्देश जो भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर लिखते हैं, बोर्ड अलग-अलग, संशोधित, निरसन या उसके द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और नियमों के अनुसार जोड़ता है।
- (10) बोर्ड के सदस्य और ऐसी समितियां, जिन्हें नैतिक समिति द्वारा पहचाना जा सकता है, आचरण संहिता का पालन करेगा, जो समय-समय पर बोर्ड या नैतिकता समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

II-समिति

(1) संविधान

स्टॉक एक्सचेंज के दिन के मामलों के प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा एक या अधिक समितियां नियुक्त की जा सकती हैं। बोर्ड, समिति (समितियों) से नामांकित व्यक्तियों की समिति, नामांकन और छुट्टी की संविधान, अवधि और शक्तियों पर निर्णय ले सकता है और समिति के कार्य करने के लिए पदाधिकारी और नियमों और प्रक्रियाओं की नियुक्ति कर सकती है।

(2) समितियों की शक्तियां

- (1) बोर्ड समय-समय पर समिति में उन अधिकारों को नियुक्त करता है और उन शर्तों पर जैसे कि वे फिट सोचते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के सभी या किसी भी कामकाज का प्रबंधन कर सकते हैं और समय-समय पर समय, निरस्त करने, वापस लेना, बदलने या सभी या किसी भी ऐसी शक्तियों को बदलना।
- (2) समिति समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देशों को लागू करने और लागू करने के लिए बाध्य और आभारी होंगे और समितियों की शक्तियों पर प्रतिनिधिमंडल की सभी शर्तों और सीमाओं का पालन करने के लिए बाध्य होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

III व्यापार सदस्यता

- (1) किसी व्यापार सदस्य के अधिकार और विशेषाधिकार विनियम के नियम, नियमों और नियमों के अधीन होंगे।
- (2) एक्सचेंज के सभी व्यापारिक सदस्यों को प्रतिभूतियों और भारत के आदान-प्रदान बोर्ड (सेबी) के साथ एक्सचेंज शुरू करने से पहले खुद को पंजीकरण करना होगा।

पात्रता

- (3) निम्नलिखित व्यक्ति एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्य बनने के पात्र होंगे:
 - (ए) कंपनियों में परिभाषित कंपनियों के रूप में कार्य करता है, 2013 और
 - (बी) किसी भी अन्य संस्था को प्रतिभूतियों और भारत की विनियम बोर्ड द्वारा अनुमति हो सकती है।
 कोई व्यक्ति विनियम के व्यापारिक सदस्यता में भर्ती होने योग्य नहीं होगा जब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है:
 - (ए) प्रतिभूतियों अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 के तहत उस तरफ से निर्धारित अपेक्षित आवश्यकताएं, और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत और इसके तहत तैयार किए गए नियम, और
 - (बी) सेबी या प्रासंगिक प्राधिकार के रूप में ऐसी अतिरिक्त पात्रता मानदंड समय-समय पर लिख सकते हैं।
- (4) प्रमाणन
कोई भी कंपनी या किसी अन्य इकाई को एक्सचेंज की व्यापार सदस्यता में भर्ती होने के योग्य नहीं होगा, जब तक कि निर्दिष्ट निदेशकों में से दो ने समय-समय पर एक्सचेंज द्वारा निर्धारित या एक्सचेंज या ऐसी अन्य संस्था द्वारा प्रमाणन कार्यक्रम पास किया हो।

दाखिला

- (5) किसी भी व्यापार कंपनी के सदस्य बनने की इच्छा रखने वाली किसी भी कंपनी का आदान-प्रदान, विनियम के व्यापारिक सदस्यता में प्रवेश के लिए विनियम पर लागू होगा। प्रत्येक आवेदन को रिलायंस प्राधिकरण द्वारा पेश किया जाएगा, जो इस तरह के आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने के हकदार होंगे।
- (6) आवेदन ऐसे प्रारूपों में किया जाएगा, जो कि समय-समय पर विदेशी सदस्यों द्वारा व्यापार सदस्यों के प्रवेश के लिए आवेदन के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (7) आवेदन ऐसे फीस, सुरक्षा जमा और अन्य रकम के साथ इस तरह से और ऐसे समय में रिलायंस प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
- (8) आवेदक को ऐसे घोषणाएं प्रस्तुत करना होगा, जो कि समय-समय पर प्रासंगिक लेखों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (9) संबंधित प्राधिकरण को आवेदक को ऐसी फीस का भुगतान करने या नकदी या प्रकार में अतिरिक्त सुरक्षा जमा करने, किसी अतिरिक्त गारंटी देने या किसी भवन निर्माण निधि, कम्प्यूटरीकरण निधि, प्रशिक्षण कोष या जमा करने की आवश्यकता के लिए कॉल करने का अधिकार होगा रिलायंस प्राधिकार के रूप में फीस समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं।
- (10) रिलायंस प्राधिकार, आवेदक को एक्सचेंज की व्यापार सदस्यता के लिए प्रवेश दे सकता है, बशर्ते प्रवेश की आवश्यकताएं हों। रिलायंस औश्रुतियां अपने पूर्ण विवेकाधिकार से किसी कारण के बिना किसी भी आवेदन को अस्वीकार कर सकती है।
- (11) यदि किसी भी कारण से आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, तो प्रवेश शुल्क आवेदक को बिना किसी अंतर के लौटा दिया जाएगा।
- (12) प्रचलित साहित्य किसी भी समय प्रवेश की तारीख से विनियम की व्यापारिक सदस्यता में प्रवेश रद्द कर सकता है और किसी भी सदस्य को प्रवेश में प्रवेश के लिए या सदस्यता के लिए आवेदन के समय में या किसी व्यापार सदस्य को निष्कासित कर सकता है पूछताछ से पहले रिलायंस प्राधिकरण ने जांच की:
 - (ए) किसी भी जानबूझकर गलत ब्योरा दिया; या
 - (बी) किसी भी भौतिक जानकारी को अपने चरवाहे और पूर्ववर्तियों के लिए जरूरी; या
 - (सी) सीधे या परोक्ष रूप से गलत विवरण या सूचना दी या एक झूठी घोषणा की है।
- (13) जब किसी आवेदक को एक्सचेंज की व्यापार सदस्यता में भर्ती कराया जाता है, आवेदक के प्रवेश की सूचना आवेदक को और प्रतिभूतियों और भारत के आदान प्रदान बोर्ड को भेजी जाएगी। यदि आवेदक को आदान-प्रदान की सदस्यता में भर्ती कराया जाता है और उसके प्रवेश की सूचना के बाद विधिवत भेजा जाता है, तो सदस्यता के विशेषाधिकारों का उपयोग करने के लिए कृत्यों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करके एक सदस्य नहीं बनता है, जिसे निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर प्रासंगिक

प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है प्रवेश की सूचना की तारीख प्रेषण से, आवेदक द्वारा प्रवेश शुल्क का भुगतान एक्सचेंज द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

- (14) (ए) एक्सचेंज के प्रत्येक व्यापार सदस्य, एक्सचेंज के एक व्यापार सदस्य के रूप में भर्ती होने पर, एक्सचेंज की व्यापार सदस्यता के लाभ और विशेषाधिकारों में भर्ती होने के प्रमाण के रूप में प्रमाण पत्र या हकदारी स्लिप जारी किया जाएगा। इस तरह के एक प्रमाण पत्र या हकदारी पच्ची हस्तांतरणीय या भी फैंल नहीं होगा के रूप में यहां वर्णित के अलावा।
- (बी) ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकरण समय-समय पर और संबंधित प्राधिकरण के लिखित अनुमोदन से प्रमाणित कर सकता है, प्रमाणपत्र / पात्रता पच्ची के हस्तांतरण को निम्नानुसार लागू किया जा सकता है;
- i. एक व्यापार सदस्य कंपनी के एकीकरण या विलय द्वारा;
 - ii. एक व्यापार सदस्य कंपनी का अधिग्रहण करके;
- (सी) संबंधित प्राधिकरण निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रमाणपत्र / पात्रता पच्ची के हस्तांतरण की अनुमति दे सकता है;
- i. व्यापार सदस्य कंपनी के एकीकरण या विलय पर;
 - ii. किसी व्यापार सदस्य कंपनी के अधिग्रहण पर;
- (डी) रिलायंस प्राधिकरण हस्तांतरण की अनुमति दे सकता है, समय-समय पर इस तरह के हस्तांतरण शुल्क के रूप में निर्धारित करता है क्योंकि यह निम्नलिखित परिस्थितियों में फिट है, अर्थात्,
- i. एक गैर-व्यापार सदस्य कंपनी के साथ व्यापार सदस्य कंपनी का एकीकरण या विलय, जिसके परिणामस्वरूप बहुसंख्य हिस्सेदारी और / या व्यापार सदस्य कंपनी के अधिकांश शेयर धारकों द्वारा प्रबंधन पर नियंत्रण का नुकसान;
 - ii. व्यापार सदस्य कंपनी का अधिग्रहण, व्यापार सदस्य (कंपनी) कंपनी द्वारा करता है जिसके परिणामस्वरूप बहुमत शेयर होल्डिंग और ६ या व्यापार सदस्य कंपनी के अधिकांश शेयर धारकों द्वारा प्रबंधन पर नियंत्रण के नुकसान;
- I. व्याख्या
- उप-खंड (i) और (ii) उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए, "बहुमत शेयर होल्डिंग का नुकसान" का मतलब शेयर होल्डर या शेयर धारक या समूह के शेयर धारकों का एक समूह है जो व्यापार सदस्य कंपनी में 51: या उससे अधिक / अंतर रखने वाले शेयरों का 51: शेयर ६ व्यापार सदस्य कंपनी में या एक संयुक्त कंपनी में जो एक गैर व्यापार सदस्य कंपनी के साथ व्यापार सदस्य कंपनी के एकीकरण के साथ व्यापार सदस्यता लेना चाहिए।
- II. व्याख्या
- उप-खंड (i) और (ii) उपर्युक्त के उद्देश्य के लिए, "प्रबंधन में नियंत्रण की हानि" शब्द का मतलब है कि ज्यादातर निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीति निर्णय को व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग कार्यवाही से नियंत्रित करने का अधिकार अलग-अलग या कॉन्सर्ट में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने शेयर धारित समझौतों या मतदान समझौतों के आधार पर या किसी अन्य तरीके से।
- (ई) नियमों के किसी भी अन्य प्रावधान के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, निम्नलिखित परिस्थितियों में, संबंधित प्राधिकारी के रूप में ऐसी अवधि के लिए व्यापार सदस्यता को निलंबित किया जा सकता है:
- (i) किसी व्यापार सदस्य कंपनी के प्रबंधन में किसी भी गतिरोध पर, जो कि रिलायंस अथॉरिटी की राय में अपने व्यापार को जारी रखने के लिए इस तरह के व्यापार सदस्य कंपनी की क्षमता को प्रभावित करेगा। इस उप-धाराओं के तहत निलंबित होने से पहले, व्यापार सदस्य को रिलीज प्राधिकरण से पहले प्रतिनिधित्व के लिए एक अवसर के लिए हकदार होगा, लेकिन संबंधित प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
- 1 व्याख्या
- इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रबंधन में मृत लॉक" शब्द का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यापार सदस्य कंपनी के निदेशक / शेयर धारकों के बीच विश्वास या असहमति का नुकसान होता है, जो संबंधित प्राधिकारी के मतदाताओं में, व्यापार सदस्य कंपनी द्वारा व्यवसाय के आचरण को प्रभावित करेगा

या प्रभावित होगा, जैसा कि मामला हो सकता है या किसी व्यापार सदस्य कंपनी के निदेशक या शेयर धारकों की बैठक में वोट की समानता हो सकती है।

- (15) पात्रता पर्यी किसी भी स्वामित्व का अधिकार कंपनी के एम्बर के रूप में प्रदान नहीं करता है। पात्रता पर्यी का मूल संबंधित प्राधिकारी से जमा होगा। प्रमाणित फोटोकॉपी या ऐसी अनुदान स्लिप के प्रतिलिपि एक्सचेंज की व्यापार सदस्यता के प्रमाण के रूप में व्यापार सदस्य के कब्जे में रहेंगे।
- (16) किसी व्यापार सदस्य को अपनी सही सदस्यता या उसके अधिकारों या विशेषाधिकारों को असाइन नहीं करना, बंधक, प्रतिज्ञा, रेहननामा करना या प्रभारित नहीं करना चाहिए और इस तरह कोई भी प्रयास किए गए कामकाज, बंधक, प्रतिज्ञा, दृष्टि बंधक या शुल्क किसी भी उद्देश्य के लिए विनियम के मुकाबले प्रभावी नहीं होगा, न ही किसी भी व्यावसायिक सदस्यता के अलावा किसी भी व्यापारिक सदस्यता में कोई अधिकार या हस्तक्षेप करना, जिसमें उस व्यक्ति को व्यापारिक सदस्य या व्यापारिक सदस्य के बजाय विनियम के द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। संबंधित प्राधिकारी उन एक्सचेंजों के किसी भी व्यापार सदस्य को निष्कासित करेगा जो प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने या कार्य करने का प्रयास करता है इस नियम का।

सदस्यता समाप्त करना

- (17) कोई भी व्यापार सदस्य किसी एक या अधिक आवेदन के सदस्य नहीं रह सकता है:

- (ए) कानून, नियम और विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार निष्कासन;
- (बी) एक्सचेंज के कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार एक दोषी घोषित;
- (सी) ऐसे व्यापार सदस्य की समाप्ति;
- (डी) एक्सचेंज की व्यापार सदस्यता के आत्मसमर्पण।

शुल्क का भुगतान करने में विफलता

- (18) यदि किसी सदस्य को अपनी वार्षिक सदस्यता, फीस, शुल्कों या थर्ड मॉनीस का भुगतान करने में विफल रहता है तो विनियम के नियमों और विनियमों में अन्यथा उपलब्ध कराया जाता है, जो उस समय के साथ विनियम के लिए उसके अनुसार हो सकता है प्राधिकरण लिखित रूप में नोटिस में समय-समय पर एक्सचेंज द्वारा प्रदान किया गया हो सकता है, तब तक वह प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया जा सकता है जब तक कि वह भुगतान न करे और यदि वह किसी अन्य अवधि के भीतर ऐसे भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह संबंधित प्राधिकरण द्वारा निष्कासित किया जाएगा।

जारी प्रवेश

- (19) प्रासंगिक प्राधिकरण समय-समय पर व्यापार सदस्यता के निरंतर प्रवेश के लिए शर्तों और आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, जो कि, आइए में, न्यूनतम शुद्ध मूल्य और पूंजी पर्याप्तता के रखरखाव, प्रमाणन का नवीकरण, यदि कोई हो, आदि। जो कोई भी इन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, उसे समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

दोषी को जमा करना

- (20) एक व्यापार सदस्य सदस्यता का अधिकार चूक होगा और विनियम के साथ बनियान जल्द ही वह एक दोषी घोषित किया गया है। जो सदस्य दोषी घोषित किया गया है विनियम के एक सदस्य के रूप में अपने सभी अधिकार और विशेषाधिकार, किसी भी दावे या किसी भी संपत्ति या किसी भी संपत्ति या विनियम के किसी भी दायरे, अगर कोई भी, के अधिकार के साथ जब्त कर देगा।
- (21) संबंधित प्राधिकरण, प्रावधानों के अधीन व्यापार सदस्य के रूप में एक दोषी को समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- (22) अभूतपूर्व प्राधिकरण केवल ऐसी ही दोषी को अपनी राय में पढ़ सकता है:
- (ए) विनियम, अन्य व्यापारिक सदस्यों और घटकों को सभी बकाया राशि का भुगतान किया है;
- (बी) किसी अदालत में उसके खिलाफ कोई घुमावदार कार्यवाही नहीं हुई है या किसी भी अदालत ने उसे घायल नहीं किया है;
- (सी) मूलभूत प्रिंसिपलों या घटकों के मुकाबले चूक कर दी गई है, जिनके साथ उनकी प्रतिबद्धता के लिए अच्छा होगा;
- (डी) खराब विश्वास का दोषी नहीं है या अलगाव के नियम, नियमों और विनियमों का उल्लंघन नहीं है;
- (ई) अपने सामान्य आचरण में अपर्याप्त है।

IV-अनुशासनात्मक कार्यवाही, दंड, निलंबन एवं निष्कासन

अनुशासनात्मक सीमा

- (1) उपयुक्त अधिकारी, निविमय के किसी भी उपनियम, नियम एवं अधिनियम का उल्लंघन, अवज्ञा, आज्ञालंघन, अपमान या अपवंचन करने पर, या निविमय या उपयुक्त अधिकारी या किसी अन्य समिति या इस कार्य के लिए अधिकृत निविमय के अधिकारी के किसी प्रस्ताव, आदेश, ज्ञापन, निर्देशों या निर्णयों या सिद्धांतों की अवमानना करने पर, या किसी आचार व्यवहार, कार्यवाही या व्यवसाय के ऐसे तरीकों का पालन करने पर, जिसे उपयुक्त अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से अनैतिक, अपमानजनक या निविमय का व्यापारिक सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित करता है या व्यापार के न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष सिद्धांतों के प्रति अयोग्य होने या निविमय के लाभ, सुनाम या कल्याण के लिए हानिकारक या इसके अभिप्रायों एवं उद्देश्यों के पक्षपातपूर्ण या विनाशकारी साबित होने पर, व्यापारिक सदस्य को निष्कासित या निलंबित तथा/या दोष के अंतर्गत जुर्माना तथा/या सदस्यता अधिकार भी वापस ले सकती है।

दुर्व्यवहार, व्यापार से इतर आचार व्यवहार एवं अव्यावसायिक व्यवहार

- (1) मुख्य रूप से एवं उपरोक्त नियम (1) के प्रावधानों की व्यापकता के प्रति किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाए एवं पक्षपात किये बिना, एक व्यापारिक सदस्य इस प्रावधान के अर्थ के विरुद्ध किये गए किसी भी दुर्व्यवहार, व्यापार से इतर आचार व्यवहार या अव्यावसायिक व्यवहार के लिए निष्कासन या निलंबन या सभी या किसी भी सदस्यता अधिकारों के वापस लिए जाने एवं/या जुर्माने का भुगतान करने एवं/या निंदा, प्रताड़ना या चेतावनी का उत्तरदायी होगा।

दुर्व्यवहार

- (1) एक व्यापारिक सदस्य को निम्नलिखित में से किसी के लिए या इसी तरह की गतिविधियों या चूक के लिए दुर्व्यवहार का दोषी माना जाएगा:
- (ए) धोखाधड़ी : अगर यह किसी अपराधी गतिविधि का दोषी हो या धोखाधड़ी या छलपूर्ण कार्य करने का दोषी हो, जो उपयुक्त अधिकारी के अनुसार उसे व्यापारिक सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित करते हैं;
- (बी) उल्लंघन: यदि उसने किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो जो निविमय, व्यापारिक सदस्यों एवं सिक्युरिटीज व्यापार की गतिविधियों, व्यापार एवं संचालन को मूल रूप से नियंत्रित करती हैं;
- (सी) अनुचित आचार: यदि उपयुक्त अधिकारी के अनुसार यह निविमय में अनैतिक या अपमानजनक या उपद्रवी या अनुचित आचार या निविमय के व्यवसाय में जान बूझकर बाधा डालने का दोषी हो;
- (डी) नियमों, उपनियमों एवं अधिनियमों का उल्लंघन: यदि यह किसी ऐसे व्यापारिक सदस्य को आश्रय प्रदान करे या सहयोग करे या शिकायत करने में चूक करे, जिसने उसकी जानकारी में निविमय के किसी भी नियम, उपनियम एवं अधिनियम या उपयुक्त अधिकारी से जुड़े किसी प्रस्ताव, आदेश, ज्ञापन या निर्देशों या किसी समिति या अधिकारी या इस उद्देश्य से अधिकृत निविमय का उल्लंघन किया हो;
- (इ) प्रस्तावों का पालन करने में असमर्थता: यदि यह उपयुक्त अधिकारी या किसी समिति या निविमय के अधिकारी या निविमय के उपनियमों, नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के किसी प्रस्ताव, आदेश, ज्ञापन, निर्देश, निर्णय या सिद्धांत की अवहेलना या ना मानना या पालन करने में असमर्थ रहता है;
- (एफ) मध्यस्थता का पालन करने में असमर्थता : यदि यह मध्यस्थता या निविमय के उपनियमों, नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार मध्यस्थों द्वारा तय किये किसी नियम की अवहेलना या पालन करने या से मना करता है या असमर्थ रहता है;
- (जी) साक्ष्य या जानकारी देने में असमर्थता : यदि वह ऐसे खाते, पत्र व्यवहार, दस्तावेज एवं कागज या इनका कोई भाग, जिन्हें पेश किये जाने की आवश्यकता या इनके समक्ष अपील एवं साक्ष्य दिए जाने या जिनसे इसके किसी भी अधिवक्ता, मध्यस्थ, अधिकृत प्रतिनिधि या कर्मचारियों को उपयुक्त अधिकारी या ऐसी समिति या निविमय के अधिकारी या इस उद्देश्य से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य देना पड़े, उपयुक्त अधिकारी या ऐसी समिति

या निविमय के अधिकारी या इस उद्देश्य से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के पास जमा करने में लापरवाही या असमर्थता या विरोध दर्ज करे;

(एच) विशेष विवरण जमा करने में असमर्थता : यदि वह नियत समय में उपयुक्त अधिकारी के पास वह विशेष विवरण जमा करने में लापरवाही या असमर्थता या विरोध दर्ज करे, जिसे उपयुक्त अधिकारी समय समय पर उन अन्य जानकारीयों के साथ प्रस्तावित करते हैं, जिनकी अनुकूल समय आने पर उपयुक्त अधिकारी को आवश्यकता पड़ सकती है, जो उपयुक्त अधिकारी के विचार में किसी भी या सभी व्यापारिक सदस्यों द्वारा ऐसे विशेष विवरणों या जानकारीयों को जमा करना वांछनीय बना देते हैं;

(आई) लेखा परीक्षित खातों को जमा करने में असमर्थता : यदि वह उपयुक्त अधिकारी द्वारा समय समय पर प्रस्तावित किये गए समय के अंदर निविमय के पास लेखा परीक्षित खाते जमा करने में लापरवाही या असमर्थता या विरोध दर्ज करता है।

(जे) दिवालिये के साथ खातों की तुलना या जमा करने में असमर्थता : यदि वह दिवालिया समिति के साथ अपने खातों की तुलना करने में या दिवालिये के साथ खाता विवरण जमा करने में लापरवाही या असमर्थता दर्ज करता है या ऐसा प्रमाण पत्र जिसके अनुसार उसका ऐसा कोई खाता नहीं है या अगर वह इसमें गलत या भ्रामक विवरण प्रदान करता है;

(के) गलत या भ्रामक विवरण : वह उपनियमों, नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार निविमय को जमा किये जाने वाले क्लीयरिंग फॉर्म या रिटर्न्स जमा करने में लापरवाही या असमर्थता या विरोध दर्ज करता है या इनमें कोई गलत या भ्रामक विवरण शामिल करता है;

(एल) अफसोसनाक शिकायतें : अगर वह या उसका कोई मध्यस्थ उपयुक्त अधिकारी या समिति या निविमय के किसी अधिकारी या इस उद्देश्य से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष कोई ऐसा आरोप या शिकायत प्रस्तुत करता है, जो उपयुक्त अधिकारी के अनुसार भ्रामक, अफसोसनाक या दुर्भावनापूर्ण हैं;

(एम) बकाया एवं शुल्क का भुगतान करने में असमर्थता: यदि वह खुद पर बकाया अंशदान, शुल्क, मध्यस्थता शुल्क या कोई अन्य राशि या उसपर लगाये गए किसी भी जुर्माने या दंड का भुगतान करने में असमर्थ साबित होता है।

व्यापार से इत्र आचार

(1) एक व्यापारिक सदस्य को निम्नलिखित में से किसी के लिए या इसी तरह की अन्य गतिविधियों एवं चूक के लिए दोषी माना जाएगा :

(ए) काल्पनिक नाम: यदि वह अपना खुद का या अपने घटक का व्यवसाय काल्पनिक नामों से चला रहा है;

(बी) काल्पनिक लेनदेन: यदि वह कोई काल्पनिक लेनदेन करता है या सिक्युरिटीज की खरीद एवं बिक्री का आदेश देता है, जिनके पूरा होने पर मालिकाना हक में कोई बदलाव नहीं आएगा या इस तरह के आदेश की प्रकृति के बारे में पूर्ण जानकारी रखकर यह आदेश देता है;

(सी) अफवाहें फैलाना: यदि वह, खुद या किसी के माध्यम से, अफवाहें फैला रहा हो;

(डी) भेदभावपूर्ण व्यवसाय: यदि वह किसी खरीद या बिक्री या खरीद के प्रस्ताव या सिक्युरिटीज की बिक्री, जिनका उद्देश्य बाजार का संतुलन बिगाड़ना हो, या ऐसी स्थिति जिसमें कीमत बाजार मूल्य को गलत तरह से पेश कर रही हो, के निर्माण या निर्माण में सहयोग या पूर्ण जानकारी के साथ एक सहयोगी हो या उपरोक्त के लिए योजना लागू करने में सहायता प्रदान की हो;

(इ) बाजार प्रहस्तन एवं दाम में हेराफेरी: यदि वह, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, अकेले या अन्य व्यक्तियों के सहयोग से, किसी सिक्युरिटी में असल एवं प्रत्यक्ष रूप से कार्यशील व्यवसाय पैदा करने के लिए या इस सिक्युरिटी की अन्य व्यक्तियों

द्वारा खरीद एवं बिक्री करवाने के उद्देश्य से ऐसी सिक्यूरिटी के मूल्य को अधिक या कम करने के लिए, किसी सिक्योरिटी में काफी मात्रा में लेनदेन की गतिविधियों में रत हो;

(एफ) नाजायज व्यवसाय: यदि वह बाजार में लापरवाह या नाजायज या अव्यावसायिक लेनदेन का काम कर रहा हो या अपने घटक के खाते या किसी भी खाते, जिसमें उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ हो, के लिए खरीद या बिक्री की गतिविधियां कर रहा हो एवं ये खरीद या बिक्री उसके घटक या उसकी जीविका एवं वित्तीय स्त्रोतों या ऐसी सिक्यूरिटी के बाजार मूल्य के अनुसार अत्याधिक हो ;

(जी) समझौता: यदि वह किसी व्यापारिक सदस्य की निजी असफलता की अनदेखी कर दे या सिक्यूरिटीज के लेनदेन सम्बन्धी व्यापारिक सदस्य की बकाया राशि के भुगतान हेतु पूर्ण एवं प्रामाणिक रूप से देय राशि से कम भुगतान स्वीकार कर ले;

(एच) अस्वीकृत चेक: यदि वह किसी अन्य व्यापारिक सदस्य या इसके घटकों को चेक जारी करता है जो किसी भी कारण से प्रस्तुति पर अस्वीकृत हो गया है;

(आई) घटकों से लेनदेन जारी रखने में असमर्थता: यदि उपयुक्त अधिकारी के अनुसार वह अपने घटकों के साथ प्रस्तावित लेनदेन को पूर्ण करने में असमर्थ साबित हो;

अव्यावसायिक आचार

(1) एक व्यापारिक सदस्य को निम्नलिखित या इस तरह की अन्य गतिविधियों या चूक के लिए अव्यावसायिक आचार का दोषी पाया जाएगा:

(ए) सिक्यूरिटी व्यवसाय जिनमें लेनदेन की अनुमति नहीं है रु यदि वह ऐसी सिक्यूरिटीज के लेनदेन में प्रवेश करें जिनमें लेनदेन की अनुमति नहीं हो;

(बी) दिवालिया घटक के लिए व्यवसाय: यदि वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसे घटक के साथ व्यापार के लेनदेन या आदेश की पूर्ति के कार्यों में शामिल है जो अपनी जानकारी में सिक्यूरिटीज से जुड़े कार्यों को पूरा करने एवं उन घटकों के अलावा, जिन्होंने व्यापारिक सदस्य के साथ, जो इसका लेनदार है, किसी संतोषजनक व्यवस्था को अंजाम दिया हो, किसी अन्य व्यापारिक सदस्य का कर्ज में असमर्थ है;

(सी) दिवालिये के लिए व्यवसाय: यदि उपयुक्त अधिकारी की अनुमति लिए बिना वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवसाय में सहयोगी या व्यवसाय में लेनदेन करता है, जो दिवालिया हो, भले ही ऐसे व्यक्ति ने दिवालियापन अदालत से अंतिम मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया हो ;

(डी) निलंबन के दौरान बिना अनुमति व्यापार : यदि उपयुक्त अधिकारी की अनुमति के बिना वह इस समयकाल के दौरान किसी व्यापारिक सदस्य के साथ खुद के खाते या किसी प्रधान के खाते के माध्यम से व्यापार कर रहा हो तो उपयुक्त अधिकारी द्वारा निविमय पर व्यापार निलंबित करना आवश्यक है;

(इ) निलंबित, निष्कासित एवं दिवालिये व्यापारिक सदस्यों के लिए या साथ व्यापार: यदि उपयुक्त अधिकारी की विशेष अनुमति के बिना वह ऐसे किसी व्यापारिक सदस्य, जो निलंबित, निष्कासित या दिवालिया घोषित किया गया है, के साथ दलाली की रकम बांटे या व्यापार या किसी अन्य प्रकार का लेनदेन कर रहा हो;

(एफ) अन्य व्यापारिक सदस्यों के कर्मचारियों के लिए व्यापार: यदि वह बिना उस कार्यरत व्यापारिक सदस्य की लिखित अनुमति से किसी अधिकृत प्रतिनिधि या अन्य व्यापारिक सदस्य के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यापार के लेनदेन या आदेश पूरा करने के कार्य से जुड़ा हुआ हो;

- (जी) निविमय कर्मचारियों के लिए व्यापार: यदि वह कोई काल्पनिक लेनदेन करे जिसमें निविमय के किसी कर्मचारी की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रुचि हो;
- (एच) विज्ञापन: यदि वह अपने घटकों, निविमय के व्यापारिक सदस्यों, बैंक्स एवं संयुक्त स्टॉक कंपनियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए व्यापार के उद्देश्य से विज्ञापन, नियमित सर्कुलर या अन्य व्यापारिक संचार माध्यम प्रकाशित करवाता हो या निविमय की अनुमति के बिना या निविमय द्वारा प्रस्तावित विज्ञापन कोड का उल्लंघन करके स्टॉक मार्किट से जुड़े पैम्फलेट, सर्कुलर या किसी अन्य साहित्य या प्रतिवेदन या जानकारी का प्रकाशन करता हो;
- (आई) लाभ की आवश्यकताओं का अपवंचन: यदि वह इन उपनियमों एवं सिद्धांतों में प्रस्तावित लाभ आवश्यकताओं से जान बूझकर बचाव करे या बचने का प्रयास करे या बचने में सहयोग करे ;
- (जे) दलाली शुल्क: यदि वह दलाली के शुल्क एवं आवंटन से जुड़े कानूनों एवं सिद्धांतों से जान बूझकर बचाव करे या बचाव का प्रयास करे।
- (के) सिक्युरिटीज बाजार में खरीद या बिक्री या लेनदेन के लिए निषेधित संस्थाओं के साथ लेनदेन: यदि वह सेबी द्वारा सिक्युरिटीज बाजार में खरीद या बिक्री या लेनदेन के लिए निषेधित संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, अपने व्यवसाय के कार्यकाल में किसी तरह का व्यवसाय या लेनदेन करे।

मध्यस्थों एवं कर्मचारियों के प्रति व्यापारिक सदस्यों का दायित्व

- (1) एक व्यापारिक सदस्य अपने अधिकृत अधिकारियों, अधिकृतों, मध्यस्थों, अधिकृत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों की गतिविधियों एवं चूक के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा, एवं यदि उपयुक्त अधिकारी ने यह निर्णय लिया कि ऐसी गतिविधि या चूक व्यापारिक सदस्य द्वारा की गयी है , तो वह उसे निविमय के उपनियमों, नियमों एवं सिद्धांतों में बताया गया जुर्माना भरने को कह सकती है। व्यापारिक सदस्य इस जुर्माने के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा, जितना यह गतिविधि या चूक स्वयं करने पर उत्तरदायी होता।

जमानत प्रदान करने में असमर्थता पर निलंबन एवं/या पर्याप्त पूँजी आवश्यकताएं

- (1) उपयुक्त अधिकारी व्यापारिक सदस्य को एवं/या इन उपनियमों, नियमों एवं सिद्धांतों में वर्णित जमानत प्रदान करने में असमर्थ होने एवं/या पर्याप्त पूँजी के नियमों को पूरा न कर पाने पर अपने व्यवसाय के निलंबन के लिए कह सकती है एवं व्यवसाय का यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक यह आवश्यक जमानत जमा नहीं करती एवं पर्याप्त पूँजी आवश्यकताओं पर खरी नहीं उतरती। उपयुक्त अधिकारी इस प्रावधान उल्लंघन कर रहे व्यापारिक सदस्य को निष्कासित कर सकती है।

व्यापार का निलंबन:

- (1) उपयुक्त अधिकारी एक व्यापारिक अधिकारी को अपने व्यापार के सम्पूर्ण या आंशिक भाग के निलंबन का आदेश दे सकता है :
- (ए) भेदभावपूर्ण व्यवसाय: जब उपयुक्त अधिकारी के विचार में, व्यापारिक सदस्य बाजार का संतुलन बिगाड़ने के उद्देश्य से सिक्युरिटीज की खरीद या बिक्री या सिक्युरिटीज की खरीद या बिक्री का प्रस्ताव रखकर निविमय के लिए भेदभावपूर्ण तरीके से व्यापार कर रहा है या निरुत्साह की ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है जहां कीमत बाजार मूल्य को गलत तरह से पेश कर रही हो, या
- (बी) नाजायज व्यवसाय: जब उपयुक्त अधिकारी के विचार में वह नाजायज व्यवसाय कर रहा हो या अपने घटक के खाते या किसी भी खाते, जिसमें उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ हो, के लिए खरीद या बिक्री की गतिविधियां कर रहा हो एवं ये खरीद या बिक्री उसके घटक या उसकी जीविका एवं वित्तीय स्रोतों या ऐसी सिक्यूरिटी के बाजार मूल्य के अनुसार अत्याधिक हो, या
- (सी) असंतोषजनक वित्तीय स्थिति : जब उपयुक्त अधिकारी के विचार में यह ऐसी आर्थिक स्थिति में है जहां इसके लेनदारों या निविमय की सुरक्षा के लिहाज से इसे व्यापार करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती।

निलंबन हटाना

- (2) ऊपर दिए गए खंड (8) के अंतर्गत व्यापार का निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक व्यापारिक सदस्य को उपयुक्त अधिकारी से जमानत का भुगतान करके व्यापार जारी रखने या इन गतिविधियों को पूरा करने या उपयुक्त अधिकारी के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने पर अनुमति नहीं मिल जाती।

उल्लंघन का जुर्माना

- (3) यदि किसी व्यापारिक सदस्य, जिसे अपना व्यापार निलंबित करना है, इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उपयुक्त अधिकारी द्वारा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा।

व्यापारिक सदस्यों एवं अन्य के द्वारा साक्ष्य एवं जानकारी प्रस्तुत करना

- (4) एक व्यापारिक सदस्य खुद एवं अपने अधिवक्ताओं, मध्यस्थों, अधिकृत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के साथ उपयुक्त अधिकारी या अन्य किसी समिति या समितियों या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त निविमय के अफसर के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करता है एवं उपयुक्त अधिकारी या अन्य किसी समिति या समितियों या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त निविमय के अफसर के समक्ष ऐसे खातों, पत्र व्यवहार, दस्तावेज, कागजात एवं अभिलेख या इनका कोई भाग प्रस्तुत करता है, जो उसके अधिकार में हैं एवं जो जांच या पूछताछ से जुड़े किसी तथ्य के लिए काफी उपयुक्त या उपयोगी माने जा सकते हैं।

कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक अनुमति

- (5) किसी भी व्यक्ति के पास बिना उपयुक्त अधिकारी या अन्य समिति की अनुमति के बिना उपयुक्त अधिकारी के समक्ष किसी भी जांच या सुनवाई हेतु पेशेवर वकील, अधिवक्ता, एडवोकेट या अन्य किसी प्रतिनिधि द्वारा खुद का प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार नहीं होता।

निलंबन या निष्कासन के पूर्व स्पष्टीकरण

- (6) एक व्यापारिक सदस्य के पास निलंबित या निष्कासित किये जाने के पूर्व उपयुक्त अधिकारी के समक्ष पेश किये जाने एवं स्पष्टीकरण का अवसर देने का अधिकार है, परन्तु सभी स्थितियों में उपयुक्त अधिकारियों द्वारा तय परिणाम अंतिम एवं निर्णायक होंगे।

अस्थायी निलंबन

- (1) (ए) उपरोक्त धारा (13) में क्या है, इसके बावजूद अगर प्रबंध निदेशक की राय में ऐसा करने के लिए आवश्यक है, तो वह, लिखित में दर्ज होने वाले कारणों के लिए, एक ट्रेडिंग सदस्य को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, इस अध्याय के तहत संबंधित प्राधिकरण द्वारा निलंबन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद, और इस तरह के अस्थायी निलंबन के लिए सुनवाई की कोई सूचना आवश्यक नहीं होगी और इस अस्थायी निलंबन के इस अध्याय के तहत निलंबन का एक ही परिणाम होगा।
- (बी) ऐसे अस्थायी निलंबन को कारण दिखाने के लिए एक नोटिस पांच कार्य दिवसों के भीतर ट्रेडिंग सदस्य को जारी किया जाएगा।
- (सी) किसी भी ऐसे अस्थायी निलंबन को प्रबंध निदेशक के विवेक पर रद्द किया जा सकता है, लिखित रूप में दर्ज होने के कारणों के लिए, यदि प्रबंध निदेशक संतुष्ट हैं कि परिस्थितियों में प्रबंध निदेशक की राय अस्थायी निलंबन को प्रभावित करने के लिए अग्रणी है, तो अस्तित्व समाप्त नहीं किया गया है या संतोषजनक रूप से हल किया गया है।
- (डी) अस्थायी निलंबन से पीड़ित एक ट्रेडिंग सदस्य प्रासंगिक प्राधिकरण से अपील कर सकता है, बशर्ते कि इस तरह की अपील अस्थायी निलंबन को स्वचालित रूप से स्थगित नहीं करेगी जब तक अन्यथा संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्देशित न हो।

सेबी द्वारा पंजीकरण के निलंबन का प्रभाव

- (2) एक्सचेंज के किसी भी उप-नियम और नियम में किसी भी बात के बावजूद, अगर किसी ट्रेडिंग सदस्य के पंजीकरण सेबी द्वारा निलंबित कर दिया गया है, तो इस तरह के ट्रेडिंग सदस्य निलंबन की अवधि के लिए एक्सचेंज की ट्रेडिंग सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा, इसलिए सेबी द्वारा लगाया गया है या जब तक इस तरह के निलंबन को लागू नहीं किया जाता है।

दंड का आरोपण

- (3) निलंबन का जुर्माना, सभी या किसी भी सदस्य अधिकार, ठीक, निंदा या चेतावनी की वापसी प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा अकेले या मजबूती से प्रेरित हो सकता है। निष्कासन का जुर्माना प्रासंगिक प्राधिकार द्वारा दिया जा सकता है।

दंड का पूर्व-निर्धारण

- (4) संबंधित प्राधिकरण को दंड निर्धारित करने, किसी भी निलंबन की अवधि, विशेष सदस्यता अधिकारों की वापसी और किसी भी जुर्माना की राशि जो उल्लंघन, गैर-अनुपालन, अवज्ञा, उपेक्षा या किसी भी बाय लॉ, नियम या एक्सचेंज के विनियमन या किसी भी प्रस्ताव, आदेश, सूचना, दिशा, एक्सचेंज के अधीन निर्णय या सत्तारूढ़, संबंधित प्राधिकरण या किसी भी अन्य समिति या उसके द्वारा अधिकृत एक्सचेंज के अधिकारी।

विनियम

- (5) सिक्वोरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (विनियमन) नियम, 1957 के प्रावधान के अधीन अपने विवेकानुसार संबंधित प्राधिकारी किसी भी मामले में निष्कासन के जुर्माना के बदले किसी ट्रेडिंग सदस्य को निलंबित कर सकता है या सभी या किसी भी सदस्य अधिकार को वापस ले सकते हैं या निलंबन या निष्कासन के दंड के बदले दंड लगा सकते हैं और यह निर्देश दे सकता है कि दोषी व्यापारिक सदस्य को ऐसे नियमों और शर्तों पर इस तरह के जुर्माना को खारिज या चेतावनी दी जा सकती है या कम कर सकती है या उन्हें प्रेषित कर सकता है, क्योंकि यह उचित और न्यायसंगत माना जाता है।

पुनर्विचार / समीक्षा

- (6) सिक्वोरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (विनियमन) नियम, 1957 के प्रावधानों के अधीन, संबंधित प्राधिकारी सदस्य की पुनर्व्यवस्था करने वाले संबंधित प्राधिकरण के निर्णय के संचार की तारीख से 90 दिनों के भीतर संबंधित प्रस्ताव से संबंधित खुद की गति या अपील पर हो सकता है और सभी या किसी भी सदस्य अधिकार को वापस लेने, या किसी भी ट्रेडिंग सदस्य को चेतावनी देने या चेतावनी देने से उसका रिजंड करना, रद्द करना या संशोधित कर सकता है। इसी तरह प्रासंगिक प्राधिकारी किसी भी ट्रेडिंग सदस्य को निष्कासित करने या निलंबित करने के अपने प्रस्ताव को रद्द कर सकता है, वापस ले सकता है या संशोधित कर सकता है।

जुर्माना और दंड का भुगतान करने में विफलता

- (7) यदि कोई ट्रेडिंग सदस्य उस समय किसी भी तरह से जुर्माना या जुर्माना का भुगतान करने में विफल रहता है जो लिखित रूप में नोटिस के बाद संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गई है, तो एक्सचेंज द्वारा इसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया जा सकता है, जब तक यह भुगतान नहीं करता है और यदि समय-समय पर निर्धारित समय के भीतर ऐसा भुगतान करने में विफल रहता है तो इसे संबंधित प्राधिकरण द्वारा निष्कासित कर दिया जा सकता है।

निलंबन के परिणाम

- (8) किसी ट्रेडिंग सदस्य के निलंबन को निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्
- (ए) सदस्यता अधिकारों का निलंबन: निलंबित ट्रेडिंग सदस्य अपने निलंबन के नियमों के मुताबिक सभी अधिकारों और सदस्यता के विशेषाधिकार से वंचित रहेंगे और बाहर रखा जाना चाहिए, लेकिन इसे संबंधित प्राधिकरण द्वारा उसके द्वारा निलंबित किए जाने से पहले या उसके बाद किए गए किसी अपराध के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और संबंधित प्राधिकरण को अन्य व्यापारिक सदस्यों द्वारा संज्ञान लेने और उसके बारे में निर्णय लेने या इसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे से निपटने से नहीं रोक दिया जाएगा;
 - (बी) लेनदारों के अधिकारों का अकुशलता: निलंबन उन ट्रेडिंग सदस्यों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जो निलंबित ट्रेडिंग सदस्य के लेनदार हैं;
 - (सी) संविदाओं की पूर्ति: निलंबित ट्रेडिंग सदस्य अपने निलंबन के समय बकाया अनुबंध पूरा करने के लिए बाध्य होगा;
 - (डी) इसके अलावा व्यापार निषिद्ध: निलंबित ट्रेडिंग सदस्य अपने निलंबन के नियमों के दौरान किसी भी व्यापार को व्यापार या किसी व्यापारिक सदस्य के साथ या उसके माध्यम से लेनदेन नहीं करेगा, बशर्ते कि वह किसी ट्रेडिंग सदस्य के साथ या इसके माध्यम से संबंधित प्राधिकरण की अनुमति के साथ अपने निलंबन के समय बकाया लेनदेन;
 - (इ) ट्रेडिंग सदस्यों को सौदा नहीं करना: संबंधित प्राधिकारी की पिछली अनुमति को छोड़कर, कोई निलंबित व्यापारी सदस्य निलंबित ट्रेडिंग के सदस्य के साथ ब्रोकरेज के लिए या इसके साथ साझा करने या साझा करने के लिए कोई ट्रेडिंग सदस्य नहीं करेगा।

निष्कासन के परिणाम

- (9) किसी ट्रेडिंग सदस्य के निष्कासन के निम्नलिखित परिणामों होंगे अर्थात्
- (ए) ट्रेडिंग सदस्यता का अधिकार जब निष्कासित व्यापारिक सदस्य एक्सचेंज को अपने व्यापारिक सदस्यता के अधिकार और सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों को एक्सचेंज के किसी ट्रेडिंग सदस्य के रूप में जब्त कर देगा, जिसमें किसी भी दावे या किसी भी दावे या किसी भी संपत्ति या किसी भी संपत्ति या किसी भी ब्याज में एक्सचेंज लेकिन एक्सचेंज के किसी भी ऐसे ट्रेडिंग सदस्य या एक्सचेंज के किसी भी ट्रेडिंग सदस्य के किसी भी दायित्व को जारी रखना चाहिए और इसके निष्कासन से अप्रभावित रहना चाहिए;
 - (बी) कार्यालय खाली करना: निष्कासन निष्कासित ट्रेडिंग सदस्य द्वारा आयोजित किसी भी कार्यालय या स्थिति में रिक्ति बनाएगा;
 - (सी) लेनदारों के अधिकारों का अछूता: निष्कासन ट्रेडिंग के सदस्यों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जो निष्कासित ट्रेडिंग सदस्य के लेनदार हैं;

- (डी) संविदाओं की पूर्ति: निष्कासित ट्रेडिंग सदस्य अपने निष्कासन के समय बकाया लेनदेन को पूरा करने के लिए बाध्य होगा और यह संबंधित प्राधिकारी की अनुमति से किसी ऐसे ट्रेडिंग सदस्य के साथ या उसके माध्यम से ऐसे बकाया लेनदेन को बंद कर सकता है;
- (इ) ट्रेडिंग सदस्यों को सौदा नहीं करना: संबंधित प्राधिकारी की पिछली अनुमति को छोड़कर किसी भी ट्रेडिंग सदस्य को निष्कासित ट्रेडिंग सदस्य के साथ ब्रोकरेज के लिए या उसके साथ शेयर करना या साझा करना होगा।
- (एफ) डिफॉल्टर की घोषणा के परिणामों का पालन करना: अध्याय XI और अध्याय XII के प्रावधान डिफॉल्ट से संबंधित हैं और संरक्षण फंड क्रमशः एक्सचेंज से निष्कासित ट्रेडिंग सदस्य पर लागू होंगे जैसे कि इस तरह के ट्रेडिंग सदस्य को डिफॉल्टर घोषित किया गया है।

लागू करने के लिए निष्कासन नियम

- (10) जब कोई ट्रेडिंग सदस्य ऐसे उप-नियमों के प्रावधानों के अधीन नहीं होता है, अन्यथा डिफॉल्ट रूप से या सदस्यता के आत्मसमर्पण नहीं होता है तो यह इस तरह के व्यापारिक सदस्य को संबंधित प्राधिकरण और उस घटना में इन नियमों में निहित निष्कासन से संबंधित सभी प्रावधान सभी मामलों में इस तरह के ट्रेडिंग सदस्य पर लागू होंगे।

व्यापार का निलंबन

- (11) (ए) संबंधित प्राधिकरण को एक व्यापारिक सदस्य को अपने व्यवसाय को निलंबित करने की आवश्यकता होगी, जब वह उप-नियमों में निर्धारित अनुसार अधिक सुरक्षा बनाए रखने या प्रदान करने में विफल रहती है और विनियम और निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक यह सुरक्षा के जरिए आवश्यक राशि का भुगतान नहीं करता है।
- (बी) प्रतिबन्ध के लिए दंड: एक ट्रेडिंग सदस्य जो अपने व्यवसाय को खंड (ए) के तहत निलंबित करने की आवश्यकता है, को संबंधित प्राधिकरण द्वारा निष्कासित कर दिया जाएगा यदि यह उप-नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में काम करता है।

दंड और व्यापार के निलंबन की सूचना

- (12) किसी ट्रेडिंग सदस्य द्वारा निष्कासन या निलंबन या व्यापार के निलंबन के डिफॉल्ट किसी ट्रेडिंग सदस्य द्वारा निष्कासन या निलंबन या व्यापार के निलंबन के डिफॉल्ट या उस पर या इसके वकीलों, एजेंटों, अधिकृत प्रतिनिधियों या अन्य कर्मचारियों पर लगाए गए किसी अन्य दंड या एक्सचेंज की ट्रेडिंग प्रणाली पर नोटिस द्वारा संबंधित ट्रेडिंग सदस्य को संबंधित और व्यापारिक सदस्यों को नोटिस दिया जाएगा। प्रासंगिक प्राधिकारी अपने संपूर्ण विवेकाधिकार में और ऐसे तरीके से हो सकता है, जैसा कि वह उचित रूप से सूचित करता है या एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों या जनता के लिए सूचित किया जा सकता है कि ऐसी अधिसूचना में नामित किसी भी व्यक्ति को निष्कासित कर दिया गया है, उसे निलंबित कर दिया गया है, दंडित किया गया है या डिफॉल्टर घोषित किया गया है या उसके व्यवसाय को निलंबित कर दिया गया है या किसी ट्रेडिंग सदस्य को समाप्त नहीं किया किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा एक्सचेंज या संबंधित प्राधिकरण या किसी भी अधिकारी या किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन या संचलन के लिए बनाए रखा जा सकता है और व्यापारिक सदस्यता के लिए आवेदन या गठित वकील या अधिकृत प्रतिनिधि या संबंधित व्यक्ति द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस के रूप में कार्य करेगा और उप-नियम, नियम और विनियम इस तरह के विज्ञापन या अधिसूचना को मुद्रित, प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए के रूप में काम करते हैं और तदनुसार विनयशील रहेंगे।
- (13) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक प्राधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति होगी, जो समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा गठित की जा सकती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की संरचना ऐसी होगी जिसे सेबी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

टिप्पणी : हिन्दी पाठ में भिन्नता की स्थिति अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

एनएसई आईएफएससी लिमिटेड के लिये

संदीप मेहता

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एनएसई आईएफएससी लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में निहित प्रावधान यहां समायोजित हैं

कंपनी अधिनियम, 2013

शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी

एनएसई आईएफएससी लिमिटेड

की

संस्था नियमावली

1. इस कंपनी का नाम एनएसई आईएफएससी लिमिटेड है।
2. इस कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय गुजरात राज्य में होगा।
3. जिन उद्देश्यों से यह कंपनी स्थापित की गई है वे हैं:
 - क. अपनी निगमित संस्था में कंपनी द्वारा पूरे किए जाने वाले उद्देश्य हैं:
 1. भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार किसी विशेष आर्थिक अंचल में संबंधित कानून (गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी सहित) के अंतर्गत या विश्व में कहीं भी किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में एक यूनिट के रूप में एक एक्सचेंज को स्थापित करना तथा संचालन करना ताकि ऐसी आईएफएससी में या विश्व में कहीं भी, नियामक प्राधिकरण की अनुमति के अनुसार, ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं जो प्रतिभूतियों, डिपोजिटरी रसीदों, पण्य, मुद्रा, धातुओं तथा ऐसे किसी भी उत्पादों को जनहित में सुगमीकरण करने, प्रमोट करने, सहायता करने, विनियमित करने, और प्रबंध करने का काम करेगी जो नियामक प्राधिकरण द्वारा किसी आईएफएससी या विश्व में कहीं भी ट्रेडिंग करने के लिए अनुमत हो तथा ट्रेडिंग हेतु विशेष, अग्रिम, ऑटोमेटेड तथा आधुनिक साधनों से संपन्न हो, जिसमें भारत सहित पूरे विश्व के निवेशकों के लिए सत्यनिष्ठा व सम्मान का उच्च स्तर सुनिश्चित किया गया हो ताकि ट्रेडिंग एक पारदर्शी, स्पष्ट और मुक्त तरीके से हो।
 2. भारत सहित वैश्विक निवेशकों के अधिकतम हित में नियामक प्राधिकरण की अनुमति के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों, कोमोडिटी एक्सचेंजों, डेरिवेटिव एक्सचेंजों अथवा अन्य एक्सचेंजों के संबंध में सभी कार्यकलापों को शुरू करने, सुगम करने, प्रमोट करने, सहायता करने, हाथ में लेने व प्रबंधन करने के द्वारा स्वस्थ पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, पण्य बाजार, ऋण बाजार, प्रतिभूति बाजार, करेंसी बाजार डेरिवेटिव बाजार को सहायता करना, विकास करना, प्रमोट व अनुरक्षण करना।
 - ख. वे विषय जो धारा 3(ए) में उल्लिखित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं:
 3. बेहतर निवेशक सेवा तथा संरक्षा के लिए आवश्यक, एक्सचेंज से संबंधित सभी कदम उठाना तथा कार्य करना जिनमें शामिल है इंटर-मार्केट व्यापार को सुगम करना और लागत प्रभावी, त्वरित तथा सक्षम तरीके से लेन-देन को सुगम करना, लेकिन निवेशक के लिए एक्सचेंज तक पहुंच बनाने के लिए अधिक तरलता सुनिश्चित करने (प्रतिभूति के परिमाण व गहराई दोनों में) तक सीमित न रहना।
 4. आगे बढ़ाने के लिए परिकलन की गई किसी भी फंड ट्रस्ट तथा सुविधाओं को स्थापित करने तथा सहायता करने में मदद करना, तथा निवेशक को सजग करने, शिक्षित करने, और आर्थिक-सुविज्ञ बनाने का उद्देश्य, तथा आमतौर पर कंपनी, और पूंजी व वित्तीय बाजार के उद्देश्यों व प्रयोजनों को आगे बढ़ाना।
 5. सभी प्रकार की ऐसी सभी प्रतिभूतियों, डिपोजिटरी रसीदों, पण्य, डेरिवेटिवों तथा उत्पादों के सूचकांक को विकसित करना, बनाना, तथा चलाना जो कि बाजार की निष्पादन संदर्भिका के लिए उपयोगी हो और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए आधारभूत सूचकांक हो, और वैश्विक वित्तीय बाजार में ट्रेडिंग गतिविधियों पर डाटा व सूचना उपलब्ध कराना
 6. सीक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट (रेगुलेशन) एक्ट 1956 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अर्थ में आने वाली प्रतिभूतियों में क्रय, विक्रय, लेनदेन तथा संव्यवहार का प्रबंधन करने के लिए इस एक्सचेंज को एक मान्यता प्राप्त एक्सचेंज के रूप में मान्यता दिलाने के लिए भारत सरकार से आवेदन करना तथा उसे हासिल करना।
 7. स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह व्यापार किया जाना है उन तौर-तरीकों व शर्तों को नियमित करने के लिये नियम, उपनियम तथा विनियम तैयार करना और लागू करना, एक्सचेंज से संबंधित विविध सामान्य मामलों व अधिकारों के प्रत्यायोजन करने, समितियों के गठन करने, बंदोबस्त करने, ट्रेडिंग करने, तथा सदस्यता से जुड़े सभी पहलुओं समेत इस एक्सचेंज के सदस्यों के व्यवहार के लिए नियम बनाना, और साथ ही सदस्यों के लिए आचार संहिता तथा व्यापार नीतियां बनाना, और समय-समय पर ऐसे नियमों, उपनियमों तथा विनियमों में या उनमें से किसी में भी संशोधन या बदलाव करना, और उपर्युक्त प्रयोजन के लिए कोई नया संशोधित अथवा अतिरिक्त नियम, उपनियम या विनियम बनाना।

8. स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड एवं व्यापार के व्यवहार में ट्रेडिंग के तरीकों, अभ्यास, परिपाटी, रिवाज़ या शिष्टाचार संबंधी सभी समस्याओं का निपटान तथा निर्णय करना।
9. एक्सचेंज के नियमों व उपनियमों तथा संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार एक्सचेंज या कंपनी के सदस्यों का जमानत राशि, प्रवेश शुल्क, निधि अभिदान, शुल्क तय करना, लगाना, उनसे वसूल करना और प्राप्त करना, और साथ ही जमा, मार्जिन, जुर्माना, तदर्थ उगाही तथा अन्य प्रभार तय करना, लगाना और वसूल करना।
10. एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा लगाए जाने वाले कमीशन तथा दलाली के पैमाने का विनियमन करना और निर्धारित करना।
11. पंच निर्णय द्वारा विवादों के समाधान को सुगम करना या ऐसी शर्तों पर पंचनिर्णायक या मध्यस्थ नामित करना जो कि इन मामलों में उचित लगे, और प्रतिभूतियों के लेनदेन से संबंधित किसी भी लेनदेन से जुड़े सभी विवादों एवं दावों तथा विवादों के पंचनिर्णय, और सदस्यों व एक्सचेंज के बीच विवादों, और एक्सचेंज के सदस्यों व उन लोगों के बीच विवादों को जो कि एक्सचेंज के सदस्य नहीं हैं लेकिन एक्सचेंज के घटक हैं, इन सब के लिए क्षेत्रीय अथवा स्थानीय पंचनिर्णय पेनल का गठन करना, उक्त सभी को उपलब्ध कराना, और ऐसे पंचनिर्णयों, क्षेत्रीय पंचनिर्णय पेनलों या स्थानीय पेनलों को पारिश्रमिक देना, और ऐसे पंचनिर्णयों की कार्यवाही के लिए, उनके शुल्क के लिए, उनकी लागत के लिए तथा इससे संबंधित मामलों के लिए नियम, उपनियम तथा विनियम बनाना और उसकी प्रक्रिया को विनियमित करना, और सजा को लागू करना, और सामान्यतः विवादों का निपटान करना, और प्रतिभूतियों के ट्रेड तथा व्यापार के व्यवहार में प्रचलन, परिपाटी या शिष्टाचार संबंधी समस्याओं का निश्चय करना।
12. संग्रहण के प्रयोजन के लिए स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ या किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति या सरकारी विभाग या प्राधिकरण के माध्यम से सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के अभिरक्षक या डिपोजिटरी के रूप में निःशुल्क अथवा सशुल्क काम करना और सभी प्रकार की मुद्रा, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों को सेफ़, स्ट्रॉन्ग रूम और अन्य आधान में भाड़े पर तथा अन्यथा रखना।
13. क्लियरिंग हाउस स्थापित करने तथा कंपनी के उद्देश्यों व प्रयोजनों को जारी रखने तथा स्टॉक होल्डिंग करने व क्लियरिंग संस्था, डिपोजिटरी क्लियरिंग हाउस या विभाग का संचालन करने तथा उनकी कार्यप्रणाली व प्रशासन के नियंत्रण व निगमन के लिए प्रबंधन व संचालन करना या व्यवस्था करना या एजेंट नियुक्त करना।
14. ऐसी किसी व्यवस्था में सरकार के साथ साझीदारी में शामिल होना जो कि अनुकूल व अभिप्रेत लगे, और ऐसी सरकार से ऐसी कोई भी शक्ति, अधिकार, लाइसेंस, विशेषाधिकार, या सुविधा हासिल करना जो कि ज्ञापन में निर्धारित उद्देश्यों के लिए आवश्यक व अभिप्रेत लगे।
15. किसी भी ऐसे विलेख के न्यासी के रूप में काम करना जो किसी डिबैंचर, डिबैंचर स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों या अनुबंधपत्रों को स्थापित या प्रतिभूत करती हों, और अन्य किसी भी न्यास को हाथ में लेना व निष्पादन करना, और साथ ही निष्पादक, प्रशासक, रिसीवर, अभिरक्षक तथा न्यास संस्था के पद को लेना व उसके अधिकारों का प्रयोग करना।
16. इस दृष्टि से किसी न्यास को स्थापित करना कि वह प्रिफ़र्ड तथा डीप्रिफ़र्ड या अन्य किसी विशेष स्टॉक, प्रतिभूतियों, प्रमाण पत्रों, या अन्य प्रलेखों को जारी करे जो कि किसी शेयर, स्टॉक, प्रतिभूति, प्रमाण पत्र या अन्य प्रलेखों या अन्य आस्तियों पर आधारित हों या उनका प्रतिनिधित्व करते हों और जो ऐसी किसी न्यास के उद्देश्य के लिए उपयुक्त हों, और ऐसे प्रिफ़र्ड, डीप्रिफ़र्ड या अन्य स्टॉक, प्रतिभूतियों, प्रमाण पत्रों या प्रलेखों का बंदोबस्त करना, विनियमित करना और यदि आवश्यक हो तो अपने हाथ में लेना और निष्पादित करना।
17. किसी भी राज्य या केंद्रीय, प्रादेशिक, नगरपालिका, स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण के साथ ऐसी व्यवस्थाओं में साझीदारी करना जो कंपनी के तथा उनके उद्देश्यों के लिए फ़ायदेमंद हो, और उस सरकार या प्राधिकरण से ऐसी कोई भी सुविधा, अनुदान या आज्ञाप्ति, अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त करना जो कि कंपनी को उचित लगे या जो कंपनी को फ़ायदा देने वाले लगे, और ऐसी किसी भी व्यवस्था, सुविधा, अनुदान, आज्ञाप्ति, अधिकार या विशेषाधिकार के साथ जुड़े कार्य, विकास, संचालन या फ़ायदा हासिल करने वाले कामों को पूरा करना।
18. ट्रेड से संबंधित सांख्यिकीय या अन्य सूचनाओं को हासिल करना, एकत्र करना, परिरक्षण करना, विसरित करना या बेचना, एक पुस्तकालय रखना और एक्सचेंज के उद्देश्य से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने व बाज़ार भाव के लिए दैनिक या आवधिक समाचार पत्र, जर्नल, पत्रिका, पेम्पलेट, आधिकारिक वार्षिकी को छापना, प्रकाशित करना, हाथ में लेना, प्रबंधन करना व जारी रखना।
19. ट्रेड, बैंकिंग, वाणिज्य, वित्त तथा कंपनी प्रशासन या स्टॉक, शेयरों तथा ऐसी ही प्रतिभूतियों से संबद्ध काम में लगे या लगने वाले लोगों के तकनीकी तथा व्यापारिक ज्ञान को बढ़ाना व उन्नत करना, और इसी दृष्टि से कक्षाएं आयोजित करना, व्याख्यान दिलाना और ऐसे लोगों की क्षमता परखने के लिए परीक्षाएं आयोजित करना,

- प्रमाण पत्र व डिप्लोमा प्रदान करना और स्कॉलरशिप, अनुदान व अन्य लाभ देने की व्यवस्था करना, और ऐसे ही किसी तकनीकी या शिक्षण संस्थान की स्थापना करना या बनाना और उसे चलाना व प्रशासन करना।
20. ऐसी किसी संस्था, चाहे वह निगमित हो या नहीं, का सदस्य बनना, उसका चंदा देना व उससे सहयोग करना जिसका उद्देश्य एक्सचेंज के हितों को बढ़ाना हो या सामान्य, वाणिज्यिक तथा ट्रेड के कार्य को बढ़ाना हो, और ऐसी संस्था से उन सूचनाओं को हासिल करना व प्रदान करना जो कि एक्सचेंज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाती हों या ट्रेड व उसके हितों के संरक्षण के लिए वृद्धिकारक हों।
 21. किसी परामर्श या अनुसंधान विभाग के प्रबंधन में भाग लेना या उसे स्थापित करना, और भारत में तथा विदेश में एक्सचेंज स्थापित करने या संचालित करने के लिए परामर्शदाता या सलाहकार की भूमिका निभाना, और प्रतिभूतियों तथा उनके विपणन के लिए परामर्शदाता का काम करना और एक्सचेंज की ट्रेडिंग की विशिष्टताओं तथा सहगामी कार्यों के लिए परामर्श देना, और कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत के अथवा विदेश के किसी एक्सचेंज के साथ सहमति या सहयोग—सिद्धांत द्वारा सहयोगी बनना।
 22. किसी भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, कंपनी या संस्था के साथ साझेदारी या साझेदारी जैसी व्यवस्था में शामिल होना जो कि किसी ऐसे व्यापार या एंटरप्राइज़ में लगे हों या लगने वाले हों या लगने की रुचि रखते हों जिसे यह कंपनी चलाने या लगाने के लिए अधिकृत हो या जिससे कंपनी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ मिलने वाला हो।
 23. कंपनी की तरफ से व कंपनी के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूतियों को धारण करने के लिए न्यासी (चाहे व्यक्ति या संस्था) को नियुक्त करना।
 24. इस कंपनी के पूर्णतः या अंशतः उद्देश्यों वाली किसी कंपनी या कंपनियों या संस्थाओं के साथ विलय करना।
 25. किसी उपक्रम या किसी संपत्ति — चाहे चल हो या अचल, चाहे उक्त उपक्रम या कंपनी या किसी अन्य कंपनी की देयता में हो या न हो, उसके प्रत्यक्ष या परोक्ष उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अधिग्रहण करने हेतु सभी प्रकार की कंपनियों या साझेदारी को बनाना, प्रमोट करना, आर्थिक सहायता देना या संगठित करना और बनाने, स्थापित करने, प्रमोट करने, आर्थिक सहायता देने, संगठित करने, सहायता करने के लिए सहयोग करना, और ऐसी किसी भी कंपनी के शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को हस्तगत करना या अन्यथा ग्रहण करना, और किसी भी ऐसी कंपनी को आर्थिक सहायता देना या अन्यथा सहायता देना या प्रबंधन करना।
 26. भारत में या विश्व के किसी भी भाग में प्रिंसिपलों, एजेंटों, न्यासियों, संविदाकारों या अन्यथा के रूप में काम करना, और फिर अकेले या अन्यो के संयोजन में तथा एजेंटों, संविदाकारों, न्यासियों या अन्यथा के द्वारा या माध्यम से कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करना।
 27. अपना व्यापार करने तथा ग्राहक पाने में सफल होने के लिए भारत या विदेश में अपने कार्यालय, शाखाएं और एजेंसियां बनाना, खोलना और संचालन करना।
 28. कंपनी की सभी या किसी भी संस्थागत शक्ति, अधिकार या विशेषाधिकार का प्रयोग करना, और भारत संघ में तथा इसके किसी भी राज्य, भूभाग, अधिकृत क्षेत्र, उपनिवेश अथवा अधीन क्षेत्र में तथा किसी भी अथवा सभी बाहरी देशों में अपना व्यापार करना, और इस प्रयोजन के लिए उनकी एजेंसियों के साथ काम करना, जैसा भी सुविधाजनक हो।
 29. किसी भी सामान्य या उपयोगी लक्ष्य या निधि या संस्था के लिए अभिदान करना, योगदान करना, दान करना, या अनुदान करना या गारंटी मनी देना, और किसी भी संस्था, निकाय या गतिविधि को आर्थिक अथवा अन्य रूप से सहायता करना।
 30. कंपनी, पूंजी तथा वित्तीय बाजार के प्रयोजनों व उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी निधि (चाहे वह ब्रोकर प्रोटैक्शन फंड हो या निवेशक प्रोटैक्शन फंड हो या कोई और फंड), न्यास या परिकलित सुविधाओं के प्रबंध करने में सहायता व सहयोग स्थापित करना।
 31. कंपनी की निधियों तथा अन्य संचल संपत्तियों में से ऐसे किसी भी प्रयोजन के लिए भुगतान या पुनर्भुगतान करना जो कि वर्तमान में विशिष्ट रूप से उल्लिखित हों या संस्था के अंतर्नियमों एवं एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों तथा विनियमों में दिए गए हों, और वारंट्स, डिबेंचरों या अन्य बेचनीय अथवा अंतरणीय प्रलेखों को तैयार करना, आहरण करना, स्वीकार करना, पृष्ठांकन करना, डिस्काउंट करना, निष्पादित करना।
 32. संभावना, जिज्ञासा, जांच, खोज तथा परीक्षण की दृष्टि से पूंजी को लगाने के अवसरों तथा रास्तों को तलाशना व उन्हें पाने में सफल होना, और कंपनी के व्यापार के लिए अभियानों, कमीशनों तथा अन्य माध्यमों को भेजना व लगाना।

33. कंपनी के उद्देश्य तथा प्रयोजनों के लिए ऐसी शर्तों पर और इस तरह से आवश्यक राशि उधार लेना, किसी भी रूप में ऋण लेना, जमाराशि स्वीकार करना, ऋण-भार उठाना, अनुदान या अग्रिम (ब्याज पर या बिना ब्याज) लेना, इविट्टी ऋण लेना या कोई भी पैसा उठाना चाहे जो प्रतिभूतिसहित हो या प्रतिभूतिरहित हो, जैसा कि समय-समय पर डिबैंचर, डिबैंचर स्टॉक, बॉन्ड, अथवा अन्य प्रतिभूति जारी करने के द्वारा निर्धारित किया गया हो, और ऐसे उधार या ऋण के बारे में हमेशा ही और एतद्वारा स्पष्टतः एक मौलिक व आधारभूत शर्त के रूप में घोषित किया गया जाता है कि हर मामले में और हर हाल में, उधार या ऋण ली गई राशि के मूल या ब्याज या अन्य रूप में भुगतान मांगने वाला व्यक्ति ऐसी राशि का भुगतान केवल कंपनी की निधियों, संपत्तियों तथा अन्य आस्तियों से लेने का हकदार होगा और केवल वे ही लिए गए उधार अथवा ऋण के बारे में किसी भी ऐसी मांग के लिए देनदार होंगी न कि निदेशक मंडल या कंपनी का कोई एक या अधिक सदस्य, उनके या उसके वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों तथा समनुदेशितियों की निजी निधियां, संपत्तियां तथा अन्य आस्तियां जो कि किसी भी हाल में किसी भी तरह निजी तौर पर किसी भी देयता, दावे या मांग के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे और न ही इस प्रकार से लिए गए उधार या ऋण के लिए उन पर या उस पर कोई प्रभार ही लगाया जा सकेगा, और ऐसे हालात में जब कि उपर्युक्त प्रकार से दावे तथा मांग को पूरा करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त निधियां, संपत्तियां तथा अन्य अस्तियां उपलब्ध होंगी तब मांग करने वाले व्यक्ति का कोई भी अधिकार ऐसी निधियों, संपत्ति तथा अन्य आस्तियों में से केवल अपना ही अंश लेने तक सीमित रहेगा और कंपनी की निधियों, संपत्तियों तथा अन्य आस्तियों में से वह व्यक्ति उन नियमों व शर्तों के अनुसार कुछ भी अधिक लेने का हकदार नहीं होगा जिन पर कि पैसा उठाया गया था या ऋण लिया गया था।
34. कंपनी का ऐसा पैसा जिसकी तुरंत आवश्यकता न हो उसे ब्याजरहित या ब्याजसहित प्रतिभूतियों में निवेश करना, उधार या अग्रिम देना या किसी किसी ऐसे निवेश में लगाना जो कि कंपनी समय-समय पर तय करे।
35. कंपनी के किसी या सभी प्रयोजनों के लिए, विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, चैकों, लदान पत्रों, वारंटों, डिबैंचरों तथा प्रतिभूतिसहित या प्रतिभूतिरहित परक्राम्य लिखतों को आहरण करना, बनाना, स्वीकारना, पृष्ठांकन करना, भुनाना, निष्पादन करना, जारी करना, परक्राम्य करना और बेचना, और साथ ही, ऐसे नियमों व शर्तों पर वचन पत्रों को आहरित व पृष्ठांकन करना, और परक्राम्य करना और उन्हें प्रतिभूतिरहित या प्रतिभूतिसहित भुनाते हुए अग्रिम लेना व प्राप्त करना जो कि कंपनी को उचित लगे, और ऐसे नियमों व प्रतिभूतियों पर कंपनी के सामान या अन्य माल या अन्य वस्तुओं पर कुछ या कोई भी अग्रिम करना जो कि कंपनी को कालोचित लगे।
36. ऐसे नियमों व शर्तों पर पैसा, जमा राशि या अन्य प्रकार ग्रहण करना जो कि कंपनी अनुमोदित कर सके और दूसरों के ऋणों तथा संविदाओं पर गारंटी तथा हर्जाना देना।
37. इस तरह से किसी ऋण या बाध्यताओं या बंधनी को निर्बन्ध करना या चुकाना जैसा कि उचित समझा जाए और विशेष रूप से बंधक तथा प्रभार द्वारा, और वर्तमान अथवा भावी किसी भी या सभी आस्तियों व संपत्तियों पर और कंपनी की अनमांगी पूंजी या निर्माण द्वारा, और ऐसी शर्तों पर जो कि कालोचित समझी जाएं, डिबैंचर, डिबैंचर स्टॉक या किसी भी विवरण की अन्य प्रतिभूतियां जारी करना या पूर्णतया जमा कर दिए गए या अंशतः चुकता कर दिए गए शेयरों को जारी करने के द्वारा।
38. गारंटी देना और हर प्रकार गारंटी व काउंटर गारंटी को चलाना व संचालन करना और विशेष रूप से किसी भी मूल धन, ब्याज तथा अन्य धन जो डिबैंचरों, बॉन्डों, डिबैंचर स्टॉक, बंधक, प्रभार, संविदा, बाध्यताओं व प्रतिभूतियों और लाभांशों के भुगतान तथा पूंजी स्टॉक व हर प्रकार तथा विवरण के शेयरों द्वारा सुरक्षित हों या उनके अंतर्गत देय हों।
40. कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी ऐसे शेयरों, स्टॉकों, डिबैंचरों, डिबैंचर स्टॉक, बॉन्डों, बाध्यताओं या प्रतिभूतियों को ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन, टेंडर, क्रय, विनिमय, या अन्यथा अभिग्रहण करना, और उसके लिए सशर्त अथवा अन्यथा अभिदान करना, और उसका अभिदान करने के लिए गारंटी देना, और उसके स्वामित्व द्वारा या सांयोगिक रूप से प्राप्त अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग करना व लागू करना।
41. कंपनी या इसके सदस्यों के उपयोग या किसी अन्य उपयोग के लिए समुचित भवन निर्माण करना तथा उसका रखरखाव करना, और ऐसे किसी भवन या भवनों में रूपांतरण करना, बढ़ाना, फेरबदल करना, बदलाव करना या हटाना या स्थानांतरित करना या प्रतिस्थापन करना या जगह में वृद्धि करना।
42. कंपनी के उपयोग के लिए क्रय द्वारा, लीज पर या किराया खरीद पर या आपूर्तिकर्ता के उधार पर या अन्यथा किसी चल या अचल संपत्ति का अभिग्रहण करना या विकसित करना और कोई भी आवश्यक या सुविधाजनक अधिकार या विशेषाधिकार हासिल करना, और विशेष रूप से कोई भी ज़मीन, भवन, भोगाधिकार, या सुरक्षित जमा कक्ष या डिपोजिटरी या अभिरक्षा सुविधा का अभिग्रहण करना।

43. किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिए जो कि उचित समझा गया हो, कंपनी की बाध्यताओं, निवेशों, संपत्ति, आस्तियां, अधिकार व माल को या उसके किसी भाग को जिनमें कि किसी भी कंपनी के स्टॉक, शेयर, या प्रतिभूतियां, चाहे वे पूर्णतः या अंशतः चुकता कर दी गई हों, शामिल हैं उन्हें बेचना, बीमा करना, बंधक रखना, विनिमय करना, किराए पर देना, अंडरलीज या सब-लैट करना, लाइसेंस देना, भोगाधिकार देना और अन्य अधिकार देना, बढ़ाना, प्रबंध करना, विकसित करना और लाभ कमाना और किसी भी अन्य तरीके से उनका निपटान करना।
 44. भारत में या विदेश में कंपनी के कर्मचारियों को या कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के हित में किसी भी अभ्यर्थी को प्रशिक्षण देना या प्रशिक्षण के लिए भुगतान करना।
 45. कंपनी के कर्मचारियों अथवा पूर्वकर्मचारियों और उनकी पत्नियों और परिवारों या आश्रितों या ऐसे व्यक्ति के संबंधों को भवन बनाने या मकान बनाने में योगदान करने या आवास देने या उसके लिए पैसा देने के द्वारा, और पेंशन, भत्ते, बोनस या अन्य भुगतानों द्वारा या समय-समय पर भविष्यनिधि बनाने तथा अन्य संगठन, संस्थाएं, निधियां, या न्यास बनाने के द्वारा, उसमें अभिदान देने के द्वारा, और प्रशिक्षण स्थल तथा मनोरंजन स्थल, अस्पताल, डिस्पेंसरियां, मेडिकल तथा अन्य सेवा या कंपनी जिसे उचित समझती हो ऐसी कोई भी अन्य सेवा उपलब्ध कराने में अभिदान या योगदान देने के द्वारा कर्मचारियों के लिए कल्याण करना।
 46. कंपनी के हित में और हित के लिए किए गए या आदेश किए गए या अपनी ड्यूटी करने या उसके संबंध में घटित किसी भी हानि, नुकसान या दुर्घटना के लिए कंपनी के अधिकारियों, निदेशकों, प्रमोटरों और नौकरों को कार्रवाइयों, लागतों, नुकसानों, दावों और मांगों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करना।
 47. ऐसे सभी कार्य करना जो कि उपर्युक्त उद्देश्यों या उनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए भी आकस्मिक या लाभकारी हों।
 48. किसी भी कंपनी या उपक्रम के प्रबंधन, पर्यवेक्षण, या व्यापार के नियंत्रण या परिचालन में भाग लेना, और इस प्रयोजन के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराना, और प्रशासक या अन्य किसी हैसियत से काम करना, और इस प्रयोजन के लिए अथवा अन्यथा किसी निदेशक, प्रशासक या लेखाकार या अन्य विशेषज्ञ या एजेंट को नियुक्त करना तथा पारिश्रमिक देना।
- और, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि:
- क. कंपनी के उपर्युक्त मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आकस्मिक तथा अनुषंगी उद्देश्य भी इसके अंतर्गत उल्लिखित कंपनी के अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक तथा अनुषंगी रहेंगे।
 - ख. सिवाय इसके कि जब इस कंपनी का संदर्भ हो 'कंपनी' शब्द में साझेदारी या व्यक्तियों की अन्य निकाय शामिल रहेंगी भले ही वे निगमित हुई हों या नहीं, भले ही वे भारत में स्थित हों या कहीं और।
 - ग. इस धारा की अनेक उपधाराएं तथा उनकी तमाम शक्तियां संचयी की जानी हैं और किसी भी मामले में किसी एक उपधारा की व्यापकता किसी भी उपधारा की विशिष्टता द्वारा संकुचित या सीमित नहीं की जाए, न ही किसी उपधारा की सामान्य शब्दावली को उसी उपधारा में दी गई शब्दावली की विशिष्टता द्वारा या उसी प्रकार की या अन्यथा बनावट की भूमिका लागू करने के द्वारा संकुचित या सीमित किया जाए।
 - ग. इस धारा में प्रयुक्त "भारत" शब्द, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसमें भारत संघ में समय-समय पर समाविष्ट होने वाला भूभाग भी शामिल माना जायेगा।
- IV. सदस्यों की देयता सीमित होगी और यह देयता उनके द्वारा धारित शेयरों की चुकता न की गई राशि, यदि कोई है, तक सीमित रहेगी।
- #V. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 100,00,00,000 रुपए है (केवल एक सौ करोड़ रुपए), जो कंपनी की पूंजी को कम तथा बढ़ाने की शक्ति के साथ, प्रत्येक 10/- रुपए (रुपए दस केवल) के 10,00,00,000 (दस करोड़) इक्विटी शेयर में विभाजित हैं।
- # 5 अप्रैल, 2017 को हुई एक असाधारण आम बैठक में, सदस्यों द्वारा, अधिकृत शेयर पूंजी को 25 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 100 करोड़ रुपए करने के लिए एक संशोधित स्वीकृत प्रस्ताव पारित किया गया।

हम कई व्यक्तियों, जिनके नाम, पते, विवरण और व्यवसायों नीचे सब्सक्राइब किया जाता है, एसोसिएशन के इस जापन के अनुसरण में एक कंपनी में गठन किया जा रहा करने के इच्छुक हैं और हम क्रमशः राजधानी में शेयरों की संख्या लेने के लिए सहमत कंपनी के खिलाफ संकेत अपने-अपने नामों।

धारावाहिक संख्या .	नाम, पता, व्यवसाय और सब्सक्राइबर के पिता नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या प्रत्येक ग्राहक द्वारा उठाए जाने की सहमति	सब्सक्राइबर के हस्ताक्षर	नाम, पता, गवाह की बायो
1.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड पता: एक्सचेंज प्लाजा, सी -1, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री माधवन संपत श्री संपत कुमार के पुत्र के माध्यम से। खबरदार बोर्ड संकल्प दिनांक जून 23, 2016 और अधिक पढ़ें पता - 302, पूर्वनी, स्वास्तिक पार्क, चेंबूर, मुंबई 400 071 उद्योग- सेवा	49,994 (चालीस नौ हजार नौ सौ और नब्बे चार)	Sd/-	मैं सब्सक्राइबर को, जो सदस्यता ली और मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं करने के लिए गवाह। इसके अलावा मैं अपने आप को उनकी पहचान के ब्यौरे की सत्यापित उनकी पहचान के लिए अपने या अपनी पहचान का विवरण (आईडी) और संतुष्ट हैं के रूप में भरा साइन; - जतिन कपाड़िया कंपनी सचिव एसीएस ; -26725 सी.पी. :- 12043
2.	मुकेश अग्रवाल शंभू अग्रवाल का बेटा पता: A-904, स्वर्ग, रहेजा विहार, चांदीवली स्टूडियो विपरीत, पवई, मुंबई 400072	1 एक)	Sd/-	
3	मोशालकांति वासुदेव राव मोशालकांति नरसिंह राव का बेटा पता: ई -2 / 902, हाइड पार्क, निवास, ठाणे पश्चिम, मुंबई - 400607 उद्योग - सेवा	1 एक)	Sd/-	
4	विठ्ठल पांडुरंग मोरे पांडुरंग दाजीबा मोरे का बेटा पता: फ्लैट नंबर 10, वाणी-ऑपरेटिव। आवास। समाज, सेक्टर नं। 6, बेलापुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत 400614 उद्योग - सेवा	1 एक)	Sd/-	
5	संदीप नागिनदास मेहता नागिनदास अमृतलाल मेहता का बेटा पता - बी 301 गलनगेट, हीरानंदानी गार्डन, पवई आईआईटी, मुंबई, - 400076 उद्योग - सेवा	1 एक)	Sd/-	
6	रविंद्र मोहन भट्टला चिन्ना अप्पा राव भट्टला का बेटा पता - एक-405, तलाव आनंददायी, तलाव घरे, आयआयटी, मुंबई - 400076 उद्योग - सेवा	1 एक)	Sd/-	
7	अरिंदम साहा दिलीप कुमार साहा का बेटा पता - 18A, तारा शंकर सरणी, ताल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, - 700037 उद्योग - सेवा	1 एक)	Sd/-	

तारीख: 16 नवंबर 2016

जगह: मुंबई

शेयरों के अनुपात में सीमित दायित्व वाली कंपनी

एनएसई आईएफएससी लिमिटेड

के

अंतर्नियम

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद ८ की तालिका ७ में दिये गये विनियम कंपनी पर लागू नहीं होंगे, लेकिन विशेष प्रस्ताव के जरिए या कंपनी अधिनियम, 2013 में दिये गये अनुच्छेदों के अनुसार इसके विनियमों के निरसन, उनमें संशोधन या नये विनियमों को शामिल किये जाने के संबंध में कंपनी की किसी भी वैधानिक शक्ति के उपयोग के बारे में कंपनी प्रबंधन के नियमों को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखा जायेगा और उनके सदस्य व प्रतिनिधि इनका अवलोकन करेंगे।

व्याख्या:

1. नीचे दिये गये वाक्यों व कथनों में, निम्नलिखित शब्दों और भावों का निम्नांकित अर्थ होगा, जब तक कि विषय या संदर्भ के आधार पर इसे अलग न किया गया हो या इसे अलग से परिभाषित न किया गया हो,

- (क) “अधिनियम”, “कथित अधिनियम” का अर्थ “कंपनी अधिनियम, 2013” से है और इसमें उसके तहत दिये गये सभी कानून, स्पष्टीकरण, परिपत्र, अधिसूचनाएं और प्रत्येक कानूनी परिवर्तन एवं उससे जुड़े प्रतिस्थापन शामिल हैं और इसमें कंपनी अधिनियम, 1956 के ऐसे प्रावधान उस हद तक लागू होंगे, जब तक कि कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा उनका अधिक्रमण न किया गया हो, या उन्हें अधिसूचना के जरिए रद्द न कर दिया गया हो।
- (ख) “उपनियमों”, “नियम” और “विनियम” का अर्थ संबंधित समयावधि के दौरान लागू उप-कानूनों, नियमों और विनियमों से होगा।

स्पष्टीकरण: ‘नियमों’ में कंपनी के ज्ञापन एवं अंतर्नियम शामिल होंगे।

- (ग) “कंपनी” का अर्थ “एनएसई आईएफएससी लिमिटेड” से होगा और यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(71) के प्रावधानों के तहत परिभाषित सार्वजनिक कंपनी होगी।
- (घ) “एक्सचेंज” का ऐसे एक या एक से अधिक उपक्रमों से होगा, जहां एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा प्रतिभूतियों का लेन-देन किया जायेगा।
- (ङ) “बोर्ड”, “निदेशक मंडल” या “निदेशक” का अर्थ कंपनी के निदेशक मंडल या सामूहिक रूप से कंपनी के निदेशकों से होगा।
- (च) ‘सदस्य’ कंपनी के सदस्य ‘समय-समय पर विधिवत पंजीकृत धारकों का अर्थ होगा, कंपनी के शेयरों की और कंपनी के संघ के ज्ञापन के लिए ग्राहकों में शामिल हैं।
- (छ) “कार्यालय” का अर्थ संबंधित समयावधि के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से होगा।
- (ज) ‘रजिस्टर’ का अर्थ अधिनियम की धारा 88 के अनुसार रखे गये सदस्यों के रजिस्टर से होगा।
- (झ) “एससीआर अधिनियम” का अर्थ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 से होगा और इसमें उससे जुड़ा कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनराधिनियम शामिल है।
- (ट) “सील” का अर्थ संबंधित समयावधि के लिए कॉमन सील से होगा।
- (ठ) ‘सेबी अधिनियम’ का अर्थ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 से होगा की विनियम बोर्ड मतलब है और इसमें उससे जुड़ा कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनराधिनियम शामिल होंगे।
- (ड) “एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्य” या “ट्रेडिंग सदस्य” का अर्थ एक्सचेंज के सदस्य से होगा।

स्पष्टीकरण: एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्य एक से अधिक वर्ग के हो सकते हैं, जिसका निर्धारण समय-समय पर बोर्ड द्वारा किया जा सकता है। एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्य को कंपनी के सदस्य के रूप में कोई भी अधिकार नहीं होगा। ट्रेडिंग सदस्य के लिए कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है।

- (ढ) “लेखन” में प्रिंटिंग, टाइपराइटिंग, लिथोग्राफी और लेखन कोई भी अन्य विकल्प शामिल होगा।
- (ण) “वर्ष” का अर्थ “कंपनी के वित्त वर्ष” से होगा।
2. (क) व्यक्तिवाचक शब्दों में कंपनियां, निगम, संस्थाएं, संयुक्त परिवार या संयुक्त निकाय, व्यक्तियों के संघ, सोसाइटी, ट्रस्ट, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं या बैंकों या कंपनियों की अनुषंगी शामिल होंगी।
- (ख) पुलिंग शब्दों का अर्थ स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग का अर्थ पुलिंग से होगा, जबकि कंपनियों, निगमों, संस्थाओं आदि के संदर्भ में, इनका अर्थ नपुंसक लिंग से होगा।

- (ग) परिस्थिति के अनुसार, एकवचन का आशय बहुवचन और बहुवचन का आशय एकवचन से होगा।
- (घ) जब तक अन्यथा या इन प्रस्तुत में परिभाषित किया गया जब तक कि संदर्भ की आवश्यकता है या एक अलग अर्थ है, किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति इन प्रस्तुत में होने वाली अधिनियम और एससीआर अधिनियम और सेबी अधिनियम, के रूप में एक ही अर्थ वहन करेगा या किसी भी संशोधन या इंगित करता है पुनः अधिनियमितियों या उसके उसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम।
- (ई) मार्जिनल नोट्स से उनका निर्माण प्रभावित नहीं होगा।

शेयर पूंजी

3. प्राधिकृत शेयर पूंजी

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी ऐसी राशि और ऐसा ब्यौरा होगा जिसे कंपनी के बहिर्नियम में किसी भी समय परिभाषित किया गया हो और कंपनी को अपने विनियमों एवं इस संबंध में कानूनी प्रावधानों के अनुसार शेयर पूंजी बढ़ाने या घटाने का अधिकार होगा।

4. सदस्यों का रजिस्टर और डिबेंचर धारक आदि

कंपनी, अधिनियम की धारा 88 के अनुसार सदस्यों का एक रजिस्टर, सदस्यों की एक सूची, डिबेंचर-धारकों की एक रजिस्टर और डिबेंचर धारकों की एक सूची रखा जाना करने के लिए प्रेरित करेगा।

5. सदस्यों के रजिस्टर और डिबेंचर धारकों आदि का निरीक्षण

सदस्यों के रजिस्टर, सदस्य के सूचकांक, रजिस्टर और डिबेंचर धारकों के सूचकांक, अधिनियम के तहत तैयार सभी रिटर्न की प्रतियां, एक साथ प्रमाण पत्र की प्रतियां और दस्तावेजों होने की आवश्यकता के साथ अधिनियम के तहत बहां पर कब्जा कर लिया है, सिवाय जब सदस्यों या डिबेंचर-धारकों के रजिस्टर अधिनियम या इन प्रस्तुत के प्रावधानों के तहत बंद कर दिया है, व्यापार घंटे के दौरान खुला हो जाएगा का निरीक्षण करने के लिए (के रूप में कंपनी लगाया जा सकता है इस तरह के उचित प्रतिबंध के अधीन) किसी भी सदस्य या डिबेंचर-धारक मुक्त और के रूप में प्रत्येक निरीक्षण के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है इस तरह के योग के भुगतान पर किसी अन्य व्यक्ति का निरीक्षण करने के लिए। इस तरह के किसी भी सदस्य या व्यक्ति के रूप में अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है इस तरह के योग के भुगतान पर उधर से अर्क लग सकता है।

6. कंपनी रजिस्टर का संक्षिप्त ब्यौरा आदि भेजेगी

कंपनी के अनुरोध पर किसी भी सदस्य, डिबेंचर-धारक या अन्य व्यक्ति को भेजेगी, सदस्यों के रजिस्टर की एक प्रति, सदस्य के सूचकांक, रजिस्टर और डिबेंचर धारकों के सूचकांक या उसके किसी भाग अधिनियम के तहत रखा जाना आवश्यक है, के रूप में अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है इस तरह के योग के भुगतान पर। नकल के रूप में अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता सात दिन, या इस तरह के अन्य समय की अवधि के भीतर भेजा जाएगा

7. आवंटन पर प्रतिबंध

बोर्ड प्रतिबंध का पालन करेगा के रूप में अधिनियम की धारा 39 में निहित आवंटन करने के लिए और के रूप में अधिनियम की धारा 39 में प्रावधान आवंटन के लिए रिटर्न के लिए किया जा करने के लिए प्रेरित करेगा।

8. शासी बोर्ड के शेयर की बिक्री

कुछ समय के (कंपनी की किसी भी बड़ी हुई पूंजी का हिस्सा बनाने के लिए किसी भी शेयरों सहित) के लिए कंपनी की राजधानी में अधिनियम के प्रावधानों और इन प्रस्तुत करता है, शेयरों के अधीन निदेशक हैं, जो आवंटित या अन्यथा सकता है के नियंत्रण के अधीन किया जाएगा एक ही है या इस तरह के अनुपात में और इस तरह के नियम और शर्तों और या तो एक प्रीमियम पर या बराबर या एक डिस्काउंट पर (अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन) और ऐसे समय पर इस तरह के व्यक्तियों के लिए उनमें से किसी को निपटाने के समय-समय पर हो सकते हैं फिट और आम बैठक में मंजूरी के साथ उचित किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों का विकल्प है या सही किसी भी शेयर के लिए या तो बराबर या प्रीमियम ऐसे समय के दौरान कम से और इस तरह के विचार के लिए के रूप में निदेशक लगता है कि फोन करने के लिए देने के लिए लगता है के रूप में फिट है, और जारी करने और पूर्ण या किसी भी संपत्ति को बेच दिया और स्थानांतरित या अपने व्यापार के संचालन में कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं के लिए किसी भी और किसी भी शेयर जो इतनी आवंटित किया जा सकता है हो सकता है के हिस्से में भुगतान पर कंपनी की पूंजी में शेयर आबंटित कर सकता है पूरी तरह से शेयरों को भुगतान किया है और यदि ऐसा है तो जारी किए हैं, पूरी तरह से प्रदत्त शेयरों होना समझा जाएगा के रूप में जारी किए हैं। बशर्ते कि विकल्प या शेयरों कहने का अधिकार आम बैठक में कंपनी की मंजूरी के साथ छोड़कर किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी।

9. बोर्ड शेयरों आबंटित कर सकता है के रूप में पूरी तरह से पेड-अप या आंशिक रूप से पेड-अप भुगतान या बेच दिया है या किसी भी संपत्ति के लिए आंशिक भुगतान के रूप में कंपनी की राजधानी में अधिनियम के प्रावधानों और इन प्रस्तुत बोर्ड आबंटित कर सकता है और इस मुद्दे को शेयरों के अधीन वस्तुओं का तबादला या मशीनरी की आपूर्ति या कंपनी को दी गई सेवाओं और जो हो सकता है किसी भी शेयर के लिए इसलिए आवंटित की पूरी तरह से पेड-अप या आंशिक रूप से पेड-अप के रूप में जारी किया जा सकता है और यदि ऐसा है तो जारी पूरी तरह चुकता शेयर या आंशिक रूप से चुकता शेयरों होना समझा जाएगा।
10. शेयरों की स्वीकृति
किसी भी आवेदन के द्वारा या कंपनी के शेयरों के लिए एक आवेदक की ओर से हस्ताक्षर किए गए, उसमें किसी भी शेयर की एक आवंटन के बाद, इन प्रस्तुत के अर्थ के भीतर शेयरों की स्वीकृति होगाय और किसी भी व्यक्ति जो इस प्रकार या अन्यथा किसी भी शेयर को स्वीकार करता है और जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर पर है इन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एक सदस्य होगी।
11. जमा और कॉल, आदि एक ऋण देय तुरंत होना करने के लिए
पैसा, (अगर कोई है), जो बोर्ड, उनके द्वारा बनाया जा रहा है किसी भी शेयरों के आवंटन पर की आवश्यकता होती है या प्रत्यक्ष जाएगा जमा के माध्यम से भुगतान करने के लिए हो सकता है, फोन या अन्यथा उनके द्वारा आवंटित किसी भी शेयरों के संबंध में, करेगा, तुरंत ऐसे शेयरों के धारक के नाम के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में आवंटि के नाम की प्रविष्टि पर, कारण के लिए एक ऋण हो जाते हैं और उसके आवंटि से कंपनी द्वारा वसूली, और तदनुसार उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा।
12. शेयरों पर किश्तों
किसी भी शेयर, पूरे या राशि या निर्गम मूल्य का हिस्सा उसके किश्तों में देय होगा के आवंटन की शर्तों के अनुसार, हर तरह के किस्त, जब कारण, कंपनी के लिए जो व्यक्ति समय के लिए किया जा रहा द्वारा भुगतान किया जाएगा तो और समय-समय पर इस तरह के शेयर का पंजीकृत धारक या उसकी कानूनी प्रतिनिधि होगी।
13. एक ही वर्ग के शेयरों पर 13 कॉल वर्दी आधार पर होना
कहाँ आगे शेयर पूंजी के लिए किसी भी फोन शेयरों पर किया जाता है, इस तरह के कॉल एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी शेयरों पर एक समान आधार पर किया जाएगा। इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, एक ही नाममात्र का मूल्य है, जिस पर विभिन्न मात्रा चुकता कर दिया है के शेयरों में एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं के लिए नहीं समझा जाएगा।
14. कंपनी पंजीकृत धारकों की तुलना में अन्य शेयरों में कोई रुचि नहीं पहचान करने के लिए बाध्य नहीं
इस के साथ साथ के रूप में प्रदान की जाती अन्यथा, कंपनी व्यक्ति जिसका नाम उसके पूर्ण मालिक के रूप में किसी भी शेयर धारक के रूप में सदस्यों के रजिस्टर पर प्रकट होता है के इलाज के लिए हकदार होगा बचाने के लिए और तदनुसार न होगा (सिवाय के रूप में सक्षम न्यायालय की एक अदालत द्वारा या के रूप में आदेश दिया कानून द्वारा अपेक्षित) किसी अन्य व्यक्ति या नहीं, यह व्यक्ति या निहित सूचना उसके होगा की ओर से किसी भी बेनामी, इस तरह के शेयर में विश्वास या इक्विटी या, न्यायसंगत दल या अन्य दावे या ब्याज पहचान करने के लिए बाध्य हो।
15. कंपनी की धनराशि की खरीद में लागू नहीं किया जा सकता है या व्रत कंपनी के शेयरों पर
हद अधिनियम कंपनी के धन का कोई हिस्सा नहीं की खरीद में नियोजित किया जाएगा या कंपनी के शेयरों की सुरक्षा पर व्रत की धारा 67 द्वारा अनुमति के लिए छोड़कर।
- 15क. अपने शेयरों या प्रतिभूतियों की वापस खरीद
इन लेखों में निहित कुछ भी बर्दाश्त नहीं, कंपनी, कब और अगर सोचा फिट, पीठ ऐसी कंपनी के खुद के इक्विटी शेयरों की खरीद सकते हैं या प्रतिभूतियों यह आवश्यक ऐसी सीमाओं के अधीन लगता है कि मई के रूप में ऐसी बात है, नियम और शर्तों, और इस तरह के अनुमोदन के अधीन, के रूप में उसके अंतर्गत बनाए गए खंड 68, 69, 70 और अन्य लागू प्रावधानों के प्रावधानों, यदि कोई हो, अधिनियम और नियमों के तहत आवश्यक हो सकता है।
16. सदस्यों की देयता
हर सदस्य अपने शेयर या शेयरों, कुछ समय के लिए जो मई अवैतनिक उस पर बने हुए हैं, ऐसे समय या समय पर ऐसी मात्रा में और इस तरह के तरीके के रूप में बोर्ड करेगा, समय-समय पर में से राजधानी प्रतिनिधित्व के हिस्से कंपनी को भुगतान करेगा की आवश्यकता होती है या उसके भुगतान तय कर लो।
17. बिना मान्यता वाले न्यास
सिवाय के रूप में कानून द्वारा आवश्यक है, कोई व्यक्ति किसी भी विश्वास पर किसी भी शेयर होल्डिंग के रूप में कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त किया जाएगा, और कंपनी द्वारा बाध्य नहीं किया जाएगा, या किसी भी तरह मजबूर नहीं किया जा पहचान

करने के लिए (जब भी उसके नोटिस वाले) किसी भी न्यायसंगत, दल, भविष्य या किसी भी शेयर में आंशिक ब्याज, या, या सम्पूर्णता के लिए एक पूर्ण अधिकार को छोड़कर किसी भी शेयर के संबंध में किसी भी अन्य अधिकार (केवल के रूप में इन नियमों द्वारा या कानून द्वारा अन्यथा प्रदान को छोड़कर) एक हिस्से के किसी भी आंशिक भाग में कोई रुचि क्या है पंजीकृत धारक में।

हामीदारी कमीशन

18. शेयर रखने के लिए कमीशन

(अ) कंपनी किसी भी समय सदस्यता लेने या सदस्यता के लिए सहमत होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए एक आयोग का भुगतान कर सकते हैं (भले बिल्कुल या सशर्त) किसी भी शेयर, डिबेंचर या डिबेंचर शेयर या कंपनी के किसी भी अन्य सुरक्षा के लिए या खरीद या सदस्यता खरीद करने के लिए सहमत होने के लिए (चाहे वह पूर्ण या सशर्त) किसी भी शेयर डिबेंचर या डिबेंचर के लिए

शेयर या कंपनी के किसी भी अन्य सुरक्षा लेकिन इतना है कि यदि शेयरों के संबंध में आयोग का भुगतान किया जाएगा या संबंधित मुद्दे या लाभ या दोनों, वैधानिक स्थिति और आवश्यकताओं को मनाया किया जाएगा की आय से बाहर देय और अनुपालन के साथ और राशि या कमीशन की दर दरों अधिनियम द्वारा निर्धारित से अधिक नहीं होगी। आयोग का भुगतान या नकद या शेयर, डिबेंचर या कंपनी के डिबेंचर स्टॉक में संतुष्ट किया जा सकता है।

दलाली

(आ) कंपनी भी इस तरह के शेयरों के मुद्दे ऐसे ब्रोकरेज का भुगतान के रूप में अधिनियम के तहत अनुमत हो सकता है।

प्रमाण पत्र

19. प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जारी करने के लिए कैसे हो और समय की सीमा

प्रतिभूतियों के लिए शीर्षक के प्रमाण पत्र की उपस्थिति में कंपनी की मुहर के तहत जारी किया जाएगा और दो निदेशकों के हस्ताक्षर असर या

व्यक्तियों विधिवत, बोर्ड या उसके द्वारा अधिकृत समिति के रूप में मामले और सचिव या प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कुछ अन्य व्यक्तियों हो सकता है। यह मंडल परमिट की संरचना, कम से कम ऊपर उल्लिखित दो निदेशकों में से एक एक व्यक्ति को एक अन्य की तुलना में किया जाएगा अगर प्रबंध निदेशक या एक पूर्णकालिक निदेशक के। ऐसे शेयरों का प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों प्रक्रिया अधिनियम में द्वारा प्राप्त होने की तारीख से शेयरों के आवंटन के मामले में या एक महीने के भीतर दो महीने के भीतर रखी आबंटन के बाद के अनुसार वितरित किया जाएगा के अधीन हस्तांतरण या एक महीने के भीतर कंपनी द्वारा या आवंटन ऐसे डिबेंचर की तारीख से छह महीने के भीतर डिबेंचर के आबंटन के मामले में संचरण की सूचना की प्राप्ति की तारीख से के मामले में हस्तांतरण के साधन की कंपनी, जैसा भी मामला हो सकता है। हमेशा परंतु इस लेख में किसी बात के होते हुए भी, साझा करने के लिए शीर्षक के प्रमाण पत्र निपादित किया जा सकता है और कानून या नियम के इस तरह के अन्य प्रावधानों उसके अधीन बनाए गए के अनुसार जारी किए, समय के रूप में किया जा रहा है और समय-समय पर लिए बल में हो सकता है। एक शेयर या कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित शेयरों के संबंध में, कंपनी एक से अधिक प्रमाण पत्र और कई संयुक्त धारकों में से एक के लिए शेयरों का एक प्रमाण पत्र का वितरण जारी करने के लिए इस तरह के सभी धारक के लिए पर्याप्त वितरण किया जाएगा बाध्य नहीं किया जाएगा। ऊपर होते हुए भी, प्रतिभूतियों के प्रमाण पत्र, अधिनियम, एससीआर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाएगा, संशोधन, और किसी भी अन्य लागू कानूनों के रूप में।

19ए. इक्विटी शेयरों के डिमटेरियलाइज

इन लेखों में निहित कुछ होते हुए भी, कंपनी ने अपनी प्रतिभूतियों कमउंजमतपंसपेम के लिए और एक डीमैट रूप में प्रतिभूतियों निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अनुसार पेशकश करने के लिए प्रतिभूतियों इसलिए डीमैट, प्रासंगिक सेबी परिपत्रों और निर्देशों के प्रावधानों के अलावा के संबंध में हकदार होगा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और प्रासंगिक नियमों को लागू नहीं होगी। प्रतिभूतियों एक निक्षेपागार में से निपटा लिए, कंपनी तुरंत ऐसी प्रतिभूतियों के आवंटन पर निक्षेपागार के लिए प्रतिभूतियों के आवंटन के विवरण की सूचना देगा।

20. सदस्यों हेतु प्रमाण-पत्र का अधिकार

प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ग या संप्रदाय उसके नाम पर पंजीकृत के सभी शेयरों के लिए बहुत सारी विक्रेय में एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र के लिए भुगतान के बिना हकदार होगा या, यदि निदेशक इसलिए निदेशक विवेक के बिना पर इस तरह के शुल्क या शुल्क या भुगतान करने के बाद (मंजूरी निदेशक सकता है समय-समय पर निर्धारित) प्रत्येक वर्ग के एक या एक से अधिक शेयरों के लिए प्रत्येक कई प्रमाण पत्र के रूप में फीस का भुगतान। शेयरों का हर प्रमाण पत्र इस तरह के ब्यौरे शामिल करेगा और, के रूप में कंपनियों (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014, के रूप में संशोधन या प्रतिस्थापन या उसके संशोधन में किसी भी अन्य नियमों द्वारा निर्धारित इस तरह के रूप में हो जाएगा। जो सदस्य शेयरों अपनी होल्डिंग में

शामिल का एक हिस्सा स्थानांतरित कर दिया है कि वह बिना किसी आरोप के संतुलन के लिए एक प्रमाण पत्र का हकदार होगा।

21. विरूपित एक के स्थान पर नया प्रमाण पत्र के मुद्दे के रूप में, खो दिया है या न'ट कर दिया

(1) एक प्रमाण पत्र नए सिरे से किया जा सकता है या एक प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि अवधि लागू कानून के तहत निर्धारित भीतर जारी किया जा सकता है, तो (क) इस तरह के प्रमाण पत्र (ओं) खो गया है या न'ट कंपनी की और नि'पादन पर संतुष्टि के लिए साबित कर दिया है इस तरह के क्षतिपूर्ति कंपनी के रूप में पर्याप्त समझे, या (ख) विरूपित कर दिया गया या विकृत या फटे या बाहर पहना या बेचान या के लिए वापस उसके पर आगे कोई स्थान नहीं है, की

हस्तांतरण, पी आर ओ डी यू सी ई एन डी डी कंपनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। प्रत्येक

इस अनुच्छेद के तहत प्रमाण पत्र यदि फीस के भुगतान पर जारी किया जाएगा।

निदेशक इसलिए तय है, या इस तरह की फीस के भुगतान पर (प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए रुपये से अधिक न हो। 50) के रूप में निदेशक निर्धारित करेगा।

(2) मुद्दा या एक प्रमाण पत्र या डुप्लिकेट का मुद्दा क्या है के नवीकरण के तरीके, एक प्रमाण पत्र के रूप (मूल या नए सिरे से) या एक नकली क्या है, विवरण के सदस्यों के रजिस्टर में या रजिस्टर या में प्रवेश किया जा करने के लिए नए सिरे से या डुप्लिकेट प्रमाण पत्र, ऐसे रजिस्ट्रों का रूप है, भुगतान पर शुल्क जिनमें से नियमों और शर्तों को जिस पर एक प्रमाण पत्र के नवीकरण किया जा सकता है या एक डुप्लिकेट उसके जारी किया जा सकता है, इस तरह के रूप में इस अधिनियम द्वारा निर्धारित नियमों और उसके अधीन बनाए गए, किया जाएगा नियम या विनियम या किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, एससीआर अधिनियम और या किसी अन्य अधिनियम या नियम इस संबंध में लागू की आवश्यकताओं।

प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित पूर्वगामी लेख के प्रावधानों आवश्यक परिवर्तनों सहित डिबेंचर (जहां अधिनियम से अन्यथा अपेक्षित छोड़कर) सहित किसी भी अन्य प्रतिभूतियों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लागू नहीं होगी।

कॉल्ल्स

22. कॉल

निदेशक हो सकता है, समय-समय पर इस तरह के कॉल के रूप में वे परिस्थितियों से क्रमश और न उनके द्वारा धारित शेयरों पर बकाया सब पैसा के संबंध में सदस्यों पर फिट लगता है के आवंटन उसके तय समय पर देय कर, और प्रत्येक सदस्य करेगा इसलिए व्यक्ति के लिए और समय और स्थानों निदेशकों द्वारा नियुक्त पर उस पर किए गए हर कॉल की राशि का भुगतान। एक कॉल किस्तों में देय बनाया जा सकता है।

23. कॉल की सूचना

एक कॉल समय में किया गया है जब इस तरह के निदेशक कॉल अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और ऐसी तारीख पर या के रूप में इस तरह के बाद की तारीख पर निदेशक के विवेक पर सदस्यों के रजिस्टर पर सदस्यों द्वारा देय बनाया जा सकता समझा जाएगा निदेशक द्वारा तय किया जाएगा।

24. हर कॉल के चौदह दिन से कम नहीं सूचना प्रदान की है कि इस तरह के निदेशक फोन के भुगतान के लिए समय, सदस्यों को लिखित में सूचना हो सकता है इससे पहले, एक ही रद्द कर भुगतान के समय निर्दिष्ट करने दी जाएगी।

25. बोर्ड के समय का विस्तार कर सकते हैं

निदेशक सकता है समय-समय पर उनके विवेक पर, समय किसी भी फोन के भुगतान के लिए तय बढ़ाने और बचाने के अनुग्रह के एक मामले के रूप में सभी या सदस्यों जिसे निदेशक इस तरह के विस्तार के हकदार समझे के किसी भी रूप में इस तरह समय का विस्तार कर सकते हैं और एहसान।

26. संयुक्त धारकों की देयता

एक शेयर के संयुक्त धारकों संयुक्त और पृथक उसके संबंध में सभी कॉल्ल्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

27. राशि तय समय पर देय या कॉल के रूप में किस्तों द्वारा

किसी भी शेयर या अन्यथा किसी भी राशि के मुद्दे के संदर्भ द्वारा अंकित मूल्य के या प्रीमियम के माध्यम से अकाउंट में तय समय पर किसी भी निश्चित समय पर या किस्तों में देय किया जाता है, या नहीं, हर तरह की राशि या किस्तों के रूप में अगर देय होगा यह थे एक कॉल विधिवत निदेशकों द्वारा और जो कारण सूचना का बना दिया गया है और सभी प्रावधानों के साथ साथ कॉल के संबंध में निहित तदनुसार ऐसी राशि या किस्तों से संबंधित होगा।

28. जब कॉल या किस्त देय ब्याज पर
योग किसी भी कॉल या किस्त के संबंध में देय पर या जा रहा है या संबंध में हिस्सेदारी के आवंटी समय के लिए धारकों जिनमें से एक कॉल किए गए हैं जाएगा या किस्त की वजह से हो जाएगा उसका भुगतान के लिए नियत दिन से पहले भुगतान नहीं किया तो इस तरह के दर पर उसी पर ब्याज का भुगतान करेगा के रूप में निदेशक वास्तविक भुगतान के समय के लिए उसके भुगतान के लिए नियत दिन से समय-समय पर तय करेगा, लेकिन निदेशक पूरी तरह या आंशिक इस तरह के ब्याज के भुगतान माफ कर सकते हैं। एक कॉल रद्द या बोर्ड के विवेक पर स्थगित किया जा सकता है।
29. आंशिक भुगतान जब्ती में बाधा नहीं
न तो एक निर्णय है और न ही कॉल या अन्य किसी भी पैसा शेयरों न ही किसी भी पैसे का एक भाग की कंपनी द्वारा किसी भी भुगतान या उसके अधीन बनाए संतुष्टि और न ही रसीद जो करेगा समय समय पर से कारण हो के संबंध में कारण के लिए कंपनी के पक्ष में एक फरमान किसी भी शेयरों के संबंध में सदस्य या तो मूलधन या ब्याज न ही किसी भी पैसे के भुगतान के संबंध में कंपनी द्वारा दी गई इस तरह के शेयरों की जब्ती के रूप में इस के साथ साथ उपलब्ध कराया जाएगा रोकना किसी भी भोग के माध्यम से।
30. कॉल ब्याज ले सकते हैं की प्रत्याशा में भुगतान
निदेशक, उन्हें लगता है कि अगर मई फिट (अधिनियम के प्रावधानों के अधीन) के लिए सहमत हैं और किसी भी सदस्य एक ही पूरे या रकम वास्तव में के लिए बुलाया पर उसके द्वारा धारित शेयरों पर कारण धन के किसी भी हिस्से अग्रिम करने के लिए तैयार से प्राप्त और पैसे की रकम तो भुगतान या अग्रिम में संतुष्ट या इतना तत्संबंधी के रूप में समय-समय पर तो जिसके संबंध में इस तरह के अग्रिम के रूप में इस तरह के दर पर ब्याज का भुगतान कर सकते कंपनी बना दिया गया है के शेयरों पर किए गए कॉल की राशि से अधिक पर सदस्य अग्रिम में ऐसी राशि का भुगतान और निदेशकों पर सहमत और निदेशकों को किसी भी समय राशि इतनी ऐसे सदस्य को लिखित रूप में एक महीने का नोटिस को देने पर उन्नत चुकाने कर सकते हैं बशर्ते कि शेयरों पर कॉल की अग्रिम भुगतान की धनराशि ब्याज ले लेकिन लाभांश का अधिकार प्रदान नहीं करेगा या मुनाफे में भाग लेने के लिए कर सकते हैं।
कोई भी सदस्य अग्रिम में किसी भी तरह के राशि का भुगतान पैसे की रकम तो एक ही होगा जब तक है, लेकिन इस तरह के भुगतान वर्तमान में देय हो के लिए उसके द्वारा भुगतान के संबंध में मतदान के अधिकार का हकदार होगा। इस अनुच्छेद के प्रावधानों आवश्यक परिवर्तनों सहित कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों पर कॉल करने के लिए लागू नहीं होगी।
31. सदस्यों की सदस्यता के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है जब तक सभी कॉल्स भुगतान कर रहे हैं
कोई भी सदस्य किसी भी लाभांश, ब्याज और खर्च के साथ प्राप्त या एक सदस्य के रूप में किसी भी विशेषाधिकार व्यायाम जब तक वह किसी भी व्यक्ति के साथ, कारण और उसके द्वारा हर शेयर पर देय जा रहा है कि क्या अकेले या संयुक्त रूप से समय से सभी कॉल्स का भुगतान किया है जाएगा करने का हकदार होगा यदि कोई।
32. कॉल या किस्त का भुगतान नहीं किया तो नोटिस दिया जाना चाहिए
किसी भी सदस्य किसी भी शेयरों के संबंध में होने के कारण पूरे या किसी भी फोन या किसी भी पैसे की किस्त के किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो या तो पर या एक ही निर्देशकों के भुगतान के लिए नियत दिन से पहले प्रिंसिपल या ब्याज के रूप में किसी भी समय उसके बाद हो सकता कॉल या किस्त या उसके या अन्य पैसा बकाया रहने या एक निर्णय या संबंध में डिब्री उसके पूरे या हिस्से में असंतुष्ट रहता है ऐसे सदस्य या व्यक्ति (अगर कोई है) साझा करने के हकदार पर एक नोटिस की सेवा किसी भी हिस्से के रूप में इस तरह के समय के दौरान ट्रांसमिशन द्वारा उसे जरूरत इस तरह के कॉल या किस्त या उसके ऐसे हिस्सा या अन्य धनराशि का भुगतान करने के रूप में एक साथ रहने के अवैतनिक किसी भी हित में है कि उपार्जित कर दिया है और सभी खर्चों (कानूनी या अन्यथा) है कि इस तरह के गैर की वजह से भुगतान किया गया हो सकता है या खर्च कंपनी द्वारा साथ —भुगतान।
33. सूचना का रूप
सूचना एक दिन के नोटिस का दिन और जगह या पर और जो इस तरह के कॉल या किस्त या इस तरह के भाग या पूर्वोक्त और इस तरह के ब्याज के रूप में अन्य धन और खर्च के रूप में उक्त भुगतान किया जाना है पर स्थानों से कम से कम चौदह दिन नहीं होने के नाम करेगा। नोटिस में यह भी बताया जाएगा कि कम से या समय से पहले और स्थान पर भुगतान न करने की स्थिति में जिसके संबंध में फोन किया गया था या किस्त देय जब्त कर लिया जा करने के लिए जिम्मेदार हो जाएगा में हिस्सेदारी नियुक्त किया है।
34. भुगतान शेयरों के डिफॉल्ट में जब्त कर लिया जा करने के लिए
अगर ऐसी कोई नोटिस के रूप में पूर्वोक्त, के साथ पालन नहीं कर रहे हैं की मांगे संबंध में शेयरों की जो इस तरह की सूचना उसके संबंध में कारण हो सकता दिया गया है किसी भी समय उसके बाद सभी कॉल्स या किस्तों, ब्याज और खर्च या पैसे के भुगतान से पहले के किसी भी, प्रभाव के निदेशक संकल्प द्वारा जब्त किया। इस तरह की जब्ती सभी लाभांश जब्ती शेयरों के संबंध में घोषित किया है और वास्तव में जब्ती से पहले भुगतान नहीं, अधिनियम के अधीन शामिल होगा।

35. सदस्यों के रजिस्टर पर जब्ती की एंट्री
किसी भी साझा करें ताकि तारीख उसके सदस्यों के रजिस्टर में किया जाएगा साथ जब्ती की एक प्रवेश जब्त किया गया है जाएगा है।
36. जब्त शेयरों कंपनी की संपत्ति होने के लिए और आदि बेचा जा सकता है
इसलिए जब्त कर किसी भी शेयर या उसके इस तरह के शब्दों पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए और इस तरह के तरीके के रूप में निदेशक फिट लगता करेगा मूल धारक को या तो की अन्यथा निपटारा कंपनी की संपत्ति होना समझा जाएगा और तमससवजजमक बेचा जा सकता है या।
37. जब्ती रद्द करने की शक्ति
निदेशक इसलिए जब्त कर ली जाएगी, बेच दिया गया है तमससवजजमक या अन्यथा का निपटारा किसी भी शेयर से पहले किसी भी समय, ऐसी शर्तों पर उसके जब्ती रद्द रूप में वे फिट सोच सकते हैं।
38. अभी भी उत्तरदायी शेयरधारकों पैसे के कारण भुगतान करने की जब्ती और ब्याज के समय
किसी भी सदस्य के शेयर जिसका जब्त कर लिया गया है, जब्ती के होते हुए भी, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और झट से कंपनी के सभी कॉल, किश्तों, ब्याज, खर्च और अन्य पैसा एक साथ जब्ती के समय पर या ऐसे शेयरों के संबंध में कारण के लिए भुगतान करेगा भुगतान जब तक जब्ती के समय से ब्याज, ऐसी दरों के रूप में निदेशकों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और निदेशकों पूरा का भुगतान या एक भाग को लागू कर सकते हैं अगर वे फिट लगता है, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगी, पर साथ। ऐसे व्यक्ति का दायित्व समाप्त हो जायेगा और यदि जब्त कंपनी के शेयरों के संबंध में इस तरह के सभी पैसा का पूरा भुगतान प्राप्त होगा।
39. शेयर/ डिबेंचर्स पर कंपनी का अधिकार
कंपनी ने अपनी पूरी तरह से भुगतान के शेयरों पर कोई धारणाधिकार होगा। आंशिक रूप से चुकता शेयर ६ डिबेंचर, प्रत्येक सदस्य के नाम पर पंजीकृत है (चाहे पूरी तरह से या संयुक्त रूप से एक या दूसरों के साथ) के मामले में और कंपनी उसके बिक्री की आय पर एक पहले और सर्वोपरि धारणाधिकार सब पैसा ही के लिए बुलाया होगा या देय (चाहे वह वर्तमान में देय या नहीं) ऐसे शेयरों ६ डिबेंचरों के संबंध और किसी भी हिस्से में कोई न्यायसंगत हित में एक निश्चित समय में स्तर और शर्त यह है कि इस अनुच्छेद पूरा प्रभाव पड़ेगा पर छोड़कर बनाया जा जाएगा। ऐसी कोई भी धारणाधिकार सभी लाभांश के लिए विस्तार करेगा, समय-समय पर, और बोनस ऐसे शेयरों ६ अधिनियम के अधीन डिबेंचर के संबंध में घोषणा की। जब तक अन्यथा पंजीकरण सहमति
शेयरों के हस्तांतरण के ६ डिबेंचर कंपनी का धारणाधिकार की छूट के रूप में काम करेगा, यदि कोई हो, ऐसे शेयरों ६ डिबेंचरों पर। बशर्ते कि बोर्ड किसी भी समय किसी भी शेयर घोषणा कर सकती है पूरी तरह या आंशिक इस खंड के प्रावधानों से मुक्त होने के लिए।
40. बिक्री से धारणाधिकार को लागू करने के लिए के रूप में
ऐसे धारणाधिकार निदेशक ऐसे ढंग से वित्त बहां शेयरों को बेचने के रूप में वे फिट लगता है कि लागू करने के प्रयोजन है, लेकिन कोई बिक्री के लिए सम्मान है जो की धारणाधिकार मौजूद है जब तक निश्चित राशि का बनाया जा वर्तमान में देय है और न ही करने के इरादे के बारे में लिखित रूप में सूचना तक है बेचने के ऐसे सदस्य या व्यक्ति (अगर कोई है) का हिस्सा है और मूलभूत में संचरण द्वारा हकदार होगी राशि वर्तमान में इस तरह की सूचना के बाद सात दिनों के लिए देय के भुगतान में उसके द्वारा बनाया गया है पर परोसा गया है जाएगा।
41. बिक्री से होने वाली आय का उपयोग
जिसका धारणाधिकार अब तक के रूप में ही वर्तमान में देय और अवशेषों है मौजूद है (अगर कोई है) का भुगतान इस तरह की बिक्री की लागत का भुगतान करने के बाद किसी भी तरह के बिक्री की शुद्ध आय में या सम्मान में ऋण या दायित्व की संतुष्टि की दिशा में लागू किया जाएगा सदस्य या व्यक्ति (यदि हो तो) के शेयरों इसलिए बेचा का संचरण करने का हकदार है।
42. जब्त करने के प्रमाणपत्र
लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र किसी भी निदेशक, प्रबंधक या कंपनी के सचिव के हाथों के तहत एक शेयर के संबंध में फोन किया गया था, और शेयर को जब्त किया गया था, उसे असरदार बनाने के लिए निदेशकों के द्वारा संकल्प किया गया और ऐसा निर्णय लिया गया है की जितने व्यक्ति शेयर के लिए मान्य थे उन सभी के विरुद्ध निर्णायक सबूत लिया जायेगा।
43. क्रेता का शीर्षक और जब्त शेयरों का आवंटन
कंपनी ये विचार कर सकती है अगर कोई शेयर बेचने या दोबारा आवंटन के लिए दिया जाता है या अन्य कोई प्रावधान, उस व्यक्ति को जिसे वह शेयर बेचा गया दोबारा आवंटित किया गया या फिर दे दिया गया उसे शेयरहोल्डर के रूप में पंजीकृत

किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर विचार करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए अगर कोई कार्यवाही हो उस सन्दर्भ में जब्ती, बिक्री, फिर से आवंटन या शेयर के अन्य निपटान से उसके शेयर के खिताब पर अनियमितता और आमन्यता होने पर भी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और किसी व्यक्ति मनुष्य के लिए नुक्सान का उपाय विशेष रूप से कंपनी के खिलाफ किया जायेगा।

44. जब्ती प्रावधानों के आवेदन

यह प्रावधान जब्ती के रूप में प्रस्तुत करते हैं, किसी भी राशि का भुगतान न करने के मामले में जो एक शेयर जारी करने की शर्तों के द्वारा एक निश्चित समय पर देय हो, जो एक ही बार में दिया गया था जो की एक कॉल के द्वारा विधिवत बनाया गया और अधि सूचित है।

शेयरों का हस्तांतरण और संचरण

45. हस्तांतरण के रूप

किसी भी शेयर का हस्तांतरण लिखित रूप में धारा 56 के तहत में किया जाएगा।

46. हस्तांतरण के साधन के निष्पादन

हस्तांतरण के हर तरह के साधन अंतरणकर्ता और अंतरिती दोनों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा अंतरणकर्ता तब तक ऐसे शेयर का होल्डर रहेगा जब तक अंतरिती का नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाये।

47. कंपनी, अंतरणकर्ता और अंतरिती को अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

48. स्थानांतरण का साधन शीर्षक का सबूत के साथ प्रस्तुत करने के लिए

हर हस्तांतरण का साधन कंपनी के लिए विधिवत निष्पादन की तिथि के साठ दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए मुहर लगाकर प्रस्तुत किया जायेगा और इतना कम समय जैसा बताया गया है दिए गए कानून के तहत, रिश्तेदार शेयर प्रमाणपत्र और इस तरह के सबूत जैसे की बोर्ड को अपने हस्तांतरण के अधिकार को शेयर्स को हस्तांतरण करने के लिए और आम तौर पर ऐसे हालातों में और ऐसे नियमों में जैसा की बोर्ड समय समय पर लिखित रूप में देता है और हर पंजीकृत साधन कंपनी के अधिकार में रहेगा जब तक की बोर्ड के निर्देशकों की आज्ञा से नष्ट न किया जाये कंपनी के कानून के तहत।

49. मृतक सदस्य के शेयरों का शीर्षक

निष्पादकों या प्रशासकों या एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र धारकों या मृतक के कानूनी प्रतिनिधि (जो दो में से एक न हो या संयुक्त या अधिक संयुक्त होल्डर्स) वही व्यक्ति मान्यता प्राप्त होंगे जिसके पास पंजीकृत शेयर्स का कोई शीर्षक होगा कंपनी इस तरह के एक्सेक्यूटर्स प्रतिनिधियों प्रशासकों या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या कानूनी धारकों को पहचानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, या जब तक उनके पास कि पहले प्रोबेट या प्रशासन का पत्र प्राप्त या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या अन्य कानूनी प्रतिनिधित्व न हो ऐसा केस भारत

संघ में विधिवत गठित अदालत में हो सकता है, बशर्ते कि अपनी पूर्ण विवेक से किसी भी मामले में जहां बोर्ड में ठीक समझे, बोर्ड प्रोबेट या पत्र के उत्पादन के साथ डिस्पेंसेस कर सकता है। प्रशासन या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, के रूप में इस तरह के शब्दों पर की क्षतिपूर्ति या अन्यथा बोर्ड के रूप में, अपने पूर्ण विवेक में सोच सकते हैं। आवश्यक और अनुच्छेद 51 के तहत किसी भी व्यक्ति का नाम रजिस्टर कौन बिल्कुल शेयरों के नाम में खड़ा करने का हकदार होने का दावा एक सदस्य के रूप में मृतक के सदस्य।

50. दिवाला या शेयरों के एक या एक से अधिक संयुक्त धारकों के परिसमापन

दिवाला या एक या एक से अधिक व्यक्तियों के परिसमापन के मामले में किसी भी शेयर के संयुक्त-धारकों के सदस्यों के रजिस्टर में नाम शेष धारक या धारकों केवल व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाएगा। बचे हुए धारक या धारकों केवल वे लोग होंगे जो कंपनी के द्वारा पहचाने जायेंगे जिनके पास कोई शीर्षक होगा कोई रूचि होगी ऐसे शेयर में लेकिन संपत्ति के जारी करने के निहित यहाँ कुछ भी नहीं लिया जाएगा जो

आयोजित शेयरों से दिवालिया है या परिसमापन के तहत व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।

51. ऐसे व्यक्तियों का पंजीकरण जो हस्तांतरण के अलावा हकदार हैं

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसा व्यक्ति जो उन शेयर्स का हकदार बनता है मौत, पागलपन, दिवाला, दिवाले के परिणामों में शेयर या किसी भी सदस्य के परिसमापन, किसी भी नियम के तहत के अलावा हस्तांतरण द्वारा इस अधिनियम के तहत के ऐसे सबूत दिए जा सकते हैं जो समय समय पर बोर्ड और लेख द्वारा दिए गए हैं चुने गए हैं या; (क) खुद के धारक के रूप में पंजीकृत करके भाग्य या (ख) मृतक के रूप में या शेयर के इस तरह के हस्तांतरण बनाने के लिए दिवालिया सदस्य बनाया जा सकता था। बोर्ड करेगा, हर मामले में बोर्ड को सामान अधिकार है पंजीकरण को निलंबित और रद्द करने का

ऐसा किया जा सकता है अगर मृत्यु या दिवालिया सदस्य नें अपना शेयरमृत्यु या दिवालिया पत्र से पहले स्थानांतरित कर दिया हो फिर भी, उसके संबंध के लिए प्रदान की जाती है कि वह व्यक्ति जो अपने उम्मीदवार का चुनाव और पंजीकरण करेगा। पद के पक्ष में निष्पादन के द्वारा अपने उम्मीदवार के चुनाव की गवाही देगा प्रावधानों के अनुसार पद के उम्मीदवार के हस्तांतरण के साधन यहाँ निहित है, और जब तक वह ऐसा करता है, वह किसी भी शेयर्स की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जाएगा।

52. हस्तांतरण या प्रसारण पर शुल्क

कोई शुल्क हस्तांतरण, संचरण पर कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और पत्र प्रशासन, मृत्यु का प्रमाण पत्र या शादी, वकील या इसी तरह के अन्य दस्तावेज की शक्ति।

53. स्थानान्तरण के रजिस्टर रखा जाना

कंपनी एक किताब रखेगी जो स्थानांतरण के रजिस्टर के नाम से जानाजायेगा और उसमें काफी और साफ तौर पर दर्ज किया जाएगा हर के ब्यौरे हस्तांतरण या किसी भी शेयर का संचरण।

54. हस्तांतरण पुस्तकों को बंद किया जाना

बोर्ड में कम से कम सात दिन देने की शक्ति होगी श, या इस तरह के कम अवधि के रूप में लागू कानून, पूर्व सूचना के तहत निर्धारित किया जा सकता है, इस तरह के तरीके के रूप में विज्ञापन से कम से कम एक बार, निर्धारित किया जा सकता जिले के प्रिंसिपल स्थानीय भाषा में स्थानीय भाषा के अखबार और जगह में एक व्यापक प्रचलन होने जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय हो एक अंग्रेजी अखबार में अंग्रेजी भाषा जो जिले में बहुत अधिक बांटा जाता हो जहाँ पर कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है और सूचना प्रकाशित किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा और वेबसाइट पर अधिसूचित किया जा सकता वेबसाइट कंपनी के सदस्य ट्रांसफर खातों को बंद करने के लिए, रजिस्टर या ऐसे समय या समय पर और ऐसी अवधि के लिए डिबेंचर धारकों के रजिस्टर या अवधि के लिए एक बार में तीस दिन से अधिक नहीं है और कुल में से पैंतालीस दिन, या इस तरह के कम अवधि के रूप में के तहत निर्धारित किया जा सकता लागू कानून, प्रत्येक वर्ष में यह समीचीन समझे।

55. निदेशक स्थानान्तरण रजिस्टर करने के लिए मना कर सकते हैं

अधिनियम के प्रावधानों, इन लेखों, के रूप में संशोधन, और किसी के अधीन अन्य लागू कानून, बोर्ड, अपनी पूर्ण और अनियंत्रित पर विवेक के किसी भी सत्ता के अनुसरण में है कि क्या कारण के साथ मना कर सकें

इन लेख या अन्यथा के तहत कंपनी के रजिस्टर या स्वीकार करने के लिए के हस्तांतरण, या अधिकार के कानून के आपरेशन के द्वारा प्रसारण के लिए, किसी भी शेयर, पूरी तरह से भुगतान किया जाए या नहीं, या उसमें एक सदस्य के हित, या कंपनी, और इनकार के अधिकार के डिबेंचर, प्रभावित नहीं किया जाएगा हालात है कि प्रस्तावित अंतरिती पहले से ही एक सदस्य है द्वारा कंपनी लेकिन इस तरह के मामलों में, और कंपनी तीस दिनों के भीतर करेगा या इस तरह के कम अवधि के रूप में लागू कानून के तहत निर्धारित किया जा सकता है, से जिस तारीख को हस्तांतरण के साधन, या इस तरह की सूचना ट्रांसमिशन, जैसा भी मामला हो, कंपनी को दिया गया था, हो सकता है भेजने अंतरिती करने से इनकार और अंतरणकर्ता या व्यक्ति का नोटिस इस तरह के प्रसारण की सूचना दे रही है, जैसा भी मामला हो सकता है।

बशर्ते कि एक हस्तांतरण के पंजीकरण पर इनकार नहीं किया जाएगा अंतरणकर्ता के मैदान या तो अकेले या संयुक्त रूप से किसी अन्य के साथ किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों अकाउंट में कंपनी को ऋणी जो भी है, जहाँ कंपनी के शेयर पर एक धारणाधिकार है छोड़कर में स्थानांतरण जो भी बहुत से इनकार कर दिया नहीं किया जाएगा।

56. कानून के आपरेशन के द्वारा संचरण के माध्यम से शेयरों के लिए विशेषाधिकार

अनुच्छेद 48 में निहित कुछ नहीं के किसी भी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव करेगा कंपनी के शेयरधारक के रूप में करने के लिए किसी भी व्यक्ति को रजिस्टर करने के लिए जिसे किसी भी करने के लिए सही कंपनी के शेयरों में कानून के आपरेशन के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

57. कानूनी प्रतिनिधि द्वारा स्थानांतरण

एक मृतक की कंपनी में शेयर या अन्य हित का स्थानांतरण कानूनी प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, हालांकि कानूनी प्रतिनिधि खुद एक सदस्य नहीं है, वह एक सदस्य है अगर वह गया था एक हस्तांतरण के साधन के निष्पादन के समय।

58. कंपनी का हस्तांतरण मना करने की शक्ति

इनमें से कुछ भी नहीं कंपनी की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और कंपनी के प्रावधानों के अधीन किसी भी शेयरों के हस्तांतरण रजिस्टर करने के लिए मना अधिनियम, इन लेखों, के रूप में संशोधन।

59. अंतरणकर्ता उत्तरदायी तक अंतरिती रजिस्टर पर दर्ज किया

अंतरणकर्ता जब तक इस तरह के शेयरों के धारक रहने के लिए समझा जाएगा अंतरिती के नाम पर सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है उसका सम्मान करते हैं।

60. हस्तांतरण के कस्टडी

हस्तांतरण का साधन पंजीकरण के बाद से रखा जाएगा कंपनी और उसके कस्टडी में रहेंगे। हस्तांतरण के सभी उपकरणों जो निर्देशक रजिस्टर करने के लिए मांग पर करने के लिए वापस आ जाएगा गिरावट हो सकती है निदेशक सभी हस्तांतरण साधनों को तबाह कर सकते हैं जो कंपनी के साथ झूठ बोल कर की गयी हैं।

61. एक नोटिस की उपेक्षा के लिए. कंपनी जिम्मेदार नहीं

कंपनी कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं लेती है जो कुछ भी उनके पंजीकरण के परिणाम या शेयरों के किसी भी हस्तांतरण करने के लिए दे रही है प्रभाव बनाया या उसके स्पष्ट कानूनी मालिक द्वारा किए जाने के लिए तात्पर्यित (जो सदस्यों के रजिस्टर में दिखाया गया या या प्रदर्शित किया गया) व्यक्तियों के हितों के प्रतिकूल या करने के लिए या में किसी भी न्यायसंगत सही शीर्षक या ब्याज का दावा एक ही शेयरों के बावजूद है कि कंपनी के नोटिस था हो सकता है। इस तरह न्यायोचित अधिकार शीर्षक या ब्याज या नोटिस में इस तरह के पंजीकरण पर रोक लगाने के हस्तांतरण और किसी में इस तरह के नोटिस में प्रवेश किया या बहां भेज सकता है कंपनी और कंपनी की पुस्तक बाध्य नहीं किया जाएगा या आवश्यक या संबंध या में भाग लेने या किसी भी सूचना है जो करने के लिए दिया जा सकता है को प्रभावी किसी भी

न्यायसंगत शीर्षक या ब्याज या उन्हें किसी भी दायित्व के तहत किया मना कर या ऐसा करने की उपेक्षा करते हैं, हालांकि यह हो सकता प्रवेश किया है या कर दिया गया है कंपनी के कुछ किताब में भेजा, लेकिन फिर भी कंपनी को करने की आजादी होगी संबंध और किसी भी तरह की सूचना के लिए भाग लेने और प्रभाव देने के लिए, अगर निदेशक को सही लगता होगा।

62. डिबेंचरों की स्थानांतरण

इन लेखों के प्रावधानों और यथोचित परिवर्तन सहित लागू आवंटन या हस्तांतरण के अधिकार का कानून द्वारा संचरण कंपनी के डिबेंचर।

63. (1) अंक, अधिग्रहण और सेबी के नियमों के अधीन शेयरों का अर्जन

इन लेखों में निहित करने के लिए कुछ होते हुए भी इसके विपरीत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) के प्रावधानों (स्टॉक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों) विनियम, 2012 या किसी भी संशोधन के सिवा, जैसा भी मामला हो सकता है, मुद्दा, अधिग्रहण के संबंध में लागू नहीं होगा और 26 कंपनी के इक्विटी शेयरों को होल्ड करना।

(2) हस्तांतरण पर प्रतिबंध

जैसा पूर्वगामी लेख में और पक्षपात के बिना प्रदान के रूप में लेख 55 के प्रावधानों के एक सदस्य के शेयर ट्रांसफर करने के लिए आजादी होगी। हालांकि बशर्ते कि बोर्ड अपनी राय में यदि हस्तांतरण मना कर सकते हैं

(क) हस्तांतरण कर सकते हैं प्रासंगिक सेबी परिपत्रों और निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार से अन्यथा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंजों और विलयरिंग निगमों) विनियम, 2012 या किसी भी संशोधन के सिवा, के रूप में मामला हो सकता है, या;

(ख) हस्तांतरण, अगर बनाया, कंपनी के हित में नहीं होगा।

शेयरों का स्टॉक में परिवर्तन

64. शेयरों का स्टॉक में परिवर्तन और पुनः परिवर्तन

निदेशक कंपनी के एक संकल्प की मंजूरी के साथ सामान्य बैठक में शेयर में किसी भी चुकता शेयरों में परिवर्तित कर सकता और किसी भी संप्रदाय का पेड-अप शेयरों में अल एल या किसी भी शेयर में परिवर्तित कर सकता है जब किसी भी शेयर को स्टॉक में तब्दील कर दिया गया है, तब उस स्टॉक के कई धारक उनके संबंधित हितों को उसमें शेयर के किसी भी भाग किसी भी तरीके किसी भी अधिनियम में पूरी तरह से चुकता किया शेयर कंपनी की पूंजी में हस्तांतरित परिस्थित के अनुसार किया जा सकता है।

65. शेयरधारकों के अधिकार

शेयर क्रमशः उसके धारकों को वही लाभ प्रदान करेगा जब कंपनी विशेषाधिकारों और लाभ के रूप में कंपनी की बैठक में मतदान के संबंध और अन्य प्रयोजनों के लिए के रूप में बराबर के शेयरों से सम्मानित किया गया जायेगा शेयरों के रूप में एक ही श्रेणी की कंपनी की राजधानी में राशि जिसमें से इस तरह के शेयर में बदल जाती है लेकिन इतना है कि इस तरह के विशेषाधिकार से कोई भी या लाभ, कंपनी के या में मुनाफे में भागीदारी को छोड़कर समापन पर कंपनी की संपत्ति, किसी भी तरह के द्वारा सम्मानित किया जाएगा शेयरों के रूप में शेयरों में मौजूदा यदि नहीं होता है आवंटित शेयर का हिस्सा इस तरह के विशेषाधिकार या लाभ में सम्मानित किया गया।

इस तरह के प्रभावित या उस से जुड़ी किसी भी वरीयता या अन्य विशेष विशेषाधिकार पूर्वाग्रह शेयरों का रूपांतरण नहीं करेगा। उपयुक्त सभी प्रावधानों के साथ सहेजेंजैसे अब तक रूप में परिस्थित्यें होंगी स्टॉक और शेयर्स पर लागू होंगी।

पूँजी की वृद्धि कमी और परिवर्तन

66. पूँजी की वृद्धि

कंपनी समय-समय पर सामान्य बैठक में अपनी प्राधिकृत शेयर पूँजी बढ़ा सकती है और अधिक शेयर उन रशिओं पर देने पर जिन्हें वो फायदेमंद समझते हैं।

67. पूँजी का फिर से जारी करना

(1) जहां किसी भी समय बोर्ड या कंपनी में, आगे शेयर जारी द्वारा सदस्यता पूँजी बढ़ाने का प्रस्ताव जैसा भी मामला हो, हो सकता है, तो ऐसे शेयरों की धारा 62 के प्रावधानों को देने की पेशकश की जाएगी, विषय अधिनियम, नियम और उसके अधीन बनाए गए –

(क) (1) उन व्यक्तियों को जो पेशकश की तारीख में जो इक्विटी शेयर के धारक हैं उस अनुपात में कंपनी के शेयरों के रूप में परिस्थितियों के उन शेयरों पर चुकता शेयर पूँजी द्वारा की बात कबूल की

परिस्थितियों में (द्वितीय) के लिए उल्लेख करने के प्रस्ताव को विषय का एक पत्र भेज

(2) के (3) नीचे;

(2) ऊपर दिए गए प्रस्ताव में शेयर्स की संख्या निर्देश देगी 95 दिन की समय सीमा में और तीस दिन की अधिकतम सीमा में तिथि से प्रस्ताव देगी अगर उस समय में प्रस्ताव को नहीं माना गया तो वह समाप्त हो जायेगा

(3) ऊपर दिए गए प्रस्तावमें सही तरीके से उस व्यक्ति को पूर्वोक्त एक सही प्रयोग शामिल करने के लिए समझा जाएगा और उनमें से दूसरे व्यक्ति के लिए सूचना उप खंड में दी गयी है। उप-खंड में (पप) इस अधिकार में एक बयान होगा।

(4) नोटिस में निर्धारित समय की समाप्ति के बाद बाद और पहले की सूचना प्राप्त करने पर जिसे यह सूचना दी गया है यह व्यक्ति दिए गए शेयर को अस्वीकार कर सकता है निर्देशकों का बोर्ड उसे इस तरीके से बेच सकता है जिसमें कंपनी और शेयरहोल्डर का नुकसान न हो।

(ख) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) के प्रावधानों के अधीन (स्टॉक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों) विनियम, 2012 या किसी संशोधन के सिवा, कर्मचारियों के किसी भी योजना के तहत कर्मचारियों को विशेष संकल्प कंपनी और द्वारा पारित करने के लिए स्टॉक विकल्प के विषय नियम और इस तरह के अन्य शर्तों के अधीन, के रूप में निर्धारित किया जा सकता लागू कानून के तहत; या

(ग) किसी भी व्यक्ति (ओं) के लिए, यह एक विशेष संकल्प द्वारा अधिकृत है, तो चाहे या न उन व्यक्तियों व्यक्तियों खंड (ए) या खंड में निर्दिष्ट शामिल (बी) या तो नकदी के लिए या एक विचार नकदी के अलावा अन्य, अगर के लिए ऊपर ऐसे शेयरों की कीमत एक के मूल्यांकन की रिपोर्ट से निर्धारित होता है नीचे के रूप में निर्धारित किया जा सकता है इस तरह की स्थितियों के लिए पंजीकृत दाम लगानेवाला विषय

अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों।

(2) उप-खंड की कोई बात (पपप) खंड (1) (ए) का समझा जाएगा –

(1) समय के भीतर जो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाना चाहिए का विस्तार करने के लिए; या

(2) के लिए त्याग का अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करने के लिए जिसके पास त्याग का समझौता करने का अधिकार हो दूसरी बार इस आधार पर जिसके लिए त्याग का समझौता पहली बार आस्विकारित हो शेयर लेने के लिए त्याग का समझौता में ले सकता है

(3) इस अनुच्छेद की कोई सदस्यता ली हुई पूँजी की वृद्धि करने के लिए लागू नहीं होगी। एक विकल्प के द्वारा जारी किये गए डिबेंचर या कंपनी द्वारा उठाए गए ऋण को परिवर्तित करने के लिए डिबेंचर या शेयरों में ऋण कंपनी की सदस्यता के लिए कंपनी के शेयर:

परंतु ऐसा डिबेंचर या ऋण के मुद्दे के संदर्भ युक्त इस तरह के एक विकल्प के इस तरह के डिबेंचर जारी करने से पहले अनुमोदित किया गया है या एक विशेष प्रस्ताव एक में कंपनी द्वारा पारित द्वारा ऋण की स्थापना सामान्य बैठक।

(4) अनुच्छेद 67(3) में किसी बात के होते हुए भी करण, जहां किसी को भी डिबेंचर जारी किए गए हैं, या किसी भी ऋण से प्राप्त किया गया है कंपनी द्वारा सरकार, और कहा कि सरकार यह मानती है कि अगर

जनता के हित में आवश्यक ऐसा करने के लिए, यह हो सकता है, आदेश द्वारा, प्रत्यक्ष है कि इस तरह डिबेंचर या ऋण या उसके किसी भाग में शेयरों में परिवर्तित किया जाएगा। इस तरह के नियम और शर्तों पर कंपनी के रूप में सरकार को दिखाई मामले की परिस्थितियों में उचित होगा, भले ही के मामले

ऐसे डिबेंचर के मुद्दे या इस तरह के ऋण की स्थापना के लिए एक शब्द शामिल नहीं हैं। इस तरह के रूपांतरण के लिए एक विकल्प के लिए उपलब्ध कराने के लिए:

बशर्ते कि जहां नियमों और इस तरह के रूपांतरण की स्थिति नहीं हैं। कंपनी के लिए स्वीकार्य है, यह हो सकता है, की तिथि से साठ दिनों के भीतर इस तरह के आदेश का संचार, राष्ट्रीय कंपनी कानून के लिए अपील ट्रिब्यूनल जो करेगा कंपनी और सरकार के पास सुनने के बाद पास करेगा इस तरह के आदेश में इसे ठीक समझे।

शेयरों का एक और मुद्दे के रूप में किसी भी तरीके से किया जा सकता है बोर्ड द्वारा पेशकश को या निजी के माध्यम से सहित निर्धारित कर सकते हैं। नियुक्ति, और अधिनियम के अनुसार विषय और बनाए गए नियमों के अधीन।

68. आम बैठक के नियंत्रण के अधीन शेयर

इसके अलावा उसको तोड़े बिना और उद्देश्य पूरा करने के लिए शक्तियों से लेख 8 के तहत निदेशक को प्रदत्त में जनरल कंपनी अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों के अनुसार मई की बैठक में तय है कि किसी भी शेयर (की मूल पूंजी का हिस्सा बनाने के लिए कि क्या कंपनी या नहीं) (चाहे वह सदस्यों को ऐसे व्यक्तियों के लिए पेशकश की जाएगी या इस तरह के अनुपात में कंपनी के डिबेंचर या नहीं) के धारकों और इस तरह के नियम और शर्तों और या तो या एक प्रीमियम पर या बराबर पर पर (अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन) इस तरह आम बैठक के रूप में एक छूट का निर्धारण करेगा।

69. मूल पूंजी के रूप में भी

इसके सिवाय अब तक के रूप में अन्यथा इस मुद्दे का या इन शर्तों द्वारा प्रदान आगे शेयर जारी द्वारा उठाए गए किसी भी पूंजी माना जाएगा प्रस्तुतमूल पूंजी की और भाग यहाँ प्रावधानों के अधीन होगा

कॉल और किशतों के भुगतान के संदर्भ में निहित है, उसका स्थानांतरण और प्रसारण, जब्ती, धारणाधिकार, समर्पण, और अन्यथा मतदान।

70. पूंजी में कमी

विशेष संकल्प द्वारा समय-समय पर कंपनी ने अपनी पूंजी में अपनी हिस्सेदारी कम की (यदि कोई हो तो कैपिटल मुक्ति रिजर्व खाते भी शामिल हैं) जिस तरह से कानून द्वारा और विशेष रूप से अधिकृत किसी भी चुकता शेयर बंद का भुगतान कर सकते हैं उसी स्तर पर पूंजी है कि इसे फिर से या अन्यथा और अगर दोबारा से लिया जा सकता है, और अब तक के रूप में आवश्यक मात्रा को कम करने के द्वारा अपने ज्ञापन में परिवर्तन करके अपने हिस्से की शेयर पूंजी को घटाया जा सकता है।

71. डिवीजन और सब-डिवीजन

कंपनी सामान्य बैठक में साधारण संकल्प द्वारा अपना ज्ञापन बदल सकती है। अपने ज्ञापन की शर्तों के इस प्रकार है —

(क) शेयरों में सभी या अपनी शेयर पूंजी के किसी भी विभाजित मजबूत और बड़े अपने मौजूदा शेयरों की तुलना में राशि बशर्ते कि कोई समेकन और विभाजन जो शेयरधारकों के मतदान प्रतिशत में परिवर्तन में परिणाम होगा जब तक कि उस पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने मंजूरी दे दी है निर्धारित तरीके से किए गए एक आवेदन का प्रभाव होगा।

(ख) उप-विभाजित शेयर या उस से छोटी राशि के शेयरों में उनमें से किसी कोमूल रूप से करने के लिए फिर भी ज्ञापन विषय द्वारा तय करके उस निमित्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इन प्रस्तुत करने के लिए विषय संकल्प है जिसके द्वारा किसी भी शेयर उप-विभाजित के रूप में हैं निर्धारित कर सकते हैं कि इस तरह के उप-विभाजन एक या से उत्पन्न शेयर धारकों के बीच ऐसे शेयरों की अधिक किसी भी वरीयता या लाभ दिया जा सकता है याअन्यथा दूसरों या किसी अन्य ऐसे शेयरों पर भी।

(ग) रद्द शेयरों जो इस प्रकार की आम बैठक की तारीख में नहीं है ले लिया है या किसी भी व्यक्ति द्वारा ले लिया है और कम किए जाने की सहमति व्यक्ति की गई शेयरों की राशि इसलिए रद्द कर गयी।

संयुक्त धारकों

72. संयुक्त धारकों

जहां दो या अधिक व्यक्ति किसी भी शेयर धारकों के रूप में पंजीकृत हैं जिस व्यक्ति का पहले सदस्यों के रजिस्टर में नाम होगा उसे ही कंपनी विषय के साथ जुड़े मामलों के लिए एकमात्र धारक माना जायेगा

निम्न और अन्य लेख में निहित प्रावधानों:

(क) कंपनी चार से अधिक संयुक्त धारकों के रूप में व्यक्तियों को किसी भी शेयर की पंजीकृत करने से मना करने की हकदार होगी।

- (ख) किसी भी शेयर के संयुक्त धारक अलग-अलग रूप में अच्छी तरह से संयुक्त रूप से सभी कॉल्स और अन्य भुगतान के संबंध में जो किया जाना चाहिए। इस तरह के शेयर के संबंध में उत्तरदायी होंगे।
- (ग) ऐसे किसी भी संयुक्त धारकों की मृत्यु होने पर, उत्तरजीवी (ओं) केवल कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त साझा करने के लिए किसी भी शीर्षक होने के रूप में हो जाएगा, लेकिन निदेशक को उस व्यक्ति (यों) की मौत का सबूत की आवश्यकता हो सकती है और यहाँ निहित एक संयुक्त रूप साथ किसी अन्य व्यक्ति (यों) से उसके द्वारा धारित शेयरों पर किसी भी दायित्व से संयुक्त धारक मृतक की संपत्ति जारी करने के लिए कुछ भी नहीं लिया जाएगा।
- (घ) इस तरह के संयुक्त धारकों में से कोई एक किसी के लिए अमोघ प्राप्तियों दे सकता है लाभांश या अन्य पैसा इस तरह के शेयर के संबंध में देय होगा।
- (ङ) केवल व्यक्ति जिसका नाम के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में पहले लिखा होगा किसी भी शेयर की संयुक्त धारकों से एक की डिलीवरी करने का हकदार होगा इस तरह के शेयर या से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दस्तावेज (जो 188 अभिव्यक्ति सभी दस्तावेजों लेख में उल्लेख शामिल करने के लिए समझा जाएगा) कंपनी है और या दस्तावेजपर कार्य किसी भी सूचना से करने के लिए दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को सभी संयुक्त धारकों पर सेवा समझा जाएगा।
- (च) दो या अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक किसी भी बैठक में मतदान कर सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से या वकील या ऐसे शेयरों के संबंध में परोक्ष रूप से यदि वह पूरी तरह वहाँ हकदार थे और यदि इस तरह के संयुक्त धारकों के एक से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी भी बैठक में या परोक्ष रूप से या वकील से जिसका नाम पहले या उच्च खड़ा है (जैसा की ऐसे शेयरों के संबंध में रजिस्टर पर भी मामला हो) अकेले हो जाएगा उसके संबंध में मतदान करने के हकदार हैं, लेकिन दूसरे को या संयुक्त धारक की दूसरों वकील द्वारा उपस्थित एक संयुक्त धारक को वरीयता में मतदान करने का हकदार होगा या हालांकि इस तरह के संयुक्त वकील द्वारा वर्तमान धारकों के नाम पर परोक्ष रूप से या प्रपक्षी में रजिस्टर में पहली या उच्च (जैसा भी मामला हो) खड़ा है ऐसे शेयरों के संबंध।

उधार देने से संबंधित शक्तियां

73. शर्तों पर पैसा उधार लिया जा सकता है

अधिनियम, बोर्ड समय-समय पर एक उपबंध के अधीन, संकल्प बोर्ड की बैठक में पारित कर जमा स्वीकार या उधार धन के सदस्यों से, या तो कॉल के अग्रिम में या अन्यथा या स्वीकारजनता से जमा और आम तौर पर बढ़ाने के लिए और के भुगतान को सुरक्षित कर सकते हैं। इस तरह के योग या इस तरह के तरीके में और इस तरह के नियम और शर्तों पर रकम सभी मामलों में वे सही और बांड जारी करने से विशेष रूप से सोचने के रूप में, सदा या प्रतिदेय डिबेंचर या डिबेंचर या डिबेंचर शेयर, या किसी भी बंधक या शुल्क या उपक्रम या पूरे पर अन्य सुरक्षा या कंपनी की संपत्ति के किसी भी हिस्से (दोनों वर्तमान और भविष्य)

कुछ समय के लिए अपने अनपेक्षित धन भी शामिल है।

74. बांड, डिबेंचर आदि निदेशक के नियंत्रण के अधीन हो

किसी भी बांड, डिबेंचर, डिबेंचर शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जारी करने के लिए या कंपनी द्वारा जारी किया गया निदेशक के नियंत्रण के अधीन किया जाएगा उन्हें इस तरह के नियम और शर्तों पर और इस तरह के तरीके में जारी कर सकता है जो और इस तरह के विचार के लिए वे कंपनी के रूप में लाभ के लिए होने पर विचार करेगा।

75. सिक्क्योरिटीज इक्विटी से आबंटित मुक्त हो सकती हैं

डिबेंचर, डिबेंचर शेयर, बांड या अन्य सिक्क्योरिटीज आबंटित मुक्त और कंपनी के लिए और व्यक्ति के बीच इक्विटी जिसे एक डिस्काउंट, आदि पर या विशेष विशेषाधिकारों के साथ ही जारी किया जा सकता है।

76. डिस्काउंट, आदि पर या विशेष विशेषाधिकार के साथ मुद्दे

किसी भी बांड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या अन्य ऋण प्रतिभूतियों हो सकती हैं। एक डिस्काउंट, प्रीमियम पर या अन्यथा और पर जारी किया जा सकता शर्त यह है कि वे किसी भी संप्रदाय के शेयरों में परिवर्तनीय होंगे और मोचन, समर्पण, ड्राइंग, आवंटन के रूप में कोई विशेष विशेषाधिकार के साथ शेयरों की, कंपनी की आम बैठक में भाग लेने, नियुक्ति निदेशकों और में रूपांतरण के अधिकार के साथ अन्यथा डिबेंचर या

शेयरों के आवंटन में ही कंपनी की एक विशेष संकल्प द्वारा सामान्य बैठक में सहमति से जारी किया जाएगा।

77. अनावश्यक पूँजी के बंधक

कंपनी के किसी भी अनावश्यक पूँजी में शामिल या किसी ने आरोप लगाया है तो बंधक या अन्य सुरक्षा निदेशक में व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकते हैं जिसके पक्ष ऐसे बंधक या सुरक्षा निष्पादक या किसी अन्य भरोसे वाला व्यक्ति उसे इस तरह के अनावश्यक के संबंध में सदस्यों पर कॉल करने के लिए पूँजी और प्रावधानों के साथ साथ पहले फोन करने के संबंध में समाहित करेगा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस तरह के अधिकार और इस तरह के तहत किए गए कॉल करने के लिए

आवेदन प्राधिकारी या तो सशर्त या बिना शर्त प्रयोग किया जा सकता है और या तो वर्तमान या दैवयोग से और या तो का बहिष्कार करने के लिए बोर्ड की शक्ति है या नहीं तो और, आबंटित किया जाएगा यदि करने के लिए इतना व्यक्त हो सकता है।

78. क्षतिपूर्ति दी जा सकती है

यदि निदेशक या उनमें से कोई या किसी अन्य व्यक्ति राशि के भुगतान के लिए मुख्य रूप से कारण के लिए उत्तरदायी बन जाएंगे तो व्यक्तिगत रूप से किसी भी कंपनी के निदेशक द्वारा निष्पादित या किसी को भी क्रियान्वित किया जा सकता है बंधक, प्रभारी या निष्पादक या पूरे या के किसी भी भाग को प्रभावित

क्षतिपूर्ति के माध्यम से कंपनी की परिसंपत्तियों के निदेशकों को सुरक्षित करने के लिए या इसलिए इस तरह के व्यक्ति के संबंध में किसी भी नुकसान से उपरोक्त के रूप में उत्तरदायी बनने देयता।

79. आरोपों का रजिस्टर रखा जाना

बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी बंधक, डिबेंचर और आरोपों के विशेष रूप से कंपनी की संपत्ति को प्रभावित कर रहा है, और विधिवत अनुपालन करेगा और एक उचित रजिस्टर रखेगा पंजीकरण के संबंध में उक्त अधिनियम की आवश्यकताओं के साथ आरोप बनाने उपकरणों बंधक और शुल्क और निरीक्षण के संबंध में दिए जाने की लेनदारों या शुल्क और की प्रतियां के रजिस्टर के सदस्य के रूप में द्वारा निर्धारित किया जा सकता ऐसी रकम अधिनियम के एक लेनदार या सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति प्रभार के रजिस्टर में से प्रत्येक के निरीक्षण के लिए कंपनी द्वारा देय होगी बैठकों।

80. वार्षिक सामान्य बैठक

(क) (1) कंपनी, किसी भी अन्य बैठक के अलावा एक सामान्य बैठक धारण करेगी जिसे 'वार्षिक सामान्य बैठक' के रूप में माना जायेगा पर अंतराल और प्रावधानों, नीचे निर्दिष्ट के अनुसार:

(2) कंपनी की पहली वार्षिक सामान्य बैठक, करने के बाद वार्षिक सामान्य बैठक छह महीनों के भीतर कंपनी द्वारा आयोजित की जाएगी, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद के जो पहले जनरल बैठक का आयोजन किया गया थाय और उसके बाद कंपनी द्वारा हर साल आयोजित छह महीने के भीतर समाप्त होने के बाद एक वार्षिक सामान्य बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की जाएगी।

(3) वार्षिक सामान्य बैठक और अगली सामान्य बैठक की अवधि पन्द्रह महीनों से अधिक नहीं हो सकती है

(ख) प्रत्येक वार्षिक आम बैठक कारोबार के दौरान के समय में बुलाई जाएगी घंटे अर्थात् 9 से 6 के बीच तक हो सकती है और राष्ट्रीय विश्राम की छुट्टी वाले दिन नहीं हो सकती है यह वार्षिक आम बैठक नोटिस की बैठक बुला यह रूप में निर्दिष्ट करेगा और ये पंजीकृत कार्यालय में या कंपनी या शहर के भीतर कुछ अन्य जगह पर जहां पंजीकृत कार्यालय स्थित है आयोजित किया जाएगा।

81. असाधारण सामान्य बैठक

सभी सामान्य वार्षिक सामान्य बैठक के अलावा अन्य बैठकों के नाम से जाना जाएगा अतिरिक्त असाधारण सामान्य बैठक।

82. अतिरिक्त सामान्य बैठक के कॉलिंग

(क) बोर्ड जब भी वे ठीक समझे, कंपनी के सदस्यों की संख्या और सदस्यों की माँग पर झट से एक असाधारण आम बैठक बुला सकता है बोर्ड जब भी वे ठीक समझे, कंपनी के के रूप में इस तरह बाद में निर्दिष्ट करता है। झट से एक असाधारण सामान्य बैठक को बुला सकता है। कंपनी और ऐसी माँग निम्न प्रावधान करेगा के मामले में लागू करें:

(ख) माँग पर विचार करने के लिए मायने रखती है बाहर सेट करेगा जिनमें से बैठक के नाम से जाना जाता है और तमुनपेपजपवदपेजे द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कंपनी का पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाएगा।

(ग) माँग की तरह फार्म प्रत्येक में कई दस्तावेजों से मिलकर कर सकते एक या एक से अधिक तमुनपेपजपवदपेजे द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

(घ) कंपनी के सदस्यों की संख्या एक बैठक माँग के हकदार किसी भी मामले के संबंध में की तारीख में पकड़ के रूप में उनमें से इस तरह के नंबर हो जाएगा। प्रार्थना, चंपकनच की ऐसी की दसवां हिस्से से कम नहीं जमा की की तारीख में के रूप में कंपनी की राजधानी में मतदान का अधिकार रखती है उस बात के संबंध में।

(ई) जहां दो या अधिक विशिष्ट मामलों माँग में निर्दिष्ट कर रहे हैं, खंड (घ) के प्रावधानों के ऐसे प्रत्येक के संबंध में अलग से लागू नहीं होगी क्या बात है, और माँग के हिसाब से केवल के संबंध में मान्य होगा इस संबंध में उन मामलों के लिए जो शर्त यह है कि उप-अनुच्छेद में निर्दिष्ट पूरी हो जाती है।

(च) बोर्ड के जमा होने की तिथि से नहीं करता है तो इक्कीस दिनों के भीतर, किसी भी मामलों के संबंध में एक वैध माँग विधिवत आगे बढ़ना एक कॉल करने के लिए एक दिन पर उन मामलों पर विचार करने के लिए बैठक नहीं की तुलना में बाद माँग की जमा से पैंतालीस दिन, बैठक हो सकती है कहा जाता है और तमुनपेपजपवदपेजे द्वारा

आयोजित मूल्य में या तो बहुमत का प्रतिनिधित्व के रूप में चुकता शेयर उनमें से सभी या कम से कम एक दसवें द्वारा आयोजित की राजधानी कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के इस तरह के रूप में करने के लिए भेजा जाता है खंड (घ) जो भी कम हो, की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर माँग की। हालांकि, इस खण्ड बोर्ड करेगा के उद्देश्य में, एक बैठक के मामले, जिस पर एक संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है विशेष प्रस्ताव दे, ऐसी सूचना उसके रूप में कार्य के लिए आवश्यक है;

(छ) तमुनपेजपवदपेजे या उनमें से किसी ने एक बैठक के तहत खंड (घ) कहा जाता है:

- (1) एक ही तरीके से बुलाया जाएगा के रूप में लगभग रूप में संभव है कि के रूप में जो बैठकों बोर्ड द्वारा बुलाया जा रहे हैं, लेकिन
- (2) तारीख से तीन महीने की समाप्ति के बाद आयोजित नहीं किया जाएगा माँग की जमा कीय बशर्ते कि कुछ भी नहीं है में निहित इस उप-खंड (पप) एक बैठक विधिवत को रोकने के लिए समझा जाएगा
तीन महीने की अवधि की समाप्ति से पहले शुरू पूर्वोक्त, उस अवधि की समाप्ति के बाद कुछ दिन के लिए स्थगित से;

(ज) जहां दो या अधिक व्यक्तियों में किसी भी शेयर या ब्याज पकड़ संयुक्त रूप से कंपनी, एक प्रार्थना है, या एक नोटिस एक बैठक बुला रहा था, ने हस्ताक्षर किए एक या उनमें से कुछ ही करेगा, इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए है एक ही शक्ति और प्रभाव के रूप में अगर यह उन सभी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था।

- (1) किसी उचित खर्च की वजह से तमुनपेजपवदपेजे द्वारा किए गए बोर्ड की विफलता एक बैठक बुलाने के लिए के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी कंपनी द्वारा तमुनपेजपवदपेजे, और इसलिए किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी किसी भी रकम के बाहर कंपनी द्वारा बनाए रखा कारण या से कारण बनने के लिए शुल्क या करने के लिए उनकी सेवाओं के लिए अन्य पारिश्रमिक के माध्यम से कंपनी निदेशक के इस तरह के रूप में डिफॉल्ट में थे।

83. बैठक की सूचना

- (क) कंपनी की एक सामान्य बैठक लेखन में इक्कस दिन का नोटिस से कम नहीं देकर बुलाया जा सकता है;
- (ख) एक सामान्य बैठक तुलना में कम नोटिस देने के बाद बुलाई जा सकती है खंड में निर्दिष्ट (क) अगर सदस्यों की पंचानबे प्रतिशत सहमति लिखित रूप में दी है या इलेक्ट्रॉनिक मोड से दी है तो व: इस तरह की बैठक में मतदान करने के हकदार हैं।

केवल कुछ संकल्प को एक बैठक में और दूसरों पर नहीं ले जाया जा सकता है, उन सदस्यों को इस उप के प्रयोजनों के लिए खाते में रखा जाएगा पूर्व संकल्प या प्रस्तावों के संबंध में और नहीं संबंध में खंड के बाद।

84. सहमति और सूचना और व्यक्तियों की सेवा के तरीके जिस पर यह करने के लिए है

- (क) कंपनी के निर्देश में बैठक की हर जगह दिन और बैठक के घंटे, उस समय किए जाने वाले; व्यापार बयान होना चाहिए
- (ख) कंपनी की हर बैठक की सूचना दी जाएगी
 - (1) कंपनी के हर सदस्य के लिए, किसी भी कानूनी प्रतिनिधि मृतक के सदस्य या एक दिवालिया सदस्य की समनुदेशीय।
 - (2) कंपनी के हर निर्देशक के लिए तथा
 - (3) लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों के लिए समय के लिए किसी भी कंपनी के ढंग से किसी भी सदस्य के मामले में अधिनियम की धारा 20 द्वारा अधिकृत कंपनी के या सदस्यों में की जा रही है। चूक नोटिस बैठक में कार्यवाही रद्द करने के लिए नहीं देने के लिए।
- (ग) आकस्मिक चूक, को नोटिस या द्वारा सूचना न मिलने देने के लिए किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्ति बैठक में कार्यवाही अमान्य जिसे यह दी जानी चाहिए नहीं करेगा।

85. आम बैठक में व्यापार

- (क) एक वार्षिक सामान्य बैठक के मामले में सभी व्यापार किए जाने वाले व्यापार के अपवाद के साथ बैठक से संबंधितरु में विशेष समझा जाएगा,
 - 1) वित्तीय वक्तव्यों और की बोर्ड की रिपोर्ट के विचार निदेशकों और लेखा परीक्षकों;
 - 2) लाभान्श की घोषणा;
 - 3) उन अवकाश ग्रहण करने वाले के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति;
 - 4) की नियुक्ति और लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक फिक्सिंग।

- (ख) किसी अन्य बैठक के मामले में सभी व्यापार विशेष समझा जाएगा।
- (ग) जहां व्यापार के किसी भी आइटम की बैठक में किए जाने वाले हैं उपरोक्त के रूप में विशेष समझा, वहाँ नोटिस को कब्जे में लिया जाएगा एक बयान सभी सामग्री के प्रत्येक विषय में तथ्यों को बाहर स्थापित बैठक की व्यापार के इस तरह के आइटम, विशेष रूप से चिंता का विषय की प्रकृति सहित या ब्याज, यदि कोई हो, उसमें हर निदेशक और प्रबंधक, यदि कोई हो, हर की अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और इस तरह के निदेशक, प्रबंधक के रिश्तेदारों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को उपरोक्त के रूप में विशेष व्यापार के किसी भी मद है कि कंपनी की एक बैठक में सम्पादित करने के लिए संबंधित है, या किसी अन्य को प्रभावित करता है कंपनी की है परंतु जहां होना करने के लिए कि अन्य कंपनी में शेरधारिता ब्याज की हद हर निदेशक, प्रबंधक, यदि कोई हो, और हर दूसरे प्रमुख प्रबंधकीय कंपनी के कर्मियों को भी बयान करता है, तो में निर्धारित किया जाएगा इस तरह के शेरहोल्डिंग कि अन्य कंपनी की चुकता पूंजी। ब्याज की हद तक कम से कम दो प्रतिशत नहीं है।
- (घ) जहां व्यापार के किसी भी मद से किसी को अनुमोदन के अनुसार मिलकर बनता है बैठक से दस्तावेज, समय और जगह है जहां दस्तावेज कर सकते हैं। निरीक्षण बयान पूर्वोक्त में निर्दिष्ट किया जाएगा।

86. साधारण और विशेष संकल्प

- (1) एक संकल्प है जब एक आम बैठक में एक साधारण संकल्प किया जाएगा जो की सूचना अधिनियम के तहत आवश्यक विधिवत दिया गया है, वोट (चाहे वह हाथ उठाकर किया गया हो, या एक पोल से जैसा भी मामला हो) में की निर्णायक मत सहित संकल्प (के पक्ष में यदि कोई हो अध्यक्ष) सदस्य जो ऐसा करने के लिए हकदार जा रहा है, व्यक्ति में वोट या द्वारा जहां परदे के पीछे की अनुमति है, परोक्ष रूप से वोट से अधिक है, यदि कोई हो, कलाकारों हकदार सदस्यों और मतदान द्वारा प्रस्ताव के खिलाफ।
- (2) एक संकल्प जब एक विशेष संकल्प किया जाएगा —
- विधिवत सूचना आम बैठक या फोन में निर्दिष्ट किया गया और सूचना संकल्प के सदस्यों को दी दूसरा एक विशेष संकल्प किया है संकल्प प्रस्ताव करने के इरादे के रूप में किया गया और अधिनियम के तहत आवश्यक सूचना विधिवत सामान्य बैठक के लिए दिया गया है।
 - वोट संकल्प के पक्ष में डाली (के शो पर कि क्या हाथ, या एक पोल पर जैसा भी मामला हो), सदस्यों द्वारा जो, किया जा रहा है।
 - इसलिए पात्र व्यक्ति में मतदान करने के लिए, या जहां परदे के पीछे, द्वारा अनुमति दी जाती है प्रॉक्सी, यदि कोई हो, तीन बार वोटों की संख्या कम से कम इसलिए हकदार है और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के खिलाफ डाली जाये।

87. संकल्प की आवश्यकता होती है विशेष नोटिस

- (1) जिससे किसी प्रावधान अधिनियम में या इन प्रस्तुत करने में निहित है, विशेष सूचना इरादे का नोटिस स्थानांतरित करने के लिए किसी भी प्रस्ताव के लिए जरूरी है, संकल्प के रूप में सदस्यों की इतनी संख्या से कंपनी को दी जाएगी अधिनियम, लेकिन कम से कम चौदह दिन तहत निर्धारित या पहले की तुलना में तीन महीने बैठक, जिस पर यह है पहले दिन, स्थानांतरित करने के लिए दिन के अनन्य मुलाकात और दिन जिस पर नोटिस जारी किया है या कार्य किया जा समझा जायेगा।
- (2) कंपनी, तुरंत आशय की सूचना के बाद स्थानांतरित करने के लिए करेगा किसी भी तरह के संकल्प के लिए अपने सदस्यों को नोटिस देना द्वारा प्राप्त किया गया है, एक ही तरीके से संकल्प के रूप में यह बैठक की सूचना देता है, या अगर किया तो द्वारा उन्हें उसके नोटिस देना होगा साध्य नहीं है, निर्धारित तरीके से एक अखबार में विज्ञापन प्रस्तुत करता है और इस तरह से अनुमति किसी अन्य ढंग से सूचना भी वेबसाइट, कम से कम सात दिन पहले दी जाएगी।

आम बैठक में कार्यवाही

88. आम बैठक में कोरम

अधिनियम, की धारा 103 के उपबंधों के अधीन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पांच सदस्यों के लिए आम बैठक और एक कोरम नहीं किया जाएगा तब तक व्यापार नहीं किया जायेगा जब तब उचित कोरम के कारोबार के प्रारंभ में उपस्थित हो। अपेक्षित किसी भी आम बैठक में कार्यवाही नहीं की जाएगी।

89. कुर्सी खाली होपे के समय अध्यक्ष के चुनाव में टकराव

जब तक चेयर में एक अध्यक्ष के चुनाव के रिक्त है तब तक किसी भी आम बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा लेकिन व्यापार को छोड़कर।

90. सामान्य बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष चेयर लेने का हकदार होगा

अगर कोई अध्यक्ष या यदि कोई भी बैठक आयोजित करने के लिए नियुक्त पंद्रह मिनट के भीतर उपस्थित नहीं हो या इस तरह की बैठक, या बैठक के अध्यक्ष पद के रूप में कार्य करने के लिए तैयार नहीं है तब समय के बाद उनका ऐसा करने के तयशुदा, सदस्य उपस्थित में से एक चुन लेगा।

91. कार्यवाही जब कोरम मौजूद नहीं

एक सामान्य बैठक के आयोजन के लिए नियत समय के बाद आधे घंटे के भीतर है कोरम की बैठक ब उपस्थित नहीं हो, तो शेयरधारकों की मॉग भंग कर दी जाएगी और बैठक स्थगित कर दी जाएगी और अगले सप्ताह में उसी दिन फिर से बैठक रखी जाएगी या इस तरह के दूसरे दिन के लिए और ऐसे समय और स्थानों निदेशक के रूप में जगह निर्धारित कर सकते हैं। ऐसे स्थगित बैठक में तो यह भी एक कोरम नहीं हो आयोजन के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर मौजूद सदस्य उपस्थित बैठक कोरम होगी व्यापार जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी। हालांकि, एक के मामले में बैठक या बैठक के दिन, समय का एक परिवर्तन या जगह की, स्थगित कर जाएगी कंपनी को कम से कम तीन दिन पहले सदस्यों के लिए नोटिस देना होगा या तो व्यक्तिगत रूप से या अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित करने से तरीके के रूप में अधिनियम के तहत निर्धारित है।

92. स्थगित बैठक

बैठक की सहमति से अध्यक्ष समय-समय पर और जगह से जगह किसी भी बैठक को कर सकता है और जिस दिन बैठक स्थगित की जाएगी उस दिन कोई व्यापार नहीं किया जाएगा किसी भी अन्य की तुलना में स्थगित बैठक में व्यापार हो सकता है सम्पादित बैठक से स्थगन जगह ले ली पर सम्पादित कर दिया गया। यदि बैठक तीस से अधिक दिनों के लिए स्थगित कर दी है तो स्थगित बैठक का कोई नोटिस जब तक दी जानी करने के लिए आवश्यक हो जाएगा।

93. क्या जहां निधन के सबूत या संकल्प होना करने के लिए जनमत सर्वेक्षण नहीं है

किसी भी आम बैठक में एक प्रस्ताव का बैठक का वोट डाला जाए हाथ उठाकर वोट डालने से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान, और जब तक एक सर्वेक्षण है (पहले या घोषणा पर है पर फैसला हाथों की शो पर परिणाम के) तरीके से चलकर में मांग की उल्लेख में किया है बाहर किया जाता है इसलिए अध्यक्ष द्वारा की मांग की, एक घोषणा एक संकल्प किया है कि किसी पर हाथों की शो, किया जाता है या सर्वसम्मति से किया जाता है या एक विशेष द्वारा की गई बहुमत है, या खो दिया है और कार्यवाही की पुस्तक में उस प्रभाव के लिए एक प्रवेश कंपनी के तथ्य की या इस तरह के खिलाफ सबूत निर्णायक होगी

संकल्प।

94. चुनाव के लिए मांग

(क) के पहले या किसी भी प्रस्ताव पर परिणाम की घोषणा या मतदान पर हाथ के एक शो पर, एक सर्वेक्षण के अध्यक्ष द्वारा उठाए जाने का आदेश दिया जा सकता है अपने ही प्रस्ताव की बैठक की, और द्वारा लिया जा करने के लिए आदेश दिया जाएगा किसी भी सदस्य या सदस्यों द्वारा उस निमित्त किए गए एक मांग पर उसे व्यक्ति में या प्रॉक्सी और कंपनी में पकड़े शेयरों से मौजूद –

1. जो की तुलना में कम नहीं किया जा रहा प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए एक शक्ति प्रदसंकल्प के संबंध में कुल मतदान शक्ति का दसवां या द्वितीय। जिस पर कम से कम पांच लाख रुपए की कुल राशि है पेड-अप कर दिया गया।
2. एक सर्वेक्षण के लिए मांग है, व्यक्ति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

95. जनमत सर्वेक्षण लेने के समय

(क) एक सर्वेक्षण में एक अध्यक्ष के चुनाव पर या एक सवाल पर मांग की जाती है तोस्थगन की है, यह तत्काल और बिना स्थगन ले लिया जाएगा।

(ख) एक जनमत सर्वेक्षण किसी अन्य सवाल पर मांग की है ऐसे समय में नहीं लिया जाएगा 48 घंटों के भीतर जब मांग रखी गयी अध्यक्ष प्रत्यक्ष कर सकते हैं।

96. अपने वोट को अलग ढंग से उपयोग करने के सदस्यों के विशेषाधिकार

एक सर्वेक्षण कंपनी की एक बैठक में लिया, एक सदस्य एक वोट से, या उसकी प्रॉक्सी या अन्य व्यक्तियों के रूप में उसके लिए वोट अधिक के हकदार मामला हो सकता है, तो वह वोट उसके सारे वोट का उपयोग करें या एक ही में डाली जाएगी जिस तरह से सभी वोट वह उपयोग करता है।

97. चुनाव में संवीक्षक

- (क) जहाँ एक सर्वेक्षण लिया जा रहा है, बैठक का अध्यक्ष पोल पर और रिपोर्ट करने के लिए दिए गए वोट की जांच के लिए दो संवीक्षक नियुक्त करेगा और वह अधिनियम के अधीन उसको रिपोर्ट करेंगे।
- (ख) अध्यक्ष के पास किसी भी समय शक्ति होगी, इससे पहले के सर्वेक्षण का परिणाम घोषित किया जाये अध्यक्ष कार्यालय से संवीक्षक हटा सकता है और संवीक्षक हटाने से उत्पन्न उसका रिक्त पद भर सकता है।
- (ग) इस अनुच्छेद के तहत नियुक्त दो संवीक्षक में से एक सदस्य हमेशा उपस्थित जो कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी नहीं होगा)बैठक में हाजिर होगा कि इस तरह के एक सदस्य उपलब्ध है नियुक्त किया है और होने के लिए तैयार है।

98. चुनाव और उसके परिणाम लेने के तरीके

- (क) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, बैठक के अध्यक्ष होंगे जिस तरह एक जनमत सर्वेक्षण लिया जाएगा विनियमित करने की शक्ति है।
- (ख) चुनाव के परिणाम बैठक के निर्णय होना समझा जाएगा।

99. संकल्प जिस पर चुनाव के लिए लिया गया था

वोट के लिए, चाहे हाथ के इस शो में या एक पोल पर समानता के मामले में, बैठक के अध्यक्ष, जिस पर हाथों के शो जगह लेता है या मोशन कैसे वोट की समानता के मामले में फ़ैसला लेता है जो एक सर्वेक्षण की मांग की है पर, इसके अलावा में एक निर्णायक मत का हकदार होगा अपने ही वोट या वोट करने के लिए जो वह एक सदस्य के रूप में हकदार हो सकता है।

100. चुनाव की मांग अन्य व्यवसाय के लेनदेन को रोकने के लिए नहीं

एक सर्वेक्षण के लिए मांग के लिए किसी भी व्यवसाय के लेनदेन के सवाल के अलावा अन्य जो पोल परमांग की गई है। एक बैठक की निरंतरता को रोकने के लिए नहीं करेगा।

101. सामान्य सभा की मिनट

कंपनी सामान्य बैठक के सभी कार्यवाही के मिनट पुस्तकों में दर्ज करेंगे जो उस उद्देश्य के लिए रखा गयीं है। प्रत्येक बैठक के मिनट की एक निष्पक्ष और सही सारांश होनी चाहिए उस समय कार्यवाही। सभी अधिकारियों की नियुक्ति में से किसी में बनायाबैठक बैठक के मिनट में शामिल किया जाएगा। इसकी तरह कोई बैठकों, पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की कथित यदि जो कार्यवाही या जगह ले ली मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में एक निदेशक विधिवत के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत द्वारा कि अध्यक्ष की

उद्देश्य, कार्यवाही का सबूत होगी।

102. मिनट पुस्तकों के निरीक्षण

पुस्तकों की जनरल बैठक की कार्यवाही का मिनट युक्त कंपनी का पंजीकृत कार्यालय में रखा जाएगा और करेगा सभी कार्य दिवसों में 11 से 2 तक के बीच शुल्क के बिना किसी भी सदस्य के निरीक्षण के लिए खुला हो।

103. मिनट की प्रतियां

किसी भी सदस्य के सात दिनों के काम के भीतर प्रस्तुत किया जाना करने का हकदार होगा बाद में वह की प्रति के साथ कंपनी के निमित्त एक अनुरोध किया था। किसी भी मिनट के रूप में द्वारा निर्धारित किया जा सकता इस तरह के आरोपों पर ऊपर उल्लेख है।

सदस्यों के वोट

104. (क) हाथ के एक शो करने पर कंपनी के हर सदस्य मतदान के हकदार और व्यक्तिगत रूप से या वकील या परोक्ष रूप से उपस्थित एक मत होगा।

(ख) एक जनमत सर्वेक्षण करने पर कंपनी के हर सदस्य हैं, जो एक व्यक्ति जा रहा है वकील द्वारा या परोक्ष रूप से या एक निगम होने का व्यक्ति में मौजूद है में एक मतदान का अधिकार होगा एक प्रतिनिधि या परोक्ष रूप से मौजूद है कंपनी की चुकता पूंजी के अपने हिस्से के अनुपात।

105. कंपनी की चुकता पूंजी के निगम द्वारा मतदान

कोई भी सदस्य हैं, जो एक प्रतिनिधि द्वारा एक निगम मौजूद है विधिवत निदेशक संकल्प या इस तरह के अन्य शासी निकाय द्वारा अधिकृत अधिनियम की धारा 113 के प्रावधानों के अनुसार निगम हाथ के एक शो पर मतदान कर सकते हैं जैसे कि वह कंपनी के एक सदस्य था।

- इस तरह के संकल्प की बैठक में उत्पादन विधिवत एक द्वारा हस्ताक्षर किए उसके शासी निकाय के एक सदस्य द्वारा ऐसे निगम या के निदेशक और पर करेगा संकल्प की एक सच्ची प्रतिलिपि होने के रूप में उसके द्वारा प्रमाणित बैठक में उत्पादन के लिए पर्याप्त रूप में कंपनी द्वारा स्वीकार किया उनकी नियुक्ति की वैधता का सबूत।
106. कोई सदस्य जब तक कि कॉल का भुगतान कर रहे मतदान करने के लिए
अधिनियम के प्रावधान के अधीन, कोई सदस्य होने का हकदार होगा वर्तमान या व्यक्तिगत रूप से या परोक्ष रूप से या तो किसी भी आम बैठक में मतदान करने के लिए या वकील या एक प्रॉक्सी के रूप में या शेयरों के संबंध में वकील के रूप में पंजीकृत उसके नाम पर है, जिस पर कॉल या अन्य राशि अतिदेय और करने के लिए देय होगा एक महीने से भी अधिक के लिए ऐसे सदस्यों के शेयरों के किसी के संबंध में कंपनी।
107. प्रॉक्सी के योग्यता
(क) कंपनी के किसी भी सदस्य के हकदार में भाग लेने और एक बैठक में मतदान करने के लिए कंपनी को किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने (चाहे एक हकदार होगा सदस्य या नहीं) ने अपने प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और खुद को लेकिन एक के बजाय वोट करने के लिए छद्म नियुक्त बैठक में बात करने के लिए कोई अधिकार नहीं होगा।
(ख) हर कंपनी की एक बैठक बुला नोटिस में, वहाँ दिखाई जाएगी। उचित प्रमुखता के साथ एक बयान एक सदस्य के हकदार है कि भाग लेने और मतदान प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए भाग लेने और बजाय मतदान करने का हकदार है खुद को और एक प्रॉक्सी एक सदस्य होने की जरूरत नहीं है।
108. वोट प्रॉक्सी या वकील द्वारा दी जा सकती है
वोट या तो वकील द्वारा या परोक्ष रूप से या व्यक्तिगत रूप से दिया जा सकता है एक प्रतिनिधि द्वारा एक निगम भी मामले की विधिवत पूर्वोक्त रूप में अधिकृत।
109. प्रॉक्सी के साधन के निष्पादन साधन
एक प्रॉक्सी की नियुक्ति के हाथ के नीचे लिखित रूप में नियुक्त किया जाएगा या अपने वकील या अगर ऐसी नियुक्त एक कंपनी है या अपने आम सील के तहत या विधिवत एक व्यक्ति के हाथ के नीचे निगम उस निमित्त या के तहत इस तरह कंपनी या निगम द्वारा अधिकृत अपने वकील के हाथ जो नियुक्त किया जा सकता है।
110. नियुक्ति और निरीक्षण के साधन के जमा
(1) कोई व्यक्ति प्रॉक्सी के रूप में कार्य करेगा जब तक कि उनकी नियुक्ति के साधन और वकील या अन्य प्राधिकारी की शक्ति है, तो जिसके तहत यह एक का साइन किया गया प्राधिकरण है जो कि सत्ता के दवर्जतपंससल प्रमाणित प्रतिलिपि में जमा किया जाएगा कार्यालय में कम से कम अड़तालीस घंटे में बैठक आयोजित की समय से पहलेजो प्रॉक्सी के साधन में नामित व्यक्ति को मतदान करने का प्रस्ताव है और डिफॉल्ट रूप में साधन प्रॉक्सी की नियुक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा मान्य है। कोई वकील जब तक मुख्तारनामा मतदान करने का हकदार होगा या अन्य साधन उसे वकील के रूप में नियुक्त करने के लिए या एक दवर्जतपंससल प्रमाणित प्रतिलिपि क्या है या तो कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है
किसी भी समय नहीं पर बैठक के समय से पहले कम से कम अड़तालीस घंटे जो वकील मतदान करने का प्रस्ताव या कार्यालय में जमा किया जाता है कम नहीं चालीस से आठ घंटे उपरोक्त के रूप में एक ही बैठक के समय से पहले के होते हुए भी कि अटार्नी या अन्य प्राधिकारी की एक शक्ति के लिए किया गया है कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज की गई, कंपनी में नोटिस द्वारा सकता है लेखन कि वकील के सदस्य को संबोधित कम से कम सात दिन एक बैठक की तारीख से पहले उसके बारे में मूल बिजली का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है प्राधिकरण की और जब तक एक ही अटार्नी इस के बाद से जमा किया जाता है समय के लिए तय होने से पहले कंपनी कम से कम अड़तालीस घंटे वकील की बैठक में इस तरह की बैठक में जब तक पर वोट करने के लिए हकदार नहीं होगा।
(2) के होते हुए भी कि अटार्नी या अन्य प्राधिकारी की एक शक्ति के लिए किया गया है कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज की गई, कंपनी में नोटिस द्वारा सकता है लेखन कि वकील के सदस्य को संबोधित कम से कम सात दिन एक बैठक की तारीख से पहले उसके बारे में मूल बिजली का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है प्राधिकरण की और जब तक एक ही अटार्नी इस के बाद से जमा किया जाता है समय के लिए तय होने से पहले कंपनी कम से कम अड़तालीस घंटे वकील की बैठक में इस तरह की बैठक में जब तक पर वोट करने के लिए हकदार नहीं होगा उनकी पूर्ण विवेक बहाना इस तरह के गैर उत्पादन में निदेशकों और जमा।
(3) प्रत्येक सदस्य को कंपनी या किसी की बैठक में मतदान करने के हकदार संकल्प उस समय स्थानांतरित करने के लिए अवधि के दौरान हकदार होगा चौबीस घंटे की शुरुआत से पहले समय प्रारंभ के लिए तय बैठक की और इस निष्कर्ष के समाप्त होने के साथ साथ समाप्त कारोबार के दौरान परदे के पीछे किसी भी समय दर्ज कराई निरीक्षण करने के लिए बैठक कंपनी के घंटे कि दिन के कम से कम तीन नोटिस प्रदान की इरादे इतने निरीक्षण करने के लेखन कंपनी को दिया जाता है।

111. साधन की हिरासत

नियुक्ति के किसी भी तरह के साधन की वस्तु तक ही सीमित हो तो यह कंपनी की बैठक में मतदान के लिए एक प्रॉक्सी या विकल्प की नियुक्ति स्थायी रूप से या निदेशक के रूप में ऐसे समय के लिए रहेगा

निदेशक निर्धारित करते हैं, कंपनी की हिरासत में है, और अगर दूसरे को गले लगाते उसकी एक प्रति, मूल के साथ जांच की, करने के लिए वस्तुएं कंपनी की हिरासत में रहने के लिए वितरित किया जाएगा।

112. साधन प्रॉक्सी की नियुक्ति

प्रॉक्सी के हर साधन है कि क्या एक निर्धारित बैठक के लिए या अन्यथा नियुक्त व्यक्ति या उसके वकील के हाथ के नीचे लिखित रूप में किया जाएगा लिखित रूप में या यदि अधिकृत ऐसे नियुक्त, एक निगम है, के तहत अपनी आम सील, यदि कोई हो, या किसी अधिकारी के हाथ या विधिवत एक वकील यह द्वारा अधिकृत है और करीब के रूप में परिस्थितियों में होना स्वीकार करेंगे करेगा और व्यक्तिगत रूप से या वकील या परोक्ष रूप से उपस्थित एक मत होगा। एक जनमत सर्वेक्षण करने पर कंपनी के हर सदस्य हैं, जो एक व्यक्ति जा रहा है वकील द्वारा या परोक्ष रूप से या एक निगम होने का व्यक्ति में मौजूद है

में एक मतदान का अधिकार होगा अपने हिस्से के अनुपात एक प्रतिनिधि या परोक्ष रूप से मौजूद है।

113. सदस्य की मृत्यु के होते हुए भी परोक्ष रूप से दिए गए वोट की वैधता, आदि।

एक वोट प्रॉक्सी का एक साधन की शर्तों के अनुसार दिया जाएगा प्रिंसिपल या निरसन के पिछले मौत के होते हुए भी मान्य होगा प्रॉक्सी का या वकील के किसी भी शक्ति है जिसके तहत इस तरह के प्रॉक्सी था की संबंध में शेरों के हस्तांतरण जिनमें से वोट दिया जाता है पर हस्ताक्षर किए कि मौत, निरसन या हस्तांतरण के लेखन में कोई सूचना उपलब्ध कराई होगी बैठक से पहले कार्यालय में प्राप्त किया गया है।

114. वोट करने के लिए आपत्तियों के लिए समय

अनापत्ति पर छोड़कर किसी भी मतदान की वैधता के लिए किया जाएगा बैठक या चुनाव, जिस पर इस तरह के वोट प्रस्तुत किया जाएगा, और हर वोट चाहे वह व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है या परोक्ष रूप से इस तरह की बैठक में अनुमति नहीं दी है या नहीं सर्वेक्षण में इस तरह की बैठक या चुनाव के सभी प्रयोजनों के लिए मान्य समझा जाएगा।

115. किसी भी बैठक की. अध्यक्ष किसी भी मतदान की वैधता के न्यायाधीश होने के लिए।

किसी भी बैठक के अध्यक्ष की वैधता का एकमात्र जज हो जाएगा अध्यक्ष की उपस्थिति में हर वोट ऐसे बैठक में प्रस्तुत किया एक सर्वेक्षण के ले रही हर वोट की वैधता का एकमात्र इस तरह के चुनाव में प्रस्तुत।

निदेशक

116. निदेशकों की संख्या

जब तक अन्यथा के सदस्यों की एक आम बैठक के द्वारा निर्धारित कंपनी के निदेशकों की संख्या कम से कम तीन या उससे अधिक नहीं होगी पंद्रह से जनहित निदेशक, शेरधारक निदेशक सहित

(कर्मचारी निदेशकों सहित) और प्रबंध निदेशक और निदेशकों की संख्या के अनुमोदन से पंद्रह से परे बढ़ाया जा सकता है।

116ए. इसके विपरीत इन लेखों में निहित करने के लिए कुछ होते हुए भी सेबी द्वारा जारी निर्देशों और ६ या समय-समय पर नियमों में प्रदान की बोर्ड की संरचना के संबंध में, सामान्य आवश्यकताओं से संबंधित

निदेशकों की नियुक्ति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आचार संहिता के तरीके और के शासन से संबंधित अन्य आनुषंगिक और पारिणामिक मामलों कंपनी, सीमा लागू करने के लिए, के साथ पालन किया जाएगा।

117. कंपनी के वर्तमान पहले निदेशक का नाम हैं

1. श्री संदीप मेहता
2. श्री विठ्ठल मोरे
3. श्री रविंद्र बटुला

118. (ए) सेबी के निदेशक नामित

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के समय समय पर निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में तीन से अधिक व्यक्ति को नियुक्त नहीं करते हैं कंपनी। इस अनुच्छेद के तहत नियुक्त निदेशक के साथ साथ भेजा जाता है 'सेबी नामित निदेशकों' के रूप में कार्य करने के लिए। सेबी नामित निदेशक बारी-बारी से सेवानिवृत्ति के अधीन हो या द्वारा छोड़कर सेबी के अलावा पद से नहीं हटाया जायेगा उक्त विषय के रूप में, किया जाएगा कंपनी के किसी अन्य निदेशक के रूप में दायित्वों सेबी नामित निदेशक भी विशेषाधिकारों का हकदार हैं।

118. (एए) जनहित निदेशक

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) समय-समय पर आम तौर पर ध्यान में व्यक्तियों के नाम लेने के बाद कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अग्रेषित पर मनोनीत कंपनी के निदेशक मंडल में तीन से अधिक व्यक्तियों के लिए नहीं भेजा जो की सार्वजनिक हित निदेशक के रूप में जो हो जाएंगे 'स्वतंत्र निदेशकों' अधिनियम के प्रावधानों अखंडता के व्यक्तियों के बीच से प्रति के रूप में आवश्यक पेशेवर क्षमता और क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले प्रतिभूति बाजार से संबंधित है। सेबी हालांकि करेगा, मनोनीत व्यक्तियों, जिनके नाम बोर्ड द्वारा अग्रेषित नहीं किया गया सही करने के लिए है कंपनी के निदेशक। हालांकि, सेबी किसी भी समय पर नियुक्त कर सकता है अधिक से अधिक तीन जनहित निदेशक इतना है कि की कुल संख्या अनुच्छेद 118ए और 118एए के तहत नामित निदेशकों को अधिक नहीं हो सकता शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्देशकों की कुल संख्या। जनहित निदेशक समय नया पब्लिक तक जारी रहेगा ब्याज निर्देशकों को उनके स्थान पर नियुक्त किया जाता है उसके रूप में पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, जनहित निदेशक का हकदार होगा और समान अधिकार और विशेषाधिकार और उसी के रूप में दायित्वों के अधीन हो कंपनी के किसी अन्य निदेशक की वजह से कोई रिक्त स्थान इस्तीफे, हटाने, मृत्यु या इस तरह के मनोनीत सार्वजनिक हित की अन्यथा इसी तरह एक नामजद व्यक्ति द्वारा निदेशक में भरा जाएगा,

(बी) निदेशक डिबेंचर

किसी भी ट्रस्ट डीड या ऋण करार डिबेंचर के मुद्दे को कवर कंपनी, या ऋण कंपनी के लिए उन्नत के लिए उपलब्ध करा सकता है (एक निदेशक की नियुक्ति इन में के रूप में भेजा उपस्थित डिबेंचर निदेशक) के लिए और कमिशनजनितम— धारक ६ ऋणदाता की ओर से ऐसी अवधि के रूप में उसमें प्रदान के लिए, जिसके लिए अवधि से अधिक नहीं डिबेंचर या उनमें से किसी भी बकाया रहेगा या ऋण अवैतनिक रहता है, और इस तरह के डिबेंचर के कार्यालय से हटाने के लिए निदेशक, और रिक्ति पर कारण होता जा रहा है, इस्तीफा, मौत से हैं, हटाने या अन्यथा नियुक्ति के लिए, डिबेंचर निदेशक की खाली जगह है। डिबेंचर निदेशक रोटेशन द्वारा रिटायर करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

119. प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक

- (1) अधिनियम के प्रावधानों और प्रतिभूति के अनुमोदन के अधीन और भारत की विनियम बोर्ड, बोर्ड, समय-समय पर, नियुक्ति या फिर से नियुक्त एक या एक से उनके शरीर का अधिक प्रबंध किया जाना है

निदेशक या प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या पूरे समय निदेशक, जो कुछ भी नाम से वह या वे कंपनी के, कहा जा सकता है, ऐसे कब्जा टी आयनों पर और इस तरह के कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं करने के लिए एक समय था और इस तरह के नियम और शर्तों के अधीन में वे ठीक लगता है।

- (2) अधिनियम, प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक के उपबंधों के अधीन निर्देशक नहीं, जबकि वह उस पद धारण करने के लिए जारी है, हो जाएगा अनुच्छेद 131 के तहत बारी-बारी से सेवानिवृत्ति के अधीन किया जाएगा लेकिन इस्तीफे और के रूप में हटाने के रूप में एक ही प्रावधानों के अधीन कंपनी के अन्य निदेशकों और करेगा, वास्तव में पंचेव, और तुरंत एक प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक यदि नहीं रहेगा वह किसी भी कारण से एक निदेशक का पद धारण करने के लिए रहता है।

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, हो सकता है, समय-समय पर निदेशक, सौंपना और प्रबंध ६ पूरे पर प्रदान — टी प्डम निदेशक (रो) समय शक्तियों ऐसी पर उनके द्वारा की ऐसी किया जा रहा है नियम और शर्तों और इस तरह के प्रतिबंध के साथ वे फिट लगता है कि मई के रूप में या तो बवससंजमतंससल के साथ, या उनकी शक्ति का और समय से बहिष्कार करने के लिए समय पर रद्द वापस लेने, बदलने या सभी या ऐसी शक्तियों के किसी भी बदलती हैं।

120. वैकल्पिक निदेशक

- (1) अधिनियम की धारा 161 के अधीन रहते हुए, निदेशक मंडल एक वैकल्पिक निदेशक इस लेख में एक निदेशक के लिए कार्य करने के लिए (बाद में उनके सुझाव पर अन्यथा, 'मूल निदेशक') कहा जाता है नियुक्त कर सकता है या उसके दौरान भारत की ओर से कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए अनुपस्थिति जिसमें बोर्ड की बैठकों आमतौर पर आयोजित की जाती हैं।
- (2) खंड (क) एक वैकल्पिक निदेशक एक अवधि अनुमत से अधिक समय में मूल निदेशक जिसका जगह वह करने के लिए तहत नियुक्त किया गया है नियुक्त और अगर जब मूल निदेशक भारत के लिए आए और पद को छोड़ देंगे पद धारण नहीं करेगा।
- (3) मूल निदेशक का कार्यकाल तो वह पहले निर्धारित किया जाता है भारत के स्वतंत्र पुनर्नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान रिटर्न एक और नियुक्ति के डिफॉल्ट में निदेशक अवकाश ग्रहण करने के लिए मूल और वैकल्पिक निदेशक के लिए लागू नहीं होगी।

121. निदेशक की योग्यता
कोई निर्देशक के कंपनी के किसी भी शेयर या योग्यता के शेयरों को नहीं ले सकता।
122. (1) निदेशकों की पारिश्रमिक
पारिश्रमिक के निदेशकों को देय, प्रबंध निदेशक सहित करेगा, अधिनियम की है और इनमें से लागू प्रावधानों के अधीन प्रस्तुत करता है और उसे और कंपनी के बीच किसी भी अनुबंध के द्वारा आम बैठक में कंपनी समय-समय पर, और के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है नियत वेतन और ६ या अनुलाभ या कंपनी के मुनाफे पर आयोग या इस तरह के लाभ में भागीदारी, या किसी भी या इन सभी साधनों द्वारा नहीं स्पष्ट रूप से अधिनियम द्वारा निषिद्ध।
- (2) बैठक में भाग लेने वाले निदेशक की सिटींग फीस
निदेशकों की प्रत्येक बैठक के लिए एक शुल्क के माध्यम से पारिश्रमिक प्राप्त हो सकता है बोर्ड या एक समिति जिसने उसमें भाग लिया है अधिकतम अधिनियम के तहत निर्धारित है।
123. अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने वाले निदेशक
निदेशक मंडल की अनुमति है और किसी भी निदेशक हैं, जो एक नहीं है के लिए भुगतान कर सकते हैं जहां बोर्ड की बैठक आयोजित की जाती है जगह की सदाशयी निवासी और जो एक बैठक में भाग लेने के उद्देश्य के लिए इस तरह की जगह पर आ जाएगा या कंपनी के अनुरोध पर अपने व्यापार में भाग लेने के लिए, इस तरह के योग के रूप में निदेशक यात्रा, होटल के लिए उचित मुआवजा विचार कर सकते हैं और अन्य खर्चों और अगर किसी भी निदेशक का आह्वान किया जाना या बाहर निवास करने के लिए कंपनी के कारोबार पर उनके आवास के साधारण जगह वह किसी भी यात्रा या अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति की करने का हकदार होगा कंपनी के कारोबार के साथ संबंध में किए गए।
124. निदेशक को विशेष पारिश्रमिक अतिरिक्त सेवाओं के प्रदर्शन
यदि किसी भी निदेशक को अतिरिक्त सेवाओं या विशेष प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है (जो अभिव्यक्ति काम के द्वारा किया जाता शामिल होगा निदेशक द्वारा गठित किसी भी समिति के एक सदस्य के रूप में निदेशक), बोर्ड के लिए इस तरह के विशेष पारिश्रमिक के लिए इस तरह के निदेशक के साथ की व्यवस्था कर सकते हैं इस तरह के विशेष सेवाओं या विशेष थकान या प्रयासों या तो एक निश्चित राशि से या अन्यथा के रूप में बोर्ड द्वारा निर्धारित किया है और करने के लिए विषय अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हो सकता है।
125. अतिरिक्त निदेशक
निदेशक के पास समय-समय प्रावधानों के अधीन किसी भी व्यक्ति के नियुक्त निदेशक या तो एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए या करने के लिए एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में करने की शक्ति होगी इन प्रस्तुत एक के रूप में कुल संख्या किसी भी समय अधिक नहीं होगी बोर्ड लेकिन इतना है कि
अधिकतम संख्या ऊपर के रूप में तयय लेकिन किसी भी निदेशक तो एक के रूप में नियुक्त अतिरिक्त निदेशक पद पर बने रहेंगे केवल अगले की तारीख करने के लिए कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद और उसके बाद की जाएगी फिर से चुनाव है और इसलिए एक कारण भरने के लिए नियुक्त किसी भी निदेशक के लिए हकदार रिक्ति पद पर बने रहेंगे केवल अप करने के लिए जो निर्देशक की तारीख में करने के लिए ऊपर जिसके स्थान पर नियुक्त किया जाता है वह कार्यालय में आयोजित किया जाएगा यह खाली नहीं किया गया था।
126. निदेशक के होते हुए भी कार्य कर सकते हैं
अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जारी रखने के निदेशक कार्य कर सकते हैं निदेशक के रिक्ति स्थान के बावजूदय नीचे न्यूनतम संख्या तय निदेशक छोड़कर नहीं जाएंगे आपात स्थिति या रिक्त पदों को भरने के प्रयोजन के लिए या एक को बुलाने के लिए कंपनी की आम बैठक इतने लंबे समय के रूप में कार्य नंबर नीचे है न्यूनतम और वे तो एक के अभाव होते हुए अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कोरम। इतनी संख्या में गिर जाता है कि कार्य कर सकते हैं।
127. निदेशक खालीस्थान
(1) अधिनियम, एक निदेशक के कार्यालय की धारा 164 के प्रावधान के अधीन यदि रिक्त हो जाएगा:
(क) वह अस्वस्थ मन है और इसलिए की एक अदालत सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित;
(ख) वह एक दिवालिया करनकपबंजमक जा करने के लिए आवेदन किया है और उनके आवेदन पत्र लंबित है;
(ग) वह अनुमोचित दिवालिया है;
(घ) वह किसी भी अपराध की एक अदालत ने दोषी ठहराया है नैतिक शामिल है कि क्या अधमता या अन्यथाय और करने के लिए उसके छह महीने से कम नहीं के लिए कारावास और पांच वर्ष की अवधि सजा की अवधि समाप्त होने की तारीख से गुजरा नहीं है;

- (ई) एक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए उसे अयोग्य एक आदेश दिया गया है एक अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित कर दिया और आदेश लागू है;
- (च) वह द्वारा आयोजित की कंपनी के शेयरों के संबंध में किसी भी फोन भुगतान नहीं किया गया उसे अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से हैं, और छह महीने बीत गया है इस तरह के कॉल के भुगतान के लिए तय अंतिम तारीख से;
- (छ) वह अपराध संबंधित पार्टी के साथ निपटने का दोषी पाया गया है पिछले पांच साल के पूर्ववर्तीय या दौरान किसी भी समय अधिनियम की धारा 188 के तहत लेनदेन
- (ज) वह अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (3) के साथ पालन नहीं किया है।
- (2) खंड (घ) में किसी बात के होते हुए भी, (ई) और नइंतजपबसम की (एल), अयोग्यता उन खंड में निर्दिष्ट नहीं ले जाएगा प्रभाव:
- (क) सजा या के आदेश की तारीख से तीस दिनों के लिए अयोग्यता;
- (ख) जहां कोई अपील या याचिका तीस दिनों के भीतर एक एस पसंद किया जाता है सजा की सजा या आदेश में जिसके परिणामस्वरूप के खिलाफ पूर्वोक्त। तारीख से सात दिन की समाप्ति तक जो ऐसी अपील पर या याचिकाओं का निपटारा; या
- (ग) जहां किसी भी आगे अपील या याचिका के आदेश के खिलाफ पसंद किया जाता है या सात दिनों के भीतर की सजा, इस तरह के आगे अपील या याचिका जब तक है खत्म कर दिया।

128. ब्याज का प्रकटीकरण

- (क) कंपनी है जो किसी भी तरह से है की हर निर्देशक, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चिंतित या एक अनुबंध या व्यवस्था में रुचि रखते हैं या प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था प्रवेश किया जा करने के लिए प्रवेश किया निदेशक मंडल की बैठक में ब्याज कंपनी की ओर से है, उसकी चिंता का विषय की प्रकृति खुलासा करेगा। या;
- (ख) (1) के प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था प्रकटीकरण के मामले में धारा के तहत एक निदेशक द्वारा किए जाने के लिए आवश्यक (क) बोर्ड की बैठक पर की जाएगी, जिस में प्रवेश करने का सवाल अनुबंध या व्यवस्था पहले ध्यान में रखा जाता है, या अगर निदेशक कि बैठक की तारीख पर नहीं था, चिंतित या में रुचिप्रस्तावित अनुबंध या बोर्ड की पहली बैठक में व्यवस्था आयोजित करने के बाद वह इतना चिंतित या रुचि हो जाता है।
- (2) किसी अन्य अनुबंध या व्यवस्था के मामले में आवश्यक प्रकटीकरण बोर्ड की पहली बैठक के बाद आयोजित किया जाएगा निदेशक चिंतित या अनुबंध या व्यवस्था में रुचि लेता है।
- (ग) (1) खंड के प्रयोजन (क) और (ख), एक सामान्य नोटिस करने के लिए दिया के लिए इस आशय का एक निदेशक है कि वह एक निर्देशक या एक के एक सदस्य के बोर्ड निर्दिष्ट निगमित निकाय या एक निर्दिष्ट फर्म के एक सदस्य है और हो रहा है माना के रूप में संबंध है या किसी भी अनुबंध या व्यवस्था में रुचि है जो सूचना की तारीख के बाद, कि निगमित निकाय के साथ में प्रवेश किया जा सकता है
- या फर्म, चिंता का पर्याप्त प्रकटीकरण होना समझा जाएगा या किसी भी अनुबंध या व्यवस्था करने के लिए ब्याज इसलिए बनाया है।
- (2) किसी ऐसे सामान्य नोटिस में वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगा जो यह दिया जाता है, लेकिन एक के आगे अवधि के लिए नए सिरे से किया जा सकता है एक समय में वित्त वर्ष के आखिरी महीने में दिए गए एक ताजा नोटिस द्वारा जिसमें वित्तीय वर्ष में इसे अन्यथा समय सीमा समाप्त हो जाएगी
- (3) ऐसी कोई सामान्य सूचना और कोई नवीकरण का प्रभाव हो जाएगा जब तक या तो यह बोर्ड या निदेशक की बैठक संबंध में दिया गया है सुरक्षित करने के लिए है कि यह लाया और पहली बार में पढ़ा जाता है उचित कदम उठा लेता है बोर्ड की बैठक के बाद यह दिया जाता है।
- (घ) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी नियम के प्रवर्तन पूर्वाग्रह लिया जाएगा कानून किसी भी चिंता होने से कंपनी के एक निदेशक को सीमित करने की या कंपनी के साथ किसी भी अनुबंध या व्यवस्था में रुचि।
- (ई) इस अनुच्छेद की कोई प्रवेश किया किसी भी अनुबंध या व्यवस्था को लागू नहीं होगी में या कंपनी और किसी भी अन्य कंपनी के बीच में प्रवेश किया जहां कंपनी या दो से अधिक के निदेशकों में से कोई भी एक साथ रखती है या चुकता शेयर अन्य कंपनी में पूंजी की अधिक से अधिक दो प्रतिशत नहीं पकड़ सकती है।
- (च) इस अनुच्छेद के प्रावधानों आवश्यक परिवर्तनों सहित एक सदस्य को लागू नहीं होगी कार्यकारी समिति के जो कम से अपने हित की प्रकृति खुलासा करेगा कार्यकारी समिति की बैठक।

129. इच्छुक निदेशक भाग लेने या बोर्ड कार्यवाही में वोट नहीं
- (1) कंपनी का कोई निदेशक एक निदेशक के रूप में किसी भी भाग ले जाएगा किसी भी अनुबंध या व्यवस्था पर चर्चा की, या मतदान में या करने के लिए प्रवेश द्वारा में या कंपनी की ओर से दर्ज किया जाना है, तो वह वैसे भी है चाहे वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चिंतित या अनुबंध में रुचि रखते हैं या
व्यवस्थाय और न ही उनकी उपस्थिति एक बनाने के उद्देश्य के लिए गिनती होगी ऐसे किसी भी चर्चा या मतदान के समय में कोरमय और अगर वह मतदान करता है उसकी वोट शून्य होगी।
 - (2) इस अनुच्छेद के लिए लागू नहीं होगा:
 - (क) किसी भी हानि के खिलाफ क्षतिपूर्ति के किसी भी अनुबंध है जो निदेशक या किसी भी एक या उनमें से अधिक बनने या जमानत जा रहा है या की वजह से पीड़ित हो सकता है कंपनी के लिए जमानत;
 - (ख) किसी भी अनुबंध या व्यवस्था में या एक साथ प्रवेश किया जा करने के लिए प्रवेश किया सार्वजनिक कंपनी या एक निजी कंपनी के एक सार्वजनिक की एक सहायक कंपनी है जो कंपनी है, जो में निदेशक पूर्वोक्त के हित पूरी तरह होते हैं –
 1. उसकी ऐसी कंपनी के एक निदेशक है, और नहीं और अधिक के धारक होने में उसमें इस तरह के नंबर या मूल्य के शेयरों की तुलना में अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने के लिए है उसे एक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए उसका, वह किया गया हो रही कंपनी, या
 2. द्वारा इस तरह के निदेशक के रूप में मनोनीत द्वितीय। उसके एक सदस्य को पकड़ नहीं 2 प्रतिशत से अधिक की (दो प्रतिशत) होने में इस तरह के अन्य कंपनी की शेयर पूंजी का भुगतान किया।
130. निदेशकों को कंपनी द्वारा प्रवर्तित कंपनियों के निदेशक हो सकता है
एक निर्देशक होने या द्वारा पदोन्नत किसी भी कंपनी के एक निदेशक बन सकते हैं कंपनी, या जिसमें कंपनी के एक विक्रेता के रूप में दिलचस्पी हो सकती है, सदस्य या अन्यथा और अधिनियम और इन के प्रावधानों के अधीन प्रस्तुत ऐसी कोई निदेशक किसी भी लाभ के लिए जवाबदेह हो जाएगा एक निर्देशक या ऐसी कंपनी के सदस्य के रूप में प्राप्त निदेशकों के रोटेशन।
131. निदेशक रोटेशन द्वारा प्रतिवर्ष रिटायर करने के लिए
कंपनी के हर वार्षिक आम बैठक पहले से दूसरे पर वार्षिक आम बैठक समय के लिए निर्देशकों की ऐसी की एक तिहाई होने के रूप में बारी-बारी से रिटायर हो या, अगर उनकी संख्या तीन या एक नहीं है उत्तरदायी हैं तीन में से कई, तो एक तिहाई के लिए निकटतम नंबर से रिटायर करेगा कार्यालय।
132. कौन सा निदेशक रिटायर करने के लिए
निदेशक हर वार्षिक आम बैठक में बारी-बारी से रिटायर होंगे जो लोग अपने आखिरी नियुक्ति के बाद से कार्यालय में सबसे लंबे समय तक किया गया है हो सकता है, लेकिन व्यक्तियों के बीच के रूप में जो एक ही दिन, जो उन लोगों पर निदेशक बन गया रिटायर करने के लिए कर रहे हैं करेगा डिफॉल्ट और बीच किसी भी समझौते के विषय में खुद को, बहुत से निर्धारित किया।
133. अवकाश ग्रहण करने वाले निदेशक फिर से चुनाव के लिए पात्र
एक सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक फिर से चुनाव के लिए पात्र होंगे।
134. कंपनी रक्ति को भरने के लिए
वार्षिक आम बैठक में कंपनी, जिस पर एक निदेशक सेवानिवृत्त हो रहे हैं उक्त रक्ति नियुक्त करके निदेशक या कि रक्ति में किसी अन्य व्यक्ति स्थान को भर सकते हैं।
135. निदेशक अवकाश ग्रहण करने वाले कार्यालय में रहने के लिए जब तक उत्तराधिकारी नियुक्त न हो
रिटायर होने वाले निदेशक की जगह भरी नहीं है और बैठक भी नहीं हो सकी तो स्पष्ट रूप से रक्ति को भरने के लिए नहीं सुलझाया गया तब एक ही समय और स्थान पर अगले सप्ताह में एक ही दिन तक के लिए स्थगित किया जायेगा और यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश है तो उससे अगले दिन स्थान भरा जायेगा बैठक में सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक की जगह को भरा नहीं है और है कि बैठक में यह भी स्पष्ट रूप से रक्ति को भरने के लिए नहीं हल नहीं किया, सेवानिवृत्त निदेशक फिर स्थगित कर दी पर नियुक्त किया है समझा जाएगा जब तक बैठक –
- (1) पुनर्नियुक्ति के लिए एक संकल्प है कि बैठक में या पिछले बैठक में इस तरह के निदेशक की बैठक के लिए रखा जाना है और गुम हो गया।
 - (2) संन्यास लेने के निदेशक एक सूचना लिखित रूप में संबोधित करने से है कंपनी या उसके निदेशक मंडल, के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की इसलिए फिर से नियुक्त किया।

- (3) वह योग्य नहीं है या नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
- (4) एक संकल्प है, चाहे विशेष या साधारण उसके लिए आवश्यक है नियुक्ति या के किसी प्रावधान के आधार पर फिर से नियुक्ति अधिनियम, या
- (5) अनुच्छेद 136 के उप-अनुच्छेद (2) के परन्तुक मामले के लिए लागू है।
136. निदेशकों की नियुक्ति व्यक्तिगत रूप पर मतदान किया जा करने के लिए
- (1) कंपनी के हर वार्षिक आम बैठक में एक प्रस्ताव नहीं होगा के निदेशक के रूप में दो या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए बने एक भी संकल्प द्वारा कंपनी, एक संकल्प है जब तक कि यह तो हो जाएगा कि किए गए पहले किसी भी मतदान किया जा रहा बिना बैठक के लिए सहमत हो गया है
- इसके खिलाफ दिए गए।
- (2) एक संकल्प इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) के उल्लंघन में ले जाया गया शून्य होगी या नहीं, इस आपत्ति इसलिए किया जा रहा करने के लिए समय पर लिया गया था चले गए, बशर्ते कि जहां तो चले गए एक प्रस्ताव पारित किया है, कोई स्वतः में सेवानिवृत्त निदेशक की फिर से नियुक्ति के लिए प्रावधान
- एक और नियुक्ति के डिफॉल्ट लागू नहीं होगी।
- (3) इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अनुमोदन करने के लिए एक प्रस्ताव एक व्यक्ति की नियुक्ति या नामांकित लिए नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति माना जाएगा उनकी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव के रूप में।
137. निदेशक अवकाश ग्रहण करने वाले के लिए खड़े करने के अलावा अन्य व्यक्तियों के अधिकार
- (1) कोई व्यक्ति, एक अवकाश ग्रहण करने वाले निर्देशक, के लिए चुनाव के लिए पात्र होंगे किसी भी आम बैठक में निदेशक के कार्यालय, जब तक कि वह या कोई अन्य उसे प्रस्ताव करने के लिए इच्छुक सदस्य पहले कम से कम चौदह स्पष्ट दिनों की है बैठक में कार्यालय में एक सूचना लिखित रूप में अपने हाथ के तहत वाचक छोड़ा निदेशक के कार्यालय या ऐसे सदस्य के इरादे के लिए अपनी उम्मीदवारी उसके बारे में एक जमा के साथ-साथ कि कार्यालय के लिए प्रस्ताव करने के लिए, एक उम्मीदवार के रूप में एक लाख रुपये है जो ऐसे व्यक्ति को या मामले के रूप में वापस किया जाएगा, इस तरह के किसी सदस्य के लिए हो सकता है यदि व्यक्ति एक निदेशक के रूप में चुने जाने में सफल होता है।
- (2) कंपनी एक व्यक्ति की उम्मीदवारी को अपने सदस्यों को सूचित करेगी निदेशक के कार्यालय या एक सदस्य के इरादे इस तरह का प्रस्ताव करने के लिए पर व्यक्तिगत नोटिस के द्वारा कि कार्यालय के लिए एक उम्मीदवार के रूप में व्यक्ति सदस्यों को बैठक से पहले कम से कम सात दिनों के लिए उसे उपलब्ध कराया जायेगा यह आवश्यक कंपनी अलग-अलग नोटिस की सेवा करने के लिए नहीं होगा सदस्यों को उपरोक्त के रूप में यदि कंपनी इस तरह के विज्ञापन करता है पर उम्मीदवारी के लिए कम से कम सात दिन की बैठक से पहले, में कम से कम दो समाचार पत्रों जगह में घूम जहां पंजीकृत कंपनी स्थित है, जिनमें से एक अंग्रेजी में प्रकाशित होगा और दूसरा उस जगह की स्थानीय भाषा में।
138. निदेशक का हटाया जाना
- (क) कंपनी ने मई, अनुच्छेद 118ए और 118एए, प्रावधानों के अधीन प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग की निगमों) विनियम, 2012 या किसी भी संशोधन के सिवा और अधिनियम की धारा 169 (1) के प्रावधानों, जिनमें से साधारण संकल्प द्वारा अधिनियम की धारा 169 (2) के अनुसार विशेष नोटिस दिया गया है कार्यालय के अपने अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी निदेशक को हटाने और उसकी जगह नया नियुक्त करने के लिए साधारण संकल्प जो की विशेष नोटिस दिया गया है, एक और निदेशक नियुक्त करेगा और जब तक नया निदेशक नहीं आ जाता तब तक पुराना ही कार्यभार संभालेगा
- यदि वह निकाल दिया जाता है, बोर्ड को किसी भी समय उसका स्थान भर सकता है इन लेखों के प्रावधानों के तहत रक्ति।
- (ख) विशेष सूचना निदेशक को हटाने के लिए किसी भी प्रस्ताव के लिए आवश्यक होगा इस अनुच्छेद के तहत या एक निर्देशक के बजाय किसी को नियुक्त करने के लिए इतना है।
- (ग) एक संकल्प की सूचना प्राप्त होने पर इस लेख के तहत एक निदेशक को हटाने के लिए, कंपनी झट से निदेशक को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा और निदेशक बैठक में संकल्प (कंपनी के सदस्य है या नहीं) पर सुने जाने का हकदार होगा।
- (घ) जहां सूचना के तहत इस एक निदेशक को हटाने के लिए एक संकल्प के लिए दिया जाता है अनुच्छेद और निदेशक का संबंध बहां के लिए सम्मान के साथ बनाता है कंपनी को लिखित रूप में अभ्यावेदन (एक उचित से अधिक नहीं)

लंबाई) और कंपनी के सदस्यों को उनके अधिसूचना अनुरोधों कंपनी जब तक अभ्यावेदनों इसके लिए बहुत देर हो चुकी यह द्वारा प्राप्त करेंगे ऐसा करने के लिए -

1. कंपनी के सदस्यों को दी संकल्प के किसी भी नोटिस में राज्य के प्रतिनिधित्व के तथ्य बनाया गया है, और
2. हर सदस्य को प्रतिनिधित्व की एक प्रतिलिपि भेज जिसे करने के लिए कंपनी की बैठक का नोटिस भेजा है (चाहे पहले या कंपनी द्वारा अभ्यावेदन की प्राप्ति के बाद) और यदि एक अभ्यावेदन की प्रतिलिपि उपरोक्त के रूप में नहीं भेज दिया जाता है, क्योंकि वे बहुत देर हो चुकी या कंपनी के डिफॉल्ट की वजह से प्राप्त हुए थे, निदेशक (अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मौखिक रूप से सुना जा सकता है) कर सकते हैं आवश्यकता है कि अभ्यावेदन बैठक में पढ़ा जाएगा बशर्ते कि अभ्यावेदन की प्रतियां बाहर भेजने की जरूरत नहीं और अभ्यावेदन बैठक में बाहर पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, अगर या तो कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर जो पीड़ित होने का दावा करता है, कोर्ट से संतुष्ट है कि अधिकार

इस खंड द्वारा प्रदत्त अनावश्यक सुरक्षित करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा अपमानसूचक बात के लिए प्रचार।

- (ई) इसका अनुच्छेद हो सकता है, तहत एक निदेशक को हटाने के द्वारा बनाई गई एक रिक्ति वह आम बैठक में या द्वारा कंपनी द्वारा नियुक्त कर दिया गया था बोर्ड, उसके स्थान पर एक और निदेशक की नियुक्ति के द्वारा भरा गया, बैठक, जिस पर वह हटा दिया गया है, की विशेष सूचना प्रदान की

इरादा नियुक्ति इस अनुच्छेद के खंड (ख) के तहत दी गई है। इस प्रकार नियुक्त निदेशक की तारीख तक पद पर बने रहेंगे जो अपने पूर्ववर्ती कार्यालय में आयोजित होता अगर वह पूर्वोक्त पद से हटाया नहीं गया था।

- (च) रिक्ति इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (ग) के तहत भरा नहीं है, तो यह हो सकता है अब तक के रूप में प्रावधानों के अनुसार एक आकस्मिक रिक्ति के रूप में भरा वे अनुच्छेद 125 के लागू हो सकता है और सभी प्रावधान लागू होंगे तदनुसार बशर्ते कि निर्देशक जो पद से हटा दिया गया था बोर्ड द्वारा एक निदेशक के रूप में नियुक्त करेगा सदस्य की मृत्यु के होते हुए भी परोक्ष रूप से दिए गए वोट की वैधता,

आदि।

एक वोट प्रॉक्सी का एक साधन की शर्तों के अनुसार दिया जाएगा प्रिंसिपल या निरसन के पिछले मौत के होते हुए भी मान्य होगा प्रॉक्सी का या वकील के किसी भी शक्ति है जिसके तहत इस तरह के प्रॉक्सी था की संबंध में शेरों के हस्तांतरण जिनमें से वोट दिया जाता है पर हस्ताक्षर किए कि मौत, निरसन या हस्तांतरण के लेखन में कोई सूचना उपलब्ध कराई होगी बैठक से पहले कार्यालय में प्राप्त किया गया है।

139. (1) प्रत्येक सदस्य प्रतिवर्ष लिखित रूप में बोर्ड को तारीख, अंतरंग करेगा जो समय समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है और अगली वार्षिक सामान्य बैठक पर बोर्ड के निर्वाचित होने के लिए अपने उम्मीदवार के नाम लिए जाते हैं।
- (2) लेखन या सूचना इस अनुच्छेद के तहत ही किया गया है समझा जाएगा यह इस तरह के सदस्य के एक निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए और एक के साथ हसंकल्प ऐसे सदस्य मंडल द्वारा पारित की प्रमाणित प्रतिलिपि किसी भी हटाने या नियुक्ति के लिए प्रभाव दे रही है।
- (3) अनुच्छेद 136 और 138 (दोनों होते हैं) के प्रावधानों को पढ़ा जाएगा और इस लेख 139 के प्रावधानों के अनुसार इस विषय में किया जायेगा।

निदेशकों की कार्यवाही

140. निदेशकों की बैठक

निदेशक मंडल कारोबार के संचालन स्थगित और अन्यथाके लिए बैठक कर सकते हैं और जैसा वह ठीक समझते हैं उनकी बैठकों और कार्यवाही को विनियमित रूप से पूरा करते हैं लेकिन वहाँ बोर्ड के चार ऐसी बैठकों की एक न्यूनतम किया जाएगा कि इस तरीके में हर साल कि अधिक से अधिक नहीं 120 (एक सौ और बीस) दिनों की लगातार दो बैठकों के बीच मंडल हस्तक्षेप करेगा।

141. जब बैठक बुलाई जाये

किसी भी समय अध्यक्ष और प्रबंधक या इस तरह के अन्य अधिकारी के रूप में निदेशक के अनुरोध पर निदेशकों की बैठक बुला सकते हैं।

142. बैठक की सूचना

कंपनी के बोर्ड की हर बैठक की सूचना हर निर्देशक को लिखित में उसके पते पर कंपनी के साथ पंजीकृत अपने संबोधन में दिए गए सात दिन पूर्व दी जाएगी।

143. बोर्ड के अध्यक्ष
निर्देशकों अपने अध्यक्ष पद धारण करने के लिए चुनाव और उसके लिए अवधि निर्धारित कर सकते हैं
वह है। यह बोर्ड की सभी बैठकें यदि वो उपस्थित है तो उसकी अध्यक्षता में की जाएगी अध्यक्ष, उपस्थित नहीं हो उसी के आयोजन के लिए नियत समय पर, तब और उस मामले में निदेशक पब्लिक में से एक चुन लेगा ब्याज निदेशक तो वर्तमान बैठक में अध्यक्षता करने के लिए।
144. संचालक मंडल की बैठक में प्रश्न, कैसे निर्णय लिया जाए
किसी भी बैठक में उत्पन्न होने वाले सवालों मतों का बहुमत से निर्णय लिया जाएगा और मत बराबर होने के मामले में, बैठक के अध्यक्ष (भले अध्यक्ष इन प्रस्तुत या निदेशक की हैसियत से नियुक्त इस तरह की बैठक में) की अध्यक्षता में एक दूसरे या निर्णायक मत होगा।
145. कोरम और अपनी क्षमता शक्तियों का प्रयोग करने के लिए
कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम करेगा इसकी कुल संख्या का एक तिहाई (किसी भी अंश है कि एक तिहाई में समाहित किया एक) या दो निदेशकों और जो भी अधिक है के रूप में पूर्णांकित किया जा रहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या अन्य द्वारा निदेशकों की भागीदारी ऑडियो विजुअल साधन भी के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा; कोरम प्रदान की है कि जब किसी भी बैठक रुचि के नंबर पर
निदेशक से अधिक या कुल ताकत का दो-तिहाई के बराबर है, निदेशक जो रुचि बैठक में कम नहीं किया जा रहा है पर मौजूद नहीं हैं, दो से ऐसे समय के दौरान कोरम और आगे कि व्यवस्था की जाएगी:
उक्त प्रावधान के लागू नहीं होगा जब किसी भी अनुबंध या
व्यवस्था से या एक साथ कंपनी की ओर से करने में दर्ज किया जाता है।
निदेशक या किसी फर्म है जो की एक निदेशक सदस्य है या किसी के साथ साथ निजी कंपनी है जो एक निर्देशक या के लिए सदस्य की
(क) हामीदारी या शेयर या डिबेंचर की सदस्यता की कंपनी; या
(ख) के शेयरों या किसी अन्य के डिबेंचर की बिक्री की खरीद कंपनी; या
(ग) कंपनी द्वारा एक ऋण।
इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए —
(1) 'कुल ताकत' कंपनी के निदेशकों की कुल संख्या का मतलब वहां से घटाने के बाद अधिनियम के अनुसरण में निर्धारित निदेशकों की संख्या, यदि कोई हो, जिसका जगह समय में खाली हो सकता है।
(2) 'दिलचस्पी निदेशक' धारा के अर्थ में एक निर्देशक का अर्थ होगा 184 (2) इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अधिनियम की।
146. प्रक्रिया है जहाँ बैठक कोरम के अभाव में स्थगित कर दी
(क) बोर्ड की बैठक कोरम के अभाव में नहीं ठहराई जा सकती है, तो जब तक निदेशक प्रत्येक बैठक में उपस्थित नहीं तो तय है, बैठक स्वचालित रूप से अगले सप्ताह में एक ही दिन तक के लिए स्थगित हो जाएगी एक ही समय और जगह या अगर उस दिन अगले तक यदि राष्ट्रीय छुट्टी है।
(ख) अनुच्छेद 141 के प्रावधानों के लिए किया गया है नहीं समझा जाएगा इस तथ्य के कारण महज उल्लंघन है कि बोर्ड की बैठक उस लेख के शर्तों के अनुपालन में बुलाया गया था जो कर सकते थे
कोरम के अभाव में आयोजित की नहीं।
147. बोर्ड समिति नियुक्त कर सकता है
निदेशक के किसी भी कृत्य प्रतिनिधि के प्रावधानों के अधीन हो सकती है समितियों को अपनी शक्तियों ऐसे सदस्य या सदस्यों से मिलकर उनके शरीर या व्यक्ति या व्यक्तियों में वे ठीक लगता है, और वे समय समय पर इस तरह के प्रतिनिधिमंडल को रद्द कर सकते हैं किसी भी समिति का गठन करेगा इतने में शक्ति इतनी प्रत्यायोजित के कार्य के किसी भी नियमों के अनुरूप है कि हो सकता समय-समय पर निदेशकों द्वारा उस पर लगाए जाएँ जो कार्यकारी कंपनी है एक्सचेंज की एक समिति के रूप में माना जाएगा।
148. समितियों कैसे की बैठक संचालित हो
बैठकों और ऐसे किसी भी समिति की कार्यवाही को संचालित किया जाएगा बैठक को विनियमित करने के लिए इन प्रस्तुत के प्रावधानों के द्वारा और निदेशकों की कार्यवाही अब तक के रूप में ही लागू होगी
और इसके तहत निदेशकों द्वारा पिछले लेख में किए गए किसी भी नियमों नहीं कर रहे हैं।

149. बोर्ड या समिति अधिनियमों के दोष बर्दाश्त नहीं की वैध नियुक्ति
सभी कृत्यों या उसके द्वारा बोर्ड या एक समिति की किसी भी बैठक में किया एक निर्देशक के रूप में काम कर किसी भी व्यक्ति, यह है कि बावजूद वैध होगी बाद में खोज की जा सकती है कि किसी भी एक या अधिक की नियुक्ति या पूर्वोक्त रूप में काम कर किसी भी व्यक्ति के इस तरह के निदेशकों द्वारा अवैध था
दोष या अयोग्यता या के कारण किसी भी हैसियत से समाप्त किया था इन प्रस्तुत की अधिनियम में निहित प्रावधान में कि कुछ भी नहीं प्रदान की यह लेख एक निदेशक द्वारा किया कृत्यों को वैधता देने के लिए समझा जाएगा बाद में उनकी नियुक्ति कंपनी को दिखाया गया है अवैध या पहले होना समाप्त कर दिया गया है।
150. संचलन के संकल्प
कोई संकल्प विधिवत बोर्ड या द्वारा पारित किया गया है समझा जाएगा उसके परिसंचरण द्वारा एक समिति द्वारा जब तक संकल्प किया गया है मसौदे में एक साथ परिचालित आवश्यक कागजात के साथ, यदि कोई हो, के लिए सभी निदेशक या समिति के सभी सदस्यों को तो भारत में (नहीं संख्या में कम होने के कोरम एक बोर्ड या की एक बैठक के लिए तय है कि समिति के रूप में भी मामला हो) और सभी अन्य निदेशकों या सदस्यों के लिए भारत में अपने सामान्य पते पर और इस तरह के द्वारा अनुमोदित किया गया है जैसे निर्देशकों भारत में या उनमें से इस तरह के बहुमत से तो कर रहे हैं के रूप में हकदार हैं संकल्प पर मतदान करने के लिए। जहां कुल संख्या में से एक-तिहाई से भी कम नहीं कुछ समय के लिए कंपनी के निदेशकों में से किसी का संकल्प है कि आवश्यकता होती है के तहत परिसंचरण बैठक में निर्णय लिया जाना चाहिए, अध्यक्ष डाल दिया जाएगा संकल्प बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
151. निदेशकों और समितियों की कार्यवाही की मिनट
कंपनी के बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त का कारण बन जाएगा निदेशकों और बोर्ड के सभी समितियों विधिवत एक किताब में दर्ज किए जाने की या किताबें इस उद्देश्य के लिए प्रदान की है। मिनट में होना चाहिए –
(क) की बैठक में कार्यवाही के एक निष्पक्ष सही सारांश
(ख) निदेशकों के नाम के बोर्ड की बैठक में उपस्थित निदेशक या निदेशक मंडल की किसी भी समिति
(ग) बोर्ड और बोर्ड और सभी की समिति द्वारा की गई सभी आदेश अधिकारियों की नियुक्तियों और निदेशकों की समितियों
(घ) सभी प्रस्तावों और बोर्ड की बैठकों की कार्यवाही बोर्ड की समितियां और
(ई) प्रत्येक संकल्प के मामले में बोर्ड की बैठक में पारित किया या बोर्ड की समिति निदेशकों के नाम यदि किसी भी असहमति से, या संकल्प में बवदबनततपदह नहीं।
152. जिसे मिनट तक हस्ताक्षर किए जाने और इस तरह मिनट का असर बोर्ड की कोई बैठक या किसी भी समितियों के किसी भी मिनट बोर्ड दिनांकित और इस तरह के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तात्पर्यित यदि बैठक में अगले या सफल बैठक के अध्यक्ष द्वारा अधिनियम की धारा 118 के प्रावधानों के अनुसार, सभी के लिए करेगा प्रयोजनों के लिए जो भी की वास्तविक निधन के सबूत हो प्रस्तावों और वास्तविक और नियमित रूप से लेनदेन या की घटना इसलिए दर्ज की गई और बैठक की नियमितता की कार्यवाही, जिस पर एक ही जगह ले लिया है करने के लिए दिखाई जाएगी।
153. अधिनियम के प्रावधान
निदेशक धारा 92, 170, 184 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा, 185 अधिनियम, जो सालाना रिटर्न से संबंधित 188 निर्देशकों के रजिस्टर और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनके शैयर्धारिता, द्वारा ब्याज के प्रकटीकरण निदेशक, निदेशक, आदि के लिए ऋण, और संबंधित पक्ष के लेनदेन, हद तक लागू हो।
- निदेशकों की शक्तियां
154. कंपनी के जनरल शक्तियों में निहित निदेशक
अधिनियम के प्रावधानों और इन प्रस्तुत करने के लिए व्यापार के अधीन कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, जो सभी तरह के कार्य कर सकते हैं और ऐसे सभी कार्य करता है और बातें करते हैं क्योंकि कंपनी ने अपने द्वारा होता है एसोसिएशन के ज्ञापन या अन्यथा अधिकृत व्यायाम और क्या करने के लिए
और इन प्रस्तुत द्वारा या कानून का निर्देशन या होने के लिए आवश्यक नहीं हैं प्रयोग या आम बैठक में कंपनी द्वारा किया जाता है, लेकिन विषय फिर भी इस अधिनियम के प्रावधानों को और ज्ञापन एसोसिएशन और इन प्रस्तुत करता है और किसी भी नियम को नहीं किया जा रहा है ज्ञापन के साथ असंगत आम बैठक द्वारा की गई समय-समय पर ऐसी कोई विनियमन जाएगा बशर्ते निदेशक के किसी भी पूर्व अधिनियम है जो इस तरह यदि मान्य किया गया है रद्द नियमन नहीं बनाया गया था।
155. कुछ शक्तियों बोर्ड की बैठक द्वारा प्रयोग किया जा करने के लिए ही बोर्ड में शामिल किया गया मामलों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेगा धारा 179 (3) अधिनियम और नियमों के आधार पर बनाया है, केवल द्वारा इसकी बैठकों में पारित संकल्प

का मतलब है। बशर्ते कि बोर्ड के एक संकल्प के द्वारा एक बैठक में पारित कर सकते हैं निदेशकों की किसी भी समिति, प्रबंध निदेशक, प्रतिनिधि प्रबंधक या कंपनी के लिए या एक के मामले में किसी भी अन्य प्रमुख अधिकारी शाखा कार्यालय, शाखा कार्यालय के प्रमुख अधिकारी, शक्तियों के रूप में इस तरह की स्थितियों पर अधिनियम की धारा 179 (3) (डी) (एफ) में निर्दिष्ट

बोर्ड लिख सकते हैं।

156. कंपनी के सहमति निश्चित शक्तियों का प्रयोग के लिए आवश्यक

बोर्ड की सहमति के साथ ही निम्न शक्तियों का प्रयोग करेगा एक विशेष संकल्प द्वारा आम बैठक में कंपनीरू —

- (क) बेचने के लिए पट्टे या अन्यथा पूरे या काफी हद तक के निपटान कंपनी, या जहां कंपनी का मालिक उपक्रम के पूरे पूरा का एक उपक्रम है, या काफी हद तक के पूरे से अधिक किसी भी तरह के उपक्रम
- (ख) परिहार के लिए या एक निदेशक से की वजह से किसी भी कर्ज की फिर से भुगतान के लिए समय देना
- (ग) का निवेश करने के लिए, अन्यथा विश्वास प्रतिभूतियों की तुलना में, की राशि किसी भी विलय का एक परिणाम के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त मुआवजा या समामेलन।
- (घ) धन जहां धन के साथ मिलकर उधार लिया जा करने के लिए उधार ले करने के लिए पैसा पहले ही कंपनी (अलावा अस्थायी ऋण से द्वारा उधार के सामान्य पाठ्यक्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त व्यापार) की चुकता पूंजी के कुल अधिक होगा कंपनी और उसके मुक्त भंडार।
- (ई) के मामले में धर्मार्थ और अन्य फंडों में योगदान किसी भी मात्रा में कुल जो सभी के लिए, किसी भी वित्तीय वर्ष में पांच प्रतिशत से अधिक अपने तीन के लिए औसत शुद्ध मुनाफे तुरंत वित्तीय वर्ष पूर्ववर्ती।

157. विशेष निदेशक को दिया शक्तियां

अनुच्छेद 154 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और सामान्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अन्य शक्तियों इन प्रस्तुत द्वारा प्रदत्त लेकिन के प्रावधानों के अधीन अधिनियम, यह इसके द्वारा स्पष्ट घोषणा की है कि बोर्ड करेगा निम्नलिखित शक्तियां —

- (1) लागत, शुल्क और व्यय, प्रारंभिक और के लिए प्रासंगिक भुगतान करने के लिए प्रोन्नति, गठन, स्थापना और कंपनी का पंजीकरण।
- (2) विदेशों में इस्तेमाल के लिए एक आधिकारिक मुहर के लिए।
- (3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार में रखने के लिए विदेशी रजिस्टर।
- (4) खरीद करने के लिए या अन्यथा कंपनी के लिए प्राप्त किसी भी संपत्ति के अधिकार या विशेषाधिकार है जो कंपनी के लिए अधिकृत है ऐसी कीमत पर प्राप्त करने के लिए और आम तौर पर इस तरह के नियम और शर्तों पर वे फिट लगता है के रूप में।
- (5) संपत्ति के लिए भुगतान करने के लिए उनके विवेक पर किसी भी संपत्ति या अधिकार या विशेषाधिकार का अधिग्रहण के लिए भुगतान करने के लिए द्वारा या कंपनी के लिए प्रदान की गई है या तो पूरी तरह या आंशिक रूप में सेवाओं नकदी, या शेयर, बांड, डिबेंचर या शेयर के अन्य प्रतिभूतियों में कंपनी, और किसी भी शेयर है कि क्या रूप में पूरी तरह चुकता जारी किया जा सकता है या के रूप में पर सहमत हो सकता है उस पर चुकता रूप में जमा राशि के साथ इस तरह केय किसी भी तरह के बांड, डिबेंचर, डिबेंचर शेयर या अन्य प्रतिभूतियों हो सकता है या तो विशेष रूप से संपत्ति के सभी या किसी भी हिस्से पर आरोप लगाया कंपनी और उसके अनपेक्षित धन या नहीं तो आरोप लगाया।
- (6) गुण बीमा करने के लिए
बीमा और आग से या अन्यथा नुकसान या क्षति के खिलाफ बीमा रखने के लिए ऐसी अवधि के लिए और इस तरह की हद तक वे उचित सभी या किसी भी सोच सकते हैं के रूप में इमारतों, मशीनरी, सामान, दुकानों का हिस्सा है। निर्माण और अन्य या तो अलग-अलग या संयुक्त रूप से कंपनी के जंगम संपत्तिय यह भी करने के लिए सभी या माल के किसी भी हिस्से को ठीक कर लेना। निर्माण मशीनरी और अन्य
लेख आयातित या कंपनी द्वारा निर्यात और समर्पण आवंटित बेचने के लिए या इस के अनुसरण में प्रभावित आश्वासन के किसी भी नीतियों बंद शक्ति।
- (7) बैंक खातों को खोलने के लिए
किसी भी बैंक या बैंकरों के साथ या किसी कंपनी के साथ खाते खोलने के लिए। फर्म या व्यक्तिगत और में पैसे का भुगतान और इस तरह के किसी भी खाते से पैसे आकर्षित करने के लिए समय-समय पर निदेशक फिट लगता है कि मई के रूप में।

- (8) खाते सुरक्षित करना
में प्रवेश के लिए किसी भी अनुबंध या सगाई की पूर्ति सुरक्षित करने के लिए बंधक या सभी या की संपत्ति में से किसी का प्रभारी द्वारा कंपनी द्वारा कंपनी के लिए और समय में इस तरह के अन्य में होने के लिए अपनी अवैतनिक राजधानी ढंग वे फिट लगता है के रूप में।
- (9) स्थिति
किसी भी शेयर को संलग्न करने के विचार या के हिस्से के रूप में जारी किया जाना द्वारा अधिग्रहीत साथ किसी भी अनुबंध या संपत्ति के लिए विचार कंपनी, या कंपनी को दी गई सेवाओं के लिए भुगतान में, इस तरह के के रूप में शर्तों उसके हस्तांतरण करने के रूप में वे फिट लगता है।
- (10) शेयर के आत्मसमर्पण स्वीकार करने के लिए
इस तरह के नियम और शर्तों के रूप में किया जाएगा पर किसी भी सदस्य से स्वीकार करने के लिए अपने शेयर या शेयरों का आत्मसमर्पण या उसके किसी भाग पर सहमत हुए।
- (11) न्यासियों की नियुक्ति
किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों (शामिल है या नहीं) को नियुक्त करने के लिए स्वीकार करते हैं और कंपनी के लिए किसी भी संपत्ति से संबंधित विश्वास में पकड़ कंपनी या जिसमें यह रुचि रखते हैं, या किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिए और करने के लिए है निष्पादित और ऐसे सभी कृत्यों और चीजों के रूप में हो सकता है के संबंध में अपेक्षित करना किसी भी तरह के विश्वास और इस तरह के ट्रस्टी के पारिश्रमिक के लिए प्रदान करने के लिए या न्यासियों।
- (12) संस्थान और कानूनी कार्यवाही की रक्षा करना
संस्थान के लिए, आचरण, रक्षा, योगिक या किसी कानूनी छोड़ देना चाहिए द्वारा या कंपनी या उसके अधिकारियों या अन्यथा के खिलाफ कार्यवाही कंपनी के मामलों के विषय में, और भी योगिक और अनुमति देने के लिए किसी भी ऋण की संतुष्टि के भुगतान की वजह के लिए या किसी भी दावे के लिए या समय द्वारा या कंपनी के खिलाफ की मांग।
- (13) मध्यस्थता करने का उल्लेख करने के लिए
मध्यस्थता करने के लिए कंपनी द्वारा या के खिलाफ किसी भी दावे या मांग का उल्लेख करने के लिए और निरीक्षण और पुरस्कार प्रदर्शन करते हैं।
- (14) दिवालियापन के मामलों में कार्यवाई करने के लिए
दिवालियापन से संबंधित सभी मामलों में कंपनी की ओर से कार्यवाई करने के लिए और दिवाला।
- (15) प्राप्तियों देने के लिए
बनाने के लिए और प्राप्तियों, जारी है और धन के लिए अन्य निर्वहन देने के लिए कंपनी के लिए और दावों और की मांगों के लिए देय कंपनी।
- (16) बिलों की जांच अधिकृत करने के लिए
समय से जो पर हस्ताक्षर करने के लिए हकदार होगा—समय पर निर्धारित करने के लिए कंपनी की ओर से बिल, नोट्स, रसीदें, स्वीकृतियां, विज्ञापन, चेक, विभाजित वारंट, विज्ञप्ति, अनुबंध और दस्तावेजों।
- (17) पैसा निवेश करने के लिए
निवेश और कंपनी का पैसा किसी के साथ सौदा करने के लिए तुरंत नहीं उसके उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, ऐसी प्रतिभूतियों में है और ऐसे में तरीके के रूप में वे फिट हैं और समय—समय पर भिन्न करने के लिए लगता है कि या इस तरह महसूस कर सकते हैं निवेश।
- (18) कर्मचारियों आदि के कल्याण के लिए प्रदान करने के लिए
कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रदान करने के लिए कंपनी और उनकी पत्नियों, और परिवार या आश्रितों या कनेक्शन ऐसे व्यक्तियों, इमारत से या घरों के निर्माण में योगदान दे या की अनुदान या पैसे पेंशन, भत्ते, बोनस या अन्य द्वारा आवास या या सदस्यता लेने या योगदान बनाने के द्वारा और समय—समय पर भुगतान प्रोविडेंट और अन्य संगठनों, संस्थानों, धन या ट्रस्टों को और से प्रदान करने या सदस्यता लेने या अनुदेश के स्थानों की दिशा में योगदान और मनोरंजन, अस्पतालों और औषधालयों, चिकित्सा और अन्य उपस्थिति और कंपनी के रूप में अन्य सहायता फिट लगता होगा। के लिए सदस्यता
चौरिटेबल फंड आदि।

(19) चौरिटेबल फंड आदि के लिए सदस्यता

अधिनियम की धारा 181 सदस्यता के लिए या के उपबंधों के अधीन किसी भी राष्ट्रीय, धर्मार्थ, उदार, जनता के लिए पैसे की गारंटी, सामान्य या उपयोगी वस्तु या किसी प्रदर्शनी या किसी संस्था, क्लब, समाज के लिए या निधि।

(20) रिजर्व फंड स्थापित करने के लिए

निदेशक किसी भी विभाजित सिफारिश, कंपनी की रकम के मुनाफे के लिए जो उचित लगता है के रूप में या एक मूल्यह्रास निधि करने के लिए या रिजर्व के रूप में या एक रिजर्व के लिए मूल्यह्रास फंड या डूब फंड या किसी विशेष कोष आकस्मिकताओं या को पूरा करने के लिए प्रतिदेय वरीयता शेयर या डिबेंचर या के भुगतान के लिए चुकाने या लाभांश मुनसप्रपदह के लिए या, मरम्मत में सुधार के लिए लाभांश, विस्तार और कंपनी की संपत्ति के किसी भी हिस्से को बनाए रखने के लिए, या इस तरह के अन्य प्रयोजनों के लिए के रूप में निदेशक सकता है उनके पूर्ण विवेक में कंपनी के हितों के लिए अनुकूल लगता है, और हो सकता निदेशक कई रकम इतनी इतना तत्संबंधी के रूप में करने के लिए आवश्यक अलग सेट या निवेश

द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को इस तरह के निवेश पर (विषय निवेश किया अधिनियम) के रूप में निदेशक सोच सकते हैं फिट और समय से साथ सौदा करने के लिए समय और इस तरह के निवेश से भिन्न है और के निपटान और लागू करते हैं और व्यय सभी या कंपनी के लाभ के लिए किसी भी भाग क्या है, इस तरह के तरीके में और के लिए निदेशक के रूप में इस तरह के उद्देश्यों (उपरोक्त के रूप में इस तरह के प्रतिबंध के अधीन) उनकी पूर्ण विवेक में के हित के लिए अनुकूल लगता है कंपनी बर्दाश्त नहीं है कि मामलों को जो निदेशक, लागू या जिस पर वे एक ही है या उसके किसी भाग के मामलों में हो सकता है विस्तार करने के लिए या जिस पर कंपनी की पूंजी धन ठीक ही हो सकता है लागू या खर्च और निदेशकों रिजर्व या किसी विभाजित कर सकते हैं इस तरह के विशेष कोष में निधि और करने के लिए एक कोष से किसी भी राशि का स्थानांतरण एक निदेशक के रूप में एक और ठीक समझे और परिसंपत्तियों काम कर सकते हैं मूल्यह्रास सहित सभी या ऊपर फंडों में से किसी का गठन फंड, कंपनी के व्यापार में या खरीद या पुनर्भुगतान में प्रतिदेय वरीयता शेयरों और डिबेंचरों और बिना किया जा रहा है कि बिना अन्य परिसंपत्तियों से ही अलग रखने के लिए, और बाध्य उसी पर ब्याज का भुगतान करने के लिए हालांकि शक्ति के साथ, बाध्य किया जा रहा, उनके विवेक पर निदेशक भुगतान या इस तरह के कोष में क्रेडिट करने के लिए अनुमति देने के लिए निदेशक के रूप में इस तरह के दर पर ब्याज उचित सोच सकते हैं।

(21) अधिकारियों आदि के नियुक्ति के लिए

समिति या विशेषज्ञों की समिति तकनीशियनों को सलाहकारों या इस तरह के प्रबंधकों, अधिकारियों, लिपिक कर्मचारियों और स्थायी, अस्थायी या विशेष सेवा समय-समय पर प्रदाय करने वाले अभिकर्ताओं की नियुक्ति या अपने विवेक से उन्हें हटाने या निलंबित करने, और उनकी शक्तियों एवं कर्तव्यों और वेतन-भत्तों को निर्धारित करने और ऐसे मामलों में सुरक्षा की जरूरत और ऐसी राशियां जो उचित समझें, उपरोक्त में बिना किसी भेदभाव के उप अनुच्छेद 22 और 23 के प्रावधानों के अनुसार भारत के किसी भी क्षेत्र में समय-समय पर कंपनी का प्रबंधन एवं लेन-देन के मामले उचित विधि के अनुसार बिना किसी भेद-भाव के इस अनुच्छेद में दी गई समान्य शक्तियों के अनुसार निपटायें जायेंगे।

(22) स्थानीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए

उनकी राय में आवश्यकतानुसार किसी भी स्थानीय कानून का अनुपालन करने के लिए जो यह कंपनी के हित में आवश्यक या समीचीन हो।

(23) स्थानीय बोर्ड स्थापित करने के लिए

समय-समय पर और किसी भी समय, किसी भी स्थानीय बोर्ड स्थापित करने के लिए भारत या इसके किसी भी निर्दिष्ट इलाके में कंपनी के मामलों के किसी भी प्रबंध के लिए किसी भी व्यक्ति और स्थानीय बोर्डों के सदस्य नियुक्त करने के लिए और उनके पारिश्रमिक तय करने के लिए। और समय समय पर

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन और इनमें से प्रस्तुत करता है, के अधीन किसी भी व्यक्ति को डेलीगेट शक्तियों के साथ भी नियुक्त किया जा सकता है। अधिकारियों और विवेकाधीन शक्तियां निदेशक में निहित की जा रही हैं, और अधिकृत करने के लिए समय के लिए सदस्यों को किसी भी तरह के स्थानीय मंडल की जा रही है, या उनमें से किसी को उसमें किसी भी रिक्त पदों को भरने के लिए और रिक्तियों के होते हुए भी कार्य करने के लिए और ऐसे किसी भी नियुक्ति या प्रतिनिधिमंडल इस तरह के नियम और पर बनाया जा सकता है निदेशक के रूप में इस तरह की स्थितियों के अधीन ठीक समझे, और निदेशक ऐसे नियुक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय निकाल सकते हैं। ऐसे प्रतिनिधियों या उप-प्रतिनिधि को सभी या कुछ शक्तियों के लिए निदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारियों और या उनकी विवेकाधीन शक्तियों द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

(24) किसी भी समय और समय-समय पर, लेकिन अधिनियम और अनुच्छेद 147 के प्रावधानों के अधीन करने के लिए, वकील की शक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए या व्यक्तियों ऐसी लिए वकील या कंपनी के वकीलों

होना करने के लिए और ऐसी शक्तियों, अधिकारियों और विवेक के साथ प्रयोजनों (से अधिक नहीं उन इन प्रस्तुत तहत निदेशकों द्वारा प्रदत्त या प्रयोग) और ऐसी अवधि और निदेशक के रूप में इस तरह की स्थितियों के अधीन के लिए योग्य प्रतीत होता है और किसी भी ऐसी नियुक्ति (अगर निदेशक को योग्य प्रतीत होता है) हो सकता है सदस्यों के पक्ष में कर दिया है, या किसी स्थानीय के सदस्यों में से किसी बोर्ड, उपरोक्त के रूप में या किसी भी कंपनी या सदस्यों के पक्ष में स्थापित निदेशक, प्रत्याशियों या किसी भी कंपनी के प्रबंधकों या फर्म या अन्यथा व्यक्तियों की किसी भी अस्थिर शरीर के पक्ष सीधे चाहे नामित या परोक्ष रूप से निदेशक, और वकील की ऐसी कोई शक्ति हो सकती है, के द्वारा संरक्षण या व्यक्तियों के साथ काम की सुविधा के लिए इस तरह की शक्तियां निदेशक के रूप में इस तरह के वकीलों को ठीक समझे।

(25) शक्तियों का प्रत्यायोजन

आम तौर पर इस अधिनियम के प्रावधानों और करने के लिए इन लेख के अधीन को सौंपने, अधिकारियों और निदेशक में निहित विवेकाधीन शक्तियों के अधीन किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या व्यक्तियों।

(26) प्रतिनिधियों द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन

इस तरह के किसी भी प्रतिनिधि या पूर्वोक्त रूप में वकील द्वारा अधिकृत किया जा सकता उप निदेशक प्रतिनिधि को सभी या शक्तियों के अधिकारियों की किसी भी और समय के लिए विवेक उस में निहित जा रहा है।

(27) अनुबंधों में प्रवेश करने लिए

इस तरह के सभी वार्ताओं और अनुबंध में प्रवेश और पुनः दायित्व सौंपें और भिन्न करने के लिए ऐसे सभी अनुबंधों और निष्पादित और सभी तरह के कृत्यों, कर्म और बातें करते हैं नाम और कंपनी की ओर से वे समीचीन समझे जाने के लिए या इस मामले के किसी भी पूर्वोक्त या अन्यथा के लिए के संबंध में कंपनी के उद्देश्य के लिए।

(28) फ्रेम में संशोधन, परिवर्तन, संशोधित करने और नियमों को लागू, नियमों, उपनियमों और एक्सचेंज के सदस्यों के लिए आचार संहिता, कंपनियों को प्रतिभूतियों पर इस तरह के व्यवहार में भर्ती और अन्य प्रतिभागियों की मांग, जो भी शक्ति उपलब्ध कराई गई है एवं इस खंड केवल एक तीन-चौथाई बहुमत से प्रयोग किया जाएगा। जो वर्तमान निदेशक एवं एक विधिवत बुलाई बैठक में मतदान मंडल के समक्ष होगा।

158. बोर्ड के शक्तियां

(1) बोर्ड, व्यवस्थित बनाए रखने, नियंत्रण, प्रबंधन करने की शक्ति होगी, विनियमित करने और एक्सचेंज (एस) के और प्रतिभूतियों के आपरेशन की सुविधा एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्यों के अधीन द्वारा लेनदेन

एससीआर अधिनियम इन लेखों के और के प्रावधानों और नियम बनाए वहाँ के तहत और सेबी अधिनियम और नियम, वहाँ विनियमों के तहत या किसी सेबी के निर्देशों।

(2) एससीआर अधिनियम और इन लेखों के और के उपबंधों के अधीन नियमों के तहत बनाए गए और सेबी अधिनियम और वहाँ नियमों के तहत या किसी सेबी के निर्देश, बोर्ड बनाने की शक्ति और व्यापक अधिकार होगा किसी एक या सभी मामलों के लिए नियम, उपनियमों और समय-समय पर विनियम एक्सचेंज के कारोबार के संचालन के संबंध में बोर्ड, व्यवस्थित बनाए रखने, नियंत्रण, प्रबंधन करने की शक्ति होगी,

विनियमित करने और एक्सचेंज (एस) के और प्रतिभूतियों के आपरेशन की सुविधा एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्यों के अधीन द्वारा लेनदेन एससीआर अधिनियम इन लेखों के और के प्रावधानों और नियम बनाए

वहाँ के तहत और सेबी अधिनियम और नियम, वहाँ विनियमों के तहत या किसी सेबी के निर्देशों के अधीन।

(3) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड होगा बिजली के नियम, उप-कानूनों और नियमों बनाने के लिए, दूसरे के बीच प्रयोजनों के लिए सभी या निम्न विषयों में से किसी –

(क) एक्सचेंज की सदस्यता के लिए प्रवेश के लिए शर्तें।

(ख) एक्सचेंज के कारोबार का संचालन।

(ग) एक्सचेंज का व्यापार करने के संबंध में व्यापार के सदस्यों के आचरण, सभी प्रकार की प्रतिभूतियों में सभी लेनदेन से संबंधित सभी मामलों सहित और सभी अनुबंधों, जो उपनियमों नियम के अधीन किया गया है, विनियम या विवेक का उपयोग।

(घ) फॉर्म और अनुबंध की शर्तों में प्रवेश किया जा सकता है, और समय, मोड और व्यापार के सदस्यों के बीच अंतर ठेके के प्रदर्शन के तरीके एसई या व्यापार के सदस्यों और उनके घटकों के बीच।

(ई) और शर्तों पर लेन-देन के लिए प्रतिभूतियों के प्रवेश के लिए लेवी अदला बदली।

(च) समय, स्थान और एक्सचेंज पर व्यापार लेनदेन के लिए तरीके।

- (ख) अवज्ञा या नियमों के उल्लंघन के लिए दंड, उपनियमों और या एक्सचेंज के सामान्य अनुशासन, निष्कासन या शामिल करने की विनियम ट्रेडिंग सदस्यों के निलंबन।
- (ज) चूककर्ता या निलंबन, या किसी भी रूप में व्यापार के सदस्य की घोषणा इस्तीफे या एक्सचेंज का और के व्यापार सदस्यता से बहिष्कार उसके परिणामों के संबंध में
- (छ) कमीशन या ब्रोकरेज जो व्यापार के सदस्यों को चार्ज कर सकते हैं के बावत्
- (जे) की स्थिति, या में प्रवेश के लिए प्रवेश के लिए सदस्यता के लिए लेवी या एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्यता की निरंतरता। (कश्मीर) के रूप में इस तरह के शेयरों में लेनदेन के लिए चार्ज ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा देय समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।
- (ठ) वित्तीय स्थिति, व्यापार आचरण और व्यवहार की जांच ट्रेडिंग सदस्यों की (एम) विवाद, शिकायत, व्यापार के बीच उत्पन्न होने वाले दावों की बस्तियों सदस्यों और लोगों को, जो परस्पर नहीं व्यापार कर रहे हैं और साथ ही सदस्यों ट्रेडिंग सदस्यों और व्यक्तियों के बीच जो नहीं कर रहे हैं ट्रेडिंग सदस्यों
- प्रतिभूतियों में किसी भी लेनदेन से संबंधित नियम के अधीन कर दिया, उपनियम और विनियमों और निपटान सहित एक्सचेंज का उपयोग नियम, उप-कानूनों और नियमों के अनुसार और मध्यस्थता द्वारा
- समय-समय पर बल में एक्सचेंज का उपयोग।
- (एन) की स्थापना और समाशोधन गृह या अन्य के कामकाज समाशोधन के लिए व्यवस्थां
- (ओ) के किसी भी उद्देश्य के लिए समिति या समितियों की नियुक्ति अदला बदली।
- (4) बोर्ड की कार्यकारी समिति को सौंपने के लिए सशक्त किया जाएगा या किसी भी व्यक्ति के लिए, सभी शक्तियां या उस में निहित के किसी भी, सभी का प्रबंधन करने के लिए या एक्सचेंज के मामलों के किसी भी।
- (5) इन प्रस्तुत के प्रावधानों और एससीआर अधिनियम और नियम के अधीन फँसाया उसके अधीन बनाए और सेबी अधिनियम और नियम उसके अधीन या किसी सेबी निर्देशों, बोर्ड, भिन्न हो संशोधन या निरसन या जोड़ने के लिए सशक्त किया जाएगा नियम, उपनियम और विनियमों के लिए, यह द्वारा तैयार किए।

मेहर

159. मोहर, अपनी हिरासत और उपयोग

बोर्ड कंपनी के उद्देश्य के लिए एक आम सील प्रदान करेगा और एक ही है और विकल्प नष्ट करने के लिए समय-समय पर की शक्ति होगी उसके एवज में एक नया मोहर, और बोर्ड सुरक्षित लिए प्रदान करेगा

समय से किया जा रहा है और मोहर के लिए मोहर की हिरासत कभी नहीं इस्तेमाल किया जाएगा द्वारा या बोर्ड या की एक समिति के अधिकार के तहत छोड़कर निदेशक, एक निदेशक, या सचिव की या की उपस्थिति में छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति की है जो कम से कम इस संबंध में अधिकृत किया जा सकता है, जो मोहर कि प्रदान चिपका है जो करने के लिए हर साधन हस्ताक्षर करेगा शेयरों के प्रमाण पत्र के रूप में ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर के तहत हो सकता है कंपनियों (शेयर पूर्ण और डिबेंचर) नियम, 2014 द्वारा प्रदान की सेना में समय-समय पर। बचाने के रूप में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान की एक दस्तावेज या कार्यवाही अधिनियम, कंपनी द्वारा प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है एक निदेशक, या सचिव या किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है बोर्ड द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत और अपनी मुहर के तहत होना जरूरत नहीं है।

लाभांश

160. मुनाफों का बंटवारा

कंपनी के लाभ, किसी भी विशेष उससे संबंधित अधिकारों के अधीन बनाया या संघ या ज्ञापन के द्वारा बनाया जा करने के लिए अधिकृत इन प्रस्तुत करता है और अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है, और इन

तोहफे के अनुपात में सदस्यों के बीच विभाज्य किया जाएगा पूंजी की राशि क्रमशः उनके द्वारा धारित शेयरों में भुगतान किया।

161. पूर्व में ब्याज पर दी गई पूंजी पर लाभांश नहीं होना

जहां पूंजी स्तर पर कॉल की अग्रिम में भुगतान किया जाता है कि एक ही ब्याज ले जाएगी, इस तरह के पूंजी नहीं करेगा, जबकि ब्याज ले जाने, (लाभांश) के लिए एक सही मुनाफे में भाग लेने के लिए प्रदान करते हैं।

162. भुगतान की गई राशि के अनुपात में लाभांश

कंपनी की चुकता मात्रा के अनुपात में लाभांश का भुगतान कर सकते हैं के रूप में प्रत्येक शेयर, जहां एक बड़ी राशि का भुगतान किया गया है या पर चुकता करने का श्रेय के रूप में दूसरों पर तो कुछ शेयरों पर चुकता श्रेय दिया।

163. आम बैठक में कंपनी के लाभांश की घोषणा हो सकती है
आम बैठक में कंपनी के लाभांश की घोषणा कर सकते हैं के लिए भुगतान किया उनके संबंधित अधिकारों और मुनाफे में हितों के अनुसार सदस्यों और भुगतान के लिए समय ठीक कर सकता है।
164. निदेशक की सिफारिश से बड़ा लाभांश नहीं
कोई बड़ा लाभांश की तुलना द्वारा सिफारिश की है घोषित किया जाएगा निदेशक लेकिन आम बैठक में कंपनी के एक छोटे घोषणा कर सकती है लाभांश, अधिनियम, और की धारा 123 के प्रावधानों के अधीन कोई लाभांश कंपनी के खिलाफ के रूप में ब्याज ले जाएंगे। कंपनी के शुद्ध मुनाफे की राशि की घोषणा निदेशक द्वारा की जाएगी।
165. अंतरिम लाभांश
निदेशक समय-समय पर इस तरह के सदस्यों को अंतरिम करने के लिए भुगतान कर सकते हैं अपने फैसले को सही ठहराते की स्थिति में लाभांश।
166. अनुच्छेद 58 के तहत स्थानांतरण के पूरा होने तक लाभांश को रोकना
निदेशक के संबंध में लाभांश के शेयरों पर देय रखने सकता है जो किसी भी व्यक्ति के अनुच्छेद 57 के तहत करण है, जब तक स्थानांतरण करने के लिए हकदार ऐसे व्यक्ति को ऐसे शेयरों के संबंध में एक सदस्य हो जाएंगे।
167. कोई भी सदस्य लाभांश प्राप्त करने के लिए, योग्य नहीं होगा जबकि कंपनी के प्रति कर्जदार है।
अधिनियम की धारा 123 के अधीन रहते हुए, कोई सदस्य का हकदार होगा अपने हिस्से के संबंध में किसी भी ब्याज या लाभांश के भुगतान प्राप्त या किसी भी पैसा-पैसे शेयरों की वजह से या उसके पास से कंपनी के कारण हो सकता है या तो अकेले इस तरह के शेयर या शेयर या अन्यथा कितनी ही के संबंध में
या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों और निर्देशकों के साथ घटा सकते हैं ब्याज या लाभांश पैसे के सभी रकम किसी भी सदस्य को देय से इसलिए उसके पास से कंपनी की वजह से।
168. सही शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण तक लाभांश लंबित
शेयरों के हस्तांतरण के किसी भी साधन के लिए दिया गया है पंजीकरण और ऐसे शेयरों के हस्तांतरण के लिए कंपनी नहीं किया गया है कंपनी द्वारा पंजीकृत है, यह होगा, बावजूद किसी भी चीज में निहित
इन लेख अवैतनिक करने के लिए इस तरह के शेयरों के संबंध में लाभांश का स्थानांतरण लाभांश खाते में जब तक कंपनी पंजीकृत द्वारा अधिकृत है लिखित रूप में इस तरह के शेयरों के धारक अंतरिती करने के लिए इस तरह के लाभांश का भुगतान करने के लिए हस्तांतरण के ऐसे साधन में निर्दिष्ट।
169. लाभांश के संदर्भ में विशेष उपबंध
कोई लाभांश नकद में छोड़कर देय होगा, इस में कुछ भी नहीं प्रदान की अनुच्छेद लाभ या भंडार का पूंजीकरण प्रतिबंधित करने के लिए समझा जाएगा जारी करने के प्रयोजन के लिए कंपनी के लिए पूरी तरह से बोनस शेयर का भुगतान किया या समय के लिए किसी भी राशि के भुगतान के द्वारा आयोजित किसी भी शेयरों पर अवैतनिक किया जा रहा है।
170. लाभांश निर्गमन का तरीका
किसी भी लाभांश, ब्याज या अन्य पैसा के संबंध में नकद में देय शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से या चेक या वारंट भेजा द्वारा भुगतान किया जा सकता पद धारक का पंजीकृत पता या में, करने के लिए निर्देशित के माध्यम से संयुक्त धारकों के मामले में संयुक्त की है कि एक के पंजीकृत पते पर धारकों जो पहले सदस्यों के रजिस्टर पर नाम है, या ऐसे व्यक्ति के लिए और इस तरह का पता करने के लिए धारक या संयुक्त धारकों प्रत्यक्ष लिखित रूप में हो सकता है।
- 170ए. इस तरह हर चेक या वारंट के आदेश को देय किया जाएगा जिस व्यक्ति के पास भेज दिया है। किसी भी तरह से भुगतान जो भी किया जाएगा पैसे का भुगतान या भुगतान किया जाना करने के हकदार व्यक्ति के जोखिम पर। कंपनी के एक भुगतान जो खो दिया है या देरी हो रही है के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कंपनी के एक भुगतान कर दिया समझा जाएगा और प्राप्त एक भुगतान पूर्वगामी अनुज्ञेय से किसी का उपयोग करता है, तो इसके लिए अच्छा मुक्ति साधन बना है।
- 170बी. एक शेयर के दो या अधिक संयुक्त धारकों में से किसी एक प्रभावी प्राप्तिओं दे सकता है किसी भी लाभांश, बोनस या अन्य पैसा इस तरह के संबंध में देय के लिए शेयर।
171. लावारिस या अवैतनिक लाभांश जिनका पैसा बकाया है
कोई लाभांश कंपनी के खिलाफ ब्याज वहन करेगा।
(1) जहां कंपनी लाभांश देने की घोषणा की है लेकिन जो भुगतान नहीं किया गया है या सम्मान में लाभांश वारंट उसका 30 के भीतर नहीं नियुक्त किया गया है (तीस) किसी भी शेयरधारक को घोषणा की तारीख से दिन के हकदार लाभांश

के भुगतान, कंपनी करेगा 7 (सात) से दिन के भीतर 30 साल की अवधि की समाप्ति की तिथि (तीस) दिन, एक विशेष खाता खोलने कंपनी के नाम पर किसी भी अनुसूचित बैंक में उस निमित्त और कहा खाते में स्थानांतरित, लाभांश की कुल राशि जो रहता है अवैतनिक या संबंध में जो कोई लाभांश वारंट तैनात किया गया है।

- (2) धारा 124 के उपबंधों के अधीन (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की, किसी भी पैसा कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरित किया जो अवैतनिक या से सात साल की अवधि के लिए लावारिस बनी हुई है

इस तरह के हस्तांतरण की तिथि, निवेशक को कंपनी द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा शिक्षा और संरक्षण कोष।

- (3) कोई लावारिस या अवैतनिक लाभांश से पहले बोर्ड द्वारा जब्त कर ली जाएगी दावे हो जाता है कानून द्वारा वर्जित बशर्ते कि एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज प्रावधिक एक कंपनी की प्रतिभूतियों निपटने के लिए स्वीकार कर सकते हैं जो अपनी अगली आम बैठक में संघ के लेख में संशोधन करने के लिए इतना चलाती पूर्वगामी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और इस बीच में कार्य करने के लिए सहमत के रूप में सख्ती से इस खंड के प्रावधानों के अनुसार। सभी लावारिस और अवैतनिक लाभांश प्रति कंपनियों की धारा 125 के रूप में कार्यवाई की जाएगी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों।

- (4) कंपनी किसी भी चेक, लाभांश के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा वारंट या लाभांश के संबंध में डाक द्वारा भेजा पोस्टल ऑर्डर, चाहे द्वारा अनुरोध या अन्यथा, पंजीकृत पते या पते पर सदस्य द्वारा या किसी लाभांश के लिए हाथ से पहले कार्यालय को भेजी सदस्य या व्यक्ति के फर्जी पृष्ठांकन द्वारा बहां हकदार को खो दिया है किसी भी चेक या वारंट या किसी अन्य द्वारा धोखाधड़ी वसूली तत्संबंधी माध्यम।

172. लाभांश और एक साथ बुलावा

अधिनियम के अधीन रहते हुए, किसी भी आम बैठक लाभांश देने की घोषणा कर सकते हैं धनराशि बकाया के संबंध में सदस्यों पर एक कॉल इस तरह के शेयरों पर बैठक सुधारों के रूप में राशि है, लेकिन इतना है कि प्रत्येक सदस्य पर कॉल नहीं करेगा लाभांश और उसे करने के लिए देय इतना है कि कॉल पर देय से अधिक लाभांश, लाभांश के रूप में और एक ही समय है, इसलिए हो सकता है यदि व्यवस्था की कंपनी और सदस्यों के बीच कॉल के खिलाफ बंद सेट किया।

पूँजीकरण

173. पूँजीकरण

- (ए) आम बैठक में कंपनी ने बोर्ड की सिफारिश पर

- (1) यह कुछ समय के लिए राशि के किसी भी हिस्से को भुनाने के लिए वांछनीय है कि कंपनी के आरक्षित खातों में से किसी का क्रेडिट करने के लिए खड़े हैं, या करने के लिए लाभ और हानि खाते, या वितरण के लिए उपलब्ध अन्यथा की क्रेडिट; तथा

- (2) इस तरह के योग तदनुसार ढंग से वितरण के लिए मुक्त होना तय नीचे खंड (ख) में निर्दिष्ट सदस्य जो हो गया होता बीच बहां हकदार, अगर लाभांश के माध्यम से और एक ही में वितरित अनुपात।

- (बी) के योग उक्त नकद में भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन लागू किया जाएगा, के अधीन प्रावधान खंड में निहित (3) के नीचे, या तो में या की दिशा

- (क) समय के लिए किसी भी मात्रा में भुगतान किसी भी द्वारा आयोजित शेयरों पर अवैतनिक किया जा रहा है ऐसे क्रमश सदस्यों

- (ख) पूर्ण, अनिर्गमित शेयर या कंपनी के अन्य प्रतिभूतियों होने के लिए भुगतान आबंटित और वितरित, पूरी तरह से पेड-अप के रूप में जमा करने के लिए और इस तरह के लोगों के बीच अनुपात पूर्वोक्त में सदस्यों

- (ग) आंशिक रूप से जिस तरह से उप-खंड (ए) में निर्दिष्ट में और आंशिक रूप से है कि में निर्दिष्ट में उपखंड (ख);

- (घ) पूरी तरह से पेड-अप बोनस शेयर जारी तथा

- (ई) एक प्रतिभूतियों प्रीमियम खाते और एक पूँजी के रिजर्व खाते या किसी भी अन्य अनुमत रिजर्व खाते सकता है, इन के प्रयोजनों के लिए लेख, अनिर्गमित शेयरों के लिए भुगतान करने के लिए जारी किए जाने में लागू किया जा के रूप में पूरी तरह से भुगतान बोनस शेयर सदस्य।

- (सी) एक प्रतिभूतियों प्रीमियम खाते और एक पूँजी के रिजर्व खाते या किसी भी अन्य अनुमत रिजर्व खाते सकता है, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अनिर्गमित शेयरों के सदस्यों को जारी किए जाने के भुगतान में लागू किया जा पूरी तरह से भुगतान बोनस शेयर के रूप में कंपनी हिसाब किताब।

लेखा

174. लेखा

बोर्ड की धारा 128 के अनुसार रखा जाना करने के लिए प्रेरित करेगा खाता (के समुचित पुस्तकों में कार्य के लिए सम्मान के साथ (क) पैसे के सभी रकम, प्राप्त के संबंध में कंपनी और मामलों द्वारा खर्च जो इस प्रकार की प्राप्ति और व्यय ले जगह (ख) सभी बिक्री और कंपनी और (ग) संपत्ति से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद क्रेडिट और कंपनी की देनदारियों) और आम तौर पर सभी को अपने वाणिज्यिक वित्तीय और अन्य मामलों, लेनदेन और सगाई और अन्य सभी की मायने रखती है, सच वित्तीय राज्य और की हालत दिखाने के लिए आवश्यक कंपनी, और खातों अंग्रेजी में और में रखा जाएगा ढंग खातों की पुस्तकों अधिनियम की धारा 128 में प्रदान की और पंजीकृत कार्यालय या ऐसी जगह या भारत में स्थानों पर रखा जाएगा बोर्ड के रूप में अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन फिट लगता है (जहां इस तरह के एक निर्णय लिया जाता है, कंपनी, सात दिनों के भीतर क्या है, रजिस्ट्रार के साथ का पूरा पता दे लिखित रूप में नोटिस दाखिल कि अन्य जगह) और के दौरान निदेशक द्वारा निरीक्षण के लिए खुला हो जाएगा

काम करने के घंटे।

175. अकाउंट के सदस्य और कंपनी के बही-खातों की जांच निरीक्षण

बोर्ड समय-समय पर तय करेगा कि क्या और किस हद तक और किस समय और स्थानों पर और क्या शर्तों के तहत या नियमों खातों और कंपनी के बही-खातों या उनमें से किसी को सदस्यों को नहीं किया जा रहा निदेशकों और के निरीक्षण के लिए खुला हो जाएगा कोई सदस्य (एक निर्देशक नहीं जा रहा है) का निरीक्षण करने के लिए कोई अधिकार होगा और खाते या किताब या कंपनी के दस्तावेज के रूप में कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर या निदेशकों द्वारा या में जनरल कंपनी द्वारा अधिकृत मुलाकात।

176. वित्तीय वक्तव्यों और रिपोर्ट हर वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए

कंपनी के निदेशक मंडल के हर सालाना आम बैठक में कंपनी इस तरह की बैठक से पहले के लिए वित्तीय वक्तव्यों रखे वित्तीय वर्ष के लिए और के रूप में अधिनियम की धारा 134 के द्वारा जरूरी होगा, हो निदेशकों की एक रिपोर्ट (संलग्न किया जाना है साथ ही) के रूप में के साथ राज्य और कंपनी की हालत।

177. फार्म और वित्तीय बयान की सामग्री

कंपनी के हर वित्तीय बयान को एक सच्चे और निष्पक्ष दृश्य देना होगा कंपनी के मामलों के राज्य के और करेगा, के अधीन धारा 129 और 133 अधिनियम के प्रावधानों की, रूपों में हो में निर्धारित भाग में और अधिनियम की अनुसूची ष के क्रमशः द्वितीय, या के रूप में निकट के रूप में बहां परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं।

178. सदस्यों को भेजे जाने वाले वित्तीय बयान और अन्य दस्तावेजों का प्रमाणीकरण

(1) कंपनी के वित्तीय बयान हस्ताक्षरित किया जाएगा कंपनी जहां वह बोर्ड द्वारा या दो द्वारा अधिकृत है की अध्यक्ष निदेशक, जिनमें से एक निदेशक और मुख्य प्रबंध किया जाएगा बाहर कार्यकारी अधिकारी, अगर वह कंपनी में एक निदेशक है, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी के कंपनी सचिव, जहाँ भी वे कर रहे हैं

नियुक्त किया है। वित्तीय बयान बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा इससे पहले कि वे के अनुसार बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर किए हैं इस अनुच्छेद के प्रावधानों और इससे पहले कि वे के लिए लेखा परीक्षक को प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी प्रतिवेदन। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा वित्तीय बयान या वहाँ वित्तीय के पैर में डाला जाएगा बयानों की रिपोर्ट के लिए एक संदर्भ।

(2) एक साथ लेखा परीक्षित के इस तरह के वित्तीय बयान की एक प्रति की एक प्रति के साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कम से कम करेगा इक्कीस दिनों में बैठक से पहले जो एक ही कंपनी के सदस्यों के समक्ष रखा जा रहे हैं, अधिनियम की धारा 101 के प्रावधानों के अधीन, हर के लिए भेजा जा कंपनी का सदस्य, किसी भी धारकों के लिए हर ट्रस्टी के लिए कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों, इस तरह के किसी सदस्य या ट्रस्टी है कि क्या या आम बैठक के नोटिस का हकदार नहीं है की कंपनी भेजे जाने के लिए उसे करने के लिए और इस तरह के सदस्यों या न्यासियों के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों को, व्यक्तियों की जा रही है ताकि हकदार है और उसी की एक प्रति उपलब्ध कराया जाएगा एक के दौरान कंपनी के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए कार्यालय में उस बैठक से पहले कम से कम इक्कीस दिनों की अवधि।

179. वित्तीय वक्तव्यों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की प्रतियां दाखिल किए जाने के संबंध में

वित्तीय वक्तव्यों एक कंपनी से पहले निर्धारित किया गया है आम बैठक, तीन प्रतियां उसके प्रबंधक या सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए या के रूप में अपेक्षित के साथ अधिनियम की धारा 137 द्वारा अपेक्षित एक साथ करेगा अधिनियम की धारा 92 की आवश्यकताओं के अनुसार रिटर्न हो समय की धारा 137 में निर्दिष्ट के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के साथ दायर की जानी है।

लेखा परीक्षा

180. लेखा ऑडिट होने के लिए

एक बार में कम से कम हर साल में कंपनी के खातों की जाएगी संतुलित और लेखा परीक्षित और वित्तीय बयान की सत्यता एक या एक से अधिक लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों द्वारा पता लगाया।

181. नियुक्ति, योग्यता और लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक

नियुक्ति, फिर से नियुक्ति, रोटेशन, हटाने, इस्तीफा, पात्रता, योग्यता, अयोग्यता, पारिश्रमिक, शक्तियों और कर्तव्यों के आदि सांविधिक लेखा परीक्षकों अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा और उसके अधीन बनाए गए नियमों।

182. लेखा परीक्षकों: उनके अधिकारों और कर्तव्यों

(1) कंपनी के हर लेखा परीक्षक के लिए हर समय का उपयोग का अधिकार होगा किताबें और खातों और कंपनी के वाउचर और हो जाएगा निदेशकों और कंपनी के अधिकारियों से की आवश्यकता के हकदार है, जैसे जानकारी के रूप में और स्पष्टीकरण के प्रदर्शन के लिए आवश्यक हो सकता है लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षकों के कर्तव्यों को रिपोर्ट करेगा खातों उनके द्वारा और हर वित्तीय पर जांच पर शेयरधारकों बयानों जिसके द्वारा और अधिनियम के तहत आवश्यक हैं इससे पहले रखी हैं आम बैठक, और रिपोर्ट में कंपनी राज्य करेगा कि क्या उनके राय और उनकी जानकारी और ज्ञान का सबसे अच्छा करने के लिए कहा लेखा, एक सच्चे और निष्पक्ष दृश्य के रूप में कंपनी के मामलों के राज्य देना अंत में यह अपने वित्तीय वर्ष और वर्ष के लिए लाभ और हानि और नकदी प्रवाह और के रूप में इस तरह के अन्य मामलों निर्धारित किया जा सकता है।

(2) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट भी मामलों के तहत निर्धारित राज्य करेगा अधिनियम की धारा 143 के।

183. लेखा परीक्षकों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार

की सभी सूचनाएं और किसी भी आम बैठक से संबंधित अन्य संचार कंपनी है जो कंपनी के किसी भी सदस्य है हकदार है उसे करने के लिए भेजा भी कंपनी के लेखा परीक्षकों और को भेज दिया जाएगा

लेखा परीक्षकों या तो खुद के द्वारा या के माध्यम से भाग लेने के लिए हकदार होगा उसकी अधिकृत प्रतिनिधि, जो भी एक लेखा परीक्षक बनने के लिए योग्य हो जाएगा, और किसी भी सामान्य बैठक है जिसमें वे भाग लेने या के किसी भी हिस्से में सुना जा व्यवसाय है जो उन्हें लेखा परीक्षकों के रूप का सवाल है।

नोटिस

सूचना

184. सूचना

(1) एक दस्तावेज (जो किसी भी सम्मन, नोटिस, प्रार्थना, आदेश भी शामिल है, घोषणा, फार्म और रजिस्टर) किसी भी सदस्य पर भेजकर कार्य किया जा सकता है डाक द्वारा या पंजीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट से या कूरियर द्वारा या उसके द्वारा यह अपने कार्यालय या पते पर, या इलेक्ट्रॉनिक मोड या किसी अन्य द्वारा पहुंचाने साधनों के रूप में अधिनियम के तहत निर्धारित है।

(2) इस तरह की सेवा के लिए एक के मामले में प्रभावित किया गया है समझा जाएगा पत्र के बाद अड़तालीस घंटे की समाप्ति पर एक बैठक का नोटिस एक ही युक्त पर पोस्ट किया जाता है, और किसी भी अन्य मामले में, समय पर जो पत्र पोस्ट के सामान्य पाठ्यक्रम में दिया गया होता। सदस्य एक के माध्यम से किसी भी दस्तावेज की डिलीवरी के लिए अनुरोध कर सकते हैं विशेष विधा है, जिसके लिए वह इस तरह की फीस का भुगतान करेगा के रूप अधिनियम के अनुसार में निर्धारित किया जा सकता है।

185. व्यक्तियों आम बैठक के नोटिस के हकदार

हर आम बैठक की सूचना एक ही तरीके से दी जाएगी इसमें इसके (सहित (क) कंपनी के हर सदस्य के लिए अधिकृत शेयर वारंट), (ख) में एक साझा करने के हकदार हर व्यक्ति के पदाधिकारियों मौत या एक सदस्य के दिवालियेपन का परिणाम है जो लेकिन उसके लिए मौत या दिवालियेपन को बैठक की सूचना प्राप्त करने के हकदार हो जाएगा (ग) लेखा परीक्षक या कंपनी के लेखा परीक्षकों के लिए और भी करने के लिए (घ) के हर निदेशक कंपनी।

186. कंपनी द्वारा सूचना और हस्ताक्षर

किसी भी नोटिस कंपनी द्वारा दी जाने वाली द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा सचिव (अगर कोई है) या ऐसे अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति, इस तरह के रूप में हो सकता द्वारा हस्ताक्षर, लिखा जा सकता है मुद्रित या सपजीवहंतचीमक।

187. स्थानांतरण आदि से जुड़ी पूर्व सूचना वाली नोटिस

प्रत्येक व्यक्ति, जो, कानून, हस्तांतरण या अन्य साधनों के आपरेशन के द्वारा जो भी, किसी भी साझा करने के हकदार हो जाएंगे, हर से बाध्य किया जाएगा इस तरह के शेयर के संबंध में नोटिस है, जो पहले अपने नाम करने के लिए और पता और शेयर कंपनी को अधिसूचित किया जा रहा करने के लिए शीर्षक, होगा

विधिवत जिस व्यक्ति से वह इस तरह करने के लिए अपने खिताब प्राप्त कर लेता है के लिए दिया गया शेयर।

188. सूचना वैध हालांकि सदस्य मृत है

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी भी सूचना के अनुसरण में दिया इन प्रस्तुत या दस्तावेजों को जन्म दिया या डाक द्वारा भेजा करने के लिए या पर छोड़ दिया किसी भी सदस्य का या के तहत उसके द्वारा दिए गए पते पर पंजीकृत पता इन प्रस्तुत के अनुसरण में अनुच्छेद 185, करेगा इस तरह के होते हुए भी सदस्य तो मृतक किया जाए या नहीं और कंपनी नोटिस दिया उसके मरने की विधिवत किसी के संबंध में कार्य किया गया है समझा जाएगा पंजीकृत शेयर, कि क्या इस तरह से अन्य व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से या संयुक्त रूप से आयोजित किया कुछ अन्य व्यक्तियों तक सदस्य के रूप में उसके स्थान पर पंजीकृत होना धारक या संयुक्त धारक क्या है, और इस तरह की सेवा सभी प्रयोजनों के लिए करेगा इन प्रस्तुत की ऐसी सूचना या की पर्याप्त सेवा समझा जा उसके या उसके वारिस निष्पादकों या प्रशासकों और सभी व्यक्तियों पर दस्तावेज, अगर किसी भी संयुक्त रूप से इस तरह के किसी भी हिस्से में उसे या उसके साथ दिलचस्पी नहीं है।

गोपनीयता खंड

189. गोपनीयता खण्ड

कोई भी सदस्य की खोज या किसी भी जानकारी की आवश्यकता के लिए हकदार होगा कंपनी के व्यापार के किसी भी विस्तार का सम्मान (या विनिमय के) या किसी भी बात नहीं है जो एक व्यापार रहस्य की प्रकृति में हो सकता है, के रहस्य व्यापार या गुप्त प्रक्रिया है जो व्यापार के संचालन से संबंधित हो सकती है

कंपनी और निदेशकों की राय में, जिनमें से हो जाएगा करने के लिए कंपनी के सदस्यों के हित में बेमतलब

जनता के लिए संवाद।

क्षतिपूर्ति और जिम्मेदारी

190. निदेशकों और क्षतिपूर्ति करने के लिए अन्य के अधिकार

(1) अधिनियम, निदेशक मंडल के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए अन्य समय, यदि कोई हो, कंपनी के लेखा परीक्षक और न्यासी होने के लिए समय कंपनी के मामलों के किसी और के संबंध में अभिनय किया जा रहा उनमें से हर एक के लिए और उनके वारिस, निष्पादकों में से हर एक और प्रशासकों क्षतिपूर्ति और हानिरहित से बाहर सुरक्षित किया जाएगा आस्तियों और से और सभी कार्यों, लागत के खिलाफ कंपनी के मुनाफे, आरोप है, हानि, क्षति और खर्च जो वे या उनमें से किसी को, उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादक या प्रशासकों उठाना हो सकता है या जाएगा या द्वारा बनाए रखने या किसी भी, काम में सहमति जताई या में या निष्पादन के बारे में छोड़े गए अधिनियम के कारण अपने कर्तव्य के, या सिवाय उनके संबंधित अधिकारियों या ट्रस्टों में कर्तव्य माना जाता

इस तरह, यदि कोई हो, के रूप में वे अपने ऊपर लेना या के माध्यम से या अपने स्वयं के जान-बूझकर द्वारा बनाए रखने जाएगा उपेक्षा या डिफॉल्ट क्रमशः।

(2) बचाने और छोड़कर अब तक इस अनुच्छेद के प्रावधानों से बचा जा जाएगा अधिनियम, उनमें से कोई भी कृत्य के लिए जवाबदेह होना होगा, रसीदें, दमहसमबजे या दूसरे या उनमें से अन्य की चूक, या किसी में शामिल होने के लिए अनुरूपता की खातिर रसीद, या किसी भी बैंकरो का दिवाला या दूसरे के लिए या जिसे किसी भी पैसा है के साथ व्यक्तियों के प्रभाव कंपनी से संबंधित या दर्ज कराई जा सकती है अथवा सुरक्षित अभिरक्षा के लिए या के लिए जमा कमी या किसी भी सुरक्षा के कोई पैसा है जिस पर की कमी

कंपनी से संबंधित बाहर रखा जाएगा या निवेश या निवेश या किसी भी अन्य हानि, दुर्भाग्य या क्षति जो में हो सकता है के लिए उनके संबंधित कार्यालयों या ट्रस्टों के संबंध में या निष्पादन के सिवा, सिवाय जब एक ही द्वारा या हालांकि उनके अपने जानबूझकर उपेक्षा हो जाएगा या क्रमशः डिफॉल्ट।

(3) अधिनियम, कोई निदेशक या अन्य अधिकारी के उपबंधों के अधीन कंपनी में कार्य करता है, रसीदें, उपेक्षा या किसी के डिफॉल्ट के लिए उत्तरदायी होगा अन्य निदेशक या कंपनी की या किसी रसीद या अन्य में शामिल होने के लिए अधिकारी किसी भी नुकसान या खर्च कंपनी के लिए हो रहा लिए अनुरूप के लिए अधिनियम द्वारा अधिग्रहीत किसी भी संपत्ति को कमी या खिताब के लिए कमी के माध्यम से के लिए या कंपनी के लिए या ओर से निदेशक के आदेश कमी या किसी भी सुरक्षा की कमी में या किसी भी जिस पर कंपनी की धनराशि का निवेश किया जाएगा या किसी भी हानि क्षति के लिए उत्पन्न होने वाले

दिवाला, दिवाला या कपटपूर्ण कार्य या जिनके साथ किसी भी व्यक्ति से किसी भी धन, प्रतिभूतियों या प्रभाव या जमा किया जाएगा किसी भी नुकसान के लिए निर्णय या निरीक्षण उसकी ओर से, या के लिए कोई भी त्रुटि से हुआ किसी भी अन्य हानि, या जो भी क्षति है, जो में हो जाएगा उनके कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन के संबंध में या जब तक एक ही बहां अपने ही लापरवाही या बेईमानी के माध्यम से होता है।

- (4) अधिनियम (197 सहित धारा के प्रावधानों के साथ पढ़ने के लिए विषय धारा 196 और अनुसूची) और नियम, उसके अधीन बनाए गए हैं, तो कंपनी इसके प्रबंध निदेशक, पूरे समय की ओर से एक बीमा प्राप्त किया है निदेशक, प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी या में किसी भी दायित्व के खिलाफ उनमें से किसी को क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी सचिव किसी भी लापरवाही, डिफॉल्ट, अपकरण का सम्मान, कर्तव्य या उल्लंघन के उल्लंघन विश्वास का है जिसके लिए वे निर्देशकों के संबंध में दोषी हो सकता है और क्षतिपूर्ति करने के लिए अन्य की सही पारिश्रमिक को देय के हिस्से के रूप में व्यवहार

किसी भी तरह के कर्मियों। बशर्ते कि यदि ऐसे व्यक्ति को दोषी साबित हुई है, इस तरह के बीमा पर भुगतान प्रीमियम के एक हिस्से के रूप में माना जाएगा।

समापन करना

191. समापन पर संपत्ति में से वितरण

- (1) कंपनी नुकसान में आ जाये और वितरण के लिए उपलब्ध संपत्ति

जैसे सदस्यों के बीच की सारी चुकाने के लिए अपर्याप्त हो जाएगा पेड-अप कैपिटल, ऐसी संपत्ति वितरित किया जाएगा तो यह है कि के रूप में लगभग, हानि के अनुपात में सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा जा सकता है राजधानी पेड-अप या जो सभी प्रारंभ पर भुगतान किया गया है चाहिए की एक में क्रमश और अगर उनके द्वारा धारित शेयरों पर समापन परिसंपत्तियों उपलब्ध समापन सदस्यों के बीच वितरण के लिए

पर राजधानी पेड-अप के पूरे चुकाने के लिए पर्याप्त से अधिक हो जाएगा समापन के प्रारंभ, अतिरिक्त वितरित किया जाएगा के प्रारंभ में पूंजी के अनुपात में सदस्यों के बीच समापन तक भुगतान किया है या जो शेयरों पर भुगतान किया गया है चाहिए क्रमशः उनके द्वारा आयोजित हो।

- (2) संपत्ति के वितरण का तरीका

कंपनी नुकसान में आ जाये चाहे स्वेच्छा से या अन्यथा, समापक के बीच विशेष संकल्प विभाजन की मंजूरी के साथ कर सकते हैं योगदानकर्ताओं, नकदी या वस्तु, पूरे या की संपत्ति के किसी भी हिस्से में

कंपनी और, जैसे मंजूरी के साथ, की संपत्ति के किसी भी हिस्से निहित हो सकती है के लाभ के लिए इस तरह के ट्रस्टों पर न्यासियों में कंपनी योगदानकर्ताओं या उनमें से किसी को, परिसमापक के रूप में, जैसे मंजूरी के साथ करेगा लगता है कि फिट है, लेकिन इतना है कि कोई योगदान किसी भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, शेयर या अन्य प्रतिभूतियों जिस पर किसी भी दायित्व है।

सामान्य अधिकार

192ए. जहां कहीं भी अधिनियम में, यह प्रावधान किया गया है कि कंपनी होगा किसी अधिकार, विशेषाधिकार या प्राधिकारी या उस कंपनी को कोई बाहर ले सकता है लेन-देन की ही अगर कंपनी तो अपने लेख, द्वारा अधिकृत है तो और में उस मामले में इस अनुच्छेद के लिए अधिकृत है और कंपनी की शक्ति प्रदान करने के लिए इस तरह की राशि अधिकार, विशेषाधिकार या अधिकारियों और इस तरह के लेनदेन ले जाने के लिए के रूप में इस संबंध में कोई विशेष लेख होने के बिना अधिनियम द्वारा अनुमति दी गई, और इस के साथ साथ प्रदान की है।

192बी. इसके अलावा, जहां अधिनियम या नियम किसी भी व्यायाम करने के लिए बोर्ड की शक्ति प्रदान

के लिए और कंपनी की ओर से शक्तियां, बोर्ड का हकदार होगा एक ही व्यायाम, ध्यान दिए बिना की ही इस में निहित है कि क्या लेख या नहीं।

192सी. अधिनियम के प्रावधानों के कुछ होते हुए भी प्रभावी होंगे इन लेखों में इसके विपरीत होता है। किसी भी प्रावधान में निहित इन लेख करेगा, किस हद तक यह के प्रावधानों के प्रतिकूल है अधिनियम, हो जाते हैं या शून्य हो, और एक ही अन्य को प्रभावित किए बिना करेगा इन लेखों में निहित प्रावधानों के तहत।

192डी. इन लेखों के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंजों और विलियरिंग निगमों) विनियम, 2012 के रूप में संशोधन, और अन्य नियमों, विनियमों, परिपत्रों, सूचनाएं, आदेश या प्रतिभूति द्वारा जारी किए गए निर्देशों और समय-समय पर भारत की विनियम बोर्ड (हद तक लागू करने के लिए) के तहत।

हम कई व्यक्तियों, जिनके नाम, पते, विवरण और व्यवसायों नीचे सब्सक्राइब किया जाता है, एसोसिएशन के इस जापन के अनुसरण में एक कंपनी में गठन किया जा रहा करने के इच्छुक हैं और हम क्रमशः कंपनी की राजधानी में संकेत में शेयरों की संख्या लेने के लिए सहमत अपने-अपने नामों के खिलाफ

क्रमांक।	नाम, पता, सब्सक्राइबर के कब्जे और पिता का नाम (s)	ग्राहक के हस्ताक्षर	नाम, पता, व्यवसाय और गवाह के हस्ताक्षर
१	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड पता: एक्सचेंज प्लाजा, सी -1, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 उसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री माधवन संपत श्री संपत कुमार के पुत्र के माध्यम से। खबरदार बोर्ड संकल्प दिनांक जून 23, 2016 और अधिक पढ़ें पता - 302, पूर्वनी, स्वास्तिक पार्क, चेंबूर, मुंबई 400 071 उद्योग- सेवा	Sd/-	मैं ग्राहकों को जो सदस्यता के लिए और मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं करने के लिए गवाह। इसके अलावा मैं उनकी पहचान के लिए उनकी पहचान सत्यापित विवरण और के रूप में भरा उनकी पहचान के ब्यौरे की अपने आप को संतुष्ट किया है। साइन; - जतिन कपाड़िया कंपनी सचिव
२	मुकेश अग्रवाल शंभू अग्रवाल का बेटा पता: A-904, स्वर्ग, रहेजा विहार, चांदीवली स्टूडियो विपरीत, पवई, मुंबई 400072	Sd/-	एसीएस ; -26725 सी.पी.;- 12043
३	मोशालकांति वासुदेव राव मोशालकांति नरसिंह राव का बेटा पता: ई -2 / 902, हाइड पार्क, निवास, ठाणे पश्चिम, मुंबई - 400607 उद्योग - सेवा	Sd/-	
४	विठ्ठल पांडुरंग मोरे पांडुरंग दाजीबा मोरे का बेटा पता: फ्लैट नंबर 10, वाणी-ऑपरेटिव। आवास। समाज, सेक्टर नं। 6, बेलापुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत 400614 उद्योग - सेवा	Sd/-	
५	संदीप नागिनदास मेहता नागिनदास अमृतलाल मेहता का बेटा पता - बी 301 गलनगेट, हीरानंदानी गार्डन, पवई आईआईटी, मुंबई, - 400076 उद्योग - सेवा	Sd/-	
६	रविंद्र मोहन भट्टला चिन्ना अप्पा राव भट्टला का बेटा पता - एक-405, तलाव आनंददायी, तलाव घरे, आयआयटी, मुंबई - 400076 उद्योग - सेवा	Sd/-	
७	अरिंदम साहा दिलीप कुमार साहा का बेटा पता - 18A, तारा शंकर सरणी, ताल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, - 700037 उद्योग - सेवा	Sd/-	

तारीख: 16 नवंबर 2016

जगह: मुंबई

एनएसई आईएफएससी लिमिटेड के लिये

संदीप मेहता

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एनएसई आईएफएससी लिमिटेड के उपनियमों में निहित प्रावधान यहां समायोजित हैं

एनएसई आईएफएससी लिमिटेड

उपनियम

अध्यायों का क्रम

अध्याय विवरण

परिभाषा

- I- समिति
- II- अधिनियम
- III- प्रतिभूतियों में कारोबार
- IV- व्यापार सदस्य
- V- प्रतिभागी
- VI- व्यापार सदस्यों द्वारा कारोबार
- VII- व्यापार प्रणाली तथा बाजार निर्माता
- VIII- लेन-देन तथा अदायगी
- IX- सदस्यों तथा समर्थकों का अधिकार तथा दायित्व
- X- मध्यस्थता
- XI- अकरण
- XII- निवेशक संरक्षण कोष
- XIII- विविध

परिभाषायें

- (1) "मंडल" से तात्पर्य विनियम के निदेशक मंडल से है।
- (2) "प्रतिभूति बाजार" से तात्पर्य उन प्रतिभूतियों से है जिन्हें बाजार में व्यापार हेतु प्रतिभूतियों की अधिकृत सूची/सूचियों में दर्ज किया गया है।
- (3) "बाजार" से तात्पर्य एनएसई आईएफएससी लिमिटेड द्वारा संचालित शेयर बाजार/बाजारों से हैं।
- (4) "समिति" का तात्पर्य अध्याय I के अनुसार गठित बाजार समिति से है।
- (5) आईएफएससी से तात्पर्य एसईबीआई द्वारा भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम मंडल (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशा-निर्देशों, 2015 के तहत परिभाषित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से है।
- (6) "जारीकर्ता" में एक सरकार, एक निगमित निकाय या कोई अन्य निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं, जो किसी भी प्रकार की प्रतिभूति अथवा दस्तावेज जारी करता हो, अथवा कोई भी विनिमय दस्तावेज जोकि बाजार में कारोबार के लिए स्वीकार्य हों, का निष्कासन अथवा मंजूर करता हो, शामिल होते हैं।
- (7) "बाजार-निर्माता" से तात्पर्य अध्याय VII के तहत पंजीकृत व्यापार सदस्य से है।
- (8) "प्रतिभागी" से तात्पर्य उस निर्वाचक व्यक्ति से है जिसे उपनियम के अध्याय ट के तहत समय-समय पर किसी उपयुक्त अधिकारी द्वारा पंजीकृत किया गया है।
- (9) "अधिनियम", जब तक संदर्भ संकेत न करें, अन्यथा इसमें, व्यापार नियम, आचार-संहिता एवं विनियम के संचालन के लिए समय-समय पर किसी उपयुक्त अधिकारी द्वारा निर्धारित इस प्रकार के अन्य अधिनियम शामिल हैं तथा यह प्रतिभूति संविदा अधिनियम, 1956 के प्रावधानों एवं इनके तहत नियम तथा अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा इनके तहत नियम एवं अधिनियम अथवा निदेशकों अथवा दिशा-निर्देशों के अधीन होते हैं।
- (10) "उपयुक्त अधिकारी" से तात्पर्य किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवश्यक, समय-समय पर मंडल द्वारा निर्धारित मंडल अथवा ऐसे अन्य अधिकार से है।
- (11) "नियम" जब तक संदर्भ संकेत न करें अन्यथा, तात्पर्य, यहाँ उल्लेखित नियम के रूप में विनियम के व्यापारिक सदस्यों की गतिविधियों तथा जिम्मेदारियों को विनियमित करने तथा उपयुक्त अधिकारी द्वारा संविधान, संगठन तथा बाजार के संचालन के लिए समय-समय पर निर्धारित करने से है तथा यह नियम प्रतिभूति कानून के प्रावधानों के अधीन होते हैं।

- (12) "एसईबीआई" से तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम मंडल से है।
- (13) "प्रतिभूति" से तात्पर्य एसईबीआई द्वारा समय समय पर प्रतिभूतियों के रूप में आईएफएससी में शेयर बाजार में व्यापार हेतु प्रदान की गयी अनुमति से है।
- (14) "प्रतिभूति कानून" में प्रतिभूति संविदा अधिनियम, 1956 तथा इसके तहत नियम एवं अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा इनके तहत नियम एवं अधिनियम अथवा निदेशक अथवा दिशा-निर्देश शामिल हैं जिनमें भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) दिशा निर्देश, 2015 शामिल हैं।
- (15) "कारोबार के लिए स्वीकार्य प्रतिभूति" में वह प्रतिभूति जो बाजार में व्यापार हेतु सूचीबद्ध अथवा जिसे अनुमति है, शामिल हैं।
- (16) व्यापारिक सदस्य" से तात्पर्य उपनियम के अध्याय IV के अनुसार पंजीकृत एक शेयर दलाल, तथा विनियम के सदस्य से है।
- (17) विनियम की व्यापार पद्धति" से तात्पर्य उस पद्धति से है जो व्यापारिक सदस्यों तथा किसी भी विधि के द्वारा, निवेश करने वाली जनता के लिए उपलब्ध होती है तथा विनियम प्रतिभूतियों में निविदाएँ एवं प्रभावित व्यापार, परिणाम इत्यादि से संबंधित सूचना प्रसार समिति द्वारा वहाँ रखी गयी तथा ऐसी अन्य सूचनाओं से है।

अध्याय I

समिति

- (1) नियमों में निर्धारित तरीके से एक्सचेंज के दिन के मामलों के प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा समिति (नियुक्त) की नियुक्ति की जाएगी।
- (2) एक्सचेंज की समिति (यों) के पास ऐसे जिम्मेदारियाँ और शक्तियाँ होंगी, जो नियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्रदान की गई हैं।

अध्याय II

विनियम

- (1) संबंधित प्राधिकरण एक्सचेंज के कार्य और संचालन के लिए समय-समय पर विनियमों को लिख सकता है और एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों के कार्य और संचालन को विनियमित कर सकता है।
- (2) उपरोक्त (1) की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, प्रासंगिक प्राधिकरण समय-समय पर, अन्य बातों के साथ, के संबंध में नियमों को निर्धारित कर सकता है:
 - (ए) एक्सचेंज सिन्डिकेटीज की आधिकारिक सूची में प्रतिभूतियों को शामिल करने के लिए मानदंडों, प्रक्रियाओं, नियमों और शर्तों का अनुपालन करना;
 - (बी) एक्सचेंज सिन्डिकेटीज की आधिकारिक सूची में शामिल करने और जारी रखने के लिए जारीकर्ता द्वारा देय फीस;
 - (सी) अध्याय प्ट के अनुसार व्यापारिक सदस्यों के प्रवेश के लिए नियम और प्रक्रिया;
 - (डी) बाजार-निर्माताओं के अनुमोदन के लिए नियम और प्रक्रियाएँ जैसे कि कार्य करना;
 - (ई) अनुबंधों के रूपों और शर्तों को दर्ज किया जाना है, और व्यापारिक सदस्यों के बीच या व्यापारिक सदस्यों और उनके घटकों के बीच अनुबंध के प्रदर्शन के लिए समय, प्रारूप और तरीके;
 - (च) समय-समय पर फीस, सिस्टम उपयोग शुल्क, जमा, मार्जिन और अन्य मुद्राओं को ट्रेडिंग के सदस्यों, प्रतिभागियों और जारीकर्ता द्वारा देय करने वाले निर्धारण, जिनकी प्रतिभूतियाँ प्रवेश / प्रवेश के लिए भर्ती कराई जाती हैं और पैमाने पर व्यापारिक सदस्यों द्वारा प्रभारित ब्रोकरेज हो;
 - (जी) समय-समय पर, पूंजी पर्याप्तता और अन्य मानदंडों का पर्थे, जो व्यापारिक सदस्यों द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता होगी;
 - (एच) बाजार का पर्यवेक्षण और ऐसे व्यवसाय नियमों और आचरण संहिताओं को लागू करना जैसे कि यह उपयुक्त समझा जा सके;
 - (I) व्यापारिक सदस्यों द्वारा अभिलेखों और पुस्तकों के रखरखाव का, क्योंकि यह सिन्डिकेटीज कानूनों के तहत जरूरी है कि वे फिट और रिकॉर्ड में रहे;
 - (जे) अभिलेखों और खातों की पुस्तकों का निरीक्षण और लेखा परीक्षा;
 - (I) समय-समय पर, और दंड, जुर्माना और अन्य परिणामों के प्रशासन, चूक के लिए निलंबन / निष्कासन सहित या उप-नियमों और विनियमों की किसी भी आवश्यकताओं के उल्लंघन और नियमों और आचार संहिताओं और पुनरीक्षण के लिए मानदंड, अगर कोई भी, इसके तहत प्रख्यापित हो;

- (एल) किसी भी ट्रेडिंग सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई / प्रक्रियाएं
- (एम) विवादों, शिकायतों के निपटारे, व्यापारिक सदस्यों के मध्य-साथ-साथ ट्रेडिंग सदस्यों और व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होने वाले दावे जो मध्यस्थता द्वारा निपटारे सहित एक्सचेंज पर बनाए गए प्रतिभूतियों में किसी भी लेनदेन से जुड़े व्यापारिक सदस्य नहीं हो;
- (एन) मध्यस्थता के लिए नियम और प्रक्रियाएं;
- (ओ) निवेशक संरक्षण कोष सहित एक्सचेंज द्वारा स्थापित फंड (फंडों) के कॉर्पस का प्रबंधन, रखरखाव और निवेश
- (पी) नियमों और निपटान के लिए प्रक्रियाएं और सौदों के समाशोधन, समाशोधन गृह की स्थापना और कार्य या समाशोधन और निपटान के लिए अन्य व्यवस्था सहित;
- (क्यू) प्रतिभागियों के पंजीकरण और जारी रखने के लिए मानदंड, प्रक्रिया, नियम और शर्तें;
- (आर) अनुबंधों, सौदों या लेनदेन को बंद करने के लिए आकस्मिक या परिणामी के संबंध में मानदंड और प्रक्रियाएं
- (एस) सूचना का प्रसार, व्यापार प्रणाली पर रखे जाने की घोषणा;
- (टी) बोर्ड द्वारा तय किए गए कोई भी अन्य मामले

अध्याय III

सिक्योरिटीज में लेन – देन

अनुमति प्राप्त लेन – देन

- (1) इन उप-नियमों और विनियमों में प्रावधान के अनुसार प्रतिभूतियों में लेनदेन की अनुमति एक्सचेंज पर दी जाएगी और इस तरह से उपलब्धता से बचाने हेतु अन्य लेन-देन की अनुमति नहीं है।

सिक्योरिटीज का लेन – देन में प्रवेश

- (2) (ए) प्रावधानों के अनुसार एक्सचेंज पर लेन – देन की अनुमति है उन उप-नियमों और विनियमों में उस समय की प्रतिभूतियों में, जो समय-समय पर सूचीबद्ध हैं, संबंधित प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध या एक्सचेंज पर व्यापार करने की अनुमति दी गई है।
- (बी) एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के लिए प्रतिभूतियों का प्रवेश उस उपनिवेश कानून और विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप होगा।
- (ए) संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर प्रतिभूतियों को स्वीकार कर सकते हैं, जिन्हें एक्सचेंज पर व्यापार करने की अनुमति है।

सिक्योरिटीज में लेन – देन अन्य स्टॉक एक्सचेंजों पर लेन-देन

- (3) उपरोक्त बायलों (2) की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, प्रासंगिक प्राधिकारी अपने विवेक से और ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है, जो उचित समझे, किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज पर लेनदेन के लिए स्वीकार किए गए किसी भी प्रतिभूति में लेन-देन की अनुमति या नियमित रूप से ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पर निपटान प्रदान करे।

लिस्टिंग के लिए प्रवेश के लिए आवेदन

- (4) एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए प्रतिभूतियों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रासंगिक प्राधिकारियों को ऐसे फॉर्म में बनाया जाएगा जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकरण समय-समय पर लिखता है।

शर्तों और लेन – देन की आवश्यकताएं

- (5) प्रासंगिक प्राधिकारी किसी जारीकर्ता की प्रतिभूतियों के लेन-देन के लिए प्रवेश नहीं दे सकता है, जब तक कि इन उप-नियमों और विनियमों में निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं का अनुपालन न करें और ऐसी अन्य शर्तों और आवश्यकताएं जैसे संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर लिखते हैं।

लिस्टिंग के लिए प्रवेश के इनकार

- (6) संबंधित प्राधिकरण, अपने विवेक में, ऐसी शर्तों के अधीन अनुमोदित कर सकता है जैसे कि यह उचित, या स्थगित हो, या एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के लिए किसी सुरक्षा के प्रवेश के लिए किसी भी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

शुल्क

- (7) (ए) जारीकर्ता जिनके प्रतिभूति को एक्सचेंज पर लेनदेन के लिए प्रवेश दिया जाता है ऐसे लिस्टिंग और ऐसी अन्य फीस और ऐसी अन्य जमा राशि का भुगतान करेगा क्योंकि संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर निर्धारित हो सकता है।

- (बी) हर जारीकर्ता एक्सचेंज और ६ या सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित लिस्टिंग एग्रीमेंट की शर्तों का अनुपालन करेगा और समय-समय पर एक्सचेंज और ६ या सेबी द्वारा निर्धारित किये जा सकने वाले ऐसे शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। लिस्टिंग एग्रीमेंट या एसईबीआई के नियमों के अनुबंधाओं का अनुपालन करने का समय, एक्सचेंज में सूचीबद्ध जारीकर्ताओं के लिए सूचीबद्ध हो सकता है।

विशिष्ट सौदे

- (8) संबंधित प्राधिकरण, एक्सचेंज पर लेनदेन करने के लिए भर्ती नहीं होने वाले जारीकर्ताओं की प्रतिभूतियों के मामले में किए जाने वाले विशिष्ट सौदों की अनुमति दे सकता है, जो लेनदेन के लिए समय पर निषिद्ध है या निलंबित है।

निषिद्ध लेन – देन

- (9) संबंधित प्राधिकरण किसी भी कारण के लिए किसी भी सुरक्षा या प्रतिभूतियों में एक्सचेंज पर लेन-देन को प्रतिबंधित कर सकता है।

एक्सचेंज पर लेन – देन के लिए प्रवेश के निलंबन

- (10) (ए) संबंधित प्राधिकार किसी भी समय प्रवेश को निलंबित कर सकता है

ऐसे समय के लिए किसी भी सुरक्षा के लिए एक्सचेंज दिया गया है, जैसा कि यह निर्धारित किया जा सकता है निलंबन की अवधि की समाप्ति पर संबंधित प्राधिकरण निलंबन को रद्द कर सकता है, ऐसी स्थिति के अनुसार, जिसे उपयुक्त लगता है।

- (बी) एक्सचेंज पर लेनदेन के लिए निलंबन के निलंबन और रद्द करने के तरीके समय-समय पर एक्सचेंज और ६ या सेबी द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार होंगे।

रिडेम्प्शन या रूपांतरण पर लेन – देन के लिए प्रवेश के लिए वापसी

- (11) संबंधित प्राधिकरण, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिभूतियों के लिए दिए गए लेन-देन के लिए प्रवेश वापस ले लेते हैं, जिन्हें पुनर्गठन या पुनर्निर्माण की किसी भी योजना के परिणामस्वरूप अन्य प्रतिभूतियों में बदला या परिवर्तित किया जा सकता है या जो प्रतिदेय या परिवर्तनीय प्रतिभूतियां मोचन या रूपांतरण के कारण गिरने वाली हैं।

परिसमापन या विलय पर लेन – देन के लिए प्रवेश के लिए वापसी

- (12) अगर किसी भी जारीकर्ता को अंतिम या अनंतिम परिसमापन में रखा जाना है या किसी अन्य इकाई में विलय या एकीकरण के बारे में है, तो संबंधित प्राधिकारी अपनी प्रतिभूतियों को दिए गए एक्सचेंज पर दिए गए लेनदेन के लिए प्रवेश वापस ले सकता है। संबंधित प्राधिकारी इस तरह के सबूत स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि यह इस तरह के परिसमापन, विलय या एकीकरण पर पर्याप्त समझेंगा। क्या विलय या एकीकरण में जगह नहीं होनी चाहिए या किसी निर्गमकर्ता को अनंतिम परिसमापन में रखा जाना चाहिए और उसे एक्सचेंज पर लेनदेन के लिए अपनी प्रतिभूतियों को पढ़ने के लिए एक आवेदन किया जाना चाहिए, संबंधित प्राधिकरण को इस तरह के आवेदन को अस्वीकार करने, अस्वीकार करने या उनका त्याग करने का अधिकार होगा।

एक्सचेंज पर लेन – देन के लिए प्रवेश के लिए वापसी

- (13) संबंधित प्राधिकार, जहां समझा जाता है कि जारीकर्ता को समझाने का एक अवसर दिया जा सकता है, अपनी प्रतिभूतियों को दिए गए एक्सचेंज पर दिए गए लेनदेन के प्रवेश को वापस लेने के लिए, या तो किन्ही भी शर्तों या आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए लेनदेन के प्रवेश, या किसी भी अन्य कारण से हो सकता है।

एक्सचेंज पर लेन – देन के लिए रीडमिशन

- (14) अपने विवेकाधिकार में संबंधित प्राधिकरण, एक जारीकर्ता की प्रतिभूतियों पर लेनदेन को स्वीकार कर सकता है, जिनके लेनदेन में प्रवेश पहले से वापस ले लिया गया है।

अध्याय IV

कारोबार के सदस्य

नियुक्ति और शुल्क

- (1) (ए) संबंधित प्राधिकरण के अनुसार व्यापारिक सदस्यों को स्वीकार करने का अधिकार है

बाय कानून, नियम और विनियमों के साथ यह समय-समय पर सिक्योरिटीज कानूनों के अनुसार फ्रेम कर सकता है।

- (बी) संबंधित प्राधिकरण एक्सचेंज में व्यापारिक सदस्यों के प्रवेश, समाप्ति, पुनः प्रवेश आदि के लिए आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें, परिस्थितियां, प्रारूप और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट कर सकता है। संबंधित प्राधिकरण, अपने पूर्ण विवेक पर, किसी भी आवेदक को व्यापार सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमति से मना कर सकता है।
- (सी) ट्रेडिंग सदस्य ऐसे फीस, सुरक्षा जमा और अन्य धन का भुगतान करेगा, जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर, ट्रेडिंग सदस्य के रूप में प्रवेश और निरंतर प्रवेश के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। किसी भी सदस्य द्वारा समय-समय पर एक्सचेंज के साथ नकदी, बैंक गारंटी, सिक्योरिटीज या अन्यथा, फीस, सुरक्षा जमा, अन्य धन और किसी भी अतिरिक्त जमा राशि का भुगतान किया जाता है, यह पहली और सर्वोच्च धारणाधिकार के अधीन होगा एक्सचेंज के कारण किसी भी राशि के लिए और ट्रेडिंग सदस्य के खिलाफ सभी अन्य दावों के कारण, व्यापार के सदस्यों की प्रतिबद्धता, दायित्वों और देनदारियों के लिए किसी भी सौदे से उत्पन्न या आकस्मिक उत्पन्न करने के लिए एक्सचेंज के उप-नियम, नियम और विनियमों के अधीन। एक्सचेंज को ट्रेडिंग सदस्य के किसी भी संदर्भ के बिना, ट्रेडिंग सदस्य के विरुद्ध अन्य दावों के बहिष्कार के लिए, ऐसी देयताओं और दावों के लिए ऐसी फीस, जमा और अन्य धन समायोजित करने या उचित होने का हकदार होगा।
- (डी) व्यापारिक सदस्य प्रासंगिक प्रतिभूतियों में या तो अपने स्वयं के प्रिंसिपल खाते में या अपने ग्राहकों की ओर से व्यापार कर सकते हैं, जब तक कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया जाता और ऐसे परिस्थितियों के अधीन जो प्रासंगिक प्राधिकरण समय-समय पर लिख सकते हैं। वे ऐसे प्रतिभूतियों में बाजार निर्माताओं के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, यदि वे अधिसूचना के अधीन हैं और अध्याय VII के तहत ऐसी शर्तों के अधीन हैं।

शर्तें

- (1) ट्रेडिंग सदस्यों के उप-नियम, नियम और विनियमों का पालन करना होगा

एक्सचेंज और प्रासंगिक संचालन के ऐसे परिचालन पैरामीटर, फैंसलों, नोटिस, दिशानिर्देश और निर्देशों का अनुपालन करेगा जो लागू हो सकते हैं।

- (इ) एक्सचेंज के सौदों के लिए जारी किए गए सभी अनुबंध एक्सचेंज के उप-नियम, नियम और विनियमों के अनुसार होंगे।
- (सी) व्यापारिक सदस्य ऐसे एक्सचेंज आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे, जो प्रासंगिक प्राधिकारियों द्वारा विज्ञापनों के संबंध में समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं और व्यापारिक सदस्यों के रूप में उनकी गतिविधियों के संबंध में परिपत्र जारी कर सकते हैं।
- (डी) व्यापारिक सदस्य ऐसे मामलों से संबंधित घोषणाओं को प्रस्तुत करेंगे और ऐसे फॉर्मों में जो समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
- (ई) ट्रेडिंग सदस्यों को एक्सचेंज को एक वार्षिक लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र से प्रमाणित करना होगा कि विनिर्दिष्ट एक्सचेंज आवश्यकताओं को समय-समय पर उनके संचालन से संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है।
- (एफ) ट्रेडिंग सदस्यों को समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा आवश्यक जानकारी और उनके परिचालन से संबंधित आवधिक रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
- (जी) व्यापारिक सदस्यों को समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा आवश्यक मात्रा में ऐसे लेखा-परीक्षा और ६ या अलेखापीक्षित वित्तीय या मात्रात्मक सूचनाएं और बयानों को प्रस्तुत करना होगा।
- (एच) व्यापारिक सदस्य पूरे सहयोग का विस्तार करेंगे और ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे, जो किसी भी निरीक्षण या लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जो किसी भी व्यापार, लेनदेन, उनके निपटारे, लेखा और / या अन्य संबंधित मामलों में होगा।
- (आई) एक ट्रेडिंग सदस्य उप-दलालों से लेन-देन नहीं करेगा जो सेबी के साथ पंजीकृत नहीं हैं और न ही इसके पंजीकृत कार्यालय, शाखा कार्यालयों और इसके पंजीकृत उप-दलालों के कार्यालयों के अलावा किसी भी कार्यालय में अपने व्यापार टर्मिनल के संचालन की अनुमति नहीं देते।

अध्याय V

प्रतिभागी

आवेदन पर प्रतिभागियों का पंजीकरण

- (1) प्रासंगिक प्राधिकरण, "पार्टिसिपेंट" के रूप में पंजीकृत हो सकता है, जो उन घटकों में से हैं, जो स्वयं का पंजीकरण करने के इच्छुक हैं, इन उप-नियमों और विनियमों के अनुसार समय-समय पर तैयार किए गए हैं, ऐसे उद्देश्य के लिए और ऐसे नियमों के अधीन और शर्तों को प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

सहभागी का पंजीकरण सूओ मोटो

- (2) उपरोक्त बियालो (1) में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, संबंधित प्राधिकरण एक 'प्रतिभागी' के रूप में स्वयं संघ के रूप में पंजीकृत हो सकता है, क्योंकि संबंधित अधिकारियों की राय में, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, पंजीकृत होना चाहिए, संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए नियम और शर्तों के अधीन होगा।

प्रतिभागियों के अधिकार और देयताएं

- (3) (ए) इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के बावजूद इसे किसी भी अन्य भाग में शामिल किया जा सकता है
बाय कानून के अन्य भाग विशेष रूप से छठी (3) (ए), एक्सचेंज एक भागीदार के रूप में इस तरह के प्रयोजनों के लिए, एक्सचेंज के किसी ट्रेडिंग सदस्य के माध्यम से भागीदारी या उसके द्वारा किए गए अनुबंध या व्यापार के लिए एक पार्टी के रूप में स्वीकार कर सकता है (समाशोधन और निपटान के लिए भी शामिल है) ऐसी शर्तों और आवश्यकताओं के अधीन और समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जा रही ऐसी परिस्थितियों में।
(बी) इन उप-नियमों और विनियमों में अन्यथा उपलब्ध कराए गए रूप में सहेजें, एक्सचेंज द्वारा प्रतिभागी द्वारा पार्टी के सदस्य के रूप में व्यापार समझौता या व्यापार किए गए अन्य समझौते या ट्रेडिंग के जरिए अनुबंधित किया गया है, किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। उस संबंध में संबंधित व्यापारिक सदस्य के संबंध में एक्सचेंज का अधिकार क्षेत्र और इस तरह के व्यापारिक सदस्य इस ओर से जिम्मेदार, जवाबदेह और एक्सचेंज के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे।
- (4) संबंधित प्राधिकरण, समय-समय पर एक्सचेंज पर प्रतिभागियों के संचालन और संचालन को संचालित करने और उनके पंजीकरण या मान्यता जारी रखने की शर्तों को निर्देशित कर सकते हैं। पूर्वगामी की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे नियम, आवश्यकताओं और शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ, जमा, मार्जिन, फीस, सिस्टम उपयोग शुल्क, सिस्टम रखरखाव / औचित्य आदि शामिल हो सकते हैं।
- (5) इस बायलों में उल्लिखित प्रतिभागियों के अधिकार और देनदारियां इन अधिकारियों और दायित्वों के अलावा, इन उप-नियमों के अधीन हैं, जहां उन अधिकारियों या दायित्वों के बारे में समय-समय पर निर्धारित इन उप-नियमों या विनियमों का एक विशिष्ट प्रावधान है। प्रतिभागी का एक संविधान के लिए लागू होने वाले विचलन में है। इस तरह के विचरण की स्थिति में, एक्सचेंज के साथ उनके पंजीकरण के नियमों और शर्तों के आधार पर विशिष्ट प्रावधान, प्रतिभागी के किसी भी अधिकार या दायित्व के बारे में होगा।
- (6) प्रतिभागियों के अधिकार और दायित्वों को इन उप-नियमों और विनियमों के अधीन होना चाहिए, जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो।
- (7) समय-समय पर निर्धारित नियमों के अधीन, प्रासंगिक प्राधिकारी किसी भी समय प्रासंगिक प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट हो सकता है, जो ऐसे नियमों और शर्तों पर एक भागीदार की पंजीकरण या मान्यता रद्द करने का अधिकारी होगा। अन्यथा स्पष्ट रूप से विनियमन या प्रासंगिक प्राधिकार के निर्णय में प्रदान की गई, के रूप में सहेजें, प्रतिभागी को उपलब्ध सभी अधिकार और विशेषाधिकारों को इस तरह के रद्दीकरण पर समाप्त कर दिया जाएगा।
- (8) एक्सचेंज के विवेक पर, और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जा सकने वाले नियमों या नियमों के अधीन, प्रतिभागी को सशर्त और ६ या व्यापार प्रणाली या सीमित पहुंच की अनुमति हो सकती है इसके संबंध में, जैसा कि समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा तय किया जा सकता है।

अध्याय VI

कारोबार के सदस्यों द्वारा कामकाज

अधिकार — क्षेत्र

- (ए) एक्सचेंज के स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के जरिए किसी भी सौदे में प्रवेश या खरीदने या बेचने के लिए या किसी भी प्रस्ताव को खरीदने या बेचने के लिए कोई भी प्रस्ताव ६ पर एक्सचेंज के कम्प्यूटरीकृत प्रसंस्करण इकाई में दर्ज किया गया माना जाएगा। ट्रेडिंग सदस्यों के बीच अनुबंध की जगह आईएफएससी में होगी। एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्य स्पष्ट रूप से अपने अनुबंध नोट पर रिकॉर्ड करेंगे कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के संबंध में या इसके संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद के संबंध में गांधीनगर में सिविल कोर्ट को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को छोड़ दिया है। , और

इस तरह के विवाद से उत्पन्न होने वाले दावों में केवल गांधीनगर में नागरिक न्यायालयों का न्यायिक क्षेत्राधिकार है। इस बायलों के प्रावधान किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र को किसी भी विवाद को व्यापार के सदस्यों और उनके घटकों के बीच किसी भी विवाद का निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसमें एक्सचेंज कोई पार्टी नहीं है।

- (बी) किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट्स या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट्स के क्लस्टर द्वारा बनाए गए एक्सचेंज का रिकॉर्ड, चाहे वह किसी भी रजिस्टर में, मैग्नेटिक स्टोरेज यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑप्टिकल स्टोरेज यूनिट्स या कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट्स या किसी अन्य तरीके से रखे गए हों स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से दर्ज लेनदेन के संबंध में सहमति और प्रामाणिक रिकॉर्ड का गठन करेगा। किसी भी विवाद के प्रयोजनों के लिए, एक्सचेंज द्वारा कंप्यूटर प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के रूप में किसी भी विवाद या घटकों और एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्य या एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्यों के बीच के दावे में वैध प्रमाण का गठन होगा।

हानि से सुरक्षा

- (2) एक्सचेंज किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा एक्सचेंज पर अनधिकृत लेनदेन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो ट्रेडिंग सदस्य के नाम पर कार्य कर रहा है।

ट्रेडिंग सदस्यों केवल ट्रेडों के लिए पार्टिस

- (3) (ए) एक्सचेंज किसी अपने ही व्यापारिक सदस्य को अन्य व्यक्ति के अलावा अन्य किसी भी सौदे के पक्ष में नहीं पहचानता है और
- (बी) प्रत्येक ट्रेडिंग सदस्य सीधे और पूरी तरह से उत्तरदायी है, एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार, प्रत्येक अन्य ट्रेडिंग सदस्य के साथ, जिनके साथ इस तरह के ट्रेडिंग सदस्य समझौते की पूर्ति के लिए एक्सचेंज पर किसी भी सौदे को प्रभावित करता है, चाहे ऐसा सौदा उस ट्रेडिंग सदस्य के खाते के लिए या एक घटक के खाते के लिए होना चाहिए।

उप-कानून, नियम और विनियमों के अधीन सभी लेनदेन

- (4) एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों में सभी लेनदेन एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अधीन किए गए समझा जाएगा और यह सभी ऐसे सौदों के नियमों और शर्तों का एक हिस्सा होगा और सौदों के अधीन होगा व्यायाम उस संबंध में शक्तियों के संबंधित प्राधिकरण द्वारा, जो एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और विनियमों द्वारा निहित है।

व्यापार की अस्थिरता

- (5) (ए) एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों में सभी लेन-देन उप-नियमों के अधीन बने, एक्सचेंज के नियम और विनियम उल्लंघनकारी होंगे और एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार इसे मंजूरी दे दी जाएगी और तय किया जाएगा। हालांकि, एक्सचेंज एक नोटिस द्वारा उस ट्रेडिंग में एक सदस्य द्वारा आवेदन पर सौदा रद्द कर सकता है, यदि संबंधित पक्ष किसी अन्य पार्टी ६ पार्टियों को सौदा (दो) को सुनकर संतुष्ट हो जाता है तो यह सौदा (दो) धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयानी या व्यापार में भौतिक गलती के कारण विलोपन के लिए उपयुक्त हैं।
- (बी) उपरोक्त धारा (ए) में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, एक्सचेंज निवेशकों के प्रतिभूतियों में रुचि रखने और प्रतिभूति बाजार के उचित विनियमन के लिए किसी भी समय स्वयं प्राधिकरण संतुष्ट हो सकता है। लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसे सौदे धोखाधड़ी, भौतिक गलती, गलत प्रस्तुतिकरण या बाजार या कीमतों में हेरफेर और जैसे ही हो।
- (सी) उपरोक्त धारा (ए) और (बी) के अनुसार किए गए कोई भी विराम, व्यापार के लिए पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसी घटना में, ट्रेडिंग सदस्य अपने घटकों के साथ प्रासंगिक अनुबंध रद्द करने का हकदार होगा।

प्रतिनिधि व्यापार के सदस्यों द्वारा सौदे

- (6) (ए) एक ट्रेडिंग सदस्य किसी अन्य ट्रेडिंग सदस्य को एक के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है संबंधित प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के साथ निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनिधि।
- (बी) जब कोई ट्रेडिंग सदस्य किसी प्रतिनिधि के लेनदेन के माध्यम से एक प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य ट्रेडिंग सदस्य को कार्यरत करता है, तो ऐसा प्रतिनिधि, नियोक्ता व्यापारिक सदस्य को लेन-देन हेतु उसी कीमत पर रिपोर्ट करेगा जैसा कि बाजार में होता है और नियोक्ता ट्रेडिंग सदस्य ऐसे लेनदेन के संबंध में घटक को समान मूल्य पर रिपोर्ट करेगा।

व्यापारिक सदस्यों पर प्रतिबंध

- (7) जब तक एक्सचेंज अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता है, एक ट्रेडिंग सदस्य किसी अन्य ट्रेडिंग सदस्य का एक घटक नहीं होगा।

अध्याय VII

व्यापार प्रणाली और बाजार निर्माता

- (1) सिक्क्योरिटीज, जो बाजार बनाने के पात्र होंगे, अगर सभी को समय समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। मार्केट मैकर्स का पंजीकरण
- (2) (ए) ट्रेडिंग सदस्य किसी भी सुरक्षा पात्र में मार्केट निर्माताओं के लिए बाजार बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
(बी) कोई भी ट्रेडिंग सदस्य बाजार निर्माता के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक कि इस सदस्य को इस बाय लॉ के अनुसार अनुमोदित नहीं किया जाता और स्वीकृति को निलंबित या रद्द नहीं किया जाता। पंजीकरण के लिए आवेदन इस तरह के और ऐसे विवरणों के साथ-साथ समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
(सी) प्रत्येक संबंधित सुरक्षा में बाजार बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक बाजार निर्माता संबंधित प्राधिकरण को पंजीकृत होना लागू होगा। यदि संबंधित प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसी सूचना के प्राप्त होने के पंद्रह व्यावसायिक दिनों के भीतर, उस निर्माता के लिए एक पंजीकृत बाजार निर्माता के रूप में बाजार निर्माता को नामित करेगा। एक पंजीकृत बाजार निर्माता किसी भी प्रासंगिक सुरक्षा में एक बाजार बनाने के लिए शुरू नहीं करेगा जब तक एक व्यापार दिन पंजीकरण के नोटिस के बाद ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से प्रसारित नहीं किया गया है।

किसी भी एक्सचेंज सुरक्षा में पंजीकृत बाजार निर्माता:

- (I) उस सुरक्षा के संबंध में व्यापार प्रणाली में बोली और पेशकश कोटेशन करने और इस तरह की अन्य संख्या में प्रतिभूतियों की न्यूनतम मात्रा में लेनदेन को प्रभावी करने के लिए समय-समय पर प्रति कारोबारी दिन के उद्धृत मूल्य पर निर्धारित किया जाता है;
- (ii) उपरोक्त बायलॉ 2 (बी) के तहत अनुमोदित एक पंजीकृत बाजार निर्माताओं के मामले में सुरक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से व्यापार के लिए उपलब्ध होने की तिथि से समय-समय पर निर्धारित समय तक सुरक्षा हेतु बाजार बनाने के लिए कार्य करता है।
- (iii) व्यापारिक सदस्यों या ग्राहकों के साथ उद्धृत कीमतों पर प्रासंगिक प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के लिए आदेशों को अंजाम देना।
(ई) एक पंजीकृत बाजार निर्माता किसी विशेष एक्सचेंज सुरक्षा में किसी न्यूनतम किसी भी समय के बाद बाजार में उस सुरक्षा व्यवस्था में बाजार बनाने की शुरुआत से जिसके बाद संबंधित प्राधिकरण निर्धारित कर सकता है। इस मामले में नोटिस की आवश्यक अवधि पंद्रह व्यावसायिक दिन या ऐसी अन्य अवधि होगी, जो समय-समय पर निर्धारित हो।
(एफ) एक पंजीकृत बाजार निर्माता उस सुरक्षा में एक बाजार करना बंद कर सकता है, जिसमें प्रासंगिक प्राधिकरण से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इस तरह की स्वीकृति सामान्यतया उन परिस्थितियों में दी जाएगी, जहां प्रासंगिक प्राधिकारी की राय में, यह पंजीकृत बाजार निर्माता के लिए अव्यावहारिक या अवांछनीय है और इसके नियंत्रण से परे घटनाओं के कारण काम करना जारी रखता है।
- (3) किसी ट्रेडिंग सदस्य को कुछ प्रतिभूतियों में बाजार बनाने की प्रक्रिया को समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कुछ अन्य प्रतिभूतियों में अतिरिक्त बाजार बनाने के संचालन में लेने के लिए एक दायित्व लगाया जा सकता है।

निस्तारण और मार्केट मैकर्स का निषेध

- (4) (ए) संबंधित प्राधिकारी एक पंजीकृत मार्केट मैकर्स के अधिकार को सीमित या प्रतिबंधित कर सकता है बाजार निर्माता को ट्रेडिंग सिस्टम में कोटेशन दर्ज करने या उस प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए, जिसमें वह एक बाजार निर्माता के रूप में पंजीकृत है, यदि:
 - (i) ऐसे बाजार निर्माता या एक्सचेंज को सदस्यता से निष्कासित या निलंबित कर दिया गया है, या एक्सचेंज बायलॉ, नियम और विनियम का पालन करने में असमर्थ है या जिनकी पंजीकरण भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा रद्द कर दी गई है;
 - (ii) ऐसे बाजार निर्माता ने एक्सचेंज प्रतिभूतियों के संबंध में प्रभावित किसी भी लेनदेन पर चूक कर दी है;
 - (iii) ऐसे बाजार निर्माता ऐसी वित्तीय या संचालन की कठिनाई में है कि प्रासंगिक प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि ऐसे बाजार निर्माता को व्यापार प्रणाली में निवेश करने या निवेश को निवेश, लेनदारों, एक्सचेंज के अन्य व्यापारिक सदस्यों के लिए सुरक्षा के साथ उद्धृत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है;
 - (iv) जहां प्रासंगिक प्राधिकरण के विचार में ऐसा बाजार निर्माता बाजार निर्माता के रूप में पंजीकरण के लिए योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बंद रहता है।

- (बी) उपर्युक्त 4 (ए) के अनुसार प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई करने वाली कोई भी बाजार निर्माता ऐसी कार्रवाई के लिखित रूप में अधिसूचित किया जाएगा इस तरह के एक बाजार निर्माता बाजार बनाने के लिए तुरंत निष्काषित हो जाएगा।
- (सी) किसी भी बाजार निर्माता जिसके विरुद्ध प्रासंगिक प्राधिकरण कार्रवाई करता है, उपरोक्त बायलॉ 4 (बी) के अनुसार अधिसूचना की तारीख के दस दिनों के भीतर सुनवाई के अवसर का अनुरोध कर सकता है। सुनवाई के लिए यह अनुरोध कार्रवाई के स्थगन के रूप में काम नहीं करेगा।
- (डी) एक लिखित निर्णय सुनवाई की तारीख के एक सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा और एक प्रतिलिपि बाजार निर्माता को भेजी जाएगी।
- (ई) निलंबन या निषेध के निरसन पर, बाजार निर्माता व्यापार प्रणाली में प्रदर्शित या प्रवेश कर सकते हैं।

मार्केट मैकर्स के लिए परिचालन पैरामीटर।

- (5) प्रासंगिक प्राधिकरण बाजार निर्माताओं के लिए समय-समय पर परिचालनात्मक मापदंडों को निर्धारित और घोषित कर सकता है जो पंजीकृत बाजार निर्माताओं का पालन करेंगे।
- (6) परिचालन पैरामीटर, अन्य बातों के साथ, इसमें शामिल हैं:
- (ए) विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए बोली और पेशकश दरों के बीच प्रसार की सीमा, यदि आवश्यक हो;
- (बी) बाजार के बहुत सारे निर्धारण, और / या कम से कम सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचने की पेशकश की जाए;
- (सी) एक दिन के भीतर या बोली और पेशकश की कीमतों में दिनों के बीच भिन्नता की सीमा;
- (डी) शेयरों का न्यूनतम स्टॉक जिसे ट्रेडिंग सदस्य को बनाए रखना चाहिए, जिसके नीचे वह प्रासंगिक प्राधिकरण को अवगत करना चाहिए;
- (ई) एक बाजार निर्माता के साथ शेयरों को स्टॉक की स्थिति में बेचा जा रहा है, जिससे बाजार निर्माता को केवल खरीद मूल्य प्रस्तावों का उद्धरण करने की अनुमति मिलती है जब तक कि बिक्री योग्यता की बिक्री के लिए बाजार प्रतिस्थापन के बहुत सारे आधारों पर बनाए जाते हैं; तथा
- (एफ) अन्य मामले जो प्रतिभूतियों में व्यापार के सुचारु संचालन को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें वह जनता के बड़े हित को ध्यान में रखते हुए बाजार निर्माता के रूप में कार्य करता है।

अध्याय VIII

लेनदेन और प्रतिस्थापन

लेन-देन

काम करने के घंटे

- (1) एक्सचेंज सिक्योरिटीज में एक्सचेंज में काम करने के लिए व्यावसायिक समय पर होगा जैसा कि समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा तय किया जा सकता है। संबंधित प्राधिकरण, समय-समय पर, विभिन्न प्रकार के सौदों के लिए व्यावसायिक घंटे निर्दिष्ट कर सकता है
- (2) संबंधित प्राधिकरण एक कैलेंडर वर्ष में छुट्टियों की सूची घोषित कर सकता है। प्रासंगिक प्राधिकरण इन प्रावधानों के अनुसार निर्धारित एक्सचेंज की छुट्टियों में से किसी भी समय परिवर्तन या रद्द कर सकते हैं। यह, कारणों को दर्ज करने के लिए, छुट्टियों के अलावा या इसके अलावा अन्य दिनों में बाजार बंद कर सकते हैं।

ट्रेडिंग सिस्टम

- (3) (ए) सौदे संचालित हो सकते हैं, बोली चालित (बाजार निर्माताओं) या ऐसे अन्य सिस्टम जैसे एक्सचेंज को समय-समय पर जगह दी जा सकती है।
- (बी) व्यापारिक सदस्यों के बीच सौदे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कंप्यूटर नेटवर्क या ऐसे अन्य मीडिया द्वारा प्रभावी हो सकते हैं, जो समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए गए हों।
- (सी) सिक्योरिटीज लॉज के अधीन, प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसे आधार पर सौदे पर प्रभाव पड़ सकता है।

सर्वश्रेष्ठ कोटेशन पर लेनदेन

- (4) ग्राहकों के साथ लेनदेन में, व्यापारिक सदस्यों को ग्राहकों की मौजूदा सर्वोत्तम उद्धरण को इंगित करना होगा जैसा कि ट्रेडिंग सिस्टम में दर्शाया गया है।

ट्रेडिंग के लिए परिचालन पैरामीटर

- (5) संबंधित प्राधिकरण, एक्सचेंज पर सिक्योरिटीज के निपटान के संबंध में समय-समय पर परिचालन मापदंडों को निर्धारित और घोषित कर सकता है जो ट्रेडिंग सदस्यों का पालन करेगा।
- (6) परिचालन पैरामीटर, अन्य बातों के साथ, इसमें शामिल हैं:
व्यापार सीमा की अनुमति दी गई है जिसमें निवल मूल्य और पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के संदर्भ में व्यापारिक सीमा शामिल हो सकती है;
(बी) ट्रेडिंग वॉल्यूम और सीमाएं जिस पर यह ट्रेडिंग सदस्यों को एक्सचेंज को सूचित करने के लिए अनिवार्य होगा;
(सी) विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए बोली और पेशकश दरों के बीच फैल सीमा, यदि आवश्यक हो;
(डी) बाजार के बहुत सारे निर्धारण, और ६ या कम से कम सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचने की पेशकश की जाए;
(ई) एक दिन के भीतर या बोली और पेशकश की कीमतों में दिनों के बीच भिन्नता की सीमा;
(च) अन्य मामले जो जनता के बड़े हित को देखते हुए प्रतिभूतियों में व्यापार के सुगम संचालन को प्रभावित कर सकते हैं;
(जी) एक सदस्य और एक सुरक्षा के लिए अनुमति दी गई ट्रेडों के निर्धारित प्रकार;
(एच) सिस्टम डिजाइन, यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम ऑपरेशन सहित ट्रेडिंग सिस्टम के कार्यात्मक विवरणों का निर्धारण करना।

ट्रेडिंग सीमाओं को पूरा करने के लिए विफलता पर निलंबन

- (7) इन उप-नियमों और विनियमों में प्रदान किए गए अनुसार व्यापारिक सीमाओं के लिए एक्सचेंज पर लेनदेन को सीमित करने में विफल रहने वाला कोई ट्रेडिंग सदस्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा व्यापार सीमा के भीतर लेनदेन को कम करने के लिए आवश्यक होगा। संबंधित विवेकाधिकार से संबंधित प्राधिकरण एक व्यापारिक सदस्य को व्यापारिक सीमाओं के उल्लंघन के लिए निलंबित कर सकता है और निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक कि प्रासंगिक प्राधिकारी इस तरह के निलंबन को वापस ले लें।

अनुबंध नोट्स

- (8) अनुबंध नोट्स ऐसे समय के भीतर जारी किए जाएंगे, जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर ग्राहकों के साथ किए गए सौदों या ग्राहकों की ओर से किए गए सौदों के लिए निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, और ऐसे अधिकार शामिल होंगे जैसे संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर निर्दिष्ट हो सकते हैं। अनुबंध नोट बताएंगे कि सौदा एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अधीन है और उसमें प्रदान की गई मध्यस्थता के अधीन है।
- (9) विनिर्दिष्ट सभी सौदों का विवरण, लेनदेन के दिन एक्सचेंज के कार्यालयों को सूचित किया जाएगा।
- (10) जब तक इन उप-नियमों में अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, एक्सचेंज प्रतिभूतियों के संबंध में किए गए सभी लेनदेन एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अधीन होंगे।

प्रतिभूतियों की डिलिवरी

- (11) सभी सौदों के संबंध में सभी प्रतिभूतियों, दस्तावेजों और कागजों और भुगतानों की डिलिवरी, इस तरह से और ऐसी जगह (ओं) में होगी जो प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।
- (12) संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर निर्दिष्ट करेगा, प्रतिभूतियों, दस्तावेजों और कागजात, जो निर्धारित तरीके से वितरित किए जाने पर, अच्छे वितरण का गठन करेंगे। जहां परिस्थितियों इतनी वारंट करती है, संबंधित प्राधिकरण निर्धारित कर सकता है, कारण दर्ज किए जाने के लिए, चाहे डिलीवरी एक अच्छी डिलीवरी का हो या न हो, ऐसी खोज संबंधित पार्टियों पर बाध्यकारी होगी। जहां प्रासंगिक प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि डिलीवरी एक अच्छी डिलीवरी का गठन नहीं करता है, वैसे ही वितरित करने वाली पार्टी को ऐसे समय अवधि के भीतर अच्छी डिलीवरी के बजाय हो,
- (13) मार्केट लॉट, न्यूनतम लॉट, डिलीवरी आदि के संबंध में डिलीवरी के लिए मानदंड और प्रक्रियाएं, समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारण अनुसार होगी।
- (14) विवादित या दोषपूर्ण डिलीवरी के निर्धारण और उपायों, प्रक्रियाओं और विवाद या डिलीवरी में दोष या ऐसे प्रसव के परिणाम या संकल्प को हल करने की व्यवस्था, निर्धारित करने के लिए अवस्यक्ताएं और प्रक्रियाएं, इन उप-नियमों के अधीन होंगे, जैसा कि समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है।

समाशोधन तथा निपटान

- (1) सौदों की समाशोधन और निपटान, ऐसी व्यवस्थाएं, प्रणालियों, एजेंसियों या प्रक्रियाओं को अपनाने और उपयोग करने के संबंध में दलों द्वारा लागू होगी जो समय-समय पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित या निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। पूर्वगामी

की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, प्रासंगिक प्राधिकारी, समाशोधन के सुचारु संचालन की सुविधा के लिए समय-समय पर व्यापारिक सदस्यों, प्रतिभागियों और अन्य विशिष्ट घटकों, ऐसे हिरासत और डिपॉजिटरी सेवाओं द्वारा गोद लेने और उपयोग के लिए निपटान व्यवस्था या प्रणाली को निर्धारित या निर्दिष्ट कर सकती हैं।

- (2) क्लियरिंग हाउस का कार्य एक्सचेंज या इस प्रयोजन के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा पहचाने जाने वाली किसी भी एजेंसी द्वारा किया जा सकता है। क्लियरिंग हाउस की भूमिका को डिलिवरी के प्रसंस्करण के लिए एक सुविधादाता के रूप में कार्य करना होगा और एक्सचेंज पर उनके द्वारा किए गए ट्रेडों के लिए ट्रेडिंग सदस्यों / प्रतिभागियों के बीच भुगतान करना होगा। एक्सचेंज में निपटारा या तो नेटड आधार पर होगा, सकल आधार, व्यापार के आधार के लिए व्यापार या किसी अन्य आधार के अनुसार प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा। नियमों में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान के रूप में सहेजें, जब निधि और प्रतिभूति एक निर्धारित व्यवस्था के तहत होती है, जो क्लियरिंग हाउस के माध्यम से होती है, तो निपटान की जिम्मेदारी पूरी तरह से और पूरी तरह से काउंटर पार्टियों पर व्यापार और / या संबंधित व्यापारिक सदस्यों के रूप में मामला हो सकता है और क्लियरिंग हाउस ट्रेडिंग सदस्यों / प्रतिभागियों के सामान्य एजेंट के रूप में प्रतिभूतियों की डिलिवरी प्राप्त करने या देने और धन प्राप्त करने और भुगतान करने के लिए, एक प्राचार्य के रूप में किसी भी दायित्व या दायित्व के बिना दखल कर सकता है।

एक मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से क्लियरिंग और सेटलमेंट

- (3) संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट एक्सचेंज पर निष्पादित ट्रेडों को आईएफएससी में एक मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से साफ किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, ऐसे ट्रेडों के समाशोधन और निपटान को मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के नियम, नियम और नियमों के अधीन होगा। क्लियरिंग और निपटान के संबंध में अब तक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किए गए नियम, बायलॉज, विनियम और एक्सचेंज द्वारा जारी किए गए परिपत्र और नियम, बायलॉज, विनियम और परिपत्र के बीच संघर्ष के मामले में, नियम, बायलॉज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के तहत जारी किए गए विनियम और परिपत्रों का प्रबल होगा।

बंद करना

- (4) प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अधीन, एक्सचेंज पर बनाए गए प्रतिभूतियों में किसी भी तरह का व्यवहार एक्सचेंज पर किसी ट्रेडिंग मंबर और / या पार्टिसिपेंट के विरुद्ध खरीदने या बेचने से बंद हो सकता है।:-

(a) बेचने वाले ट्रेडिंग सदस्य / प्रतिभागी के मामले में, नियत तारीख को डिलिवरी पूरा करने में विफलता पर; तथा

(b) खरीदने वाले ट्रेडिंग सदस्य / भागीदार के मामले में, नियत तारीख पर देय राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, और इस तरह के समापन के परिणामस्वरूप किसी भी हानि, क्षति या कमी का सामना करना पड़ता है या उस ट्रेडिंग सदस्य या प्रतिभागी द्वारा देय होगा जो विफल देय डिलिवरी देने या देय राशि का भुगतान करने के लिए होंगे।

- (5) सिक्योरिटीज में अनुबंधों या लेन-देन को समाप्त करना और वहां से उत्पन्न होने वाले दावों का निपटान ऐसे समय-सीमा के भीतर इस तरह के तरीके से होगा और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं के अधीन होगा।

- (6) प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अधीन, एक्सचेंज पर बनाए गए प्रतिभूतियों में किसी भी सौदे को एक ट्रेडिंग सदस्य से दूसरे परिस्थितियों में और ट्रेडिंग के सदस्य के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, जैसा कि प्रासंगिक समय-समय पर प्राधिकरण होगा।

ब्याज, लाभांश, अधिकार और कॉल

- (7) खरीददार घटक सभी वाउचर, कूपन, लाभांश, नकद बोनस, बोनस मुद्दों, अधिकारों और अन्य विशेषाधिकार प्राप्त करने का हकदार होगा और अन्य विशेषाधिकार जो प्रतिभूतियों द्वारा खरीदे वाउचर, सह कूपन, सह लाभांश, सह नकद बोनस, सह बोनस मुद्दों, सह अधिकार आदि से संबंधित हो सकते हैं। बिक्री करने वाले घटक को सभी वाउचर, कूपन, लाभांश, नकद बोनस, बोनस अंक, अधिकार और अन्य विशेषाधिकार प्राप्त करने का हकदार होगा जो पूर्व वाउचर, पूर्व कूपन, पूर्व लाभांश, पूर्व नकद बोनस, पूर्व बोनस मुद्दों, पूर्व अधिकार आदि बेचे जाने वाले प्रतिभूतियों से संबंधित हो सकता है।

- (8) वाउचर, कूपन, लाभांश, नकद बोनस, बोनस मुद्दों, अधिकारों के संबंध में समायोजन के तरीके, मोड, सूचना आवश्यकताओं, परिवर्तन, तिथि और समय आदि और ट्रेडिंग सदस्य खरीदने और ट्रेडिंग सदस्य खरीदने के बीच अन्य विशेषाधिकारों को प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। इस तरह के समायोजन के लिए व्यापारिक सदस्य स्वयं और उनके घटकों के बीच जिम्मेदार होंगे।

- (9) प्रतिभूतियों में एक अनुबंध के संबंध में जो पुनर्निर्माण या पुनर्गठन की योजना के तहत नए या अन्य प्रतिभूतियों के लिए हो या विनिमय हो, बिक्री करने वाले घटक खरीदार को वितरित करेंगे, जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकरण निर्देशित करता है, या तो प्रतिभूतियों और / या नकदी और / या पुनर्निर्माण या पुनर्गठन की इस योजना के अंतर्गत प्राप्त अन्य संपत्तियों के लिए अनुबंधित प्रतिभूतियों या समकक्ष होगा।

डीलिंग पर ब्रोकरेज

ब्रोकरेज

- (10) समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आधिकारिक स्तर से अधिक नहीं होने वाले दरों पर ट्रेडिंग सदस्यों के प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के संबंध में सभी आदेशों के निष्पादन पर ब्रोकरेज चार्ज करने का अधिकार है।

कॉल्ल पर ब्रोकरेज

- (11) एक ट्रेडिंग सदस्य जो सिक्क्योरिटीज खरीदता है, जिस पर कॉल की बिक्री विक्रेता द्वारा प्रीपेड कर दी गई है, ऐसी कॉल की मात्रा के साथ खरीद मूल्य पर ब्रोकरेज लगा सकते हैं।

हामीदारी आयोग और ब्रोकरेज

- (12) जब तक अन्यथा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, एक ट्रेडिंग सदस्य, अपने विवेक में आरोप लगा सकता है किसी ब्रोकरेशन या नए मुद्दों या किसी भी सुरक्षा की बिक्री के प्रस्ताव के संबंध में किसी भी प्रारंभिक व्यवस्था में प्रवेश या दलाली के रूप में कार्य करना या दलाली या कमीशन के लिए आयोग, क्योंकि यह जारीकर्ता या अधिग्रहणकर्ता या प्राचार्य अंडरराइटर्स के साथ सहमत हो सकता है या ऐसे जारीकर्ता या अधिग्रहणकर्ता द्वारा लगे दलाल, समय-समय पर लागू होने वाले प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमा के अधीन।

ब्रोकरेज को साझा करना

- (13) (ए) एक ट्रेडिंग सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ब्रोकरेज साझा नहीं कर सकता है जो -
- (i) एक के लिए या जिसके साथ व्यापारिक सदस्य एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और विनियमों के तहत व्यापार करने के लिए मना कर रहे हैं;
 - (ii) किसी अन्य ट्रेडिंग सदस्य के रोजगार में एक व्यापारिक सदस्य या कर्मचारी है;
- (बी) किसी भी व्यक्ति के साथ ब्रोकरेज को बांटने के लिए किसी भी व्यवस्था के बावजूद, ट्रेडिंग सदस्य किसी अन्य सदस्य के साथ सीधे और पूरी तरह से उत्तरदायी होगा, जिनके साथ इस तरह के ट्रेडिंग सदस्य एक्सचेंज पर किसी भी सौदे पर प्रभाव डालते हैं।

अध्याय IX

सदस्यों और संविधानों के अधिकार और उत्तरदायित्व

उप-नियम, नियम और विनियमों के अधीन सभी संविदाएं

- (1) किसी ट्रेडिंग सदस्य द्वारा किए गए एक्सचेंज पर दिए गए लेनदेन से संबंधित सभी अनुबंध सभी मामलों में एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अधीन माना जाएगा। यह इस तरह के सभी अनुबंधों के नियमों और शर्तों का एक हिस्सा होगा और एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और विनियमों द्वारा इस संबंध में निहित अधिकारों के संबंध में अधिकारों के संबंधित प्राधिकारी द्वारा अभ्यास के अधीन होगा।

ट्रेडिंग सदस्यों को निर्देश और आदेश स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है

- (2) एक ट्रेडिंग सदस्य ऐसी परिस्थितियों की खरीद, बिक्री, आदि के लिए घटकों के निर्देशों या आदेशों को स्वीकार नहीं कर सकता जहां परिस्थितियों को इस तरह की कार्यवाही को उचित ठहराया जा सकता है या उचित आधार पर हैं। जहां इस तरह का इनकार किया जाता है, वही घटक को सूचित किया जा सकता है। ट्रेडिंग सदस्य भी घटक द्वारा उनके द्वारा किए गए अनुरोध पर इनकार करने के कारणों को प्रस्तुत करेगा।

लाभ

- (3) एक ट्रेडिंग सदस्य को अपने घटक से इस तरह के घटक के लिए उसके द्वारा किए गए व्यापार के संबंध में इन उप-नियमों, नियमों और विनियमों के तहत प्रदान करने वाले मार्जिन जमा से मांग करने का अधिकार होगा। एक ट्रेडिंग सदस्य को आदेश देने से पहले नकद और / या उसके घटक से प्रतिभूतियों में प्रारंभिक मार्जिन मांगने का अधिकार होगा और / या यह निर्धारित करना होगा कि घटक मार्जिन जमा कर देगा या बाजार की कीमतों में बदलाव के अनुसार अतिरिक्त मार्जिन देगा। घटक तब होगा जब समय-समय पर ऐसा करने के लिए कहा जाता है कि मार्जिन जमा प्रदान करें और / या उनके द्वारा किए गए व्यवसाय के संबंध में इन उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार अतिरिक्त मार्जिन प्रदान करें और / या उस संबंधित व्यापारिक सदस्य की सहमति के अनुसार करें।

संविधान के खाते से समापन करना

- (4) (ऐ) एक्सचेंज एक घटक के खुले स्थान को बंद कर सकता है या उसका स्थानांतरण कर सकता है ऐसे परिस्थितियों में किसी अन्य ट्रेडिंग सदस्य को खोलने की स्थिति और विनिर्दिष्ट एक्सचेंज के संबंध में समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा हो सकता है।
- (बी) किसी घटक के खाते को बंद करने के बाद, एक ट्रेडिंग सदस्य ऐसे लेनदेन को अपने खाते में ले सकता है और कीमतों पर एक प्राचार्य के रूप में, जो बाजार की स्थिति से उचित हैं या वह संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से बंद हो सकता है और किसी भी व्यय में हो सकता है या उसमें उत्पन्न होने वाला कोई भी नुकसान घटक द्वारा वहन किया जाएगा।
- (सी) प्रतिभागियों के खाते से समापन करने वाले उपखंड (ए) में किसी बात के बावजूद, इस तरह से होगा और समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अनुसार होगा।

ट्रेडिंग सदस्य स्थानांतरण का पंजीकरण करने के लिए उपस्थित होने के लिए उत्तरदायी नहीं है

- (5) किसी ट्रेडिंग सदस्य को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण में भाग लेने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं माना जाएगा और इसके पंजीकरण में घटक के नाम पर होगा। यदि यह सामान्य पाठ्यक्रम में या अनुरोध या इच्छा या घटक की सहमति से ऐसे काम में शामिल हो जाता है इसे इस मामले में घटक के एजेंट माना जाएगा और पारगमन में हानि या जारी करने के लिए जारीकर्ता के इनकार के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और न ही किसी अन्य दायित्व के अधीन होगा या विशेष रूप से इन उप-नियमों, नियमों और विनियमों द्वारा लगाए गए कार्यों के अलावा अन्य दायित्व होंगे। स्टाम्प ड्यूटी, हस्तांतरण शुल्क और अन्य शुल्क जो जारीकर्ता को देय होगा, प्रतिभूतियों के पंजीकरण में शामिल होने के लिए शुल्क और सभी प्रासंगिक खर्च जैसे कि ट्रेडिंग सदस्य द्वारा किए गए डाक द्वारा घटक द्वारा वहन किया जाएगा।

अनुबंध समाप्त करने के लिए विफलता पर संविधान द्वारा समापन आउट / स्थानांतरण

- (6) यदि कोई ट्रेडिंग सदस्य डिलीवरी या भुगतान द्वारा अनुबंध के प्रदर्शन को पूरा करने में विफल रहता है तो इन उप-नियमों, नियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप, ट्रेडिंग सदस्य और एक्सचेंज को लिखित रूप में नोटिस देने के बाद, एक्सचेंज के किसी भी अन्य ट्रेडिंग सदस्य के माध्यम से इस तरह के अनुबंध को बाहर कर दें या किसी अन्य ट्रेडिंग में अनुबंध के हस्तांतरण के लिए एक्सचेंज को किसी आवेदन को जल्द से जल्द हस्तांतरण करने के लिए आवेदन करें और ऐसे बंद होने या हस्तांतरण के परिणामस्वरूप निरंतर किसी भी हानि या क्षति, जैसा कि मामला हो, तो तुरंत चूक व्यापार के घटक के सदस्य द्वारा देय होगा। यदि यहां उपलब्ध कराए जाने के साथ समापन-आउट या स्थानांतरित नहीं किया जाता है, तो पार्टियों के बीच होने वाले नुकसान को इस आधार पर निर्धारित किया जाएगा जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाता है और घटक और ट्रेडिंग सदस्य प्रत्येक के खिलाफ एक दुसरे के अधिकार को जप्त कर देगा।

संविधान की प्रतिभूति पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं

- (7) यदि किसी ट्रेडिंग सदस्य को अपने घटकों के प्रति सिक्क्योरिटीज देने के बाद एक डिफॉल्टर घोषित किया जाता है तो घटक को दावा करने का अधिकार होगा और संबंधित प्राधिकरण द्वारा संतोषजनक माना जाने वाला प्रमाण प्रस्तुत करेगा और संबंधित प्राधिकरण के पूर्ण विवेक से प्राप्त होगा तदनुसार एक्सचेंज संबंधित प्राधिकारी द्वारा या तो ऐसी प्रतिभूतियों या मूल्य का निर्देशन करता है, जो कि डिफॉल्टर के लिए किसी भी वजह से भुगतान या कटौती के अधीन होता है।

संविधान द्वारा शिकायत

- (8) जब किसी घटक द्वारा किसी प्राधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज की गई है, तो किसी भी ट्रेडिंग सदस्य को अपने लेनदेन को लागू करने में असफल रहा है, तो संबंधित प्राधिकारी शिकायत की जांच करेगा और अगर यह संतुष्ट है कि शिकायत उचित है तो यह ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है जो वह सही समझे।

ट्रेडिंग सदस्य और घटक के बीच संबंध

- (9) किसी भी अन्य कानून के पूर्वाग्रह के बिना और इन अलविदा कानूनों के अधीन, पारस्परिक अधिकार और दायित्वों को ट्रेडिंग सदस्य और उसके घटक के बीच अंतर करना होगा, जैसा कि समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- (10) प्रासंगिक प्राधिकरण एक्सचेंज के निवेशक सेवा कक्ष के कामकाज की निगरानी के लिए एक निवेशक की सेवा समिति का गठन करेगा और उपयुक्त मामलों में व्यक्तिगत रूप से निवेशकों की शिकायतों में भाग लेगा। निवेशक की सेवा समिति की रचना ऐसी होगी, जिसे सेबी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

अध्याय X

मध्यस्थता

ट्रेडिंग सदस्यों के बीच और ट्रेडिंग सदस्यों और घटकों के बीच सभी दावे, मतभेद या विवाद या संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य पार्टियों के बीच, लेनदेन, अनुबंध और लेनदेन के संबंध में उत्पन्न होता है जो एक्सचेंज के उप-नियम, नियम और विनियमों के अधीन होता है या इसके अनुच्छेद के अनुच्छेद या उसके अनुसरण में या उनके वैधता, निर्माण, व्याख्या, पूर्ति या अधिकारों, दायित्वों और पार्टियों की देनदारियों से संबंधित के संदर्भ में और इस तरह के लेन-देन, लेनदेन और अनुबंधों में प्रवेश किया गया है या नहीं, इस संबंध में किसी भी प्रश्न के साथ-साथ संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट आईएफएससी में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्रों द्वारा की गई मध्यस्थता, मध्यस्थता और अन्य विवाद समाधान तंत्रों द्वारा निर्दिष्ट और निर्णय लिया जाएगा।

अध्याय XI

चूक

डिफॉल्ट की घोषणा

- (1) यदि किसी ट्रेडिंग सदस्य को संबंधित प्राधिकारी की दिशा / परिपत्र / अधिसूचना द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है -
 - (ऐ) वह अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है; या
 - (बी) वह अपने कर्तव्यों, दायित्वों और दायित्वों को पूरा करने या उसकी प्राप्ति की अक्षमता को स्वीकार या प्रकट करता है; या
 - (सी) वह विफल रहता है या निर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान करने में असमर्थ होता है, जिसके तहत इन उप-नियमों, नियमों और विनियमों के तहत एक समापन-आउट पर होने वाले नुकसान और धन के अंतर पर प्रभाव पड़ता है; या
 - (डी) वह एक्सचेंज की वजह से किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है या एक्सचेंज को नियत तारीख, डिलीवरी और ऑर्डर प्राप्त करने, मतभेद और प्रतिभूतियों का बयान, बैलेंस शीट और ऐसे अन्य समाशोधन रूपों और प्रासंगिक प्राधिकरण के रूप में अन्य वक्तव्य समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं; या
 - (ई) यदि वह भुगतानकर्ताओं को भुगतान करने या डिफॉल्टर्स समिति को देने में विफल रहता है, तो ऐसे किसी ट्रेडिंग सदस्य के मुताबिक सभी पैसा, प्रतिभूतियां और अन्य परिसंपत्तियों को डिलीवरी घोषित कर दिया जाता है, जैसे कि प्राधिकृत प्राधिकारी के रूप में इस तरह के ट्रेडिंग सदस्य की डिफॉल्ट घोषणा के ऐसे वक्त में डिफॉल्टर घोषित किया गया है; या
 - (अफ) यदि यह मध्यस्थता अधिनियम, नियम और विनियमों के तहत निर्धारित मध्यस्थता कार्यवाही का पालन करने में विफल रहता है; या
 - (जी) अगर यह, कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी होने के नाते, न्यायालय के कानून के सामने एक याचिका दायर की जाती है, जो अदालत के मामले में दिवालिया हो या उसके समापन के लिए, जैसा कि मामला हो।
- (2) वर्गामी के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यदि किसी ट्रेडिंग सदस्य को किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से डिफॉल्टर घोषित किया जाता है या जिस पर यह एक सदस्य है या यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र सेबी द्वारा रद्द किया गया है, तो कहा गया है कि ट्रेडिंग सदस्य को निष्कासित किया जा सकता है। इस तरह के ट्रेडिंग सदस्य को सुनाई जाने के अवसर प्रदान करने के बाद एक्सचेंज हो सकता है।

इस बायलों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निष्कासन / डिफॉल्ट की जानकारी मिलने के तुरंत बाद सदस्य की ट्रेडिंग सुविधा वापस ले ली जाएगी या सेबी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करना होगा।

दायित्वों को पूरा करने में विफलता

- (3) संबंधित प्राधिकारी किसी ट्रेडिंग सदस्य को एक डिफॉल्टर घोषित करने का आदेश दे सकता है, यदि वह किसी ट्रेडिंग सदस्य या विनियम लेनदेन से उत्पन्न घटकों के लिए एक दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है।

डिफॉल्ट को डिफॉल्टर

- (4) एक ट्रेडिंग सदस्य, कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी होने के कारण, किसी भी लॉन्चरों द्वारा दायर याचिका में कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा घाव करने का आदेश दिया गया है, उसे डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा, हालांकि इसमें उसी समय एक्सचेंज पर अपने किसी भी दायित्व पर चूक कर दिया गया हो, बशर्ते लागू कानूनों के तहत इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए समय, यदि कोई हो, तो समाप्त हो गया है।

ट्रेडिंग सदस्य को सूचित करने के लिए ड्यूटी

- (5) किसी ट्रेडिंग सदस्य को पूरी तरह से अपनी देनदारियों का निर्वाह करने के लिए किसी भी ट्रेडिंग सदस्य द्वारा विफल होने पर तुरंत एक्सचेंज को सूचित करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

समझौता निषिद्ध

- (6) प्रतिभूतियों में लेन-देन से उत्पन्न होने वाले ऋण के निपटारे में किसी भी ट्रेडिंग सदस्य से किसी भी ट्रेडिंग सदस्य को स्वीकार करने के लिए दोषी किसी व्यापारी को उस अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा जैसा संबंधित प्राधिकारी निर्धारित कर सकता है।

डिफॉल्ट की घोषणा की सूचना

- (7) किसी ट्रेडिंग सदस्य को डिफॉल्टर घोषित किए जाने पर उस प्रभाव के लिए एक नोटिस को तुरंत ट्रेडिंग सिस्टम पर रखा जाएगा।

डिफॉल्टर की पुस्तक और दस्तावेज

- (8) जब किसी ट्रेडिंग सदस्य को डिफॉल्टर घोषित किया जाता है तो डिफॉल्टर्स कमेटी अपने सभी खातों, दस्तावेजों, कागजात और वाउचर के प्रभाओं को अपने मामलों की स्थिति का पता लगाने के लिए नियुक्त करेगा और डिफॉल्टर ऐसी पुस्तकों, दस्तावेजों, कागजी और वाउचर डिफॉल्टर्स कमेटी को दी जाएगी।

देनदार और लेनदारों की सूची

- (9) डिफॉल्टर अपने डिफॉल्ट की घोषणा के ऐसे समय के भीतर डिफॉल्टर्स कमेटी के साथ फाइल करेगा क्योंकि संबंधित प्राधिकारी एक लिखित कथन को दे सकते हैं जिसमें देनदार और लेनदारों की पूरी सूची है और प्रत्येक के लिए और प्रत्येक के कारण राशि।

डिफॉल्टर सूचना देने के लिए

- (10) डिफॉल्टर डिफॉल्टर्स कमेटी को अपने मामलों के खातों, सूचना और विवरण जैसे बयान प्रस्तुत करेगा क्योंकि डिफॉल्टर्स समिति समय-समय पर आवश्यक हो सकती है और यदि ऐसा वांछित होता है तो समिति की अपनी बैठकों की बैठक में इसके मूलभूत प्रस्ताव के मुताबिक पेश होने चाहिए।

जांच

- (11) डिफॉल्टर्स कमेटी, बाजार में डिफॉल्टर के खातों और सौदे की सख्त जांच में प्रवेश कर सकती है और संबंधित प्राधिकरण को किसी अनुचित, गैर व्यापार को रिपोर्ट कर सकती है या किसी ट्रेडिंग सदस्य को उसके संबंध में न छूटेगी, जिसके साथ उसके संबंध में ज्ञान आ सकता है।

एक्सचेंज में संपत्ति का निपटा

- (12) डिफॉल्टर्स कमेटी, किसी भी रूप में सुरक्षा जमा राशि का पता लगाएगा, डिफॉल्टर द्वारा जमा की गयी राशियों और प्रतिभूतियों से जुड़ी अन्य रकम और सभी धनियों, प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्तियों को देय, देय या डिफॉल्टर द्वारा डिलीवर करने योग्य किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी अन्य ट्रेडिंग सदस्य या एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अधीन किए गए लेनदेन या ऐसी संपत्तियों के लाभ के लिए एक्सचेंज में किसी भी ट्रेडिंग सदस्य को डिफॉल्टर के रूप में घोषित करना और एक्सचेंज, एनएसई आईएफएससी क्लयरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत के सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड, अन्य व्यापारिक सदस्य, संघटक और डिफॉल्टर के पंजीकृत उप-दलालों, स्वीकृत बैंकों और किसी भी अन्य व्यक्ति के रूप में जो चूककर्ताओं द्वारा अनुमोदित हो सकते हैं इसमिति और अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज।

डिफॉल्टर्स समिति को भुगतान

- (13) (ए) सभी धन, सिक्योरिटीज और अन्य परिसंपत्तियों को देय, देय या डिफॉल्टर के लिए डिलीवर करने योग्य होना चाहिए या डिफॉल्टर्स कमेटी को डिफॉल्ट के घोषित समय के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए या संबंधित प्राधिकरण सीधे निर्देशित कर सकता है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले एक ट्रेडिंग सदस्य को डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा।

(बी) एक ट्रेडिंग सदस्य जिसे खाते में अंतर प्राप्त होगा या ऐसे खाते या लेनदेन के निपटारे के लिए निर्धारित तारीख से पहले किसी भी सौदे में कोई विचार प्राप्त होगा, उस ट्रेडिंग सदस्य की स्थिति में जहां से इस तरह के अंतर या विचार को डिफॉल्टर घोषित किया गया है, उसे लाभ के लिए चूककर्ता समिति को वापस लौटा देना और लेनदार सदस्यों के खाते में देना होगा। ऐसे कोई भी ट्रेडिंग सदस्य जो इस तरह के समझौते के दिन से पहले किसी भी अन्य ट्रेडिंग सदस्य को भुगतान या भुगतान किया या विचार किया होगा, वह फिर से भुगतान या लाभ के लिए चूककर्ता समिति को देना होगा और क्रेडिट या सदस्य के मामले में ऐसे अन्य सदस्य का डिफॉल्ट माना जायेगा।

(सी) किसी ट्रेडिंग सदस्य को किसी अन्य ट्रेडिंग सदस्य से प्राप्त होने के दौरान दावा नोट या क्रेडिट नोट को समाशोधन के दौरान किसी अन्य राशि का प्रतिनिधित्व करता है या उसके घटक के कारण जो राशि उस ओर वैसे और उस

घटक के खाते के लिए प्राप्त होती है इस तरह के धन की वापसी यदि इस तरह के अन्य व्यापारिक सदस्य को निपटान दिवस के बाद प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दिनों के भीतर एक डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा। इस तरह की धनवापसी लाभांश और लेनदार सदस्यों के खाते के लिए डिफॉल्टर्स कमेटी को की जाएगी और यह ऐसे लेनदार सदस्यों के दावों के परिसमापन में लागू किया जाएगा जिनके दावे इन उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार भर्ती हैं।

वितरण

- (14) (13) डिफॉल्टर्स समिति, लेनदार सदस्यों के जोखिम और लागत पर ऐसे बैंक में प्राप्ति के दौरान प्राप्त सभी परिसंपत्तियों का भुगतान करेगा और / या ऐसे नामों में उन्हें एक्सचेंज के साथ रखेगा जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकरण समय-समय पर प्रत्यक्ष और वितरित करेगा जितनी जल्दी हो सके उतनी ही संभव होनी चाहिए, लेकिन लेनदार सदस्यों के बीच ब्याज के बिना जिनके दावे इन बाय लॉ, नियम और विनियमों के अनुसार भर्ती कराए जाते हैं।
- (15) समापन (ऐ) डिफॉल्टर के साथ खुले लेनदेन करने वाले ट्रेडिंग सदस्य एक्सचेंज पर डिफॉल्ट की घोषणा के बाद इस तरह के लेनदेन को बंद कर देंगे। इस तरह के समापन का समय इस तरह होगा कि प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है। प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित इस संबंध में नियमों के अधीन, जब प्रासंगिक प्राधिकारी की राय में, परिस्थितियों इतनी वारंट, ऐसे बंद करने के लिए इस तरह से माना जाएगा कि वह एक्सचेंज के प्रासंगिक प्राधिकारी या अन्य अधिकृत द्वारा निर्धारित किया गया हो।
- (बी) समापन के उपरोक्त समायोजनों से उत्पन्न होने वाले मतभेदों को डिफॉल्टर से दावा किया जाएगा या डिफॉल्टर के लेनदार व्यापारिक सदस्यों के लाभ के लिए डिफॉल्टर्स कमेटी को भुगतान किया जाएगा।

डिफॉल्टर्स कमेटी का लेखा

- (16) डिफॉल्टर्स कमेटी, एक डिफॉल्टर को देय सभी मुद्रा, सिक्योरिटीज और अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में एक अलग खाता रखता है जो इसे प्राप्त कर लेता है और इसमें सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों को चुकाना होगा। या ऐसी संपत्तियों के संग्रहण के बारे में या डिफॉल्ट के संबंध इसके बारे में किसी भी कार्यवाही में होना।

रिपोर्ट

- (17) डिफॉल्टर्स कमेटी प्रत्येक छह महीने एक रिपोर्ट को किसी डिफॉल्टर के मामलों से संबंधित प्राधिकरण को पेश करेगी और संपत्ति को एहसास कर देगी, देनदारियों को छुट्टी दे दी और लाभांश दिया जाएगा।

लेखा का निरीक्षण

- (18) इन उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार डिफॉल्टर्स कमेटी द्वारा रखे गए सभी खाते किसी भी लेनदार ट्रेडिंग सदस्य के निरीक्षण के लिए खुले होंगे।

शुल्क का स्केल

- (19) डिफॉल्टर्स समिति के खाते में हस्तांतरित राशि पर एक्सचेंज को भुगतान करने का शुल्क ऐसी राशि होगी, जैसा संबंधित प्राधिकार समय-समय पर लिख सकता है।

आस्तियों के आवेदन

- (20) डिफॉल्टर्स समिति, एक्सचेंज द्वारा किए जाने वाले नियम, उप-नियमों और विनियमों के अंतर्गत ऐसी सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों को परिभाषित करने के बाद अपने हाथों में शेष कुल परिसंपत्तियों को नीचे दी गई प्राथमिकता के आदेश से लागू करेगी:-

- (ऐ) एक्सचेंज के बकाया, एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्सचेंज, एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कारण इस तरह के सदस्यता, ऋण, जुर्माना, फीस, शुल्कों और अन्य धन का भुगतान, जिस क्रम में उनके नाम यहां दिखाई देते हैं;

- (बी) अन्य ट्रेडिंग सदस्यों और घटकों के लिए और डिफॉल्टर के पंजीकृत उप-दलाल

भुगतान के रूप में डिफॉल्टर्स की समिति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि अन्य ट्रेडिंग सदस्यों और संविभागों के कारण और डिफॉल्टर के पंजीकृत दलालों के लिए ऋण, देनदारियों, दायित्वों और दावों से संबंधित किसी भी अनुबंध से उत्पन्न होने वाले दावों के नियमों के अधीन, एक्सचेंज के उप-नियम और विनियम, यदि राशि अपर्याप्त है, तो अन्य ट्रेडिंग सदस्यों, सभी संविधान और डिफॉल्टर के पंजीकृत उप-दलालों के बीच वितरित की जा सकती है। दूसरे ट्रेडिंग सदस्यों ने बारी-बारी से उन राशियों को साझा किया है जो प्रो-राटा आधार पर अपने संविधानों से प्राप्त हुए हैं।

- (सी) स्वीकृत बैंकों के बकाए और डिफॉल्टर्स कमेटी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति के दावे उपरोक्त धारा (बी) के तहत भुगतान करने के बाद, शेष राशि, यदि कोई हो, का उपयोग अनुमोदित बैंकों और किसी अन्य व्यक्ति के दावों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसे डिफॉल्टर्स समिति द्वारा भर्ती किया जा सकता है। स्वीकृत बैंकों के दावे एक्सचेंज या एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आधार पर उत्पन्न हो सकते हैं, जो एक्सचेंज या एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित बैंक द्वारा जारी किसी भी बैंक गारंटी को लागू कर सकते हैं, जैसा कि मामले को पूरा करने के लिए डिफॉल्टर की ओर से हो सकता है एनएसई आईएफएससी लिमिटेड / एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीलावर, नियम और विनियम के तहत दायित्वों का निर्वहन करने की गारंटी देने के लिए बैंक गारंटी जमा करने का दायित्व होगा। अन्य व्यक्तियों के दावे एक्सचेंज द्वारा किए गए लेनदेन या एक्सचेंज द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के लिए उत्पन्न या आकस्मिक होना चाहिए, बशर्ते कि अगर उपलब्ध सभी उपलब्ध भुगतानों के भुगतान के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो, तो उन्हें भुगतान के लिए भुगतान किया जाना चाहिए, तथा
- (डी) किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के बकाया:
- उपरोक्त (सी) के तहत दावों को पूरा करने के बाद, शेष राशि, यदि कोई हो, तो उस एक्सचेंज के सदस्य के रूप में डिफॉल्टर के दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य के लिए किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को वितरित किया जाएगा। अगर डिफॉल्टर एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य है, तो शेष राशि सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के बीच वितरित की जाएगी और यदि शेष राशि ऐसे सभी स्टॉक एक्सचेंजों के दावों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तो शेष राशि होगी ऐसे सभी स्टॉक एक्सचेंजों के बीच वितरित प्रोटाटा हैं।
- (ई) अधिशेष संपत्ति:
- अधूरी संपत्ति, यदि कोई हो, तो डिफॉल्टर के रूप में ट्रेडिंग सदस्य को घोषित होने की तिथि से कम से कम एक वर्ष की अवधि के बाद या उप-कानून 20 के तहत गिरने वाले दावों को संतोषजनक करने के बाद, जो भी बाद में जारी किया गया हो, तो हो सकता है।
- कुछ दावे का ग्रहण नहीं करना
- (21) डिफॉल्टर्स कमेटी डिफॉल्टर के खिलाफ किसी भी दावे का ग्रहण नहीं करेगा:
- (a) जो प्रतिभूतियों के लेन-देन में एक अनुबंध से उत्पन्न होता है जिसमें अनुमति नहीं है या जो एक्सचेंज के उप-नियम, नियम और विनियमों के अधीन नहीं किए जाते हैं या जिसमें दावेदार ने या तो खुद को भुगतान नहीं किया है या किसी भी सुरक्षा में सस्ते दामों पर चुकता मार्जिन की चोरी में गिरफ्तार व्यक्ति;
- (बी) जो उस दावे के कारण बनने वाले दिन पर पूर्ण भरे पैसे के भुगतान के बदले दावों के निपटारे के लिए किसी भी व्यवस्था से उत्पन्न होता है;
- (सी) जो सुरक्षा के साथ या बिना ऋण के संबंध में है;
- (डी) जो कि डिफॉल्टर्स कमेटी के साथ डिफॉल्ट की घोषणा के ऐसे समय के भीतर दर्ज नहीं किया जाता है, जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- डिफॉल्ट प्रतिनिधि ट्रेडिंग सदस्य के खिलाफ दावें
- (22) डिफॉल्टर्स कमेटी ऐसे डिफॉल्टर द्वारा शुरू किए गए घटकों की असफलता के कारण लेनदेन से उत्पन्न होने वाले अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी व्यापारी के खिलाफ एक डिफॉल्टर के खिलाफ दावे का दावा करेगा। एक्सचेंज और एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अधीन बना दिया गया, बशर्ते डिफॉल्टर को ऐसे लेनदार सदस्य के साथ काम करने वाले एक प्रतिनिधि ट्रेडिंग सदस्य के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- डिफॉल्टर्स समिति के दावे
- (23) एक डिफॉल्टर का दावे जिसका संपत्ति डिफॉल्टर्स कमेटी द्वारा किसी अन्य डिफॉल्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसे अन्य लेनदार सदस्यों के दावों पर कोई प्राथमिकता नहीं होगी, लेकिन उपरोक्त 20 बाय (बी) 20 में दिए गए अन्य दावों के साथ रैंक करेगा।
- डिफॉल्टर की संपत्ति पर दावों का असाइनमेंट
- (24) कोई व्यापारी सदस्य, जो एक डिफॉल्टर का लेनदार है, संबंधित प्राधिकारी की सहमति के बिना ऐसे डिफॉल्टर की संपत्ति पर अपने दावे को बेच, निर्दिष्ट या प्रतिज्ञा नहीं करेगा।

डिफॉल्टर के नाम या उसके खिलाफ कार्यवाही

(25) डिफॉल्टर्स की समिति को अधिकार दिया जाएगा

- (ऐ) किसी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही को या तो एक्सचेंज के नाम पर या डिफॉल्टर के नाम पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ डिफॉल्टर के कारण किसी भी राशि की वसूली के प्रयोजन के लिए आरंभ करना है
- (बी) किसी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही को एक्सचेंज के नाम पर या लेनदारों के नाम पर (जो लेनदेन के लेन-देन के परिणामस्वरूप लेन-देन का लेन-देन बन गए हैं, जो कि एक्सचेंज के नियम, नियम और विनियम के अधीन हैं) के लिए डिफॉल्टर से किसी भी राशि की वसूली के उद्देश्य के लिए डिफॉल्टर से, डिफॉल्टर के साथ ही डिफॉल्टर के लेनदारों को इस तरह की कार्यवाही करने के उद्देश्य से एक्सचेंज को उनके गठित वकील नियुक्त करने के लिए समझा जाएगा।

डिफॉल्टर्स कमेटी का भुगतान

- (26) यदि कोई ट्रेडिंग सदस्य किसी अदालत में किसी डिफॉल्टर के खिलाफ किसी भी कार्यवाही को लेता है या नहीं तो उसके डिफॉल्ट अवधि के दौरान या उसके बाद किसी भी दावे के खिलाफ किसी भी दावे को लागू करने के लिए फिर से प्रवेश करने के लिए कोई लेनदेन या बाजार में निपटने इससे पहले कि एक डिफॉल्टर घोषित किया गया और एक डिफ्री प्राप्त किया गया और उस पर किसी भी राशि का धन जुटाने से पहले एक्सचेंज के उप-नियम, नियम और विनियमों के अधीन बने यह ऐसी रकम या किसी भी हिस्से का भुगतान करेगा जो संबंधित प्राधिकार्य द्वारा तयशुदा प्राधिकारी द्वारा लाभ के लिए समिति को तय किया जा सकता है और ऐसे डिफॉल्टर के खिलाफ दावों वाले लेनदार सदस्यों के कारण हो सकता है।
- (27) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए चूककर्ता समिति एक समिति होगी, जो समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा गठित की जा सकती है। डिफॉल्टर्स समिति की रचना ऐसी होगी, जिसे सेबी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- (28) इस अध्याय में उल्लिखित किसी भी चीज के बावजूद, जहां किसी प्रतिभूति को हस्ताक्षर अंतर से उत्पन्न कंपनी के आपत्ति या अन्यथा डिफॉल्टर के खिलाफ सुधार के लिए दर्ज किया गया है, एक्सचेंज या एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (क्लियरिंग कॉर्पोरेशन), प्राप्त करने वाले सदस्यों के ग्राहकों / ग्राहक के वास्तविकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, प्राप्तकर्ता के सदस्य / प्राप्तकर्ता के लिए लाभ या लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नाम पर प्रतिभूतियां प्राप्त करें। एक्सचेंज / क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऐसे प्रभारों के भुगतान पर हो सकता है, जैसा कि दावा कर सकते हैं कि दावा की पूर्ण और अंतिम संतुष्टि में, प्राप्तकर्ता के सदस्य / प्राप्तकर्ता को ग्राहक को प्राप्त करने वाली सिक्क्योरिटीज के अधिदेश, य बशर्ते एक्सचेंज / क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऐसे प्राप्तकर्ता सदस्य / क्लाइंट की आवश्यकता के मुताबिक ऐसे एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को ऐसे फॉर्म और तरीके से क्षतिपूर्ति करने के लिए मुफ्त होगा, जैसा कि यह एक शर्त पूर्ववर्ती बशर्ते कि प्राप्त करने वाले सदस्य / प्राप्तकर्ता को प्राप्त होने वाली प्रतिभूतियों के बिक्री के भुगतान या प्रतिभूति का भुगतान इस दावे को पूरी तरह से मुहैया कराएगा और कोई भी दावे किसी भी जमीन पर डिफॉल्टर के खिलाफ नहीं होगा।

अध्याय XII

निवेशक संरक्षण फंड

- (1) एक्सचेंज के संबंध में एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, एनएसई द्वारा ट्रस्ट में आयोजित एक निवेशक संरक्षण निधि (आईपीएफ) आईएफएससी लिमिटेड निवेशक संरक्षण फंड ट्रस्ट (ट्रस्ट) मुआवजे के अच्छे दावों को बनाए रखने के लिए रखी जाएगी एक ट्रेडिंग सदस्य के संविधान द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो अध्याय XI के तहत एक्सचेंज द्वारा एक डिफॉल्टर के रूप में घोषित किए गए उक्त ट्रेडिंग सदस्य से होने वाली हानि का सामना कर रहा है। किसी दावेदार का कोई दावा नहीं है, जो एक्सचेंज का एक ट्रेडिंग सदस्य या किसी ट्रेडिंग सदस्य के सहयोगी है, वह आईपीएफ से मुआवजे के लिए योग्य होगा, जब तक कि वह एक्सचेंज द्वारा अनुमत सीमा तक उक्त ट्रेडिंग सदस्य के एक संविधान के रूप में कार्य नहीं करता।
- (2) इस भाग के अधीन, किसी भी दावेदार को मुआवजे के रूप में दावा करने का हकदार होगा वह उस वास्तविक हानि की राशि होगी जिसे उसके द्वारा प्राप्त किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले सभी मनीजों या अन्य लाभों की राशि या मूल्य नुकसान में कमी होगी।
- (3) दावेदार को इस भाग के तहत भुगतान की जाने वाली राशि, उस समय से अधिक नहीं होगी जितनी ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर तय किया जा सकता है। ट्रस्ट दावों को मुआवजे का भुगतान करेगा और जब दावों को डिफॉल्टर के खिलाफ क्रिस्टल

- किया गया है और ट्रस्ट द्वारा भुगतान के लिए भर्ती की सिफारिशों के आधार पर, यदि कोई है, तो चूककर्ता समिति और इस तरह एक ही दावे के लिए तय मुआवजे की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी।
- (4) ट्रस्ट को आईपीएफ के कॉर्पस पर अर्जित करने के लिए और समय-समय पर सेबी या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट निवेशकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित दावों के लिए अर्जित धन और ब्याज का उपयोग करने की शक्ति होगी।
 - (5) किसी अन्य ब्याल में किसी बात के बावजूद, ट्रस्ट को निवेशक को शिक्षित करने के लिए आईपीएफ से किए गए निवेशों पर अर्जित ब्याज आय का उपयोग करने की शक्ति होगी, निवेशकों को बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करनी होगी और इसके साथ जुड़े किसी भी शोध के लिए या इसके लिए प्रासंगिक हैं।
 - (6) एक्सचेंज, व्यापक परिसंचरण के साथ कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक के सभी संस्करणों में प्रकाशित होगा और कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में व्यापक प्रसार के साथ रोजाना होगा, एक नोटिस जो उस प्रकाशन के बाद 3 महीने से कम नहीं है, इससे पहले कि नोटिस में विनिर्दिष्ट चूककर्ता के संबंध में मुआवजे के लिए दावा किया जाएगा। नोटिस में निर्दिष्ट अवधि होगी, दावेदार के एक दावे के लिए अधिकतम मुआवजा सीमा, आदि। एक्सिस के परिसर में तथा साथ ही पूरे विनिर्दिष्ट के लिए एक्सचेंज की वेब-साइट पर भी यह नोटिस प्रदर्शित किया जाएगा।
 - (7) डिफॉल्ट के संबंध में मुआवजे के लिए दावा का दावा एक्सचेंज को उस नोटिस में निर्दिष्ट तिथि से पहले या उससे पहले लिखित रूप में किया जाएगा, जो ऐसा नहीं किया गया है, जब तक ट्रस्ट अन्यथा निर्धारित नहीं करता है। एक्सचेंज प्रक्रियाओं के अनुसार दावों को संसाधित करेगा जैसा कि डिफॉल्टर्स कमेटी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और अगर डिफॉल्टर्स की संपत्ति स्वीकृत दावों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, यह ट्रस्ट को डिफॉल्टर्स कमेटी की सिफारिशों के साथ दावे को आगे बढ़ाएगा। हालांकि, ट्रस्ट को दावों की तरफ से भुगतान करने से पहले डिफॉल्टर्स की परिसंपत्तियों की प्राप्ति के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।
 - (8) इस अध्याय के तहत एक दावेदार को इस बात पर हस्ताक्षर करना होगा कि ट्रस्ट का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
 - (9) ट्रस्ट को अस्वीकार करने के लिए (चाहे पूरी तरह या आंशिक रूप से) अस्वीकार करने का दावा दावेदार पर ऐसी अस्वीकृति का नोटिस देगा।
 - (10) ट्रस्ट, यदि संतुष्ट है कि जिस पर दावे की स्थापना की गई है, वास्तव में प्रतिबद्ध है, तो दावे की अनुमति दे सकती है और उसके अनुसार कार्य कर सकता है।
 - (11) ट्रस्ट किसी भी समय और समय पर दावेदार को अपने दावों की स्थापना के उद्देश्य के लिए और किसी भी दावे की सहायता के लिए जरूरी साक्ष्य के किसी भी प्रतिभूति, दस्तावेज या बयान का उत्पादन और वितरित करने की आवश्यकता कर सकता है इस तरह के किसी भी प्रतिभूतियां, दस्तावेज या ऐसे दावेदार द्वारा प्रमाण के बयान, ट्रस्ट इस अध्याय के तहत उनके द्वारा किसी भी दावे को अस्वीकार कर सकता है।
 - (12) स्रोतों से आईपीएफ में योगदान समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
 - (13) उपर्युक्त ट्रस्ट में आईपीएफ को आयोजित किया जायेगा जो ट्रस्ट के साथ निहित होगा जो कि उसी का संचालन करेगा। आईपीएफ अच्छी तरह से अलग होगा और एक्सचेंज की किसी भी देनदारियों से प्रतिरक्षित होगा।
 - (14) एक्सचेंज, ट्रस्ट के परामर्श से, समीक्षा करेगी और हर तीन साल में एक निवेशक से एक ही दावे के मुकाबले उपलब्ध मुआवजे की राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। एक्सचेंज मुआवजे की सीमा निर्धारित और उसके किसी भी परिवर्तन, एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से और एक्सचेंज की वेब साइट के माध्यम से जनता को प्रसारित करेगा।
 - (15) ट्रस्ट, निवेशकों के व्यक्तिगत दावों की योग्यता या अन्यथा के रूप में चूककर्ता समिति की सलाह ले सकता है।
 - (16) एक्सचेंज निवेशक दावों के प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा के लिए ट्रस्ट को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने का प्रबंध करेगा।
 - (17) सट्टा लेनदेन से उत्पन्न दावेदारों के दावों या जो भद्दा या संगठित हैं आईएफएफ से मुआवजे के लिए योग्य नहीं होगा।
 - (18) ट्रस्ट के साथ अप्रयुक्त आईपीएफ के शेष का उपयोग केवल सेबी द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा। एक्सचेंज की समाप्ति की स्थिति में, ट्रस्ट के साथ अनुपयुक्त शेष राशि सेबी को हस्तांतरित किया जाएगा। निधि एक अलग खाते में रखी जाएगी और सेबी इन निधियों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगी जिसका उपयोग निवेशक शिक्षा, जागरूकता और अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

अध्याय XIII

विविध

- (1) संबंधित प्राधिकरण को एक या अधिक एक्सचेंज प्रतिभूतियों में लेन-देन पर ऐसी प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा, क्योंकि उसके फैसले में प्रासंगिक प्राधिकरण सिक्क्योरिटीज में निष्पक्ष और व्यवस्थित बाजार बनाए रखने के हित में समझा जाता है या यदि यह अन्यथा उचित माना जाता है सार्वजनिक हित या निवेशकों की सुरक्षा के लिए हैं। इस तरह के प्रतिबंधों की प्रभावकारीता के दौरान, कोई भी ट्रेडिंग सदस्य किसी ऐसे खाते के लिए, जिसमें उसकी रुचि नहीं है या किसी भी ग्राहक के खाते के लिए, ऐसे प्रतिबंधों के उल्लंघन में किसी भी सौदे में संलग्न है।
- (2) इस उप-विधि या किसी उप-नियम, नियम या विनियम, जहां लागू हो, की किसी भी आवश्यकता का पालन या पालन करने में कोई भी विफलता, संबंधित उपनिवेशों द्वारा इस तरह के उप-नियमों, नियमों या विनियमों के उल्लंघन के रूप में निपटा जा सकता है।
- (3) ट्रेडिंग सदस्यों के बारे में अंदरूनी व्यापार, टेकओवर पर जानकारी और ऐसी अन्य सूचना / प्रथाओं के संबंध में एक्सचेंज के संबंधित प्राधिकरण और भारत के प्रतिभूति विनियम बोर्ड को सूचित करने के लिए एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों के रूप में एक दायित्व है, जिसे हानिकारक माना जा सकता है एक्सचेंज के कुशल संचालन के लिए और जैसा कि सेबी अधिनियम और नियमों और विनियमों के तहत आवश्यक हो सकता है।
- (4) एक्सचेंज को बढ़ावा देने, सुविधा देने, सहायता करने, विनियमन, प्रबंधन और संचालन करने के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों में अन्यथा विशेष रूप से बचाएं, एक्सचेंज को कोई दायित्व नहीं माना जाना चाहिए और तदनुसार, के संबंध में, किसी भी प्रतिभूति या उसके साथ जुड़े किसी भी मामले एक्सचेंज या किसी अधिकृत व्यक्ति (एक्सचेंज) के लिए अभिनय के खिलाफ झूठ के संबंध में, के संबंध में कोई दावा या सहारा नहीं है।
- (5) कोई भी दावा, मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही, एक्सचेंज या किसी अधिकृत व्यक्ति (एक्स) के लिए कार्य करने वाले किसी भी चीज के संबंध में, जो किसी भी आदेश के अनुपालन में किया जाता है या किसी भी कानून के तहत जारी किए गए अन्य बाध्यकारी निर्देश या लागू होने वाले समय के लिए प्रतिनिधि कानून हैं।

एनएसई आईएफएससी लिमिटेड के लिये

संदीप मेहता

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पणी : हिन्दी पाठ में भिन्नता की स्थिति अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 46 व 47, जीआईएफटी एस्पाइर, एक बिजनेस सेंटर, 1 तल, ब्लॉक 12, रोड 1-डी, जोन -1, जीआईएफटी सेज, गांधीनगर
जिला, गुजरात - 382355

एन.एस.ई आई.एफ.एस.सी क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के नियमों में निहित प्रावधान यहां समायोजित हैं
नियम

अध्यायों की व्यवस्था

अध्याय 1	परिभाषाएं
अध्याय 2	बोर्ड
अध्याय 3	समितियां
अध्याय 4	समाशोधन सदस्यता
अध्याय 5	अनुशासनिक कार्यवाही, दंड, निलंबन और निष्कासन

अध्याय 1 परिभाषाएं

- 1 बोर्ड
"बोर्ड" का मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल है।
- 2 उपनियम
जब तक संदर्भ अन्यथा इंगित नहीं करता है, "उपनियम" का अर्थ है उतने समय के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के उप-कानून
- 3 समाशोधन बैंक / क्लियरिंग बैंक
"क्लियरिंग बैंक" ऐसे बैंक हैं जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन निधि निकासी एजेंसी के रूप में क्लियरिंग सदस्यों और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बीच और क्लियरिंग सदस्यों के बीच समय-समय पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्देशित सभी सौदों के लिए मार्जिन पैसे का संग्रह और किसी भी अन्य फंड के लिए कलेक्शन के लिए कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकती है।
- 4 क्लियरिंग कॉर्पोरेशन / समाशोधन कॉर्पोरेशन
"क्लियरिंग कॉर्पोरेशन" का मतलब एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है।
- 5 समाशोधन सदस्य / क्लियरिंग सदस्य
"क्लियरिंग सदस्य" का मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का सदस्य है और जिसमें क्लियरिंग सदस्यों की सभी श्रेणियां शामिल हैं जिन्हें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा भर्ती कराया जा सकता है लेकिन यह क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के शेयरधारक को नहीं दर्शाता है।
- 6 सौदे
"सौदों" का मतलब है, जब तक संदर्भ अन्यथा इंगित नहीं करता है, निर्दिष्ट एक्सचेंज पर निष्पादित ट्रेडों को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से निपटाया तथा सेटल किया जाता है।
- 7 आईएफएससी
भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर) दिशानिर्देश, 2015 के तहत सेबी(एफएससी) द्वारा परिभाषित आईएफएससी का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र।
- 8 विनियम
"विनियम" का मतलब है उतने समय के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के विनियम और व्यवसाय नियम, आचार संहिता और ऐसी अन्य प्रक्रियाएं और नियमों, परिपत्र, निर्देश और आदेश शामिल हैं, जो संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के कार्यों के लिए जारी किए गए हैं।
- 9 प्रासंगिक प्राधिकरण
"प्रासंगिक प्राधिकरण" का अर्थ है बोर्ड या ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं।

10. निपटान गारंटी निधि / सेटलमेंट गारंटी फंड
“सेटलमेंट गारंटी फंड” का मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बाय लॉ के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार स्थापित और रखी हुई एक निधि है।
 11. निर्दिष्ट एक्सचेंज
“निर्दिष्ट एक्सचेंज” या “विनिर्दिष्ट एक्सचेंज” का अर्थ है प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के तहत आईएफएससी में एकमान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ऐसे नियम और शर्तें जिनके अनुसार क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा समाशोधन और निपटारा करने के लिए भर्ती किया जा सकता है,
 12. कारोबारी सदस्य
“ट्रेडिंग सदस्य” का अर्थ है कोई व्यक्ति जो कि एक्सचेंज के नियम, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार किसी भी एक्सचेंज में उस सदस्य के रूप में भर्ती किया गया है।
- नोट — उपरोक्त परिभाषाओं का मतलब वही होगा जब नियम, उप-नियमों और विनियमों को छोटे अक्षर में प्रयोग किया जाता है, जब तक संदर्भ संदर्भ अन्यथा नहीं।

अध्याय 2 बोर्ड

1. बोर्ड को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के संचालन, क्लियरिंग सदस्यों की सभी गतिविधियों को व्यवस्थित करने, बनाए रखने, नियंत्रण, प्रबंधन, विनियमन और सुविधा देने का अधिकार है।
2. बोर्ड को समय-समय पर नियम, उप-नियमों और विनियमों को बनाने के लिए सशक्त किया जाता है, क्लियरिंग निगम के व्यापार सम्बन्धी किसी या सभी मामलों के लिए, क्लियरिंग सदस्यों के व्यापार और कारोबार के लेन-देन से संबंधित सभी मामलों के लिए, क्लियरिंग सदस्यों के बीच अंतर से क्लियरिंग सदस्यों और ऐसे व्यक्तियों के बीच व्यापार और लेनदेन के रूप में जो क्लियरिंग सदस्य नहीं हैं, और ऐसे सभी लेनदेन और व्यवहार को नियंत्रित करने, परिभाषित और विनियमित करने और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के ऐसे कृत्यों और कार्यों को करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।
3. पूर्वगामी की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बोर्ड को किसी या सभी मामलों के लिए निम्नलिखित विनियम बनाने का अधिकार है :
 - 1) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के कारोबार का संचालन
 - 2) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के किसी भी उद्देश्य के लिए समिति या समितियों की नियुक्ति और विघटन ;
 - 3) एक्सचेंजों, संरक्षक, डिपॉजिटरी और समाशोधन बैंकों के साथ संचालन और इंटरफेसिंग तरीके ;
 - 4) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की सदस्यता में प्रवेश के लिए नियम, प्रक्रियाएं, नियम और शर्तें ;
 - 5) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की क्लियरिंग सदस्यता के प्रवेश या जारी रखने के लिए सदस्यता के लिए इकट्ठा की गयी शर्तें ;
 - 6) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के व्यवसाय के संबंध में क्लियरिंग सदस्यों का संचालन ;
 - 7) समय-समय पर, पूंजी की पर्याप्तता और अन्य मानदंडों की प्रतिलिपि, जिन्हें क्लियरिंग सदस्यों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता होगी ;
 - 8) समाशोधन निगम के माध्यम से लेन-देन किए गए व्यापार के लिए क्लियरिंग सदस्यों द्वारा समय-समय पर निर्धारित देय शुल्क ;
 - 9) क्लियरिंग सदस्यों द्वारा रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों का रखरखाव, जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है ;
 - 10) वित्तीय स्थिति, व्यापार आचरण और क्लियरिंग सदस्यों के व्यवहार की जांच ;
 - 11) समय-समय पर पर्ची, और दंड, जुर्माना और अन्य परिणामों का प्रशासन, नियम, उप-नियमों और विनियमों और आचार संहिता की किसी भी आवश्यकताओं का उल्लंघन करने के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के क्लियरिंग सदस्यों के निलंबन / निष्कासन सहित ;
 - 12) किसी भी क्लियरिंग सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई / प्रक्रियाएं
 - 13) उप-नियमों, नियमों और विनियमों या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के सामान्य अनुशासन के अनुपालन या उल्लंघन के लिए, क्लियरिंग सदस्यों के निष्कासन या निलंबन सहित दंड,

- 14) किसी भी समाशोधन सदस्य को क्लियरिंग सदस्यता से निलंबित या निष्काषित या उसके आत्मसमर्पण घोषित करने और इसके परिणाम ;
- 15) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के संबंध में ऐसे अन्य मामले जिनके अनुसार एसोसिएशन, बाय लॉज या इन नियमों के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट किया जा सकता है या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के संचालन , संगठन, रखरखाव, नियंत्रण, प्रबंधन, विनियमन और सुविधा के लिए आवश्यक या समीचीन हो सकता है
4. बोर्ड को समय-समय पर किसी भी समिति या प्रबंध निदेशक को या किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधि करने का अधिकार है , क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के सभी या किसी भी मामले का समय-समय पर प्रबंधन करने के लिए, उसमें शक्तियों और ऐसे शब्दों के अनुसार जो फिट हो सकता है, को निरस्त करने के लिए, सभी या किसी भी ऐसी शक्तियों को निरस्त करने, वापस लेने, बदलना या अलग करने का अधिकार है ।
5. बोर्ड समय-समय पर, बोर्ड के सदस्यों या बोर्ड के ऐसे सदस्यों के एक या एक से अधिक समितियों का गठन कर सकता है, जैसा कि बोर्ड अपने विवेक के योग्य या आवश्यक समझ सकता है और ऐसी समितियों को ऐसी शक्तियों के रूप में सौंप सकता है जैसा बोर्ड उचित समझे और बोर्ड समय-समय पर ऐसे प्रतिनिधिमंडल को रद्द कर सकता है ।
6. बोर्ड को किसी भी समितियों या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को समय-समय पर निर्देश जारी करने का अधिकार होगा, जिनको बोर्ड द्वारा कोई अधिकार सौंपे गए हों। इस शक्ति का उपयोग करने वाले इस तरह के निर्देश, जो नीति प्रकृति का हो सकता है या इसमें किसी विशेष मामले या मुद्दे को सुलझाने के निर्देश शामिल हो सकते हैं, संबंधित समिति (या) के व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होंगे ।
7. बोर्ड द्वारा एसईबीआई के पूर्व अनुमोदन के जरिए तैयार किए गए, यदि कोई हो ,उप-नियमों और नियमों को अलग-अलग, संशोधित, निरसन या जोड़ने के लिए सशक्त किया जाता है,
8. बोर्ड के सदस्य और ऐसी समितियां जो बोर्ड द्वारा पहचाने जा सकती हैं, सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार नैतिकता संहिता का पालन करेगा।

अध्याय 3 समिति (यों)

1. संघटन
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के दैनंदिन मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य के लिए मंडल द्वारा एक या एक से अधिक समितियां नियुक्त की जा सकती हैं। मंडल समिति (समितियों) की रचना, अवधि तथा शक्तियों, समिति (समितियों) से नामांकित व्यक्तियों के नामांकन तथा रिक्ति और पदाधिकारियों की नियुक्ति और समिति (सी) के कार्य करने के नियमों तथा प्रक्रियाओं पर निर्णय ले सकती है।
2. समिति की (समितियों) शक्तियां
 - 1) मंडल समय-समय पर समिति (यों) को अपने निहित ऐसी शक्तियाँ तथा ऐसी शर्तों पर सौंप सकता है जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के सभी या किसी भी कार्य के संचालन के लिए उचित हो सकती हैं और समय-समय पर, सभी या किसी भी ऐसी शक्तियों को निरस्त, वापस या बदलना सकता है ।
 - 2) समिति (यों) समय-समय पर मंडल द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश जारी करने और लागू करने के लिए प्रतिबद्ध और बाध्य होगी और प्रतिनिधिमंडल की सभी शर्तों और समिति (यों) की शक्तियों पर सीमाओं का पालन करने के बाध्य होगी ।

अध्याय 4 समाशोधन सदस्यता

1. एकाधिक श्रेणी
समाशोधन सदस्य के अधिकार, विशेषाधिकार कर्तव्य और जिम्मेदारियां को नियम, उप-नियमों और विनियमों के विषय में और अनुसार होंगे। संबंधित प्राधिकरण समाशोधन सदस्यों की एक या एक से अधिक श्रेणी को परिभाषित और स्वीकार कर सकती है और सदस्यता के पात्रता, प्रवेश और समाप्ति सहित विभिन्न मानदंड निर्दिष्ट कर सकती है।
2. प्रवेश और शुल्क
 1. संबंधित प्राधिकारी समाशोधन सदस्यों की विभिन्न श्रेणियां और प्रत्येक श्रेणी के लिए योग्यता, कुल-पूंजी, बुनियादी ढांचे और अन्य संबंधित मानदंडों के बारे में आवश्यकताओं को निर्दिष्ट कर सकती है।
 2. संबंधित प्राधिकरण समाशोधन सदस्यों की प्रवेश, निष्कासन, पुनः प्रवेश आदि के आवेदन के लिए पूर्व-आवश्यकताएं, शर्तों, प्रारूप और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट कर सकती है। संबंधित प्राधिकारी, अपने संपूर्ण अधिकार से, किसी भी आवेदक को समाशोधन सदस्य के रूप में भर्ती करने की अनुमति अस्वीकृत कर सकती है। इस तरह की फीस, सुरक्षा जमा,

अंशदान और अन्य धन जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं, समाशोधन सदस्य के रूप में प्रवेश के दौरान या उससे पहले के लिए देय होगा और उनके निरंतर नियुक्ति के लिए।

3. योग्यता

(1) निम्नलिखित व्यक्ति क्लियरिंग निगम के क्लियरिंग सदस्य बनने के योग्य होंगे

- कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित कंपनियाँ ; तथा
- सेबी द्वारा अनुमितप्राप्त कोई भी अन्य संस्था

4. अतिरिक्त योग्यता मानदंड

क्लियरिंग सदस्यता में भर्ती होने के लिए कोई भी संस्था योग्य नहीं होगी जब तक संस्था ऐसी अतिरिक्त योग्यता मानदंडों को पूर्ण नहीं करती है क्योंकि संबंधित प्राधिकरण क्लियरिंग सदस्यों के विभिन्न वर्गों के लिए समय-समय पर निर्धारित कर सकती है ;

हालांकि प्रावधान किया गया है कि संबंधित प्राधिकरण किसी भी या सभी प्रवेश शर्तों के अनुपालन को छोड़ सकती है और अपने अधिकार से उपरोक्त निर्धारित आवश्यकताओं को छोड़ सकती है, यदि यह मत है कि प्रवेश इच्छुक व्यक्ति को संबंधित प्राधिकरण द्वारा अपने साधनों, स्थिति, अखंडता, ज्ञान और प्रतिभूतियों के व्यवसाय के अनुभव के कारण एक क्लियरिंग सदस्य के रूप में भर्ती किये जाने के लिए विचारित किया गया है।

5. प्रवेश

(1) क्लियरिंग सदस्य बनने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति क्लियरिंग सदस्यता की उचित श्रेणी में प्रवेश के लिए क्लियरिंग निगम को आवेदन करेगा। प्रत्येक आवेदन संबंधित प्राधिकारी द्वारा निपटा जाएगा, जो इस तरह के आवेदनों को अपने अधिकार से प्रवेश या अस्वीकार करने के हकदार होंगे।

(2) क्लियरिंग सदस्यों के प्रवेश के लिए आवेदन ऐसे प्रारूपों में किए जाएंगे जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए हो।

(3) आवेदन को संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गयी फीस, प्रतिभूति राशि और अन्य मुद्राओं के साथ और इस तरह के रूप तथा तरीके से प्रस्तुत करना होगा।

(4) आवेदक को ऐसे विनिर्देशों, उपक्रम, प्रमाण पत्र, पुष्टिकरण और ऐसे अन्य दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत करने होंगे जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किये गए हो।

(5) संबंधित प्राधिकरण को आवेदक को ऐसी फीस या नकदी, नकद में ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति, सेटलमेंट गारंटी फण्ड में जमा या अंशदान तथा क्लियरिंग निगम द्वारा समय-समय पर अनुरक्षित कोई अन्य फण्ड का भुगतान करने के लिए, अन्य अतिरिक्त गारंटी प्रदान करने या कम्प्यूटरीकरण फण्ड, प्रशिक्षण निधि या शुल्क में जरूरत अंशदान करने के लिए बुलाने का अधिकार होगा।

(6) संबंधित प्राधिकारी आवेदक को क्लियरिंग सदस्यता के लिए प्रावधिक मंजूरी दे सकता है, बशर्ते आवेदक योग्यता की शर्तों और आवेदन की अन्य प्रक्रियाओं तथा आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, ऐसे नियमों और शर्तों के अनुसार जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। संबंधित प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि क्लियरिंग सदस्यता के लिए अन्य सभी नियमों और शर्तों और अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, आवेदक को क्लियरिंग सदस्य के रूप में भर्ती किया जा सकता है। अनंतिम सदस्यता प्रदान करने से आवेदक क्लियरिंग सदस्यता के किसी भी विशेषाधिकार और अधिकार के लिए अधिकारी नहीं होगा।

(7) संबंधित प्राधिकार अपने संपूर्ण विवेकाधिकार से प्रवेश के लिए किसी भी आवेदन को कारण के बिना संचार किए अस्वीकार कर सकता है।

(8) अगर किसी भी कारण से आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, तो आवेदन शुल्क या प्रवेश शुल्क, यदि कोई है, संबंधित प्राधिकारी द्वारा निश्चित किए गए स्थिति अनुसार या उसका कुछ भाग आवेदक को किसी भी ब्याज के बिना वापस किया जा सकता है।

(9) संबंधित प्राधिकरण क्लियरिंग सदस्यता में दाखिले की तारीख से किसी भी समय दाखिले को अस्वीकार कर सकता है और एक क्लियरिंग सदस्य को निष्कासित कर सकता है यदि उसने सदस्यता में प्रवेश के लिए उसके आवेदन के समय या संबंधित प्राधिकरण द्वारा उसके दाखिले से पहले किए गए जांच के दौरान –

1. कोई जानबूझकर गलत ब्योरा दिया ;या
2. उसके चरित्र और पूर्वजों संबंधित भौतिक आवश्यक जानकारी को छुपाया हो ; या
3. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गलत विवरण या सूचना दी है या गलत घोषणा की है।

- (10) 1 सदस्यता प्रवेश क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन के सदस्य के रूप में किसी भी स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करता है और हस्तांतरण योग्य या ट्रांसमैटिबल नहीं होगा जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है।
- 2 संबंधित प्राधिकरण निम्नलिखित परिस्थितियों में क्लियरिंग सदस्यता के हस्तांतरण की अनुमति दे सकता है, ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, ऐसे हस्तांतरण शुल्क का भुगतान जो समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण की पूर्व लिखित मंजूरी के साथ निर्धारित किया जा सकता है –
- एक क्लीयरिंग सदस्य कंपनी के एक गैर-क्लीयरिंग सदस्य (यों) कंपनी के साथ एकीकरण या विलय, जिसके परिणामस्वरूप क्लीयरिंग सदस्य कंपनी के अधिकांश शेयरधारकों द्वारा बहुमत शेयरहोल्डिंग और / या प्रबंधन के नियंत्रण का नुकसान हो जाना ;
 - क्लियरिंग सदस्य कंपनी के गैर-क्लीयरिंग सदस्य (एस) द्वारा अधिग्रहण के परिणामस्वरूप बहुमत वाले शेयरहोल्डिंग और / या क्लीयरिंग सदस्य कंपनी के अधिकांश शेयरधारकों द्वारा प्रबंधन पर नियंत्रण का नुकसान हो जाना ;

विवरण 1

उपरोक्त उपखंड 1 और 2 के उद्देश्यों के लिए, “बहुमत शेयरहोल्डिंग का नुकसान ” का अर्थ है क्लियरिंग सदस्य कंपनी में 51: या अधिक शेयर / ब्याज वाले

शेयरधारक या शेयरधारकों के एक समूह का क्लीयरिंग सदस्य कंपनी या संयुक्त कंपनी, जो क्लीयरिंग सदस्य कंपनी के एक गैर क्लीयरिंग सदस्य कंपनी के साथ एकीकरण होने पर क्लियरिंग सदस्यता लेगी, में 51% शेयरों / ब्याज को अपने पास रखना।

विवरण 2

उपरोक्त उपखंड 1 और 2 के उद्देश्यों के लिए, “प्रबंधन में नियंत्रण के नुकसान” शब्द का अर्थ है कि ज्यादातर निदेशकों को नियुक्त करने या व्यक्ति अथवा अलग-अलग या साथ काम कर रहे व्यक्तियों द्वारा प्रबंधन के संचालन या नीति निर्णय के अधिकार को खोना, सीधे या परोक्ष रूप से, उनके शेयरधारिता या प्रबंधन के अधिकारों या शेयरधारक समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य तरीके से।

3 नियमों के किसी भी अन्य प्रावधान के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, निम्नलिखित परिस्थितियों में क्लियरिंग सदस्यता को संबंधित प्राधिकारी द्वारा ठीक समझी गयी अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है :

- क्लीयरिंग सदस्य कंपनी के प्रबंधन में किसी भी गतिरोध पर, जो संबंधित प्राधिकारी की राय में इस तरह की क्लीयरिंग सदस्य कंपनी की अपने व्यवसाय को जारी रखने की क्षमता को प्रभावित करेगा। क्लियरिंग सदस्य इस उपखंड के तहत निलंबित होने से पहले, संबंधित प्राधिकारी के सामने प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अवसर का हकदार होगा, लेकिन संबंधित प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

विवरण 1

इस उपखंड के उद्देश्य के लिए, “प्रबंधन में गतिरोध” शब्द का अर्थ एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक क्लीयरिंग सदस्य कंपनी के निदेशकों / शेयरधारकों के बीच विश्वास या असहमति का आभाव होता है, जो संबंधित प्राधिकारी की राय में, क्लीयरिंग सदस्य कंपनी द्वारा व्यवसाय के संचालन या एक क्लीयरिंग सदस्य कंपनी के निदेशक या शेयरधारकों की बैठक में वोट की समानता, कोई भी स्थिति में, को प्रभावित करेगा या कर सकता है।

- (11) एक क्लीयरिंग सदस्य अपनी सदस्यता या उसके साथ संलग्न कोई भी अधिकारों या विशेषाधिकारों को निर्दिष्ट, गिरवी, प्रतिज्ञा, रेहननामा या उनके लिए पैसे की मांग नहीं करेगा और ना ही उसके पास ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों के संबंध में लाइसेंस या मुख्तारनामा देने का अधिकार होगा तथा क्लीयरिंग निगम के किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसा कोई भी काम, रेहननामा, प्रतिज्ञा या शुल्क या लाइसेंस या मुख्तारनामा को बनाने की कोशिश प्रभावी होगी, और ना ही क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा मानित व्यक्तिगत अधिकार या क्लीयरिंग सदस्य के हित के अलावा किसी भी क्लियरिंग सदस्यता में कोई अधिकार या हित होगा। संबंधित प्राधिकारी क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन के किसी भी क्लीयरिंग सदस्य को निलंबित कर सकता है, जो इस नियम के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करता या करने का प्रयास करता है, या कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

- (1) क्लियरिंग सदस्यों को नियम, उप-नियमों और विनियमों का पालन करना होगा और संबंधित प्राधिकारियों के ऐसे परिचालन मान्यताओं, फ़ैसलों, नोटिस, दिशानिर्देशों और निर्देशों का अनुपालन करेगा जो लागू हो सकते हैं।
- (2) स्वीकृत सौदों के लिए जारी किए गए सभी अनुबंध नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार होंगे।

- (3) क्लियरिंग सदस्य समय-समय पर घोषणापत्र, उपक्रम, पुष्टीकरण तथा ऐसे मामलों संबंधित दस्तावेज और कागजात संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में प्रस्तुत करेंगे।
- (4) क्लियरिंग सदस्यों को निर्दिष्ट समय के अंदर क्लीयरिंग निगम को एक वार्षिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो प्रमाणित करता है कि उनके संचालन से संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।
- (5) क्लियरिंग सदस्यों को समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा उनके परिचालन से संबंधित माँगी जानकारी और आवधिक रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
- (6) क्लियरिंग सदस्यों को समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा माँगे अंकेक्षित और / या अलेखित वित्तीय या गुणात्मक जानकारी तथा अभिकथन माँगे गए तरीके से क्लियरिंग निगम को प्रस्तुत करना होगा।
- (7) क्लियरिंग सदस्यों को समय-समय पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा जो उनकी क्लियरिंग सदस्य के रूप में गतिविधियों संबंधित विज्ञापनों, पुस्तिकाओं और परिपत्रों के संबंध में हैं।
- (8) क्लियरिंग सदस्यों को निरीक्षण या लेखा परीक्षा या किसी भी सौदे, निपटान, लेखा और / या अन्य संबंधित मामलों के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करना होगा और संबंधित प्राधिकारी या क्लियरिंग निगम के अधिकृत व्यक्ति द्वारा माँगी जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान करना होगा।

7 सदस्यता की समाप्ति

- (1) कोई भी क्लियरिंग सदस्य सदस्य नहीं रह सकता है, यदि एक या अधिक लागू होता है :

- क्लियरिंग सदस्यता के त्याग द्वारा
- उप-नियमों, नियमों और विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार निष्कासन द्वारा ;
- उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार एक दोषी घोषित करने पर ;
- क्लीयरिंग सदस्य की समाप्ति के द्वारा ;

- 1 (क) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के उपनियमों और नियमों में से कुछ के बावजूद एक क्लीयरिंग सदस्य क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के क्लीयरिंग सदस्य के रूप में नहीं रहेगा, निर्दिष्ट एक्सचेंजों के उपनियमों, नियमों और विनियमों में शामिल प्रावधानों के अनुसार एक या अधिक निर्दिष्ट एक्सचेंजों पर अपनी सदस्यता / व्यापारिक सदस्यता के समाप्त होने पर, और ऐसे मामलों में, ऐसा क्लीयरिंग सदस्य ऐसी घटना में सुनवाई या स्पष्टीकरण के किसी भी अवसर के लिए हकदार नहीं होगा।

- (2) क्लीयरिंग सदस्यता का समापन किसी भी तरह से क्लीयरिंग सदस्य को ऐसे समाप्ति से पहले क्लीयरिंग सदस्य द्वारा किए गए किसी भी दायित्वों और देनदारियों से वंचित नहीं करेगा।

8 भुगतान करने में विफलता

अन्यथा उप-नियमों, नियमों और विनियमों में सुरक्षित यदि कोई सदस्य समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट अपनी वार्षिक सदस्यता, फीस, जमाराशि या सेटलमेंट गारंटी फंड (एस), जुर्माना, दंड, अन्य शुल्कों या अन्य धनों में अंशदान, जो उस समय के भीतर उसके द्वारा क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन को बकाया है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा लिखित रूप में उसे नोटिस के बाद भरने में विफल रहता है, तो उसे प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निलंबित किया जा सकता है जब तक वह भुगतान नहीं करता है और यदि समय-समय पर निर्दिष्ट अवधि में, वह ऐसे भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे दोषित घोषित किया जा सकता है या प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निष्कासित किया जा सकता है।

9 निरंतर सहयोग

संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर क्लियरिंग सदस्यता के लगातार प्रशासन के लिए शर्तों और आवश्यकताओं को निर्धारित करेगा, जो सबके साथ साथ, जमाराशि का संरक्षण, सेटलमेंट गारंटी फंड में योगदान, न्यूनतम कुल आय और पूंजी पर्याप्तता शामिल कर सकता है। किसी भी व्यक्ति जो इन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, की क्लीयरिंग सदस्यता को समाप्त करने योग्य होगा।

10 दोषियों का पुनः प्रवेश

- (1) एक क्लीयरिंग सदस्य के सदस्यता का अधिकार तुरंत समाप्त हो जाएगा और क्लीयरिंग निगम के साथ निहित होगा जब उसे दोषी घोषित किया जाता है। क्लीयरिंग सदस्य, जिसे दोषी घोषित किया गया है, क्लियरिंग सदस्य के रूप में अपने सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों को खोयेगा, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन के साथ क्लीयरिंग सदस्य के किसी भी संपत्ति अथवा निधि के उपयोग या उस पर दावे या उसमें रुचि का अधिकार सहित।

- (2) संबंधित प्राधिकरण एक दोषित सदस्य को पुनः प्रवेश करने का अधिकार रखता है और समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानों, नियमों और शर्तों के अधीन क्लियरिंग सदस्य के रूप में एक दोषित को फिर से स्वीकार कर सकता है ।
- (3) संबंधित प्राधिकारी ऐसे दोषी को पुनः प्रवेश दे सकता जो उसकी राय में :
- क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, अन्य क्लियरिंग सदस्यों और घटकों को सभी बकाए का भुगतान कर दिया है ;
 - किसी भी अदालत में उसके खिलाफ कोई दिवालिया कार्यवाही नहीं है या किसी भी अदालत द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ;
 - प्रिंसिपलों या जनसंघों, जिन्हें उसने उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए अच्छा अपेक्षित किया था, के चूकने की वजह से उससे चूक की हो ;
 - बदनीयत या उप-नियमों, नियमों और विनियमों की उल्लंघना का दोषी नहीं हो ;
 - अपने सार्वजनिक आचरण में निरुपयोगी रहे हैं

अध्याय 5 अनुशासनिक कार्यवाही, दंड, निलंबन और प्रत्याशा

1 अनुशासनिक न्यायक्षेत्र :

संबंधित प्राधिकरण कोई भी निष्कासित या निलंबित और / या दंड और / या दंडित कर सकता है और / या चेतावनी दे सकता है और / या क्लियरिंग सदस्य के सभी या किसी भी सदस्य के अधिकारों को वापस ले सकता है यदि वह क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या संबंधित प्राधिकरण या किसी अन्य समिति या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के उस मामले में अधिकृत अधिकारी के किसी भी उप-नियम, नियम और विनियम या किसी भी प्रस्ताव, आदेश, नोटिस, निर्देश या फैसले या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के फैसलों के उल्लंघन, अनुपालन, अवज्ञा,

उपेक्षा या चोरी का दोषी है, जिसकी कार्यवाही या व्यवसाय विधि को संबंधित प्राधिकारी ने अपने संपूर्ण विवेकाधिकार में बेईमानी, शर्मनाक या क्लियरिंग सदस्य न रहने या न्यायोचित और न्यायसंगत सिद्धांतों के लिए अनुचित या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के हित, अच्छे नाम या कल्याण के लिए हानिकारक या उसके विषयों और उद्देश्यों के लिए पूर्वाग्रहकारी या विध्वंसक माना है ।

2. नियमों, उपनियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए दंड

हर क्लियरिंग सदस्य निलंबित करने, निष्कासन या उसके सभी या किसी क्लियरिंग सदस्यता अधिकारों की वापसी और / या दंड का भुगतान करने और / या निंदा, डाँट या चेतावनी के लिए उत्तरदायी है जिसने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अंतर्गत फैसले या निर्णयों, सिक्वोरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नियमों तथा विनियमों और / या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत नियमों, विनियमों या निर्देशों या प्रस्तावों के अंतर्गत, निदेशकों के मंडल, समिति, प्रबंध निदेशक या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के किसी भी अधिकारी के निर्देशों और नियमों का उल्लंघन, अवमानना, या जानबूझकर टाला हो या ऐसे कोई अनिर्दिष्ट या धोकेबाज लेनदेन या व्यवसाय की विधि जिसे निदेशकों के मंडल ने अपने संपूर्ण विवेक में क्लियरिंग निगम के क्लियरिंग सदस्य के न होने या न्यायोचित और न्यायसंगत सिद्धांतों के लिए अनुचित समझा जाता है ।

3 अपमान के लिए ,लापरवाह और अनौपचारिक आचरण के लिए दंड

एक समाशोधन सदस्य निष्कासन या निलंबन या उसके सभी सदस्यता अधिकारों और / या ठीक और / या दंड का भुगतान करने के लिए निलंबित या निकासी के लिए, या किसी भी गैरकानूनी व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा और उसकी निंदा की जाएगी, फंसाने की चेतावनी दी जाएगी, अनौपचारिक आचरण के रूप में ,जैसा कि यहां उपलब्ध है, उस तरफ के प्रावधानों में उपलब्ध कराया गया है ।

1. दुर्व्यवहार

- धोखा : यदि वह एक दंड सम्बन्धी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है या धोखाधड़ी या धोखाधड़ी का कार्य करता है, जो प्रासंगिक प्राधिकारी की राय में उन्हें एक क्लियरिंग सदस्य होने के लिए अयोग्य बनाता है ;
- उल्लंघन : अगर उन्होंने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग सदस्यों और सिक्वोरिटीज बिजनेस की गतिविधियों, व्यापार को संचालित करने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है ;
- अनुचित व्यवहार : यदि संबंधित प्राधिकरण की राय में वह क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ बेईमानी या शर्मनाक या अनुचित वर्तनी या अनुचित आचरण का दोषी है या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के व्यापार में बाधा डालने के लिए दोषी है ;

- नियमों, उप-नियमों और विनियमों का उल्लंघन : यदि वह किसी भी क्लियरिंग सदस्य को रिपोर्ट करने के लिए बचाता है या सहायता करता है या उसे छोड़ देता है जिसे वह किसी उप-कानून, नियम और विनियमन या किसी भी प्रस्ताव, आदेश, नोटिस या संबंधित प्राधिकरण या किसी भी समिति या उसमें अधिकृत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी को जानता है ; प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 और / या इसके तहत नियम और विनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और / या नियम विनियम या दिशा-निर्देश या इसके अंतर्गत दिशानिर्देश।
- प्रस्तावों का अनुपालन करने में विफलता : यदि वह किसी भी संकल्प, आदेश, सूचना, दिशा, निर्णय या संबंधित प्राधिकरण या किसी भी समिति या किसी भी समिति या क्लियरिंग निगम के अधिकारी या उप-नियम, नियम और विनियम के तहत के तहत उस तरफ अधिकृत व्यक्ति के अनुपालन या पालन करने या पालन करने में विफल रहता है ;
- पंचनिर्णय द्वारा प्रस्तुत करने या पालन करने में विफलता : यदि यह पंचनिर्णय को प्रस्तुत करने या निषेध करने या या किसी एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और नियमों के तहत किसी संदर्भ के संबंध में किए गए मध्यस्थों के निर्णय या आदेश का पालन न करने में विफल करता है ;
- गवाही देने या जानकारी देने में विफलता : अगर वह उस प्राधिकृत प्राधिकारी या एक समिति या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए उपेक्षित या असफल होता है उस तरह से प्राधिकृत, ऐसी पुस्तकों, पत्राचार, दस्तावेजों और कागजात या उसके किसी भी भाग के रूप में उत्पादित या प्रकट होने और उसके किसी भी सहयोगी, एटर्नी, एजेंट, प्राधिकृत प्रतिनिधियों या कर्मचारी उपस्थित प्राधिकारी या ऐसी समिति या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी या उसमें अधिकृत अन्य व्यक्ति से पहले प्रकट होते हैं और गवाही देते हैं ;
- विशेष विवरणियां जमा करने में विफलता : अगर वह उस प्राधिकरण में उस समय विशेष रूप से अधिसूचित समय के भीतर संबंधित प्राधिकरण को उपेक्षित या विफल कर देता है या नकार देता है तो प्रासंगिक प्राधिकरण समय-समय पर ऐसी अन्य सूचनाओं के साथ लिख सकता है जैसा संबंधित प्राधिकारियों की आवश्यकता हो सकती है जब भी परिस्थिति उत्पन्न होती है, जो प्रासंगिक प्राधिकारी की राय में यह वांछनीय है कि ऐसे विशेष रिटर्न या सूचना किसी भी या सभी क्लियरिंग सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए ;
- लेखा परीक्षित खातों को जमा करने में विफलता : यदि वह समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर क्लियरिंग निगम को अपने लेखा-परीक्षण खातों को उपेक्षित या विफल कर देता है या नकार देता है ;
- डिफॉल्टर के साथ खातों की तुलना या जमा करने में विफलता : यदि वह अपने प्राधिकरण से संबंधित अधिकारियों की तुलना करने या उनके खातों की तुलना करने में विफल रहता है या किसी डिफॉल्टर या प्रमाण पत्र के साथ अपने खातों का बयान प्रस्तुत करता है तो उनके पास ऐसा कोई खाता नहीं है या यदि वह उसमें गलत या भ्रामक वक्तव्य देता है ;
- झूठी या भ्रामक विवरणियां : यदि वह उप-नियम, नियम और विनियम के तहत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है, तो उनके समाशोधन रूपों या रिटर्न के किसी भी गलत या भ्रामक बयान को प्रस्तुत करने या अस्वीकार करता है ;
- अत्याधिक शिकायतें : अगर वह या उसके एजेंट प्रासंगिक प्राधिकारी या एक समिति या क्लियरिंग निगम या उस व्यक्ति में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित एक आरोप या शिकायत से पहले लाता है जो संबंधित प्राधिकारी की राय में तुच्छ, निंदक या दुर्भावनापूर्ण है
- देय राशि और फीस का भुगतान करने में विफलता : अगर वह अपनी सदस्यता, फीस, मध्यस्थता शुल्क या अन्य किसी भी पैसे का भुगतान करने में विफल रहता है जो उसके द्वारा या उसके पर लगाए गए कोई भी जुर्माना या जुर्माना दे सकता है

2 अनौपचारिक आचरण

एक क्लियरिंग सदस्य को निम्नलिखित या इसी तरह के किसी भी कार्य या चूक के किसी भी तरह के व्यवहार के रूप में गैर-व्यापार के दोषी माना जाएगा

- 1 काल्पनिक नाम : यदि वह अपने व्यवसाय या फर्जी नामों में अपने घटक के व्यवसाय का कारोबार करता है
- 2 अफवाहों का संचलन : यदि वह, किसी भी तरीके से, परिचालित या प्रसारित होने का कारण बनता है, कोई अफवाहें

- 3 अविश्वनीय व्यवसाय : यदि वह बाजार में असावधान या बेहिसाब या अव्यवसायिक जैसे सौदों में शामिल है या अपने घटकों के लिए या कोई ऐसा, जिसके लिए वह सीधे या परोक्ष रूप से रुचि रखता है, के लिए खरीद फरोख्त या बिक्री करता है जो खरीद फरोख्त या बिक्री उसके घटकों अथवा उसके साधनों या बाजार में उस प्रतिभूति को देखते हुए बेहिसाब हैं
- 4 समझौता : यदि वह एक क्लीयरिंग सदस्य की निजी विफलता पर संलिप्तता या सिक्क्योरिटीज में किसी सौदे से उत्पन्न होने वाले क्लीयरिंग सदस्य के कारण डेबिट के निपटारे में पूर्ण और सशक्त धन भुगतान से कम स्वीकार करता है ;
- 5 अवरोधित चेक : यदि वह किसी अन्य क्लीयरिंग सदस्य या उसके घटकों या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को एक जांच देता है जो किसी भी कारण के लिए प्रस्तुति पर अपमानित होता है ;
- 6 संघटक के साथ लेनदेन करने में असफलता : यदि वह संबंधित प्राधिकरण की राय में अपने घटकों के साथ अपने प्रतिबद्ध लेनदेन करने के लिए विफल रहता है ;
- 3 अव्यावहारिक आचरण : एक क्लीयरिंग सदस्य को निम्न किसी या इसी तरह के कार्य या चूक के कारण अनौपचारिक आचरण का दोषी माना जाएगा :
 1. प्रतिभूतियों जिसमें लेनदेन की अनुमति नहीं है में व्यापार : यदि वह प्रतिभूतियों, जिसमें लेनदेन की अनुमति नहीं है, के लेनदेन में प्रवेश करता है ;
 2. डिफॉल्टिंग संघटक के लिए व्यापार : यदि वह सीधे या परोक्ष रूप से व्यापार को लेनदेन या चलाता है या किसी ऐसे घटक के आदेश को निष्पादित करता है जो उसकी जानकारी में प्रतिभूतियों संबंधित कार्यों को पूरा करने में असफल रहा है और अन्य क्लियरिंग सदस्य के लिए दोषी है यदि ऐसा घटक क्लियरिंग सदस्य जो उसका लेनदार है, के साथ संतोषजनक व्यवस्था नहीं कर लेता ;
 3. दिवालिया के लिए व्यवसाय : यदि पहले प्रासंगिक प्राधिकारी की सहमति प्राप्त किए बिना वह सीधे या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति, जो दिवालिया हो चुका हो, के साथ व्यापार में रुचि रखता है या लेनदेन रखता है भले ही ऐसे व्यक्ति को दिवालिया न्यायालय से अंतिम रिहाई भी मिल जाए ;
 4. निलंबन के तहत अनुमति के बिना व्यापार : यदि संबंधित प्राधिकरण की अनुमति के बिना वह अपने लिए या अध्यक्ष के लिए या एक क्लियरिंग सदस्य के माध्यम से उस अवधि में व्यापार करता है जिसमें प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा उसे क्लीयरिंग निगम के लिए व्यापार निलंबन करना आवश्यक है।
 5. निलंबित, निष्कासित और दोषी क्लीयरिंग सदस्यों के लिए या के साथ व्यापार : यदि संबंधित प्राधिकारी की विशेष अनुमति के बिना वह किसी भी क्लीयरिंग सदस्य जो निलंबित, निष्कासित या दिवालिया घोषित किया गया है, के साथ दलाली या व्यापार या सौदा करता है ;
 6. अन्य क्लियरिंग सदस्यों के कर्मचारियों के लिए व्यवसाय : यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य क्लीयरिंग सदस्य के एक अधिकृत प्रतिनिधि या कर्मचारी के साथ उस क्लीयरिंग सदस्य की लिखित सहमति के बिना व्यवसाय करता है ;
 7. लाभदार आवश्यकताओं का परिहार : यदि वह उप-नियमों तथा विनियमों में निर्दिष्ट लाभदार आवश्यकताओं का जानबूझकर परिहार या परिहार करने की कोशिश या परिहार करने के लिए सहायता करता है ;
 8. क्लीयरिंग फीस : यदि वह उप-नियमों तथा विनियमों संबंधित क्लीयरिंग फीस का जानबूझकर परिहार या परिहार करने की कोशिश या परिहार करने के लिए सहायता करता है ;
 - विज्ञापन : अगर वह अपने घटकों, एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों, बैंकों और संयुक्त स्टॉक कंपनियों के अलावा अन्य व्यक्ति को व्यापार उद्देश्यों का विज्ञापन या मुद्रों के लिए नियमित रूप से परिपत्र या अन्य व्यवसायिक संचालन करता है या शेयर बाजार संबंधित पर्चे, परिपत्र या कोई अन्य साहित्य या रिपोर्ट या जानकारी प्रकाशित करता है, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्धारित विज्ञापन कोड के उल्लंघन में।
4. कार्य तथा गलतियों उत्तरदायी क्लीयरिंग सदस्य
 एक क्लीयरिंग सदस्य अपने अधिकृत अधिकारियों, वकीलों, एजेंटों, अधिकृत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के कृत्यों और चूक के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और अगर किसी भी ऐसे कार्य जिसे यदि क्लीयरिंग सदस्य ने किया होता, को संबंधित प्राधिकरण द्वारा माना जाता है तो वह उप-नियम, नियम और विनियमों में दिए गए किसी भी दंड के अधीन होगा, और वह क्लीयरिंग सदस्य दंड के उसी हद तक के लायक होगा जिस हद तक यदि ऐसा कार्य या अपराध उसने खुद किया होता।

5. लाभदार जमाराशि, डिपाजिट या डिफॉल्ट फण्ड में अंशदान प्रदान में असफल या वित्तीय पर्याप्तता मानदंडों को संतुष्ट करने में विफलता पर निलंबन
 संबंधित प्राधिकरण एक क्लीयरिंग सदस्य को निलंबित कर सकता है और / या क्लीयरिंग सदस्य को अपने व्यवसाय को निलंबित करने की आवश्यकता है यदि वह लाभदार जमाराशि, डिपाजिट या डिफॉल्ट फण्ड में अंशदान प्रदान करने में असफल या उप-नियम, नियम और विनियमों में दिए वित्तीय पर्याप्तता मानदंडों को संतुष्ट करने में विफल रहता है और निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक क्लीयरिंग सदस्य आवश्यक लाभदार जमाराशि या सेटलमेंट गारंटी फण्ड में जमाराशि / अंशदान या वित्तीय पर्याप्तता मानदंडों को संतुष्ट नहीं करता है। संबंधित प्राधिकार इस प्रावधान के उल्लंघन में कार्यरत क्लीयरिंग सदस्य को निष्कासित कर सकता है।
6. व्यापार का निलंबन
 संबंधित प्राधिकरण किसी क्लियरिंग सदस्य को निलंबित कर सकता है और / या एक क्लियरिंग सदस्य को उसके व्यवसाय को पूरे या संपूर्ण में निलंबित करने की आवश्यकता है :
 1. अनवरणीय व्यवसाय : जब प्रासंगिक प्राधिकारी की राय में क्लीयरिंग सदस्य अनवरणीय व्यवसाय में संलग्न होता है या अपने घटकों या किसी के लिए सौदा करता है जिस में उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दिलचस्पी है, जो सौदे उसके घटकों या उसके स्वयं के साधनों और वित्तीय संसाधनों को देखते हुए या बाजार को देखते हुए ऐसी प्रतिभूति के बेहिसाब हैं
 2. असंतोषजनक वित्तीय स्थिति : जब संबंधित प्राधिकारी की राय में क्लीयरिंग सदस्य ऐसी वित्तीय स्थिति में है कि उन्हें अपने लेनदारों या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से सुरक्षा के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
7. निलंबन का हटाया जाना
 ऊपर बताए गए कारोबार का निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसी जमाराशि का भुगतान या ऐसे कार्य करने या ऐसी वस्तुएँ जिनकी संबंधित प्राधिकरण को आवश्यकता हो सकती है प्रदान करने पर क्लीयरिंग सदस्य को संबंधित प्राधिकरण द्वारा अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने की इजाजत नहीं दी जाती है।
8. उल्लंघन के लिए दंड
 निलंबित होने वाले या उसके व्यवसाय को निलंबित करने की आवश्यकता वाले एक क्लीयरिंग सदस्य को प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निष्कासित किया जा सकता है, अगर वह ऐसे निलंबन या आवश्यकता के उल्लंघन में काम करता है।
9. क्लीयरिंग सदस्यों और अन्य लोगों को गवाही और जानकारी देने के लिए
 एक क्लीयरिंग सदस्य को और उसके वकील, एजेंट, प्राधिकृत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को प्रासंगिक प्राधिकारी के समक्ष या अन्य समिति (यों) समक्ष या क्लीयरिंग निगम प्राधिकृत एक अधिकारी समक्ष प्रकट होना और गवाही देनी होगी और संबंधित प्राधिकरण समक्ष या अन्य समिति (या) समक्ष या उसके लिए प्राधिकृत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी समक्ष, ऐसी पुस्तकें, स्तावेज, कागजात और अभिलेख या उनका कोई भी भाग जो उसके कब्जे में हो और जो उचित समझे जाए या उस जांच अथवा पूछताछ के अंतर्गत मामले के लिए सामग्री हो, प्रस्तुत करेगा।
10. कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक अनुमति
 किसी भी व्यक्ति को प्रासंगिक प्राधिकरण या अन्य समिति के समक्ष जांच अथवा सुनवाई में पेशेवर आधिवक्ता, अटॉर्नी, वकील या अन्य प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक प्रासंगिक प्राधिकरण या अन्य समिति इतने इजाजत न दें।
11. निष्कासन से पहले स्पष्टीकरण
 एक क्लीयरिंग सदस्य प्रासंगिक प्राधिकरण के समक्ष बुलाए जाने का हकदार होगा और उसे निष्कासित होने से पहले स्पष्टीकरण के लिए एक अवसर दे सकते हैं, लेकिन सभी मामलों में संबंधित प्राधिकरण के निष्कर्ष अंतिम और निर्णायक होंगे।
12. दंडों का आकलन
 निलंबन का जुर्माना, सभी या किसी भी सदस्य अधिकार का वापिस लिया जाना, जुर्माना, निंदा या चेतावनी को अकेले या एक साथ प्रासंगिक प्राधिकार द्वारा दंडित किया जा सकता है।
13. जुर्माने का पूर्व-निर्धारण
 प्रासंगिक प्राधिकारी को दंड, किसी भी निलंबन की अवधि, विशेष सदस्यता अधिकारों की वापसी और किसी भी जुर्माना की राशि को पूर्व निर्धारण करने की शक्ति होगी, जिसे क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, संबंधित प्राधिकरण या किसी अन्य समिति

या उसमें अधिकृत क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी के अधीन किसी भी उप-नियम, नियम या विनियम या किसी भी संकल्प, आदेश, नोटिस, दिशा, निर्णय या निर्णयों के उल्लंघन, गैर-अनुपालन, अवज्ञा, उपेक्षा या परिहार पर अधिरोपित किया जा सकता है।

14. विनिमय

संबंधित प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार में किसी भी मामले में निष्कासन की सजा के बदले किसी क्लियरिंग सदस्य को निलंबित कर सकता है या निलंबन अथवा निष्कासन के दंड के बदले सभी या किसी भी सदस्यता अधिकार को वापस ले सकता है या यह निर्देश दे सकता है कि दोषी क्लियरिंग सदस्य को चेतावनी दी गई है या जो उसे ठीक और उपयुक्त लगती है उन शर्तों पर ऐसी सजा कम या माफ कर सकता है।

15. पुनर्विचार / समीक्षा

प्रासंगिक प्राधिकारी अपनी मर्जी से या संबंधित क्लियरिंग सदस्य की अपील पर, सदस्य को संबंधित प्राधिकरण के फैसले के संचार की तारीख से 90 दिनों के भीतर, उसके दंड, निंदा, चेतावनी या क्लियरिंग सदस्य के सभी अथवा किसी भी सदस्यता अधिकार के वापस लेने के आदेश को पुनर्विचार और रद्द, खंडित या संशोधित कर सकता है। इसी तरह प्रासंगिक प्राधिकारी किसी भी क्लियरिंग सदस्य को निष्कासित करने या निलंबित करने के अपने प्रस्ताव को रद्द, खंडित या संशोधित कर सकता है।

16. जुर्माने और दंड का भुगतान करने में विफलता

यदि कोई क्लियरिंग सदस्य समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर किसी भी तरह के जुर्माने या दंड का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे संबंधित प्राधिकरण द्वारा निलंबित किया जा सकता है जब तक कि वह भुगतान न करे और यदि समय-समय पर निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निष्कासित किया जा सकता है।

17. निलंबन का परिणाम

एक क्लियरिंग सदस्य के निलंबन के निम्नलिखित परिणाम होंगे :

- (1) सदस्यता अधिकारों का निलंबन : निलंबित क्लियरिंग सदस्य को अपने निलंबन अवधि के दौरान, सदस्यता के सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित और वर्जित रखा जायेगा, लेकिन उस पर निलंबन से पहले या बाद उस द्वारा किये अपराध के लिए प्रासंगिक प्राधिकार द्वारा कार्यवाही की जा सकती है और संबंधित प्राधिकार को अन्य क्लियरिंग सदस्यों द्वारा उसके खिलाफ किए गए दावों पर निर्णय लेने और निपटने से रोका नहीं जायेगा।
- (2) लेनदारों के अधिकारों का अछूता रहना : निलंबन क्लियरिंग सदस्यों, जो निलंबित क्लियरिंग सदस्यों के लेनदार हैं, के अधिकारों और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।
- (3) सौदे और दायित्वों की पूर्ति : निलंबित क्लियरिंग सदस्य अपने निलंबन के समय बकाया दायित्वों और सौदों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा।
- (4) आगे का व्यापार निषिद्ध है : निलंबित क्लियरिंग सदस्य अपने निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी व्यवसाय को संचालित नहीं करेगा, बशर्ते कि वह प्रासंगिक प्राधिकारी की अनुमति के साथ अपने निलंबन के समय बकाया सौदों को सम्पूर्ण कर सकता है।

18. निष्कासन के परिणाम

क्लियरिंग सदस्य के निष्कासन को निम्नलिखित परिणाम होंगे :

- (1) क्लियरिंग सदस्यता अधिकारों का वापस लेना : निष्कासित क्लियरिंग सदस्य क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को अपने क्लियरिंग सदस्यता का अधिकार और क्लियरिंग सदस्य के रूप में सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पर किसी भी मुआवजे को उपयोग करने का या किसी संपत्ति अथवा निधि में रुचि रखने के अधिकार सहित वापस करेगा लेकिन ऐसे क्लियरिंग सदस्य का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या किसी क्लियरिंग सदस्य प्रति दायित्व बना रहेगा और उसके निष्कासन के दौरान अप्रभावित रहेगा।
- (2) कार्यालय में रक्ति : निष्कासन निष्कासित क्लियरिंग सदस्य द्वारा संभाले किसी भी कार्यालय या पद में रक्ति बनाएगा।
- (3) लेनदारों के अधिकारों का अछूता रहना : निष्कासन क्लियरिंग सदस्यों, जो निलंबित क्लियरिंग सदस्यों के लेनदार हैं के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।
- (4) सौदे और दायित्वों की पूर्ति : निष्कासित क्लियरिंग सदस्य अपने निष्कासन के समय बकाया सौदों और दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा और वह संबंधित प्राधिकरण की अनुमति से इस तरह के उत्कृष्ट लेनदेन को बंद कर सकता है।

- (5) समाशोधन सदस्यों को सौदा नहीं करना : कोई भी समाशोधन सदस्य संबंधित प्राधिकरण की पिछली अनुमति को छोड़कर निष्कासित क्लियरिंग सदस्य के लिए या उसके साथ व्यापार का संचालन नहीं करेगा।
- (6) का पालन करने के लिए डिफॉल्ट की घोषणा के परिणामों के संबंध में उपन्यास के प्रावधान : क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के उप-नियमों के अध्याय 9 में दिये जाने वाले डिफॉल्टर के घोषणापत्र के परिणामों को निष्कासित क्लियरिंग सदस्य पर लागू किया जा सकता है जैसे कि ऐसे क्लियरिंग सदस्य को डिफॉल्टर घोषित किया गया हो।
- (7) लागू करने के लिए निष्कासन नियम : जब एक क्लियरिंग सदस्य डिफॉल्ट रूप से या सदस्यता के आत्मसमर्पण के अलावा इन उप-नियमों और नियमों के प्रावधानों के तहत एक समाशोधन सदस्य नहीं रहता है, ऐसा होगा कि इस तरह के क्लियरिंग सदस्य को संबंधित प्राधिकरण द्वारा निष्कासित कर दिया गया है और उस घटना में इन नियमों में निहित निष्कासन से संबंधित सभी प्रावधान सभी मामलों में ऐसे क्लियरिंग सदस्य पर लागू होंगे।

19. दंड का नोटिस और व्यापार का निलंबन

- 1) संबंधित क्लियरिंग सदस्य को और ऐसे क्लस्ट्रिंग सदस्यों को सामान्य तरीके से सूचना दी जायेगी जो प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निष्कासन या निलंबन या डिफॉल्ट या व्यापार के निलंबन के द्वारा क्लियरिंग सदस्य या किसी अन्य दंड पर या इसके कर्मचारियों पर लगाए गए दंड के लिए निर्धारित किया जा सकता है। संबंधित प्राधिकरण अपने संपूर्ण विवेकाधिकार में और ऐसे तरीके से जिए वो ठीक समझते हैं क्लियरिंग सदस्य को सूचित करने हेतु या जनता को सूचित करने के लिए फिट या कारण बताए कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम ऐसे अधिसूचना में है जिसे निष्कासित, निलंबित, दंडित किया गया है या डिफॉल्टर घोषित किया गया है या अपने व्यवसाय को निलंबित कर दिया है या एक समाशोधन सदस्य होने कलिए स्थगित कर दिया गया है किसी भी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या संबंधित प्राधिकरण या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन या संचालन नहीं होगा। क्लियरिंग सदस्यता के लिए आवेदन या पंजीकरण के लिए आवेदन गठित वकील या अधिकृत प्रतिनिधि या संबंधित व्यक्ति द्वारा लाइसेंस के रूप में कार्य करेगा और इन उप-नियमों और नियमों को इस तरह के विज्ञापन या अधिसूचना को छापने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए कार्य करेंगे और उसके अनुसार अनुपालन करेगा।
- 2) इन प्रावधानों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, यदि संबंधित प्राधिकारियों की राय में ऐसा करने के लिए आवश्यक है, तो वे लिखित में दर्ज होने के कारण, अस्थायी रूप से क्लियरिंग सदस्य को निलंबित कर सकते हैं, इस अध्याय के अंतर्गत संबंधित अध्यादेश द्वारा निलंबन के लिए उपयुक्त कार्यवाही समाप्त की जायेगी और इस अस्थायी निलंबन के लिए सुनवाई की कोई सूचना नहीं होगी और इस अस्थायी निलंबन के इस अध्याय के तहत निलंबन का एक ही परिणाम होगा, बशर्ते इस अध्याय में प्रदान की जाने वाली उपयुक्त कार्यवाही के लिए क्लियरिंग सदस्य को ऐसे अस्थायी निलंबन के 10 दिनों के भीतर एक नोटिस जारी किया जाएगा। संबंधित प्राधिकरण के विवेकानुसार लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारण अगर प्रासंगिक प्राधिकरण संतुष्ट है कि परिस्थितियों को निलंबित करने के लिए संबंधित प्राधिकरण की राय के गठन की ओर अग्रसर होने के कारण प्रासंगिक प्राधिकार के विवेक पर कोई भी अस्थायी निलंबन रद्द कर दिया जा सकता है या संतोषजनक रूप से हल किया जाता है।

एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नीलेश तीनाइकर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एन.एस.ई आई.एफ.एस.सी क्लीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में निहित प्रावधान यहां समायोजित हैं

कम्पनी अधिनियम, 2013

शेयरों द्वारा लिमिटेड कम्पनी

एनएसई आईएफएससी क्लीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

के

संस्था के बर्हिनियम

- 1 कम्पनी का नाम एनएससी आईएफएससी क्लीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड है ।
- 2 कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय गुजरात राज्य में स्थापित होगा ।
- 3 जिन लक्ष्यों के लिए कम्पनी की स्थापना की गई है वे निम्नानुसार हैं :
- क) निगमन के पश्चात कम्पनी द्वारा अनुसरण के लिए मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित होंगे :—
 - 1 संगत विधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित विशेष आर्थिक जोन (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक—सिटी सहित) अथवा सार्वभौमिक रूप से कहीं भी इंटरनेशनल फाइनेंशियन सर्विस सेन्टर की एक यूनिट के रूप में समाशोधन कारपोरेशन की स्थापना तथा प्रचालन करके विनियामक प्राधिकारणों से प्राप्त अनुमति के अनुसार आईएफएससी अथवा सार्वभौमिक रूप से ऐसे आईएफएससी की सेवाएं प्रदान करते हुए सिक्योरिटियों, शेयरों, स्टॉक, लाभांश, बॉन्ड्स, यूनिट, डिपोजिट सर्टिफिकेटों, नोट्स, वारंट्स तथा प्रत्येक प्रकार की अन्य सिक्योरिटियों, डिपोजिटरी रसीदों, मुद्रा, प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव्स, कोमोडिटी तथा कोमोडिटी डेरिवेटिव्स एवं आईएफएससी अथवा सार्वभौमिक तौर पर विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्दिष्ट एवं अनुमत्त अन्य प्रत्येक प्रकार की कोमोडिटियों तथा अन्य सभी इंस्ट्र्यूमेंट्स एवं उत्पादों के भौतिक निपटान अथवा नकद निपटान, सहित प्रत्येक प्रकार की समाशोधन एवं निपटान सुविधाएं, प्रोत्साहन, सहायता प्रदान करने के व्यवसाय की स्थापना करना तथा प्रत्येक प्रकार के निपटान के लिए पूर्णता एवं गारंटी का सुनिश्चय करना ।
 - 2 आईएफएससी अथवा सार्वभौमिक तौर पर विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्दिष्ट एवं अनुमत्त आईएफएससी अथवा सार्वभौमिक में अत्याधिक द्रव्यता, इन्ट्रा तथा इन्ट्रा मार्किट व्यवहार के सुनिश्चय के लिए उपाय करते हुए सामान्यतरु आईएफएससी अथवा सार्वभौमिक सिक्योरिटियों, डिपोजिटरी रसीदों, डेरिवेटिव, कोमोडिटी, मुद्रा एवं प्रत्येक प्रकार के उत्पादों की सेवाओं के साथ साथ समाशोधन स्टॉक एक्सचेंज, कोमोडिटी एक्सचेंज, डेरिवेटिव एक्सचेंज, मनी मार्किट, डेबट मार्किट , सिक्योरिटिज मार्किट, कैपिटलम मार्किट, करंसी मार्किट, ओटीसी मार्किट, ट्रेड रिपोजिटरिज, कस्टोडियल एवं डिपोजिटरिज से संबंधित, जो सीमित नहीं हैं, सभी क्रियाकलापों को प्रारम्भ, सुविधा, प्रोत्साहन, सहायता, निष्पादन तथा प्रबंधन करना ।
- ख) खंड 3(क) में निर्दिष्ट लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक तत्व:
 - 3 कम्पनी के व्यवसाय व्यवहार के लिए उन नियमों, उप नियमों तथा विनियमों तथा इसके विनियमन के लिए अपेक्षित प्रणाली एवं पद्धति तथा कम्पनी के समाशोधन सदस्यों से संबंधित सभी कारकों के साथ साथ समाशोधन सदस्यों के लिए आचरण नियमों, ट्रेडिंग, निपटान, जिसमें निपटान की गारंटी, निपटान निधि, समितियों का संविधान, प्राधिकार का प्रत्यायोजन शामिल है एवं कम्पनी से संबंधित विविध सामान्य मामलों तथा समाशोधन सदस्यों के लिए आचार संहिता एवं व्यवसाय आचरण तथा ऐसे नियमों, उप नियमों एवं विनियमों अथवा इसमें से किसी में उपर्युक्त उद्देश्य से समय समय संशोधन अथवा बदलाव तथा नए नियमों, उप नियमों अथवा विनियमों का निर्माण का प्रारूपण एवं प्रवर्तन करना ।
 - 4 सुरक्षा जमा, प्रवेश शुल्क, निधि अंशदान, संस्था के बर्हिनियमों तथा कारपोरेशन के नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत कारपोरेशन अथवा कम्पनी के समाशोधन सदस्यों से अंशदान तथा प्रभार निर्धारण एवं डिपोजिट रिकवरी, मार्जिन, शास्ति, तदर्थ लैवी एवं अन्य प्रभारों का निर्धारण करना ।
 - 5 विवाचन के माध्यम से विवादों के निपटान अथवा व्यावहारिक उपाय से ऐसे मामलों के निपटान के लिए विवाचकों अथवा अम्पायरों को नामित करनाय क्षेत्रीय अथवा स्थानीय विवेचना पैलन की स्थापना करना तथा कारपोरेशन के लेन देन व्यवहारों से संबंधित अथवा के कारण उत्पन्न अथवा के संबंध में अथवा व्यवसाय से संबंधित सभी विवादों तथा दावों के लिए विवेचना उपलब्ध करवाना, जो कारपोरेशन के समाशोधन सदस्यों तथा कारपोरेशन के समाशोधन सदस्यों तथा ऐसे व्यक्तियों के बीच, जो कारपोरेशन के समाशोधन सदस्य नहीं हैं परन्तु कारपोरेशन के समाशोधन सदस्यों के अंगीभूत हैं, होने वाले विवाद सहित हैंय तथा ऐसे विवेचकों, क्षेत्रीय विवेचन पैलनों अथवा स्थानीय पैलनों को पारिश्रमिक दिए जाने तथा ऐसी विवेचन प्रक्रियाओं, विवेचकों के शुल्क के लिए नियमों, उप नियमों एवं विनियमों में संशोधन अथवा परिवर्तन करनेय ऐसी विवेचना तथा संबंधित

- मामलों की लागतों तथा उनकी प्रक्रियाओं के विनियमन एवं तथा अवाडों के प्रवर्तन तथा विवादों के सामान्यतरु निपटान करने तथा ट्रेड एवं सिक्वोरिटीज के व्यवसाय में प्रयुक्ति, प्रचलन अथवा शालीनता से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्णय करने ।
- 6 सिक्वोरिटीज तथा उनके डेरिएटिवों सहित प्रत्येक प्रकार के दस्तावेजों के संबंध में स्वयं अथवा किसी अन्य कम्पनी अथवा व्यक्ति अथवा सरकारी विभाग अथवा भंडारण के उद्देश्य से प्राधिकरण के साथ सहकारिता से अथवा माध्यम से, अनावश्यक अथवा आवश्यक किसी भी स्वरूप में, सेफ, स्ट्रोंग रूम तथा धन, सिक्वोरिटीज एवं दस्तावेजों तथा प्रत्येक प्रकार की सिक्वोरिटियों के संग्रह के किसी साधन को किराए पर देकर अथवा निपटान करते हुए कस्टोडियन अथवा डिपोजिटरी की सेवाएं ।
- 7 कम्पनी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाशोधन गृह की स्थापना और अनुरक्षण तथा स्थापना और अनुरक्षण के लिए एजेंटों की व्यवस्था अथवा नियुक्ति अथवा स्टॉक होल्डिंग एवं कारपोरेशन, डिपोजिटरी, क्लीयरिंग हाउस अथवा डिवीजन का निर्माण करना तथा उसके कार्यों एवं प्रशासन का विनियमन करना ।
- 8 सरकार के साथ ऐसी कोई भी व्यवस्था करने जिससे ऐसा वांछनीय प्रतीत होता हो तथा सरकार से किसी प्रकार की शक्तियां, अधिकार, लाइसेंस, सुविधाएं प्राप्त हों जो ज्ञापन में निर्धारित किए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक तथा वांछनीय हैं ।
- 9 किसी ऐसी डीड के लिए, जो डिबेंचर, लाभांश स्टॉक अथवा अन्य सिक्वोरिटियों अथवा दायित्वों के रूप में हो, ट्रस्टी की भूमिका निर्वाह करना तथा अन्य किन्हीं ट्रस्टों के कार्य तथा निष्पादन करना तथा निष्पादक, प्रशासक, प्राप्तकर्ता, कस्टोडियन तथा ट्रस्ट कारपोरेशन के कार्यालय तथा शक्तियों का निष्पादन करना ।
- 10 किसी ऐसे राज्य अथवा प्राधिकरण, केन्द्रीय, राज्य, नगरपालिका, स्थानीय अथवा अन्य जो कम्पनी के लक्ष्यों अथवा उनमें से किसी लक्ष्य के प्रति सहायक हो सकता हो तथा ऐसे सरकारी अथवा प्राधिकरण से कोई रियायत, स्वीकृति अथवा डिक्लियां, अधिकार अथवा लाभ, ऐसा कुछ भी जो कम्पनी के लिए उपयुक्त हो सकता हो अथवा जिसे कम्पनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्यों के अनुपालन, विकास, वहन, व्यवहार के लिए उपयोग में ला सकती हो तथा जिससे ऐसी व्यवस्थाओं, रियायतों, स्वीकृतियों, अधिकारों अथवा लाभों की प्राप्ति होती हो सकती हो ।
- 11 व्यवसाय के संबंध में पुस्तकालय के अनुरक्षण के लिए सांख्यिकीयों अथवा अन्य सूचनाओं का अधिग्रहण, संग्रहण, परिरक्षण, प्रसारण तथा मुद्रण, प्रकाशन, अधिप्राप्ति, प्रबंधन तथा किसी समाचार पत्र, जर्नल, पत्रिका, पम्फलेट, कार्यालयीन वार्षिक बुक, दैनिक अथवा अन्य आवधिक कोटेशन सूचियां अथवा अन्य कारपोरेशन के लक्ष्यों के संवर्धन के संबंध में अन्य कोई कार्य ।
- 12 ट्रेड, बैंकिंग, वाणिज्य, वित्त अथवा कम्पनी प्रशासन अथवा स्टॉक, शेयरों तथा किसी अन्य प्रकार की सिक्वोरिटियों में डीलिंग के लिए सेवा में लिए गए अथवा सेवा में लिए जाने वाले व्यक्तियों के तकनीकी तथा व्यावसायिक ज्ञान में सुधार तथा संवर्धन अथवा उसके संबंध में एवं उसके विचार से लेक्चरों की डिलीवरी प्रदान करना तथा कक्षाओं का आयोजन करना तथा व्यक्तियों की क्षमता ज्ञात करने के लिए परीक्षा अथवा अन्य उपक्रम करना तथा प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा प्रदान करना तथा स्कॉलरशिप, अनुदान तथा लाभकारक उपाय स्थापित करना तथा ऐसे किसी तकनीकी अथवा शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करना तथा उसका संचालन एवं प्रशासन करना ।
- 13 किसी ऐसी अन्य एसोसिएशन की सदस्यता के लिए अंशदान देना तथा सहकारिता करना जो निगमित हो अथवा न हो तथा जिसके लक्ष्य कारपोरेशन के हितों अथवा सामान्य वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक हितों के प्रोत्साहन के लिए हों तथा ऐसी एसोसिएशन से कम्पनी के लक्ष्यों की पूर्ति से संबंधित सूचना प्राप्त करना अथवा सम्प्रेषित करना अथवा व्यवसाय संरक्षण के उपायों तथा उसमें विहित हितों का संवर्धन करना ।
- 14 किसी परामर्शदात्री अथवा अनुसंधान डिवीजन के प्रबंधन में प्रतिभागिता करना अथवा स्थापना करना तथा उसमें सिक्वोरिटियों अथवा भारत अथवा विदेश में क्लीयरिंग तथा सैटलमेंट के व्यवहार के लिए स्थापन किए जाने अथवा संचालन किए जाने के परामर्शदाता तथा सलाहकार की भूमिका का निर्वाह करना तथा सिक्वोरिटियों एवं उनके विपणन के लिए परामर्शदाता की भूमिका निभाना तथा कारपोरेशन के व्यवसाय से संबंधित घटनाओं एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी प्रदान करना तथा कम्पनी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत अथवा विदेश की किसी भी एक्सचेंज के साथ अंशदान अथवा सहकारिता के सिद्धांत पर एसोसिएशन स्थापित करना ।
- 15 किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, कम्पनी अथवा कारपोरेशन के साथ जो कम्पनी के लिए अथवा चालन के लिए प्राधिकृत किए गए व्यापार अथवा उद्यम के कार्य में संलिप्त है अथवा संलिप्त होने का इच्छुक है अथवा जो संलिप्त होना चाहता है अथवा इच्छुक होना चाहता है, तथा जिससे कम्पनी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी प्रकार के लाभों की प्राप्ति संभव है, के साथ साझेदारी, सहकारिता अथवा हितकारिता करना ।
- 16 इसके द्वारा किए जाने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, फर्म, निगमित निकाय अथवा कारपोरेशन द्वारा किए जा रहे किसी भी व्यवसाय, साख, ट्रेडमार्क, पेटेंट, परिसम्पतियों तथा देयताओं को पूर्ण अथवा किसी भी भाग का अधिग्रहण करना तथा अधिकार सम्हालना ।

- 17 किसी भी बैंक में बैंकिंग खाता खोलना तथा ऐसे खातों में भुगतान करना अथवा धन की निकासी करना ।
- 18 कम्पनी की निधियों में से ऐसी सभी लागतों का भुगतान जो कम्पनी द्वारा कम्पनी की प्रौन्नति, विन्यास, स्थापना तथा पंजीकरण एवं / अथवा पूंजी जारी करने अथवा कम्पनी के विचारानुसार प्राथमिक हैं जिनमें मुद्रण और लेखन सामग्री, व्यावसायिकों, वकीलों अन्य किन्हीं विशेषज्ञों को दी जाने वाली फीस एवं व्यय भी शामिल हैं ।
- 19 कम्पनी की ओर से तथा कम्पनी के हितों की संरक्षा के लिए ट्रस्टी अथवा ट्रस्टियों (वैयक्तिक अथवा कारपोरेशन) की नियुक्ति ।
- 20 कम्पनी के लक्ष्यों के समान अथवा आंशिक लक्ष्यों वाली किसी कम्पनी अथवा कम्पनियों अथवा एसोसिएशनों के साथ समामेलन
- 21 किसी भी चल अथवा अचल उपक्रम अथवा सम्पत्ति, ऐसे उपक्रम अथवा कम्पनी के प्रति दायित्व अथवा दायित्व के बिना, इसमें उल्लिखित लक्ष्यों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संवर्धन के लिए तथा शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य सिक्क्योरिटीयों अधिग्रहण अथवा अधिकार प्राप्ति के सभी प्रकार के उद्देश्यों से तथा ऐसी कम्पनी को सहायता प्रदान करने अथवा प्रबंधन अथवा स्वामित्व के लिए अथवा अन्यथा के लिए प्रत्येक प्रकार की कम्पनियों अथवा साझेदारियों का निर्माण, प्रोत्साहन, सहायता प्रदान करना अथवा संगठित करना अथवा निर्माण, संस्थापन, प्रोत्साहन, संगठन में सहायता अथवा मदद प्रदान करना ।
- 22 भारत अथवा विश्व के किसी भी भाग में स्वामियों, एजेंटों, ट्रस्टियों, ठेकेदारों अथवा एकल स्वरूप में अथवा अन्यो के साथ संयोजन से अथवा स्वयं अथवा एजेंटों, ठेकेदारों, ट्रस्टियों के माध्यम से अथवा अन्यथा उपायों से कम्पनी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना ।
- 23 भारत में अथवा भारत से बाहर अपने व्यवसाय तथा ग्राहकों की प्राप्ति के लिए अपने अपने स्वामित्व में अथवा कार्यालयों, शाखाओं तथा एजेंसियों की स्थापना करना ।
- 24 भारत संघ तथा किसी अथवा सभी राज्यों तथा उसके क्षेत्रों तथा विदेश में स्थित किसी भी देश में स्थित अपनी सभी शाखाओं अथवा किसी शाखा तथा इस उद्देश्य से तथा वहां स्थित एजेंसियों में सुविधानुसार अपनी सभी अथवा किसी भी निगमित शक्ति तथा सुविधों का प्रयोग करना ।
- 25 किसी सामान्य अथवा उपयोग्य प्रयोजन अथवा निधि अथवा संस्थान के लिए दान अथवा अनुदान अथवा गारंटी धन की अंशभागिता, योगदान देने तथा किसी एसोसिएशन, निकाय अथवा अभियान के लिए धन संबंधी सहायता अथवा अन्य सहायता प्रदान करने ।
- 26 कम्पनी तथा मुख्यतः पूंजी एवं वित्तीय बाजारों के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के संवर्धन तथा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए किसी निधि (किसी निपटान निधि अथवा निवेशक संरक्षा निधि अथवा अन्य कोई निधि) ट्रस्ट तथा आकलन की गई सुविधाओं की स्थापना तथा स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना ।
- 27 कारपोरेशन के किन्हीं वर्तमान तथा संस्था के बहिर्नियम तथा नियमावली, उप नियमों तथा विनियमों में निर्दिष्ट किसी उद्देश्य से कम्पनी की निधियों अथवा अन्य चल सम्पत्ति में से भुगतान अथवा अदायगी करने तथा निकासी, स्वीकृति, पृष्ठांकन, छूट, वॉरंट, लाभांश अथवा अन्य पराक्रम्य अथवा अंतरण योग्य दस्तावेज निष्पादित करने ।
- 28 कैपिटल एवं सिक्क्योरिटी बाजारों के लिए ओपनिंग्स का अनुसरण करने तथा पूर्वानुमान, पूछताछ, परीक्षण, अंवेक्षण तथा परख के विचार से से पूंजी बाजार में उद्यम के अवसर हासिल करने तथा प्रेषित करने तथा कम्पनी के व्यवसाय के लिए अभियान, कमीशनो तथा अन्य कारकों का उपयोग करने ।
- 29 कम्पनी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निहित शर्तों तथा निहित पद्धति से समय समय पर किए गए निर्धारण के अनुसार सुरक्षा सहित अथवा सुरक्षा रहित स्वरूप में विशेषतः लाभांशों, लाभांश स्टॉक, बॉन्ड्स अथवा अन्य सिक्क्योरिटीयों को जारी करने से ऋण की प्राप्ति, किसी भी स्वरूप में ऋण की उत्पत्ति, जमा प्राप्ति, ऋणग्रस्तता के निर्माण, अनुदानों अथवा अग्रिमों की प्राप्ति (ब्याज मुक्त अथवा ब्याज सहित) ,इक्विटी ऋणों अथवा धन की उत्पत्ति को सदैव एवं इस अभिव्यक्ति की घोषणा के साथ करना कि ऐसे ऋण अथवा धन की उत्पत्ति , ऋण अथवा धन की उत्पत्ति के मूल तथा मौलिक स्वरूप में की गई है तथा प्रत्येक

मामलों में एवं प्रत्येक स्थितियों में किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान के मूलधन अथवा ब्याज अथवा अन्य स्वरूप के संबंध में दावा किए जाने की स्थिति में तथापि ऋण पर प्राप्त अथवा उत्पन्न किए गए धन के संबंध में किए गए दावों का भुगतान केवल कम्पनी की निधियों, सम्पत्तियों अथवा अन्य परिसम्पत्तियों में से किया जाएगा जो ऋण पर लिए गए अथवा उत्पन्न किए गए धन से संबंधित ऐसे दावों तथा मांगों, इनमें से जो भी हो, के प्रति जवाबदेह तथा पूर्ति के लिए उत्तरदायी मानी जाएगी परन्तु इसमें कम्पनी के निदेशक मंडल के सभी अथवा किसी सदस्य अथवा सदस्यों, उनके अथवा उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, परिवर्तियों तथा समनुदेशितियों की वैयक्तिक निधियां, सम्पत्तियां अथवा अन्य परिसम्पत्तियां शामिल नहीं

- होंगी तथा जो किसी भी प्रकार से किसी वैयक्तिक देयताओं के व्यय अथवा उनकी अथवा स्वयं की प्रस्तुति इस प्रकार ऋण अथवा उत्पन्न किए गए धन के प्रति किन्हीं दावों अथवा मांगों के प्रति जवाबदेह अथवा आरोपित नहीं किए जा सकेंगे तथा उपर्युक्तानुसार ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले दावों की भरपाई के लिए कम्पनी की निधियाँ, सम्पतियाँ तथा अन्य परिसम्पतियाँ दावे को पूरा करने के संबंध में अपर्याप्त होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति के अधिकार सीमित होंगे तथा वह कम्पनी की ऐसी निधियाँ, सम्पतियों तथा अन्य परिसम्पतियों में से उन शर्तों तथा नियमों के अनुसार, जिनके अंतर्गत ऋण अथवा उत्पत्ति के माध्यम से धन एकत्र किया गया है, अपने भाग अथवा अंश से अधिक दावे का पात्र नहीं होगा य
- 30 कम्पनी द्वारा समय समय पर किए गए निर्धारण के अनुसार कम्पनी के ऐसे धन, जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं है, अथवा सिक्वोरिटी के ब्याज सहित अथवा रहित तथा ऐसे अन्य निवेशों का निवेश करने, उधार देने अथवा अग्रिम प्रदान करने ।
- 31 कम्पनी के सभी अथवा किसी भी उद्देश्य से बिल ऑफ कारपोरेशन, प्रोमिजरी नोट, चैक, लदान बिल, वारंट, लाभांश तथा सिक्वोरिटी सहित अथवा रहित अन्य पराक्रम्य उपकरण का आहरण करने, तैयार करने, स्वीकार करने, पृष्ठांकित करने, बट्टा प्रदान करने, निष्पादित करने तथा बिक्री करने तथा प्रोमिजरी नोट का आहरण एवं पृष्ठांकन भी करने तथा कम्पनी द्वारा उचित समझी गई शर्तों एवं नियमों पर इसके संबंध में परकामण करने तथा बट्टा प्रदान करके अथवा सिक्वोरिटी सहित अथवा रहित इनके अग्रिम ग्रहण करने अथवा प्राप्त करने अथवा सामग्रियों अथवा माल अथवा अन्य वस्तुओं पर कम्पनी द्वारा उचित समझी गई शर्तों तथा सिक्वोरिटीज पर किसी राशि अथवा राशियों का अग्रिम प्रदान करना ।
- 32 ऐसे नियमों तथा शर्तों पर जमा अथवा अन्य स्वरूप में धन की प्राप्ति तथा अन्यों के ऋणों तथा अनुबंधों के संबंध में गारंटियों तथा क्षतिपूर्तियाँ प्रदान करना ।
- 33 व्यवसाय तथा कम्पनी की प्रत्येक अथवा किसी सम्पत्ति (वर्तमान अथवा भावी) अथवा अनापेक्षित पूंजी से संबंधित किसी ऋण अथवा दायित्व अथवा बाध्यता के संबंध में विचार किए गए उचित स्वरूप में विशेषतः मोर्टगेज तथा प्रभारों के माध्यम से प्राप्त करना अथवा निस्सरण करना अथवा इष्टानुकूल विचार के अनुसार लाभांशों, लाभांश—स्टॉक, अथवा किसी भी स्वरूप की सिक्वोरिटीयों अथवा पूर्ण अथवा आंशिक चुकता आकलित शेयरों का ऐसी शर्तों पर निर्माण करना अथवा जारी किया जाना य
- 34 लाभांशों के ट्रस्टी की भूमिका निर्वाह करने वाले किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी, लाभांश स्टॉक धारकों, कम्पनी की पूंजी अथवा लाभांश, लाभांश स्टॉक अथवा कम्पनी की अन्य सिक्वोरिटीयों में किसी भी शेयरों के प्रतिस्थापन तथा स्थापन अथवा गारंटी में सहायता प्रदान करने अथवा निर्माण अथवा प्रौन्नति के संबंध में अथवा इसके व्यवसाय व्यवहार अथवा ऐसे लाभांशों अथवा लाभांश स्टॉक तथा ब्याज के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं का पारिश्रमिक देना ।
- 35 कम्पनी की किसी भी सम्पत्तियों, उपक्रमों, अनुबंधों, जोखिमों अथवा दायित्वों को किसी भी स्वरूप में सुरक्षित करना ।
- 36 गारंटी प्रदान करना तथा प्रत्येक प्रकार की गारंटी का सम्पादन करना तथा प्रति गारंटी व्यवसाय करना जिसमें मुख्यतः किन्हीं मूल राशियों के भुगतान, ब्याज अथवा अन्य राशियों की प्राप्ति अथवा देयता लाभांशों, बांड्स, लाभांश—स्टॉक, मोर्टगेज, प्रभारों, अनुबंधों, दायित्वों, सिक्वोरिटीयों तथा उपकरणों से होती हो तथा पूंजी स्टॉक, शेयरों, सिक्वोरिटीयों तथा प्रत्येक प्रकार के एवं किसी भी स्वरूप के उपकरणों के लाभांश का भुगतान होता हो ।
- 37 किसी अन्य कम्पनी के स्टॉक, शेयरों तथा सिक्वोरिटीयों के संबंध में सशर्त अथवा बिना शर्त कार्य करना अथवा अंशदान करना य
- 38 डेरिएटिव्स जारी करना अथवा ऐसे किन्हीं शेयरों, स्टॉक, लाभांश, लाभांश—स्टॉक, बांड्स, दायित्वों अथवा सिक्वोरिटीयों के लिए मूल अंशदान, निविदा, क्रय, संयोजन अथवा नीलामी अथवा अन्य स्वरूप में अधिग्रहण करना अथवा बिक्री करना तथा इसके संबंध में सशर्त अथवा अन्यथा स्वरूप में अंशदान करना तथा ऐसे अंशदान के लिए गारंटी प्रदान करना तथा सभी प्रदत्त अथवा उनके स्वामित्व से प्राप्त अधिकारों तथा शक्तियों के प्रयोग कम्पनी के लक्ष्यों का संवर्धन करना ।
- 39 कम्पनी अथवा इसके सदस्यों अथवा कम्पनी के किन्हीं उद्देश्यों से प्रयोग के लिए उचित भवन (भवनों) अथवा परिसरों की स्थापना, निर्माण, विस्तार तथा अनुरक्षण करना तथा ऐसे भवन अथवा भवनों में बदलाव, जुड़ाव, संशोधन, परिवर्तन, स्थल में बदलाव अथवा हटाना अथवा बदलना अथवा किसी के स्थान पर रखना अथवा संवर्धन करना
- 40 किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति का क्रय, पट्टे अथवा किराया क्रय पर अथवा आपूर्तिकर्ता क्रेडिट पर अथवा अन्य अन्य स्वरूप में तथा कम्पनी के उद्देश्यों के लिए विशेषतः किसी भूमि, भवन, सुविधा स्थलों अथवा सेफ डिपोजिट वाल्ट्ज अथवा डिपोजिटरी अथवा कस्टडी सुविधाओं के लिए आवश्यक अथवा सुविधाजनक अधिकारों अथवा सुविधाओं की प्राप्ति करना ।
- 41 स्टॉक, किसी अन्य कम्पनी के चुकता अथवा गैर चुकता शेयरों अथवा सिक्वोरिटीयों सहित कम्पनी के व्यवसाय, निवेश, सम्पत्तियों, अधिकारों तथा प्रभावों अथवा इसके किसी भाग के संबंध में विचारानुसार उचित स्वरूप में बिक्री, मोर्टगेज, विनिमय, पट्टा, किराए पर देने, पट्टाधीन अथवा उप किराए पर देने, लाइसेंस प्रदान करने, सुविधा केन्द्र तथा अन्य अधिकारों के संबंध में, सुधार करने, प्रबंधन करने, विकास करने तथा लाभ उठाने तथा किसी भी पद्धति से व्यवहार करने अथवा निपटान करना ।

- 42 कम्पनी के किन्हीं उद्देश्यों अथवा कम्पनी के लिए लाभकारी अथवा उपयोगी प्रतीत होने वाले पेटेंट्स, ब्रेवेट्स, आविष्कारों, लाइसेंस रियायतों, अधिकारों, सुविधाओं तथा किसी आविष्कार से संबंधित किसी गुप्त अथवा सूचना के एकल अथवा सीमित प्रयोग की शक्तियां, जिनके उपयोग के प्रति कम्पनी सक्षम है, के संबंध में आवेदन करने, क्रय करने अथवा अन्यथा स्वरूप में अधिग्रहण करने तथा उनका प्रयोग, उपयोग, विकास, लाइसेंस प्रदान करने, उनके संबंध में प्राप्त सुविधाओं अथवा अधिगृहित सम्पदा अधिकारों अथवा सूचना से लाभ प्राप्त करने तथा कम्पनी द्वारा अपेक्षित अथवा अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित सभी आविष्कारों, पेटेंटों तथा अधिकारों के लिए सहायता, प्रोत्साहन प्रदान करना तथा परीक्षण के लिए धन व्यय करना ।
- 43 भारत में अथवा कहीं भी एटोर्नियों तथा एजेंटों की नियुक्ति कमीशन पर अथवा अन्य स्वरूप में करना तथा एजेंसियों एवं उप एजेंसियों की स्थापना करना ।
- 44 कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों अथवा किन्हीं सांविधिक संशोधनों अथवा उनके संबंध में समय समय पर प्रभावी किए गए पुनः प्रवर्तन के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर व्यवसाय समाप्त किए जाने की स्थिति में कम्पनी के सदस्यों के बीच नकद आधार पर कम्पनी की सम्पत्ति का वितरण करना ।
- 45 कम्पनी के हित अथवा लक्ष्यों में संवर्धन के लिए कम्पनी के कर्मचारियों अथवा किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण प्रदान करना अथवा भारत में अथवा विदेश में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए भुगतान करना ।
- 46 कम्पनी के कर्मचारियों अथवा भूतपूर्व कर्मचारियों तथा उनकी पत्नियों तथा परिवार अथवा आश्रितों अथवा उनसे संबंधित व्यक्ति के कल्याण के लिए गृह के निर्माण अथवा गृह अथवा आवास के निर्माण के लिए अंशदान अथवा पेंशन, भत्तों, बोनस अथवा भुगतानों के लिए धन प्रदान करना अथवा समय समय पर भविष्य अथवा अन्य सम्बद्ध संस्थागत निधियों अथवा ट्रस्टियों में अंशदान अथवा योगदान देना तथा शिक्षण एवं मनोरंजन, अस्पतालों तथा औषधालयों, चिकित्सा एवं अन्य सेवा स्थलों के लिए कम्पनी द्वारा उचित समझे गए अनुसार अंशदान अथवा योगदान प्रदान करना ।
- 47 कम्पनी के अधिकारियों, निदेशकों, प्रोत्साहकों तथा सेवकों को कम्पनी के हित में की गई प्रक्रियाओं, लागतों, क्षतियों, दावों तथा किए गए अथवा किए जाने वाले किसी कार्य के लिए मांगों अथवा अपने कार्यों अथवा उससे संबंधित कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान किसी भी कारण से हुए नुकसान अथवा क्षतियों अथवा विगति के लिए क्षतिपूर्ति करना ।
- 48 ऐसे सभी कृत्य करना जो उपर्युक्त लक्ष्यों अथवा उनमें से किसी के लिए आनुषंगिक अथवा हितकारी हों ।
- 49 किसी कम्पनी अथवा उपक्रम के प्रबंधन, पर्यवेक्षण अथवा नियंत्रण में प्रतिभागिता करना तथा इस उद्देश्य से तकनीकी तथा व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करना तथा प्रशासक की भूमिका अथवा किसी स्वरूप का निर्वाह करना एवं विचारार्थ अथवा किसी अन्य स्वरूप में किसी निदेशकों, प्रशासकों अथवा लेखाकारों अथवा अन्य विशेषज्ञों अथवा एजेंटों की नियुक्ति करना तथा पारिश्रमिक देना ।
- 50 एवं एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि :
- 1 जहां कहीं इसके खंडों में इस कम्पनी के संदर्भ में “कम्पनी” शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसमें निगमित अथवा निगमित न की गई भारत अथवा कहीं भी अधिवास की किसी साझेदारी अथवा अन्य निकाय अथवा व्यक्ति भी शामिल माने जाएंगे, तथा
 - 2 इस खंड के कुछ उप-खंड तथा उनसे संबंधित सभी शक्तियां संचयी हैं तथा किसी भी स्थिति में इनमें से किसी उप खंड की व्यापकता किसी उप खंड के लिए किसी उप खंड की विशिष्टता के कारण संकुचित अथवा प्रतिबंधित नहीं की जा सकती हैं तथा न ही ये संबंधित उप खंड की किसी विशिष्टता की सामान्य अभिव्यक्ति के लिए संकुचित अथवा प्रतिबंधित की गई है अथवा किसी अभिप्राय के लिए उसकी भूमिका उसी स्वरूप अथवा अन्य स्वरूप में ही है ।
 - 3 यदि प्रसंग अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है तो इस खंड में प्रयोग में लाए गए “भारत” शब्द में समय समय पर शामिल किए जाने वाले भारत संघ के सभी क्षेत्र शामिल होंगे ।

IV सदस्य (सदस्यों) की उत्तरदेयता सीमित है तथा यह उत्तरदेयता उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में चुकता न की गई राशि, यदि कोई हो, तक सीमित होगी ।

V.* कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 100,00,00,000 रुपए है (केवल एक सौ करोड़ रुपए), जो कंपनी की पूंजी को कम तथा बढ़ाने की शक्ति के साथ, प्रत्येक 10/- रुपए (रुपए दस केवल) के 10,00,00,000 (दस करोड़) इक्विटी शेयर में विभाजित हैं ।

* 5 अप्रैल, 2017 को हुई एक असाधारण आम बैठक में, सदस्यों द्वारा, अधिकृत शेयर पूंजी को 50 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 100 करोड़ रुपए करने के लिए एक संशोधित स्वीकृत प्रस्ताव पारित किया गया ।

हम कई व्यक्तियों, जिनके नाम, पते, विवरण और व्यवसायों नीचे सब्सक्राइब किया जाता है, एसोसिएशन के इस जापन के अनुसरण में एक कंपनी में गठन किया जा रहा करने के इच्छुक हैं और हम क्रमशः कंपनी की राजधानी में संकेत में शेयरों की संख्या लेने के लिए सहमत अपने-अपने नामों के खिलाफ

क्रमांक।	नाम, पता, सब्सक्राइबर के कब्जे और पिता का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या प्रत्येक ग्राहक द्वारा उठाए जाने की सहमति	ग्राहक के हस्ताक्षर	नाम, पता, व्यवसाय और गवाह के हस्ताक्षर
१	नेशनल सिक्युरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	49994 (चालीस नौ हजार नौ सौ नब्बे चार	नेशनल सिक्युरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड टी वेंकट राव - प्रबंध निदेशक	मैं ग्राहकों को जो सदस्यता के लिए और मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं करने के लिए गवाह। इसके अलावा मैं उनकी पहचान के लिए उनकी पहचान सत्यापित विवरण और के रूप में भरा उनकी पहचान के ब्यौरे की अपने आप को संतुष्ट किया है। साइन; - जतिन कपाड़िया कंपनी सचिव एसीएस ; -26725 सी.पी.:- 12043
२	अमित अमलानी	1 (एक	अमित अमलानी	
३	नटराजन रामासामी	1 (एक	नटराजन रामासामी	
४	हुजेफा महुवावाला	1 (एक	हुजेफा महुवावाला	
५	रविंद्र मोहन बी	1 (एक	रविंद्र मोहन बी	
६	आर जयकुमार	1 (एक	आर जयकुमार	
७	नीलेश तीनाइकर	1 (एक	नीलेश तीनाइकर	

तारीख: 16 नवंबर 2016

जगह: मुंबई

एन.एस.ई आई.एफ.एस.सी क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में निहित प्रावधान यहां समायोजित हैं

शेयरों के अनुपात में सीमित कंपनी

एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

के

अंतर्नियम

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद ८ की तालिका ७ में दिये गये विनियम कंपनी पर लागू नहीं होंगे, लेकिन विशेष प्रस्ताव के जरिए या कंपनी अधिनियम, 2013 में दिये गये अनुच्छेदों के अनुसार इसके विनियमों के निरसन, उनमें संशोधन या नये विनियमों को शामिल किये जाने के संबंध में कंपनी की किसी भी वैधानिक शक्ति के उपयोग के बारे में कंपनी प्रबंधन के नियमों को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखा जायेगा और उनके सदस्य व प्रतिनिधि इनका अवलोकन करेंगे।

व्याख्या:

1. नीचे दिये गये वाक्यों व कथनों में, निम्नलिखित शब्दों और भावों का निम्नांकित अर्थ होगा, जब तक कि विनियम या संदर्भ के आधार पर इसे अलग न किया गया हो या इसे अलग से परिभाषित न किया गया हो,

(क) “अधिनियम”, “कथित अधिनियम” का अर्थ “कंपनी अधिनियम, 2013” से है और इसमें उसके तहत दिये गये सभी कानून, स्पष्टीकरण, परिपत्र, अधिसूचनाएं और प्रत्येक कानूनी परिवर्तन एवं उससे जुड़े प्रतिस्थापन शामिल हैं और इसमें कंपनी अधिनियम, 1956 के ऐसे प्रावधान उस हद तक लागू होंगे, जब तक कि कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा उनका अधिक्रमण न किया गया हो, या उन्हें अधिसूचना के जरिए रद्द न कर दिया गया हो।

(ख) कॉरपोरेशन के “उपनियमों”, “नियम” और “विनियम” का अर्थ संबंधित समयावधि के दौरान लागू उप-कानूनों, नियमों और विनियमों से होगा।

स्पष्टीकरण: ‘नियमों’ में कंपनी के ज्ञापन एवं अंतर्नियम शामिल होंगे।

(ग) “कंपनी” का अर्थ “एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड” से होगा और यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(71) के प्रावधानों के तहत परिभाषित सार्वजनिक कंपनी होगी।

(घ) “एक्सचेंज” का ऐसे एक या एक से अधिक उपक्रमों से होगा, जहां एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा प्रतिभूतियों का लेन-देन किया जायेगा।

(ङ) “बोर्ड”, “निदेशक मंडल” या “निदेशक” का अर्थ कंपनी के निदेशक मंडल या सामूहिक रूप से कंपनी के निदेशकों से होगा।

(च) ‘कॉर्पोरेशन के क्लियरिंग सदस्य’ का अर्थ कॉर्पोरेशन के किसी भी व्यक्ति से होगा जिसे समाशोधन सदस्यता देकर भर्ती कराया गया है लेकिन कंपनी की सदस्यता निरूपित नहीं की गई है।

स्पष्टीकरण: समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किये जाने अनुसार कॉर्पोरेशन के सदस्यों की मंजूरी देने के एक से अधिक वर्ग हो सकते हैं। कॉर्पोरेशन के समाशोधन सदस्य के पास कंपनी के सदस्य के रूप में कोई अधिकार नहीं होगा। कॉर्पोरेशन के एक क्लियरिंग सदस्य को कंपनी का एक सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है।

(छ) ‘सदस्य’ कंपनी के सदस्य ‘समय-समय पर विधिवत पंजीकृत धारकों का अर्थ होगा, कंपनी के शेयरों की और कंपनी के संघ के ज्ञापन के लिए ग्राहकों में शामिल हैं।

(ज) “कार्यालय” का अर्थ संबंधित समयावधि के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से होगा।

(झ) ‘रजिस्टर’ का अर्थ अधिनियम की धारा 88 के अनुसार रखे गये सदस्यों के रजिस्टर से होगा।

(ञ) “एससीआर अधिनियम” का अर्थ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 से होगा और इसमें उससे जुड़ा कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनराधिनियम शामिल है।

(ट) “सील” का अर्थ संबंधित समयावधि के लिए कॉमन सील से होगा।

(ठ) ‘सेबी अधिनियम’ का अर्थ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 से होगा की विनियम बोर्ड मतलब है और इसमें उससे जुड़ा कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनराधिनियम शामिल होंगे।

(ड) “एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्य” या “ट्रेडिंग सदस्य” का अर्थ एक्सचेंज के सदस्य से होगा।

स्पष्टीकरण: एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्य एक से अधिक वर्ग के हो सकते हैं, जिसका निर्धारण समय-समय पर बोर्ड द्वारा किया जा सकता है। एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्य को कंपनी के सदस्य के रूप में कोई भी अधिकार नहीं होगा। ट्रेडिंग सदस्य के लिए कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है।

- (ढ) “लेखन” में प्रिंटिंग, टाइपराइटिंग, लिथोग्राफी और लेखन कोई भी अन्य विकल्प शामिल होगा।
- (ण) “वर्ष” का अर्थ “कंपनी के वित्त वर्ष” से होगा।
2. (क) व्यक्तिवाचक शब्दों में कंपनियां, निगम, संस्थाएं, संयुक्त परिवार या संयुक्त निकाय, व्यक्तियों के संघ, सोसाइटी, ट्रस्ट, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं या बैंकों या कंपनियों की अनुषंगी शामिल होंगी।
(ख) पुलिंग शब्दों का अर्थ स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग का अर्थ पुलिंग से होगा, जबकि कंपनियों, निगमों, संस्थाओं आदि के संदर्भ में, इनका अर्थ नपुंसक लिंग से होगा।
- (ग) परिस्थिति के अनुसार, एकवचन का आशय बहुवचन और बहुवचन का आशय एकवचन से होगा।
- (घ) जब तक अन्यथा या इन प्रस्तुत में परिभाषित किया गया जब तक कि संदर्भ की आवश्यकता है या एक अलग अर्थ है, किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति इन प्रस्तुत में होने वाली अधिनियम और एससीआर अधिनियम और सेबी अधिनियम, के रूप में एक ही अर्थ वहन करेगा या किसी भी संशोधन या इंगित करता है पुनः अधिनियमितियों या उसके उसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम।
- (ई) मार्जिनल नोट्स से उनका निर्माण प्रभावित नहीं होगा।

शेयर पूंजी

3. प्राधिकृत शेयर पूंजी
कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी ऐसी राशि और ऐसा ब्यौरा होगा जिसे कंपनी के बहिर्नियम में किसी भी समय परिभाषित किया गया हो और कंपनी को अपने विनियमों एवं इस संबंध में कानूनी प्रावधानों के अनुसार शेयर पूंजी बढ़ाने या घटाने का अधिकार होगा।
4. सदस्यों का रजिस्टर और डिबेंचर धारक आदि
कंपनी, अधिनियम की धारा 88 के अनुसार सदस्यों का एक रजिस्टर, सदस्यों की एक सूची, डिबेंचर-धारकों की एक रजिस्टर और डिबेंचर धारकों की एक सूची रखा जाना करने के लिए प्रेरित करेगा।
5. सदस्यों के रजिस्टर और डिबेंचर धारकों आदि का निरीक्षण
सदस्यों के रजिस्टर, सदस्य के सूचकांक, रजिस्टर और डिबेंचर धारकों के सूचकांक, अधिनियम के तहत तैयार सभी रिटर्न की प्रतियां, एक साथ प्रमाण पत्र की प्रतियां और दस्तावेजों होने की आवश्यकता के साथ अधिनियम के तहत बहां पर कब्जा कर लिया है, सिवाय जब सदस्यों या डिबेंचर-धारकों के रजिस्टर अधिनियम या इन प्रस्तुत के प्रावधानों के तहत बंद कर दिया है, व्यापार घंटे के दौरान खुला हो जाएगा का निरीक्षण करने के लिए (के रूप में कंपनी लगाया जा सकता है इस तरह के उचित प्रतिबंध के अधीन) किसी भी सदस्य या डिबेंचर-धारक मुक्त और के रूप में प्रत्येक निरीक्षण के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है इस तरह के योग के भुगतान पर किसी अन्य व्यक्ति का निरीक्षण करने के लिए। इस तरह के किसी भी सदस्य या व्यक्ति के रूप में अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है इस तरह के योग के भुगतान पर उधर से अर्क लग सकता है।
6. कंपनी रजिस्टर का संक्षिप्त ब्यौरा आदि भेजेगी
कंपनी के अनुरोध पर किसी भी सदस्य, डिबेंचर-धारक या अन्य व्यक्ति को भेजेगा, सदस्यों के रजिस्टर की एक प्रति, सदस्य के सूचकांक, रजिस्टर और डिबेंचर धारकों के सूचकांक या उसके किसी भाग अधिनियम के तहत रखा जाना आवश्यक है, के रूप में अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है इस तरह के योग के भुगतान पर। नकल के रूप में अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता सात दिन, या इस तरह के अन्य समय की अवधि के भीतर भेजा जाएगा।
7. आवंटन पर प्रतिबंध
बोर्ड प्रतिबंध का पालन करेगा के रूप में अधिनियम की धारा 39 में निहित आवंटन करने के लिए और के रूप में अधिनियम की धारा 39 में प्रावधान आवंटन के लिए रिटर्न के लिए किया जा करने के लिए प्रेरित करेगा।
8. शासी बोर्ड के शेयर की बिक्री
कुछ समय के (कंपनी की किसी भी बड़ी हुई पूंजी का हिस्सा बनाने के लिए किसी भी शेयरों सहित) के लिए कंपनी की राजधानी में अधिनियम के प्रावधानों और इन प्रस्तुत करता है, शेयरों के अधीन निदेशक हैं, जो आवंटित या अन्यथा सकता है के नियंत्रण के अधीन किया जाएगा एक ही है या इस तरह के अनुपात में और इस तरह के नियम और शर्तों और या तो एक प्रीमियम पर या बराबर या एक डिस्काउंट पर (अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन) और ऐसे समय पर इस तरह के व्यक्तियों के लिए उनमें से किसी को निपटाने वे समय-समय पर हो सकते हैं फिट और आम बैठक में मंजूरी के साथ उचित किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों का विकल्प है या सही किसी भी शेयर के लिए या तो बराबर या

प्रीमियम ऐसे समय के दौरान कम से और इस तरह के विचार के लिए के रूप में निदेशक लगता है कि फोन करने के लिए देने के लिए लगता है के रूप में फिट है, और जारी करने और पूर्ण या किसी भी संपत्ति को बेच दिया और स्थानांतरित या अपने व्यापार के संचालन में कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं के लिए किसी भी और किसी भी शेयर जो इतनी आवंटित किया जा सकता है हो सकता है के हिस्से में भुगतान पर कंपनी की पूंजी में शेयर आवंटित कर सकता है पूरी तरह से शेयरों को भुगतान किया है और यदि ऐसा है तो जारी किए हैं, पूरी तरह से प्रदत्त शेयरों होना समझा जाएगा के रूप में जारी किए हैं।

बशर्ते कि विकल्प या शेयरों कहने का अधिकार आम बैठक में कंपनी की मंजूरी के साथ छोड़कर किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी।

9. बोर्ड शेयरों आवंटित कर सकता है के रूप में पूरी तरह से पेड-अप या आंशिक रूप से पेड-अप

भुगतान या बेच दिया है या किसी भी संपत्ति के लिए आंशिक भुगतान के रूप में कंपनी की राजधानी में अधिनियम के प्रावधानों और इन प्रस्तुत बोर्ड आवंटित कर सकता है और इस मुद्दे को शेयरों के अधीन वस्तुओं का तबादला या मशीनरी की आपूर्ति या कंपनी को दी गई सेवाओं और जो हो सकता है किसी भी शेयर के लिए इसलिए आवंटित की पूरी तरह से पेड-अप या आंशिक रूप से पेड-अप के रूप में जारी किया जा सकता है और यदि ऐसा है तो जारी पूरी तरह चुकता शेयर या आंशिक रूप से चुकता शेयरों होना समझा जाएगा।

10. शेयरों की स्वीकृति

किसी भी आवेदन के द्वारा या कंपनी के शेयरों के लिए एक आवेदक की ओर से हस्ताक्षर किए गए, उसमें किसी भी शेयर की एक आवंटन के बाद, इन प्रस्तुत के अर्थ के भीतर शेयरों की स्वीकृति होगाय और किसी भी व्यक्ति जो इस प्रकार या अन्यथा किसी भी शेयर को स्वीकार करता है और जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर पर है इन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एक सदस्य होगी।

11. जमा और कॉल, आदि एक ऋण देय तुरंत होना करने के लिए

पैसा, (अगर कोई है), जो बोर्ड, उनके द्वारा बनाया जा रहा है किसी भी शेयरों के आवंटन पर की आवश्यकता होती है या प्रत्यक्ष जाएगा जमा के माध्यम से भुगतान करने के लिए हो सकता है, फोन या अन्यथा उनके द्वारा आवंटित किसी भी शेयरों के संबंध में, करेगा, तुरंत ऐसे शेयरों के धारक के नाम के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में आवंटि के नाम की प्रविष्टि पर, कारण के लिए एक ऋण हो जाते हैं और उसके आवंटि से कंपनी द्वारा वसूली, और तदनुसार उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा।

12. शेयरों पर किश्तों

किसी भी शेयर, पूरे या राशि या निर्गम मूल्य का हिस्सा उसके किस्तों में देय होगा के आवंटन की शर्तों के अनुसार, हर तरह के किस्त, जब कारण, कंपनी के लिए जो व्यक्ति समय के लिए किया जा रहा द्वारा भुगतान किया जाएगा तो और समय-समय पर इस तरह के शेयर का पंजीकृत धारक या उसकी कानूनी प्रतिनिधि होगी।

13. एक ही वर्ग के शेयरों पर 13 कॉल वर्दी आधार पर होना

कहाँ आगे शेयर पूंजी के लिए किसी भी फोन शेयरों पर किया जाता है, इस तरह के कॉल एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी शेयरों पर एक समान आधार पर किया जाएगा। इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, एक ही नाममात्र का मूल्य है, जिस पर विभिन्न मात्रा चुकता कर दिया है के शेयरों में एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं के लिए नहीं समझा जाएगा।

14. कंपनी पंजीकृत धारकों की तुलना में अन्य शेयरों में कोई रुचि नहीं पहचान करने के लिए बाध्य नहीं

इस के साथ साथ के रूप में प्रदान की जाती अन्यथा, कंपनी व्यक्ति जिसका नाम उसके पूर्ण मालिक के रूप में किसी भी शेयर धारक के रूप में सदस्यों के रजिस्टर पर प्रकट होता है के इलाज के लिए हकदार होगा बचाने के लिए और तदनुसार न होगा (सिवाय के रूप में सक्षम न्यायालय की एक अदालत द्वारा या के रूप में आदेश दिया कानून द्वारा अपेक्षित) किसी अन्य व्यक्ति या नहीं, यह व्यक्ति या निहित सूचना उसके होगा की ओर से किसी भी बेनामी, इस तरह के शेयर में विश्वास या इक्विटी या, न्यायसंगत दल या अन्य दावे या ब्याज पहचान करने के लिए बाध्य हो।

15. कंपनी की धनराशि की खरीद में लागू नहीं किया जा सकता है या व्रत कंपनी के शेयरों पर

हद अधिनियम कंपनी के धन का कोई हिस्सा नहीं की खरीद में नियोजित किया जाएगा या कंपनी के शेयरों की सुरक्षा पर व्रत की धारा 67 द्वारा अनुमति के लिए छोड़कर।

- 15क. अपने शेयरों या प्रतिभूतियों की वापस खरीद

इन लेखों में निहित कुछ भी बर्दाश्त नहीं, कंपनी, कब और अगर सोचा फिट, पीठ ऐसी कंपनी के खुद के इक्विटी शेयरों की खरीद सकते हैं या प्रतिभूतियों यह आवश्यक ऐसी सीमाओं के अधीन लगता है कि मई के रूप में ऐसी बात है, नियम और

शर्तें, और इस तरह के अनुमोदन के अधीन, के रूप में उसके अंतर्गत बनाए गए खंड 68, 69, 70 और अन्य लागू प्रावधानों के प्रावधानों, यदि कोई हो, अधिनियम और नियमों के तहत आवश्यक हो सकता है।

16. सदस्यों की देयता

हर सदस्य अपने शेयर या शेयरों, कुछ समय के लिए जो मई अवैतनिक उस पर बने हुए हैं, ऐसे समय या समय पर ऐसी मात्रा में और इस तरह के तरीके के रूप में बोर्ड करेगा, समय-समय पर में से राजधानी प्रतिनिधित्व के हिस्से कंपनी को भुगतान करेगा की आवश्यकता होती है या उसके भुगतान तय कर लो।

17. बिना मान्यता वाले न्यास

सिवाय के रूप में कानून द्वारा आवश्यक है, कोई व्यक्ति किसी भी विश्वास पर किसी भी शेयर होल्डिंग के रूप में कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त किया जाएगा, और कंपनी द्वारा बाध्य नहीं किया जाएगा, या किसी भी तरह मजबूर नहीं किया जा पहचान करने के लिए (जब भी उसके नोटिस वाले) किसी भी न्यायसंगत, दल, भविष्य या किसी भी शेयर में आंशिक ब्याज, या, या सम्पूर्णता के लिए एक पूर्ण अधिकार को छोड़कर किसी भी शेयर के संबंध में किसी भी अन्य अधिकार (केवल के रूप में इन नियमों द्वारा या कानून द्वारा अन्यथा प्रदान को छोड़कर) एक हिस्से के किसी भी आंशिक भाग में कोई रुचि क्या है पंजीकृत धारक में।

हामीदारी कमीशन

18. शेयर रखने के लिए कमीशन

(अ) कंपनी किसी भी समय सदस्यता लेने या सदस्यता के लिए सहमत होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए एक आयोग का भुगतान कर सकते हैं (भले बिल्कुल या सशर्त) किसी भी शेयर, डिबेंचर या डिबेंचर शेयर या कंपनी के किसी भी अन्य सुरक्षा के लिए या खरीद या सदस्यता खरीद करने के लिए सहमत होने के लिए (चाहे वह पूर्ण या सशर्त) किसी भी शेयर डिबेंचर या डिबेंचर के लिए

शेयर या कंपनी के किसी भी अन्य सुरक्षा लेकिन इतना है कि यदि शेयरों के संबंध में आयोग का भुगतान किया जाएगा या संबंधित मुद्दे या लाभ या दोनों, वैधानिक स्थिति और आवश्यकताओं को मनाया किया जाएगा की आय से बाहर देय और अनुपालन के साथ और राशि या कमीशन की दर दरों अधिनियम द्वारा निर्धारित से अधिक नहीं होगी। आयोग का भुगतान या नकद या शेयर, डिबेंचर या कंपनी के डिबेंचर स्टॉक में संतुष्ट किया जा सकता है।

दलाली

(आ) कंपनी भी इस तरह के शेयरों के मुद्दे ऐसे ब्रोकरेज का भुगतान के रूप में अधिनियम के तहत अनुमत हो सकता है।

प्रमाण पत्र

19. प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जारी करने के लिए कैसे हो और समय की सीमा

प्रतिभूतियों के लिए शीर्षक के प्रमाण पत्र की उपस्थिति में कंपनी की मुहर के तहत जारी किया जाएगा और दो निदेशकों के हस्ताक्षर असर या

व्यक्तियों विधिवत, बोर्ड या उसके द्वारा अधिकृत समिति के रूप में मामले और सचिव या प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कुछ अन्य व्यक्तियों हो सकता है। यह मंडल परमिट की संरचना, कम से कम ऊपर उल्लिखित दो निदेशकों में से एक एक व्यक्ति को एक अन्य की तुलना में किया जाएगा अगर प्रबंध निदेशक या एक पूर्णकालिक निदेशक के। ऐसे शेयरों का प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों प्रक्रिया अधिनियम में द्वारा प्राप्त होने की तारीख से शेयरों के आवंटन के मामले में या एक महीने के भीतर दो महीने के भीतर रखी आबंटन के बाद के अनुसार वितरित किया जाएगा के अधीन हस्तांतरण या एक महीने के भीतर कंपनी द्वारा या आवंटन ऐसे डिबेंचर की तारीख से छह महीने के भीतर डिबेंचर के आबंटन के मामले में संचरण की सूचना की प्राप्ति की तारीख से के मामले में हस्तांतरण के साधन की कंपनी, जैसा भी मामला हो सकता है। हमेशा परंतु इस लेख में किसी बात के होते हुए भी, साझा करने के लिए शीर्षक के प्रमाण पत्र निर्पादित किया जा सकता है और कानून या नियम के इस तरह के अन्य प्रावधानों उसके अधीन बनाए गए के अनुसार जारी किए, समय के रूप में किया जा रहा है और समय-समय पर लिए बल में हो सकता है। एक शेयर या कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित शेयरों के संबंध में, कंपनी एक से अधिक प्रमाण पत्र और कई संयुक्त धारकों में से एक के लिए शेयरों का एक प्रमाण पत्र का वितरण जारी करने के लिए इस तरह के सभी धारक के लिए पर्याप्त वितरण किया जाएगा बाध्य नहीं किया जाएगा। ऊपर होते हुए भी, प्रतिभूतियों के प्रमाण पत्र, अधिनियम, एससीआर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाएगा, संशोधन, और किसी भी अन्य लागू कानूनों के रूप में।

19ए. इक्विटी शेयरों के डिमटेरियलाइज

इन लेखों में निहित कुछ होते हुए भी, कंपनी ने अपनी प्रतिभूतियों कमउजमतपंसपेम के लिए और एक डीमैट रूप में प्रतिभूतियों निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अनुसार पेशकश करने के लिए प्रतिभूतियों इसलिए डीमैट, प्रासंगिक सेबी परिपत्रों और निर्देशों के प्रावधानों के अलावा के संबंध में हकदार होगा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और प्रासंगिक नियमों को लागू

नहीं होगी। प्रतिभूतियों एक निक्षेपागार में से निपटा लिए, कंपनी तुरंत ऐसी प्रतिभूतियों के आवंटन पर निक्षेपागार के लिए प्रतिभूतियों के आवंटन के विवरण की सूचना देगा।

20. सदस्यों हेतु प्रमाण-पत्र का अधिकार

प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ग या संप्रदाय उसके नाम पर पंजीकृत के सभी शेयरों के लिए बहुत सारी विक्रेय में एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र के लिए भुगतान के बिना हकदार होगा या, यदि निदेशक इसलिए निदेशक विवेक के बिना पर इस तरह के शुल्क या शुल्क या भुगतान करने के बाद (मंजूरी निदेशक सकता है समय-समय पर निर्धारित) प्रत्येक वर्ग के एक या एक से अधिक शेयरों के लिए प्रत्येक कई प्रमाण पत्र के रूप में फीस का भुगतान। शेयरों का हर प्रमाण पत्र इस तरह के ब्यौरे शामिल करेगा और, के रूप में कंपनियों (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014, के रूप में संशोधन या प्रतिस्थापन या उसके संशोधन में किसी भी अन्य नियमों द्वारा निर्धारित इस तरह के रूप में हो जाएगा। जो सदस्य शेयरों अपनी होल्डिंग में शामिल का एक हिस्सा स्थानांतरित कर दिया है कि वह बिना किसी आरोप के संतुलन के लिए एक प्रमाण पत्र का हकदार होगा।

21. विरूपित एक के स्थान पर नया प्रमाण पत्र के मुद्दे के रूप में, खो दिया है या न'ट कर दिया

(1) एक प्रमाण पत्र नए सिरे से किया जा सकता है या एक प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि अवधि लागू कानून के तहत निर्धारित भीतर जारी किया जा सकता है, तो (क) इस तरह के प्रमाण पत्र (ओं) खो गया है या न'ट कंपनी की और नि'पादन पर संतुष्टि के लिए साबित कर दिया है इस तरह के क्षतिपूर्ति कंपनी के रूप में पर्याप्त समझे, या (ख) विरूपित कर दिया गया या विकृत या फटे या बाहर पहना या बेचान या के लिए वापस उसके पर आगे कोई स्थान नहीं है, की हस्तांतरण, पी आर ओ डी यू सी ई एन डी डी कंपनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। प्रत्येक इस अनुच्छेद के तहत प्रमाण पत्र यदि फीस के भुगतान पर जारी किया जाएगा। निदेशक इसलिए तय है, या इस तरह की फीस के भुगतान पर (प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए रुपये से अधिक न हो। 50) के रूप में निदेशक निर्धारित करेगा।

(2) मुद्दा या एक प्रमाण पत्र या डुप्लिकेट का मुद्दा क्या है के नवीकरण के तरीके, एक प्रमाण पत्र के रूप (मूल या नए सिरे से) या एक नकली क्या है, विवरण के सदस्यों के रजिस्टर में या रजिस्टर या में प्रवेश किया जा करने के लिए नए सिरे से या डुप्लिकेट प्रमाण पत्र, ऐसे रजिस्ट्रों का रूप है, भुगतान पर शुल्क जिनमें से नियमों और शर्तों को

जिस पर एक प्रमाण पत्र के नवीकरण किया जा सकता है या एक डुप्लिकेट उसके जारी किया जा सकता है, इस तरह के रूप में इस अधिनियम द्वारा निर्धारित नियमों और उसके अधीन बनाए गए, किया जाएगा नियम या विनियम या किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, एससीआर अधिनियम और या किसी अन्य अधिनियम या नियम इस संबंध में लागू की आवश्यकताओं।

प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित पूर्वगामी लेख के प्रावधानों आवश्यक परिवर्तनों सहित डिबेंचर (जहां अधिनियम से अन्यथा अपेक्षित छोड़कर) सहित किसी भी अन्य प्रतिभूतियों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लागू नहीं होगी।

कॉल्स

22. कॉल

निदेशक हो सकता है, समय-समय पर इस तरह के कॉल के रूप में वे परिस्थितियों से क्रमश और न उनके द्वारा धारित शेयरों पर बकाया सब पैसा के संबंध में सदस्यों पर फिट लगता है के आवंटन उसके तय समय पर देय कर, और प्रत्येक सदस्य करेगा इसलिए व्यक्ति के लिए और समय और स्थानों निदेशकों द्वारा नियुक्त पर उस पर किए गए हर कॉल की राशि का भुगतान। एक कॉल किस्तों में देय बनाया जा सकता है।

23. कॉल की सूचना

एक कॉल समय में किया गया है जब इस तरह के निदेशक कॉल अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और ऐसी तारीख पर या के रूप में इस तरह के बाद की तारीख पर निदेशक के विवेक पर सदस्यों के रजिस्टर पर सदस्यों द्वारा देय बनाया जा सकता समझा जाएगा निदेशक द्वारा तय किया जाएगा।

24. हर कॉल के चौदह दिन से कम नहीं सूचना प्रदान की है कि इस तरह के निदेशक फोन के भुगतान के लिए समय, सदस्यों को लिखित में सूचना हो सकता है इससे पहले, एक ही रद्द कर भुगतान के समय निर्दिष्ट करने दी जाएगी।

25. बोर्ड के समय का विस्तार कर सकते हैं

निदेशक सकता है समय-समय पर उनके विवेक पर, समय किसी भी फोन के भुगतान के लिए तय बढ़ाने और बचाने के अनुग्रह के एक मामले के रूप में सभी या सदस्यों जिसे निदेशक इस तरह के विस्तार के हकदार समझे के किसी भी रूप में इस तरह समय का विस्तार कर सकते हैं और एहसान।

26. संयुक्त धारकों की देयता

एक शेयर के संयुक्त धारकों संयुक्त और पृथक उसके संबंध में सभी कॉल्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

27. राशि तय समय पर देय या कॉल के रूप में किशतों द्वारा
 किसी भी शेयर या अन्यथा किसी भी राशि के मुद्दे के संदर्भ द्वारा अंकित मूल्य के या प्रीमियम के माध्यम से अकाउंट में तय समय पर किसी भी निश्चित समय पर या किशतों में देय किया जाता है, या नहीं, हर तरह की राशि या किशतों के रूप में अगर देय होगा यह थे एक कॉल विधिवत निदेशकों द्वारा और जो कारण सूचना का बना दिया गया है और सभी प्रावधानों के साथ साथ कॉल के संबंध में निहित तदनुसार ऐसी राशि या किशतों से संबंधित होगा।
28. जब कॉल या किस्त देय ब्याज पर
 योग किसी भी कॉल या किस्त के संबंध में देय पर या जा रहा है या संबंध में हिस्सेदारी के आवंटी समय के लिए धारकों जिनमें से एक कॉल किए गए हैं जाएगा या किस्त की वजह से हो जाएगा उसका भुगतान के लिए नियत दिन से पहले भुगतान नहीं किया तो इस तरह के दर पर उसी पर ब्याज का भुगतान करेगा के रूप में निदेशक वास्तविक भुगतान के समय के लिए उसके भुगतान के लिए नियत दिन से समय-समय पर तय करेगा, लेकिन निदेशक पूरी तरह या आंशिक इस तरह के ब्याज के भुगतान माफ कर सकते हैं। एक कॉल रद्द या बोर्ड के विवेक पर स्थगित किया जा सकता है।
29. आंशिक भुगतान जब्ती में बाधा नहीं
 न तो एक निर्णय है और न ही कॉल या अन्य किसी भी पैसा शेयरों न ही किसी भी पैसे का एक भाग की कंपनी द्वारा किसी भी भुगतान या उसके अधीन बनाए संतुष्टि और न ही रसीद जो करेगा समय समय पर से कारण हो के संबंध में कारण के लिए कंपनी के पक्ष में एक फरमान किसी भी शेयरों के संबंध में सदस्य या तो मूलधन या ब्याज न ही किसी भी पैसे के भुगतान के संबंध में कंपनी द्वारा दी गई इस तरह के शेयरों की जब्ती के रूप में इस के साथ साथ उपलब्ध कराया जाएगा रोकना किसी भी भोग के माध्यम से।
30. कॉल ब्याज ले सकते हैं की प्रत्याशा में भुगतान
 निदेशक, उन्हें लगता है कि अगर मई फिट (अधिनियम के प्रावधानों के अधीन) के लिए सहमत हैं और किसी भी सदस्य एक ही पूरे या रकम वास्तव में के लिए बुलाया परे उसके द्वारा धारित शेयरों पर कारण धन के किसी भी हिस्से अग्रिम करने के लिए तैयार से प्राप्त और पैसे की रकम तो भुगतान या अग्रिम में संतुष्ट या इतना तत्संबंधी के रूप में समय-समय पर तो जिसके संबंध में इस तरह के अग्रिम के रूप में इस तरह के दर पर ब्याज का भुगतान कर सकते कंपनी बना दिया गया है के शेयरों पर किए गए कॉल की राशि से अधिक पर सदस्य अग्रिम में ऐसी राशि का भुगतान और निदेशकों पर सहमत और निदेशकों को किसी भी समय राशि इतनी ऐसे सदस्य को लिखित रूप में एक महीने का नोटिस को देने पर उन्नत चुकाने कर सकते हैं बशर्ते कि शेयरों पर कॉल की अग्रिम भुगतान की धनराशि ब्याज ले लेकिन लाभांश का अधिकार प्रदान नहीं करेगा या मुनाफे में भाग लेने के लिए कर सकते हैं। कोई भी सदस्य अग्रिम में किसी भी तरह के राशि का भुगतान पैसे की रकम तो एक ही होगा जब तक है, लेकिन इस तरह के भुगतान वर्तमान में देय हो के लिए उसके द्वारा भुगतान के संबंध में मतदान के अधिकार का हकदार होगा। इस अनुच्छेद के प्रावधानों आवश्यक परिवर्तनों सहित कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों पर कॉल करने के लिए लागू नहीं होगी।
31. सदस्यों की सदस्यता के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है जब तक सभी कॉल्स भुगतान कर रहे हैं
 कोई भी सदस्य किसी भी लाभांश, ब्याज और खर्च के साथ प्राप्त या एक सदस्य के रूप में किसी भी विशेषाधिकार व्यायाम जब तक वह किसी भी व्यक्ति के साथ, कारण और उसके द्वारा हर शेयर पर देय जा रहा है कि क्या अकेले या संयुक्त रूप से समय से सभी कॉल्स का भुगतान किया है जाएगा करने का हकदार होगा यदि कोई।
32. कॉल या किस्त का भुगतान नहीं किया तो नोटिस दिया जाना चाहिए
 किसी भी सदस्य किसी भी शेयरों के संबंध में होने के कारण पूरे या किसी भी फोन या किसी भी पैसे की किस्त के किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो या तो पर या एक ही निर्देशकों के भुगतान के लिए नियत दिन से पहले प्रिंसिपल या ब्याज के रूप में किसी भी समय उसके बाद हो सकता कॉल या किस्त या उसके या अन्य पैसा बकाया रहने या एक निर्णय या संबंध में डिक्ली उसके पूरे या हिस्से में असंतुष्ट रहता है ऐसे सदस्य या व्यक्ति (अगर कोई है) साझा करने के हकदार पर एक नोटिस की सेवा किसी भी हिस्से के रूप में इस तरह के समय के दौरान ट्रांसमिशन द्वारा उसे जरूरत इस तरह के कॉल या किस्त या उसके ऐसे हिस्सा या अन्य धनराशि का भुगतान करने के रूप में एक साथ रहने के अवैतनिक किसी भी हित में है कि उपार्जित कर दिया है और सभी खर्चों (कानूनी या अन्यथा) है कि इस तरह के गैर की वजह से भुगतान किया गया हो सकता है या खर्च कंपनी द्वारा साथ-भुगतान।
33. सूचना का रूप
 सूचना एक दिन के नोटिस का दिन और जगह या पर और जो इस तरह के कॉल या किस्त या इस तरह के भाग या पूर्वोक्त और इस तरह के ब्याज के रूप में अन्य धन और खर्च के रूप में उक्त भुगतान किया जाना है पर स्थानों से कम से कम चौदह दिन नहीं होने के नाम करेगा। नोटिस में यह भी बताया जाएगा कि कम से या समय से पहले और स्थान पर

भुगतान न करने की स्थिति में जिसके संबंध में फोन किया गया था या किस्त देय जब्त कर लिया जा करने के लिए जिम्मेदार हो जाएगा में हिस्सेदारी नियुक्त किया है।

34. भुगतान शेयरों के डिफॉल्ट में जब्त कर लिया जा करने के लिए

अगर ऐसी कोई नोटिस के रूप में पूर्वोक्त, के साथ पालन नहीं कर रहे हैं की मांगे संबंध में शेयरों की जो इस तरह की सूचना उसके संबंध में कारण हो सकता दिया गया है किसी भी समय उसके बाद सभी कॉल्स या किस्तों, ब्याज और खर्च या पैसे के भुगतान से पहले के किसी भी, प्रभाव के निदेशक संकल्प द्वारा जब्त किया। इस तरह की जब्ती सभी लाभांश जब्ती शेयरों के संबंध में घोषित किया है और वास्तव में जब्ती से पहले भुगतान नहीं, अधिनियम के अधीन शामिल होगा।

35. सदस्यों के रजिस्टर पर जब्ती की एंट्री

किसी भी साझा करें ताकि तारीख उसके सदस्यों के रजिस्टर में किया जाएगा साथ जब्ती की एक प्रवेश जब्त किया गया है जाएगा है।

36. जब्त शेयरों कंपनी की संपत्ति होने के लिए और आदि बेचा जा सकता है

इसलिए जब्त कर किसी भी शेयर या उसके इस तरह के शब्दों पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए और इस तरह के तरीके के रूप में निदेशक फिट लगता करेगा मूल धारक को या तो की अन्यथा निपटारा कंपनी की संपत्ति होना समझा जाएगा और तमससवजजमक बेचा जा सकता है या।

37. जब्ती रद्द करने की शक्ति

निदेशक इसलिए जब्त कर ली जाएगी, बेच दिया गया है तमससवजजमक या अन्यथा का निपटारा किसी भी शेयर से पहले किसी भी समय, ऐसी शर्तों पर उसके जब्ती रद्द रूप में वे फिट सोच सकते हैं।

38. अभी भी उत्तरदायी शेयरधारकों पैसे के कारण भुगतान करने की जब्ती और ब्याज के समय

किसी भी सदस्य के शेयर जिसका जब्त कर लिया गया है, जब्ती के होते हुए भी, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और झट से कंपनी के सभी कॉल, किस्तों, ब्याज, खर्च और अन्य पैसा एक साथ जब्ती के समय पर या ऐसे शेयरों के संबंध में कारण के लिए भुगतान करेगा भुगतान जब तक जब्ती के समय से ब्याज, ऐसी दरों के रूप में निदेशकों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और निदेशकों पूरा का भुगतान या एक भाग को लागू कर सकते हैं अगर वे फिट लगता है, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगी, पर साथ। ऐसे व्यक्ति का दायित्व समाप्त हो जायेगा और यदि जब कंपनी के शेयरों के संबंध में इस तरह के सभी पैसा का पूरा भुगतान प्राप्त होगा।

39. शेयर/ डिबेंचर्स पर कंपनी का अधिकार

कंपनी ने अपनी पूरी तरह से भुगतान के शेयरों पर कोई धारणाधिकार होगा। आंशिक रूप से चुकता शेयर ६ डिबेंचर, प्रत्येक सदस्य के नाम पर पंजीकृत है (चाहे पूरी तरह से या संयुक्त रूप से एक या दूसरों के साथ) के मामले में और कंपनी उसके बिक्री की आय पर एक पहले और सर्वापरि धारणाधिकार सब पैसा ही के लिए बुलाया होगा या देय (चाहे वह वर्तमान में देय या नहीं) ऐसे शेयरों ६ डिबेंचरों के संबंध और किसी भी हिस्से में कोई न्यायसंगत हित में एक निश्चित समय में स्तर और शर्त यह है कि इस अनुच्छेद पूरा प्रभाव पड़ेगा पर छोड़कर बनाया जा जाएगा। ऐसी कोई भी धारणाधिकार सभी लाभांश के लिए विस्तार करेगा, समय-समय पर, और बोनस ऐसे शेयरों ६ अधिनियम के अधीन डिबेंचर के संबंध में घोषणा की। जब तक अन्यथा पंजीकरण सहमति शेयरों के हस्तांतरण के ६ डिबेंचर कंपनी का धारणाधिकार की छूट के रूप में काम करेगा, यदि कोई हो, ऐसे शेयरों ६ डिबेंचरों पर। बशर्ते कि बोर्ड किसी भी समय किसी भी शेयर घोषणा कर सकती है पूरी तरह या आंशिक इस खंड के प्रावधानों से मुक्त होने के लिए।

40. बिक्री से धारणाधिकार को लागू करने के लिए के रूप में

ऐसे धारणाधिकार निदेशक ऐसे ढंग से विाय बहां शेयरों को बेचने के रूप में वे फिट लगता है कि लागू करने के प्रयोजन है, लेकिन कोई बिक्री के लिए सम्मान है जो की धारणाधिकार मौजूद है जब तक निश्चित राशि का बनाया जा वर्तमान में देय है और न ही करने के इरादे के बारे में लिखित रूप में सूचना तक है बेचने के ऐसे सदस्य या व्यक्ति (अगर कोई है) का हिस्सा है और मूलभूत में संचरण द्वारा हकदार होगी राशि वर्तमान में इस तरह की सूचना के बाद सात दिनों के लिए देय के भुगतान में उसके द्वारा बनाया गया है पर परोसा गया है जाएगा।

41. बिक्री से होने वाली आय का उपयोग

जिसका धारणाधिकार अब तक के रूप में ही वर्तमान में देय और अवशेषों है मौजूद है (अगर कोई है) का भुगतान इस तरह की बिक्री की लागत का भुगतान करने के बाद किसी भी तरह के बिक्री की शुद्ध आय में या सम्मान में ऋण या दायित्व की संतुष्टि की दिशा में लागू किया जाएगा सदस्य या व्यक्ति (यदि हो तो) के शेयरों इसलिए बेचा का संचरण करने का हकदार है।

42. जब्त करने के प्रमाणपत्र

लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र किसी भी निदेशक, प्रबंधक या कंपनी के सचिव के हाथों के तहत एक शेयर के संबंध में फोन किया गया था, और शेयर को जब्त किया गया था, उसे असरदार बनाने के लिए निदेशकों के द्वारा संकल्प किया गया और ऐसा निर्णय लिया गया है की जितने व्यक्ति शेयर के लिए मान्य थे उन सभी के विरुद्ध निर्णायक सबूत लिया जायेगा।

43. क्रेता का शीर्षक और जब्त शेयरों का आवंटन

कंपनी ये विचार कर सकती है अगर कोई शेयर बेचने या दोबारा आवंटन के लिए दिया जाता है या अन्य कोई प्रावधान, उस व्यक्ति को जिसे वह शेयर बेचा गया दोबारा आवंटित किया गया या फिर दे दिया गया उसे शेयरहोल्डर के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर विचार करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए अगर कोई कार्यवाही हो उस सन्दर्भ में जब्ती, बिक्री, फिर से आवंटन या शेयर के अन्य निपटान से उसके शेयर के खिताब पर अनियमितता और आमन्यता होने पर भी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और किसी व्यथित मनुष्य के लिए नुकसान का उपाय विशेष रूप से कंपनी के खिलाफ किया जायेगा।

44. जब्ती प्रावधानों के आवेदन

यह प्रावधान जब्ती के रूप में प्रस्तुत करते हैं, किसी भी राशि का भुगतान न करने के मामले में जो एक शेयर जारी करने की शर्तों के द्वारा एक निश्चित समय पर देय हो, जो एक ही बार में दिया गया था जो की एक कॉल के द्वारा विधिवत बनाया गया और अधि सूचित है।

शेयरों का हस्तांतरण और संचरण

45. हस्तांतरण के रूप

किसी भी शेयर का हस्तांतरण लिखित रूप में धारा 56 के तहत में किया जाएगा।

46. हस्तांतरण के साधन के निष्पादन

हस्तांतरण के हर तरह के साधन अंतरणकर्ता और अंतरिती दोनों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा अंतरणकर्ता तब तक ऐसे शेयर का होल्डर रहेगा जब तक अंतरिती का नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाये।

47. कंपनी, अंतरणकर्ता और अंतरिती को अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

48. स्थानांतरण का साधन शीर्षक का सबूत के साथ प्रस्तुत करने के लिए

हर हस्तांतरण का साधन कंपनी के लिए विधिवत निष्पादन की तिथि के साठ दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए मुहर लगाकर प्रस्तुत किया जायेगा और इतना कम समय जैसा बताया गया है दिए गए कानून के तहत, रिश्तेदार शेयर प्रमाणपत्र और इस तरह के सबूत जैसे की बोर्ड को अपने हस्तांतरण के अधिकार को शेयर्स को हस्तांतरण करने के लिए और आम तौर पर ऐसे हालातों में और ऐसे नियमों में जैसा की बोर्ड समय समय पर लिखित रूप में देता है और हर पंजीकृत साधन कंपनी के अधिकार में रहेगा जब तक की बोर्ड के निर्देशकों की आज्ञा से नष्ट न किया जाये कंपनी के कानून के तहत।

49. मृतक सदस्य के शेयरों का शीर्षक

निष्पादकों या प्रशासकों या एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र धारकों या मृतक के कानूनी प्रतिनिधि (जो दो में से एक न हो या संयुक्त या अधिक संयुक्त होल्डर्स) वही व्यक्ति मान्यता प्राप्त होंगे जिसके पास पंजीकृत शेयर्स का कोई शीर्षक होगा कंपनी इस तरह के एक्सेक्यूटर्स प्रतिनिधियों प्रशासकों या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या कानूनी धारकों को पहचानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, या जब तक उनके पास कि पहले प्रोबेट या प्रशासन का पत्र प्राप्त या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या अन्य कानूनी प्रतिनिधित्व न हो ऐसा कैसे भारत

संघ में विधिवत गठित अदालत में हो सकता है, बशर्ते कि अपनी पूर्ण विवेक से किसी भी मामले में जहां बोर्ड में ठीक समझे, बोर्ड प्रोबेट या पत्र के उत्पादन के साथ डिस्पेंसेस कर सकता है। प्रशासन या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, के रूप में इस तरह के शब्दों पर की क्षतिपूर्ति या अन्यथा बोर्ड के रूप में, अपने पूर्ण विवेक में सोच सकते हैं। आवश्यक और अनुच्छेद 51 के तहत किसी भी व्यक्ति का नाम रजिस्टर कौन बिल्कुल शेयरों के नाम में खड़ा करने का हकदार होने का दावा एक सदस्य के रूप में मृतक के सदस्य।

50. दिवाला या शेयरों के एक या एक से अधिक संयुक्त धारकों के परिसमापन

दिवाला या एक या एक से अधिक व्यक्तियों के परिसमापन के मामले में किसी भी शेयर के संयुक्त-धारकों के सदस्यों के रजिस्टर में नाम शेष धारक या धारकों केवल व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाएगा। बचे हुए धारक या धारकों केवल वे लोग होंगे जो कंपनी के द्वारा पहचाने जायेंगे जिनके पास कोई शीर्षक होगा कोई रुचि होगी ऐसे शेयर में लेकिन संपत्ति के जारी करने के निहित यहाँ कुछ भी नहीं लिया जाएगा जो आयोजित शेयरों से दिवालिया है या परिसमापन के तहत व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।

51. ऐसे व्यक्तियों का पंजीकरण जो हस्तांतरण के अलावा हकदार हैं

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसा व्यक्ति जो उन शेयर्स का हकदार बनता है मौत, पागलपन, दिवाला, दिवाले के परिणामों में शेयर या किसी भी सदस्य के परिसमापन, किसी भी नियम के तहत के अलावा हस्तांतरण द्वारा इस अधिनियम के तहत के ऐसे सबूत दिए जा सकते हैं जो समय समय पर बोर्ड और लेख द्वारा दिए गए हैं चुने गए हैं या; (क) खुद के धारक के रूप में पंजीकृत करके भाग्य या (ख) मृतक के रूप में या शेयर के इस तरह के हस्तांतरण बनाने के लिए दिवालिया सदस्य बनाया जा सकता था। बोर्ड करेगा, हर मामले में बोर्ड को सामान अधिकार है पंजीकरण को निलंबित और रद्द करने का ऐसा किया जा सकता है अगर मृत्यु या दिवालिया सदस्य ने अपना शेयरमृत्यु या दिवालिया पन से पहले स्थानांतरित कर दिया हो फिर भी, उसके संबंध के लिए प्रदान की जाती है कि वह व्यक्ति जो अपने उम्मीदवार का चुनाव और पंजीकरण करेगा। पद के पक्ष में निष्पादन के द्वारा अपने उम्मीदवार के चुनाव की गवाही देगा प्रावधानों के अनुसार पद के उम्मीदवार के हस्तांतरण के साधन यहाँ निहित है, और जब तक वह ऐसा करता है, वह किसी भी शेयर्स की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जाएगा।

52. हस्तांतरण या प्रसारण पर शुल्क

कोई शुल्क हस्तांतरण, संचरण पर कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और पत्र प्रशासन, मृत्यु का प्रमाण पत्र या शादी, वकील या इसी तरह के अन्य दस्तावेज की शक्ति।

53. स्थानान्तरण के रजिस्टर रखा जाना

कंपनी एक किताब रखेगी जो स्थानांतरण के रजिस्टर के नाम से जानाजायेगा और उसमें काफी और साफ तौर पर दर्ज किया जाएगा हर के ब्यौरे हस्तांतरण या किसी भी शेयर का संचरण।

54. हस्तांतरण पुस्तकों को बंद किया जाना

बोर्ड में कम से कम सात दिन देने की शक्ति होगी इ, या इस तरह के कम अवधि के रूप में लागू कानून, पूर्व सूचना के तहत निर्धारित किया जा सकता है, इस तरह के तरीके के रूप में विज्ञापन से कम से कम एक बार, निर्धारित किया जा सकता जिले के प्रिंसिपल स्थानीय भाषा में स्थानीय भाषा के अखबार और जगह में एक व्यापक प्रचलन होने जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय हो एक अंग्रेजी अखबार में अंग्रेजी भाषा जो जिले में बहुत अधिक बांटा जाता हो जहाँ पर कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है और सूचना प्रकाशित किया जाता है पें केंद्र सरकार द्वारा और वेबसाइट पर अधिसूचित किया जा सकता वेबसाइट कंपनी के सदस्य ट्रांसफर खातों को बंद करने के लिए, रजिस्टर या ऐसे समय या समय पर और ऐसी अवधि के लिए डिबेंचर धारकों के रजिस्टर या अवधि के लिए एक बार में तीस दिन से अधिक नहीं है और कुल में से पैंतालीस दिन, या इस तरह के कम अवधि के रूप में के तहत निर्धारित किया जा सकता लागू कानून, प्रत्येक वर्ष में यह समीचीन समझे।

55. निदेशक स्थानान्तरण रजिस्टर करने के लिए मना कर सकते हैं

अधिनियम के प्रावधानों, इन लेखों, के रूप में संशोधन, और किसी के अधीन अन्य लागू कानून, बोर्ड, अपनी पूर्ण और अनियंत्रित पर विवेक के किसी भी सत्ता के अनुसरण में है कि क्या कारण के साथ मना कर सकें

इन लेख या अन्यथा के तहत कंपनी के रजिस्टर या स्वीकार करने के लिए के हस्तांतरण, या अधिकार के कानून के आपरेशन के द्वारा प्रसारण के लिए, किसी भी शेयर, पूरी तरह से भुगतान किया जाए या नहीं, या उसमें एक सदस्य के हित, या कंपनी, और इनकार के अधिकार के डिबेंचर, प्रभावित नहीं किया जाएगा हालात है कि प्रस्तावित अंतरिती पहले से ही एक सदस्य है द्वारा कंपनी लेकिन इस तरह के मामलों में, और कंपनी तीस दिनों के भीतर करेगा या इस तरह के कम अवधि के रूप में लागू कानून के तहत निर्धारित किया जा सकता है, से जिस तारीख को हस्तांतरण के साधन, या इस तरह की सूचना ट्रांसमिशन, जैसा भी मामला हो, कंपनी को दिया गया था, हो सकता है भेजने अंतरिती करने से इनकार और अंतरणकर्ता या व्यक्ति का नोटिस इस तरह के प्रसारण की सूचना दे रही है, जैसा भी मामला हो सकता है। बशर्ते कि एक हस्तांतरण के पंजीकरण पर इनकार नहीं किया जाएगा अंतरणकर्ता के मैदान या तो अकेले या संयुक्त रूप से किसी अन्य के साथ किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों अकाउंट में कंपनी को ऋणी जो भी है, जहाँ कंपनी के शेयर पर एक धारणाधिकार है छोड़कर में स्थानांतरण जो भी बहुत से इनकार कर दिया नहीं किया जाएगा।

56. कानून के आपरेशन के द्वारा संचरण के माध्यम से शेयरों के लिए विशेषाधिकार

अनुच्छेद 48 में निहित कुछ नहीं के किसी भी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव करेगा कंपनी के शेयरधारक के रूप में करने के लिए किसी भी व्यक्ति को रजिस्टर करने के लिए जिसे किसी भी करने के लिए सही कंपनी के शेयरों में कानून के आपरेशन के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

57. कानूनी प्रतिनिधि द्वारा स्थानांतरण

एक मृतक की कंपनी में शेयर या अन्य हित का स्थानांतरण कानूनी प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, हालांकि कानूनी प्रतिनिधि खुद एक सदस्य नहीं है, वह एक सदस्य है अगर वह गया था एक हस्तांतरण के साधन के निष्पादन के समय।

58. कंपनी का हस्तांतरण मना करने की शक्ति

इनमें से कुछ भी नहीं कंपनी की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और कंपनी के प्रावधानों के अधीन किसी भी शेयरों के हस्तांतरण रजिस्टर करने के लिए मना अधिनियम, इन लेखों, के रूप में संशोधन।

59. अंतरणकर्ता उत्तरदायी तक अंतरिती रजिस्टर पर दर्ज किया

अंतरणकर्ता जब तक इस तरह के शेयरों के धारक रहने के लिए समझा जाएगा अंतरिती के नाम पर सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है उसका सम्मान करते हैं।

60. हस्तांतरण के कस्टडी

हस्तांतरण का साधन पंजीकरण के बाद से रखा जाएगा कंपनी और उसके कस्टडी में रहेंगे। हस्तांतरण के सभी उपकरणों जो निर्देशक रजिस्टर करने के लिए मांग पर करने के लिए वापस आ जाएगा गिरावट हो सकती है निदेशक सभी हस्तांतरण साधनों को तबाह कर सकते हैं जो कंपनी के साथ झूठ बोल कर की गयी हैं।

61. एक नोटिस की उपेक्षा के लिए. कंपनी जिम्मेदार नहीं

कंपनी कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं लेती है जो कुछ भी उनके पंजीकरण के परिणाम या शेयरों के किसी भी हस्तांतरण करने के लिए दे रही है प्रभाव बनाया या उसके स्पष्ट कानूनी मालिक द्वारा किए जाने के लिए तात्पर्यित (जो सदस्यों के रजिस्टर में दिखाया गया या या प्रदर्शित किया गया) व्यक्तियों के हितों के प्रतिकूल या करने के लिए या में किसी भी न्यायसंगत सही शीर्षक या ब्याज का दावा एक ही शेयरों के बावजूद है कि कंपनी के नोटिस था हो सकता है। इस तरह न्यायोचित अधिकार शीर्षक या ब्याज या नोटिस में इस तरह के पंजीकरण पर रोक लगाने के हस्तांतरण और किसी में इस तरह के नोटिस में प्रवेश किया या बहां भेज सकता है कंपनी और कंपनी की पुस्तक बाध्य नहीं किया जाएगा या आवश्यक या संबंध या में भाग लेने या किसी भी सूचना है जो करने के लिए दिया जा सकता है को प्रभावी किसी भी

न्यायसंगत शीर्षक या ब्याज या उन्हें किसी भी दायित्व के तहत किया मना कर या ऐसा करने की उपेक्षा करते हैं, हालांकि यह हो सकता प्रवेश किया है या कर दिया गया है कंपनी के कुछ किताब में भेजा, लेकिन फिर भी कंपनी को करने की आजादी होगी संबंध और किसी भी तरह की सूचना के लिए भाग लेने और प्रभाव देने के लिए, अगर निदेशक को सही लगता होगा।

62. डिबेंचरों की स्थानांतरण

इन लेखों के प्रावधानों और यथोचित परिवर्तन सहित लागू आवंटन या हस्तांतरण के अधिकार का कानून द्वारा संचरण कंपनी के डिबेंचर।

63. (1) अंक, अधिग्रहण और सेबी के नियमों के अधीन शेयरों का अर्जन

इन लेखों में निहित करने के लिए कुछ होते हुए भी इसके विपरीत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) के प्रावधानों (स्टॉक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों) विनियम, 2012 या किसी भी संशोधन के सिवा, जैसा भी मामला हो सकता है, मुद्दा, अधिग्रहण के संबंध में लागू नहीं होगा और 26 कंपनी के इक्विटी शेयरों को होल्ड करना।

(2) हस्तांतरण पर प्रतिबंध

जैसा पूर्वगामी लेख में और पक्षपात के बिना प्रदान के रूप में लेख 55 के प्रावधानों के एक सदस्य के शेयर ट्रांसफर करने के लिए आजादी होगी। हालांकि बशर्ते कि बोर्ड अपनी राय में यदि हस्तांतरण मना कर सकते हैं

(क) हस्तांतरण कर सकते हैं प्रासंगिक सेबी परिपत्रों और निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार से अन्यथा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंजों और विलयिंग निगमों) विनियम, 2012 या किसी भी संशोधन के सिवा, के रूप में मामला हो सकता है, या;

(ख) हस्तांतरण, अगर बनाया, कंपनी के हित में नहीं होगा।

शेयरों का स्टॉक में परिवर्तन

64. शेयरों का स्टॉक में परिवर्तन और पुनः परिवर्तन

निदेशक कंपनी के एक संकल्प की मंजूरी के साथ सामान्य बैठक में शेयर में किसी भी चुकता शेयरों में परिवर्तित कर सकता और किसी भी संप्रदाय का पेड-अप शेयरों में अल एल या किसी भी शेयर में परिवर्तित कर सकता है जब किसी भी शेयर को स्टॉक में तब्दील कर दिया गया है, तब उस स्टॉक के कई धारक उनके संबंधित हितों को उसमें शेयर के किसी भी भाग किसी भी तरीके किसी भी अधिनियम में पूरी तरह से चुकता किया शेयर कंपनी की पूंजी में हस्तांतरित परिस्थित के अनुसार किया जा सकता है।

65. शेयरधारकों के अधिकार

शेयर क्रमशः उसके धारकों को वही लाभ प्रदान करेगा जब कंपनी विशेषाधिकारों और लाभ के रूप में कंपनी की बैठक में मतदान के संबंध और अन्य प्रयोजनों के लिए के रूप में बराबर के शेयरों से सम्मानित किया गया जायेगा शेयरों के रूप में एक ही श्रेणी की कंपनी की राजधानी में राशि जिसमें से इस तरह के शेयर में बदल जाती है लेकिन इतना है कि इस तरह के विशेषाधिकार से कोई भी या लाभ, कंपनी के या में मुनाफे में भागीदारी को छोड़कर समापन पर कंपनी की संपत्ति, किसी भी तरह के द्वारा सम्मानित किया जाएगा शेयरों के रूप में शेयरों में मौजूदा यदि नहीं होता है आवंटित शेयर का हिस्सा इस तरह के विशेषाधिकार या लाभ में सम्मानित किया गया।

इस तरह के प्रभावित या उस से जुड़ी किसी भी वरीयता या अन्य विशेष विशेषाधिकार पूर्वाग्रह शेयरों का रूपांतरण नहीं करेगा। उपयुक्त सभी प्रावधानों के साथ सहेजेंजैसे अब तक रूप में परिस्थित्यों होंगी स्टॉक और शेयर्स पर लागू होंगी।

पूंजी की वृद्धि कमी और परिवर्तन

66. पूंजी की वृद्धि

कंपनी समय-समय पर सामान्यबैठक में अपनी प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ा सकती है और अधिक शेयर उन रशिओं पर देने पर जिन्हें वो फायदेमंद समझते हैं।

67. पूंजी का फिर से जारी करना

(1) जहां किसी भी समय बोर्ड या कंपनी में, आगे शेयर जारी द्वारा सदस्यता पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव जैसा भी मामला हो, हो सकता है, तो ऐसे शेयरों की धारा 62 के प्रावधानों को देने की पेशकश की जाएगी, विषय अधिनियम, नियम और उसके अधीन बनाए गए –

(क) (1) उन व्यक्तियों को जो पेशकश की तारीख में जो इक्विटी शेयर के धारक हैं उस अनुपात में कंपनी के शेयरों के रूप में परिस्थितियों के उन शेयरों पर चुकता शेयर पूंजी द्वारा की बात कबूल की

परिस्थितियों में (द्वितीय) के लिए उल्लेख करने के प्रस्ताव को विषय का एक पत्र भेज

(2) के (3) नीचे;

(2) ऊपर दिए गए प्रस्ताव में शेयर्स की संख्या निर्देश देगी 95 दिन की समय सीमा में और तीस दिन की अधिकतम सीमा में तिथि से प्रस्ताव देगी अगर उस समय में प्रस्ताव को नहीं माना गया तो वह समाप्त हो जायेगा

(3) ऊपर दिए गए प्रस्तावमें सही तरीके से उस व्यक्ति को पूर्वोक्त एक सही प्रयोग शामिल करने के लिए समझा जाएगा और उनमें से दुसरे व्यक्ति के लिए सूचना उप खंड में दी गयी है। उप-खंड में (पप) इस अधिकार में एक बयान होगा।

(4) नोटिस में निर्धारित समय की समाप्ति के बाद बाद और पहले की सूचना प्राप्त करने पर जिसे यह सूचना दी गया है यह व्यक्ति दिए गए शेयर को अस्वीकार कर सकता है निर्देशकों का बोर्ड उसे इस तरीके से बेच सकता है जिसमें कंपनी और शेयरहोल्डर का नुकसान न हो।

(ख) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) के प्रावधानों के अधीन (स्टॉक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों) विनियम, 2012 या किसी संशोधन के सिवा, कर्मचारियों के किसी भी योजना के तहत कर्मचारियों को विशेष संकल्प कंपनी और द्वारा पारित करने के लिए स्टॉक विकल्प के विषय नियम और इस तरह के अन्य शर्तों के अधीन, के रूप में निर्धारित किया जा सकता लागू कानून के तहतय; या

(ग) किसी भी व्यक्ति (ओं) के लिए, यह एक विशेष संकल्प द्वारा अधिकृत है, तो चाहे या न उन व्यक्तियों व्यक्तियों खंड (ए) या खंड में निर्दिष्ट शामिल (बी) या तो नकदी के लिए या एक विचार नकदी के अलावा अन्य, अगर के लिए ऊपर ऐसे शेयरों की कीमत एक के मूल्यांकन की रिपोर्ट से निर्धारित होता है नीचे के रूप में निर्धारित किया जा सकता है इस तरह की स्थितियों के लिए पंजीकृत दाम लगानेवाला विषय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों।

(2) उप-खंड की कोई बात (पपप) खंड (1) (ए) का समझा जाएगा –

(1) समय के भीतर जो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाना चाहिए का विस्तार करने के लिए; या

(2) के लिए त्याग का अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करने के लिए जिसके पास त्याग का समझोता करने का अधिकार हो दूसरी बार इस आधार पर जिसके लिए त्याग का समझोता पहली बार आस्विकारित हो शेयर लेने के लिए त्याग का समझोता में ले सकता है

- (3) इस अनुच्छेद की कोई सदस्यता ली हुई पूंजी की वृद्धि करने के लिए लागू नहीं होगी। एक विकल्प के द्वारा जारी किये गए डिबेंचर या कंपनी द्वारा उठाए गए ऋण को परिवर्तित करने के लिए डिबेंचर या शेयरों में ऋण कंपनी की सदस्यता के लिए कंपनी के शेयर:

परंतु ऐसा डिबेंचर या ऋण के मुद्दे के संदर्भ युक्त इस तरह के एक विकल्प के इस तरह के डिबेंचर जारी करने से पहले अनुमोदित किया गया है या एक विशेष प्रस्ताव एक में कंपनी द्वारा पारित द्वारा ऋण की स्थापना सामान्य बैठक।

- (4) अनुच्छेद 67(3) में किसी बात के होते हुए भी करण, जहां किसी को भी डिबेंचर जारी किए गए हैं, या किसी भी ऋण से प्राप्त किया गया है कंपनी द्वारा सरकार, और कहा कि सरकार यह मानती है कि अगर

जनता के हित में आवश्यक ऐसा करने के लिए, यह हो सकता है, आदेश द्वारा, प्रत्यक्ष है कि इस तरह डिबेंचर या ऋण या उसके किसी भाग में शेयरों में परिवर्तित किया जाएगा। इस तरह के नियम और शर्तों पर कंपनी के रूप में सरकार को दिखाई मामले की परिस्थितियों में उचित होगा, भले ही के मामले

ऐसे डिबेंचर के मुद्दे या इस तरह के ऋण की स्थापना के लिए एक शब्द शामिल नहीं हैं। इस तरह के रूपांतरण के लिए एक विकल्प के लिए उपलब्ध कराने के लिए:

बशर्ते कि जहां नियमों और इस तरह के रूपांतरण की स्थिति नहीं हैं। कंपनी के लिए स्वीकार्य है, यह हो सकता है, की तिथि से साठ दिनों के भीतर इस तरह के आदेश का संचार, राष्ट्रीय कंपनी कानून के लिए अपील ट्रिब्यूनल जो करेगा कंपनी और सरकार के पास सुनने के बाद पास करेगा इस तरह के आदेश में इसे ठीक समझे।

शेयरों का एक और मुद्दे के रूप में किसी भी तरीके से किया जा सकता है बोर्ड द्वारा पेशकश को या निजी के माध्यम से सहित निर्धारित कर सकते हैं। नियुक्ति, और अधिनियम के अनुसार विषय और बनाए गए नियमों के अधीन।

68. आम बैठक के नियंत्रण के अधीन शेयर

इसके अलावा उसको तोड़े बिना और उद्देश्य पूरा करने के लिए शक्तियों से लेख 8 के तहत निदेशक को प्रदत्त में जनरल कंपनी अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों के अनुसार मई की बैठक में तय है कि किसी भी शेयर (की मूल पूंजी का हिस्सा बनाने के लिए कि क्या कंपनी या नहीं) (चाहे वह सदस्यों को ऐसे व्यक्तियों के लिए पेशकश की जाएगी या इस तरह के अनुपात में कंपनी के डिबेंचर या नहीं) के धारकों और इस तरह के नियम और शर्तों और या तो या एक प्रीमियम पर या बराबर पर पर (अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन) इस तरह आम बैठक के रूप में एक छूट का निर्धारण करेगा।

69. मूल पूंजी के रूप में भी

इसके सिवाय अब तक के रूप में अन्यथा इस मुद्दे का या इन शर्तों द्वारा प्रदान आगे शेयर जारी द्वारा उठाए गए किसी भी पूंजी माना जाएगा प्रस्तुतमूल पूंजी की और भाग यहाँ प्रावधानों के अधीन होगा

कॉल और किशतों के भुगतान के संदर्भ में निहित है, उसका स्थानांतरण और प्रसारण, जब्ती, धारणाधिकार, समर्पण, और अन्यथा मतदान।

70. पूंजी में कमी

विशेष संकल्प द्वारा समय-समय पर कंपनी ने अपनी पूंजी में अपनी हिस्सेदारी कम की (यदि कोई हो तो कैपिटल मुक्ति रिजर्व खाते भी शामिल हैं) जिस तरह से कानून द्वारा और विशेष रूप से अधिकृत किसी भी चुकता शेयर बंद का भुगतान कर सकते हैं उसी स्तर पर पूंजी है कि इसे फिर से या अन्यथा और अगर दोबारा से लिया जा सकता है, और अब तक के रूप में आवश्यक मात्रा को कम करने के द्वारा अपने ज्ञापन में परिवर्तन करके अपने हिस्से की शेयर पूंजी को घटाया जा सकता है।

71. डिवीजन और सब-डिवीजन

कंपनी सामान्य बैठक में साधारण संकल्प द्वारा अपना ज्ञापन बदल सकती है। अपने ज्ञापन की शर्तों के इस प्रकार है —

- (क) शेयरों में सभी या अपनी शेयर पूंजी के किसी भी विभाजित मजबूत और बड़े अपने मौजूदा शेयरों की तुलना में राशिय बशर्ते कि कोई समेकन और विभाजन जो शेयरधारकों के मतदान प्रतिशत में परिवर्तन में परिणाम होगा जब तक कि उस पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने मंजूरी दे दी है निर्धारित तरीके से किए गए एक आवेदन का प्रभाव होगा।

- (ख) उप-विभाजित शेयर या उस से छोटी राशि के शेयरों में उनमें से किसी कोमूल रूप से करने के लिए फिर भी ज्ञापन विषय द्वारा तय करके उस निमित्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इन प्रस्तुत करने के लिए विषय संकल्प है जिसके द्वारा किसी भी शेयर उप-विभाजित के रूप में हैं निर्धारित कर सकते हैं कि इस तरह के उप-विभाजन एक या से

उत्पन्न शेयर धारकों के बीच ऐसे शेयरों की अधिक किसी भी वरीयता या लाभ दिया जा सकता है या अन्यथा दूसरों या किसी अन्य ऐसे शेयरों पर भी।

- (ग) रद्द शेयरों जो इस प्रकार की आम बैठक की तारीख में नहीं है ले लिया है या किसी भी व्यक्ति द्वारा ले लिया है और कम किए जाने की सहमति व्यक्त की गई शेयरों की राशि इसलिए रद्द कर गयी।

संयुक्त धारकों

72. संयुक्त धारकों

जहां दो या अधिक व्यक्ति किसी भी शेयर धारकों के रूप में पंजीकृत हैं जिस व्यक्ति का पहले सदस्यों के रजिस्टर में नाम होगा उसे ही कंपनी विषय के साथ जुड़े मामलों के लिए एकमात्र धारक माना जायेगा

निम्न और अन्य लेख में निहित प्रावधानों:

- (क) कंपनी चार से अधिक संयुक्त धारकों के रूप में व्यक्तियों को किसी भी शेयर की पंजीकृत करने से मना करने की हकदार होगी।
- (ख) किसी भी शेयर के संयुक्त धारक अलग-अलग रूप में अच्छी तरह से संयुक्त रूप से सभी कॉल्स और अन्य भुगतान के संबंध में जो किया जाना चाहिए। इस तरह के शेयर के संबंध में उत्तरदायी होंगे।
- (ग) ऐसे किसी भी संयुक्त धारकों की मृत्यु होने पर, उत्तरजीवी (ओं) केवल कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त साझा करने के लिए किसी भी शीर्षक होने के रूप में हो जाएगा, लेकिन निदेशक को उस व्यक्ति (यों) की मौत का सबूत की आवश्यकता हो सकती है और यहाँ निहित एक संयुक्त रूप साथ किसी अन्य व्यक्ति (यों) से उसके द्वारा धारित शेयरों पर किसी भी दायित्व से संयुक्त धारक मृतक की संपत्ति जारी करने के लिए कुछ भी नहीं लिया जाएगा।
- (घ) इस तरह के संयुक्त धारकों में से कोई एक किसी के लिए अमोघ प्राप्ति दे सकता है लाभांश या अन्य पैसा इस तरह के शेयर के संबंध में देय होगा।
- (ङ) केवल व्यक्ति जिसका नाम के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में पहले लिखा होगा किसी भी शेयर की संयुक्त धारकों से एक की डिलीवरी करने का हकदार होगा इस तरह के शेयर या से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दस्तावेज (जो 188 अभिव्यक्ति सभी दस्तावेजों लेख में उल्लेख शामिल करने के लिए समझा जाएगा) कंपनी है और या दस्तावेजपर कार्य किसी भी सूचना से करने के लिए दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को सभी संयुक्त धारकों पर सेवा समझा जाएगा।
- (च) दो या अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक किसी भी बैठक में मतदान कर सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से या वकील या ऐसे शेयरों के संबंध में परोक्ष रूप से यदि वह पूरी तरह वहां हकदार थे और यदि इस तरह के संयुक्त धारकों के एक से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी भी बैठक में या परोक्ष रूप से या वकील से जिसका नाम पहले या उच्च खड़ा है (जैसा की ऐसे शेयरों के संबंध में रजिस्टर पर भी मामला हो) अकेले हो जाएगा उसके संबंध में मतदान करने के हकदार हैं, लेकिन दूसरे को या संयुक्त धारक की दूसरों वकील द्वारा उपस्थित एक संयुक्त धारक को वरीयता में मतदान करने का हकदार होगा या हालांकि इस तरह के संयुक्त वकील द्वारा वर्तमान धारकों के नाम पर परोक्ष रूप से या प्रवृत्ति में रजिस्टर में पहली या उच्च (जैसा भी मामला हो) खड़ा है ऐसे शेयरों के संबंध।

उधार देने से संबंधित शक्तियां

73. शर्तों पर पैसा उधार लिया जा सकता है

अधिनियम, बोर्ड समय-समय पर एक उपबंध के अधीन, संकल्प बोर्ड की बैठक में पारित कर जमा स्वीकार या उधार धन के सदस्यों से, या तो कॉल के अग्रिम में या अन्यथा या स्वीकारजनता से जमा और आम तौर पर बढ़ाने के लिए और के भुगतान को सुरक्षित कर सकते हैं। इस तरह के योग या इस तरह के तरीके में और इस तरह के नियम और शर्तों पर रकम सभी मामलों में वे सही और बांड जारी करने से विशेष रूप से सोचने के रूप में, सदा या प्रतिदेय डिबेंचर या डिबेंचर या डिबेंचर शेयर, या किसी भी बंधक या शुल्क या उपक्रम या पूरे पर अन्य सुरक्षा या कंपनी की संपत्ति के किसी भी हिस्से (दोनों वर्तमान और भविष्य)

कुछ समय के लिए अपने अनपेक्षित धन भी शामिल है।

74. बांड, डिबेंचर आदि निदेशक के नियंत्रण के अधीन हो

किसी भी बांड, डिबेंचर, डिबेंचर शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जारी करने के लिए या कंपनी द्वारा जारी किया गया निदेशक के नियंत्रण के अधीन किया जाएगा उन्हें इस तरह के नियम और शर्तों पर और इस तरह के तरीके में जारी कर सकता है जो और इस तरह के विचार के लिए वे कंपनी के रूप में लाभ के लिए होने पर विचार करेगा।

75. सिक्वोरिटीज इक्विटी से आबंटित मुक्त हो सकती हैं
डिबेंचर, डिबेंचर शेयर, बांड या अन्य सिक्वोरिटीज आबंटित मुक्त और कंपनी के लिए और व्यक्ति के बीच इक्विटी जिसे एक डिस्काउंट, आदि पर या विशेष विशेषाधिकारों के साथ ही जारी किया जा सकता है।
76. डिस्काउंट, आदि पर या विशेष विशेषाधिकार के साथ मुद्दे
किसी भी बांड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या अन्य ऋण प्रतिभूतियों हो सकती हैं। एक डिस्काउंट, प्रीमियम पर या अन्यथा और पर जारी किया जा सकता शर्त यह है कि वे किसी भी संप्रदाय के शेयरों में परिवर्तनीय होंगे और मोचन, समर्पण, ड्राइंग, आवंटन के रूप में कोई विशेष विशेषाधिकार के साथ शेयरों की, कंपनी की आम बैठक में भाग लेने, नियुक्ति निदेशकों और में रूपांतरण के अधिकार के साथ अन्यथा डिबेंचर या
शेयरों के आवंटन में ही कंपनी की एक विशेष संकल्प द्वारा सामान्य बैठक में सहमति से जारी किया जाएगा।
77. अनावश्यक पूँजी के बंधक
कंपनी के किसी भी अनावश्यक पूँजी में शामिल या किसी ने आरोप लगाया है तो बंधक या अन्य सुरक्षा निदेशक में व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकते हैं जिसके पक्ष ऐसे बंधक या सुरक्षा निष्पादक या किसी अन्य भरोसे वाला व्यक्ति उसे इस तरह के अनावश्यक के संबंध में सदस्यों पर कॉल करने के लिए पूँजी और प्रावधानों के साथ साथ पहले फोन करने के संबंध में समाहित करेगा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस तरह के अधिकार और इस तरह के तहत किए गए कॉल करने के लिए आवेदन प्राधिकारी या तो सशर्त या बिना शर्त प्रयोग किया जा सकता है और या तो वर्तमान या दैवयोग से और या तो का बहिष्कार करने के लिए बोर्ड की शक्ति है या नहीं तो और, आबंटित किया जाएगा यदि करने के लिए इतना व्यक्त हो सकता है।
78. क्षतिपूर्ति दी जा सकती है
यदि निदेशक या उनमें से कोई या किसी अन्य व्यक्ति राशि के भुगतान के लिए मुख्य रूप से कारण के लिए उत्तरदायी बन जाएंगे तो व्यक्तिगत रूप से किसी भी कंपनी के निदेशक द्वारा निष्पादित या किसी को भी क्रियान्वित किया जा सकता है बंधक, प्रभारी या निष्पादक या पूरे या के किसी भी भाग को प्रभावित
क्षतिपूर्ति के माध्यम से कंपनी की परिसंपत्तियों के निदेशकों को सुरक्षित करने के लिए या इसलिए इस तरह के व्यक्ति के संबंध में किसी भी नुकसान से उपरोक्त के रूप में उत्तरदायी बनने देयता।
79. आरोपों का रजिस्टर रखा जाना
बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी बंधक, डिबेंचर और आरोपों के विशेष रूप से कंपनी की संपत्ति को प्रभावित कर रहा है, और विधिवत अनुपालन करेगा और एक उचित रजिस्टर रखेगा पंजीकरण के संबंध में उक्त अधिनियम की आवश्यकताओं के साथ आरोप बनाने उपकरणों बंधक और शुल्क और निरीक्षण के संबंध में दिए जाने की लेनदारों या शुल्क और की प्रतियों के रजिस्टर के सदस्य के रूप में द्वारा निर्धारित किया जा सकता ऐसी रकम अधिनियम के एक लेनदार या सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति प्रभार के रजिस्टर में से प्रत्येक के निरीक्षण के लिए कंपनी द्वारा देय होगी बैठकें।
80. वार्षिक सामान्य बैठक
(क) (1) कंपनी, किसी भी अन्य बैठक के अलावा एक सामान्य बैठक धारण करेगी जिसे 'वार्षिक सामान्य बैठक' के रूप में माना जायेगा पर अंतराल और प्रावधानों, नीचे निर्दिष्ट के अनुसार:
(2) कंपनी की पहली वार्षिक सामान्य बैठक, करने के बाद वार्षिक सामान्य बैठक छह महीनों के भीतर कंपनी द्वारा आयोजित की जाएगी, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद के जो पहले जनरल बैठक का आयोजन किया गया थाय और उसके बाद कंपनी द्वारा हर साल आयोजित छह महीने के भीतर समाप्त होने के बाद एक वार्षिक सामान्य बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की जाएगी।
(3) वार्षिक सामान्य बैठक और अगली सामान्य बैठक की अवधि पन्द्रह महीनों से अधिक नहीं हो सकती है
(ख) प्रत्येक वार्षिक आम बैठक कारोबार के दौरान के समय में बुलाई जाएगी घंटे अर्थात 9 से 6 के बीच तक हो सकती है और राष्ट्रीय विश्राम की छुट्टी वाले दिन नहीं हो सकती है यह वार्षिक आम बैठक नोटिस की बैठक बुला यह रूप में निर्दिष्ट करेगा और ये पंजीकृत कार्यालय में या कंपनी या शहर के भीतर कुछ अन्य जगह पर जहां पंजीकृत कार्यालय स्थित है आयोजित किया जाएगा।
81. असाधारण सामान्य बैठक
सभी सामान्य वार्षिक सामान्य बैठक के अलावा अन्य बैठकों के नाम से जाना जाएगा अतिरिक्त असाधारण सामान्य बैठक।

82. अतिरिक्त सामान्य बैठक के कॉलिंग

- (क) बोर्ड जब भी वे ठीक समझे, कंपनी के सदस्यों की संख्या और सदस्यों की माँग पर झट से एक असाधारण आम बैठक बुला सकता है। बोर्ड जब भी वे ठीक समझे, कंपनी के रूप में इस तरह बाद में निर्दिष्ट करता है। झट से एक असाधारण सामान्य बैठक को बुला सकता है। कंपनी और ऐसी माँग निम्न प्रावधान करेगा के मामले में लागू करें:
- (ख) माँग पर विचार करने के लिए मायने रखती है बाहर सेट करेगा जिनमें से बैठक के नाम से जाना जाता है और तमुनपेजपवदपेजे द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और कंपनी का पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाएगा।
- (ग) माँग की तरह फार्म प्रत्येक में कई दस्तावेजों से मिलकर कर सकते एक या एक से अधिक तमुनपेजपवदपेजे द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
- (घ) कंपनी के सदस्यों की संख्या एक बैठक माँग के हकदार किसी भी मामले के संबंध में की तारीख में पकड़ के रूप में उनमें से इस तरह के नंबर हो जाएगा। प्रार्थना, चंपकनच की ऐसी की दसवां हिस्से से कम नहीं जमा की की तारीख में के रूप में कंपनी की राजधानी में मतदान का अधिकार रखती है उस बात के संबंध में।
- (ङ) जहां दो या अधिक विशिष्ट मामलों माँग में निर्दिष्ट कर रहे हैं, खंड (घ) के प्रावधानों के ऐसे प्रत्येक के संबंध में अलग से लागू नहीं होगी क्या बात है, और माँग के हिसाब से केवल के संबंध में मान्य होगा इस संबंध में उन मामलों के लिए जो शर्त यह है कि उप-अनुच्छेद में निर्दिष्ट पूरी हो जाती है।
- (च) बोर्ड के जमा होने की तिथि से नहीं करता है तो इक्कीस दिनों के भीतर, किसी भी मामलों के संबंध में एक वैध माँग विधिवत आगे बढ़ना एक कॉल करने के लिए एक दिन पर उन मामलों पर विचार करने के लिए बैठक नहीं की तुलना में बाद माँग की जमा से पैंतालीस दिन, बैठक हो सकती है कहा जाता है और तमुनपेजपवदपेजे द्वारा आयोजित मूल्य में या तो बहुमत का प्रतिनिधित्व के रूप में चुकता शेयर उनमें से सभी या कम से कम एक दसवें द्वारा आयोजित की राजधानी कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के इस तरह के रूप में करने के लिए भेजा जाता है खंड (घ) जो भी कम हो, की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर माँग की। हालांकि, इस खण्ड बोर्ड करेगा के उद्देश्य में, एक बैठक के मामले, जिस पर एक संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है विशेष प्रस्ताव दे, ऐसी सूचना उसके रूप में कार्य के लिए आवश्यक है;
- (छ) तमुनपेजपवदपेजे या उनमें से किसी ने एक बैठक के तहत खंड (च) कहा जाता है:
- (1), एक ही तरीके से बुलाया जाएगा के रूप में लगभग रूप में संभव है कि के रूप में जो बैठकों बोर्ड द्वारा बुलाया जा रहे हैं, लेकिन
 - (2) तारीख से तीन महीने की समाप्ति के बाद आयोजित नहीं किया जाएगा माँग की जमा कीय बशर्ते कि कुछ भी नहीं है में निहित इस उप-खंड (पप) एक बैठक विधिवत को रोकने के लिए समझा जाएगा
तीन महीने की अवधि की समाप्ति से पहले शुरू पूर्वोक्त, उस अवधि की समाप्ति के बाद कुछ दिन के लिए स्थगित से;
- (ज) जहां दो या अधिक व्यक्तियों में किसी भी शेयर या ब्याज पकड़ संयुक्त रूप से कंपनी, एक प्रार्थना है, या एक नोटिस एक बैठक बुला रहा था, ने हस्ताक्षर किए एक या उनमें से कुछ ही करेगा, इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए है एक ही शक्ति और प्रभाव के रूप में अगर यह उन सभी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था।
- (1) किसी उचित खर्च की वजह से तमुनपेजपवदपेजे द्वारा किए गए बोर्ड की विफलता एक बैठक बुलाने के लिए के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी कंपनी द्वारा तमुनपेजपवदपेजे, और इसलिए किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी किसी भी रकम के बाहर कंपनी द्वारा बनाए रखा कारण या से कारण बनने के लिए शुल्क या करने के लिए उनकी सेवाओं के लिए अन्य पारिश्रमिक के माध्यम से कंपनी निदेशक के इस तरह के रूप में डिफॉल्ट में थे।

83. बैठक की सूचना

- (क) कंपनी की एक सामान्य बैठक लेखन में इक्क्स दिन का नोटिस से कम नहीं देकर बुलाया जा सकता है;
- (ख) एक सामान्य बैठक तुलना में कम नोटिस देने के बाद बुलाई जा सकती है खंड में निर्दिष्ट (क) अगर सदस्यों की पंचानबे प्रतिशत सहमति लिखित रूप में दी है या इलेक्ट्रॉनिक मोड से दी है तो व: इस तरह की बैठक में मतदान करने के हकदार हैं।

केवल कुछ संकल्प को एक बैठक में और दूसरों पर नहीं ले जाया जा सकता है, उन सदस्यों को इस उप के प्रयोजनों के लिए खाते में रखा जाएगा पूर्व संकल्प या प्रस्तावों के संबंध में और नहीं संबंध में खंड के बाद।

84. सहमति और सूचना और व्यक्तियों की सेवा के तरीके जिस पर यह करने के लिए है
- (क) कंपनी के निर्देश में बैठक की हर जगह दिन और बैठक के घंटे, उस समय किए जाने वाले; व्यापार बयान होना चाहिए
- (ख) कंपनी की हर बैठक की सूचना दी जाएगी
- (1) कंपनी के हर सदस्य के लिए, किसी भी कानूनी प्रतिनिधि मृतक के सदस्य या एक दिवालिया सदस्य की समनुदेशितीय।
- (2) कंपनी के हर निर्देशक के लिए तथा
- (3) लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों के लिए समय के लिए किसी भी कंपनी के ढंग से किसी भी सदस्य के मामले में अधिनियम की धारा 20 द्वारा अधिकृत कंपनी के या सदस्यों में की जा रही है। चूक नोटिस बैठक में कार्यवाही रद्द करने के लिए नहीं देने के लिए।
- (ग) आकस्मिक चूक, को नोटिस या द्वारा सूचना न मिलने देने के लिए किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्ति बैठक में कार्यवाही अमान्य जिसे यह दी जानी चाहिए नहीं करेगा।
85. आम बैठक में व्यापार
- (क) एक वार्षिक सामान्य बैठक के मामले में सभी व्यापार किए जाने वाले व्यापार के अपवाद के साथ बैठक से संबंधितरु में विशेष समझा जाएगा,
- 1) वित्तीय वक्तव्यों और की बोर्ड की रिपोर्ट के विचार निदेशकों और लेखा परीक्षकों;
- 2) लाभांश की घोषणा;
- 3) उन अवकाश ग्रहण करने वाले के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति;
- 4) की नियुक्ति और लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक फिक्सिंग।
- (ख) किसी अन्य बैठक के मामले में सभी व्यापार विशेष समझा जाएगा।
- (ग) जहां व्यापार के किसी भी आइटम की बैठक में किए जाने वाले हैं उपरोक्त के रूप में विशेष समझा, वहाँ नोटिस को कब्जे में लिया जाएगा एक बयान सभी सामग्री के प्रत्येक विषय में तथ्यों को बाहर स्थापित बैठक की व्यापार के इस तरह के आइटम, विशेष रूप से चिंता का विषय की प्रकृति सहित या ब्याज, यदि कोई हो, उसमें हर निदेशक और प्रबंधक, यदि कोई हो, हर की अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और इस तरह के निदेशक, प्रबंधक के रिश्तेदारों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को उपरोक्त के रूप में विशेष व्यापार के किसी भी मद है कि कंपनी की एक बैठक में सम्पादित करने के लिए संबंधित है, या किसी अन्य को प्रभावित करता है कंपनी की है परंतु जहां होना करने के लिए कि अन्य कंपनी में शेयरधारिता ब्याज की हद हर निदेशक, प्रबंधक, यदि कोई हो, और हर दूसरे प्रमुख प्रबंधकीयकंपनी के कर्मियों को भी बयान करता है, तो में निर्धारित किया जाएगा इस तरह के शेयरहोल्डिंग कि अन्य कंपनी की चुकता पूंजी। ब्याज की हद तक कम से कम दो प्रतिशत नहीं है।
- (घ) जहां व्यापार के किसी भी मद से किसी को अनुमोदन के अनुसार मिलकर बनता है बैठक से दस्तावेज, समय और जगह है जहां दस्तावेज कर सकते हैं। निरीक्षण बयान पूर्वोक्त में निर्दिष्ट किया जाएगा।
86. साधारण और विशेष संकल्प
- (1) एक संकल्प है जब एक आम बैठक में एक साधारण संकल्प किया जाएगा जो की सूचना अधिनियम के तहत आवश्यक विधिवत दिया गया है, वोट (चाहे वह हाथ उठाकर किया गया हो, या एक पोल से जैसा भी मामला हो) में की निर्णायक मत सहित संकल्प (के पक्ष में यदि कोई हो अध्यक्ष) सदस्य जो ऐसा करने के लिए हकदार जा रहा है, व्यक्ति में वोट या द्वारा जहां परदे के पीछे की अनुमति है, परोक्ष रूप से वोट से अधिक है, यदि कोई हो, कलाकारों हकदार सदस्यों और मतदान द्वारा प्रस्ताव के खिलाफ।
- (2) एक संकल्प जब एक विशेष संकल्प किया जाएगा –
1. विधिवत सूचना आम बैठक या फोन में निर्दिष्ट किया गया और सूचना संकल्प के सदस्यों को दी दूसरा एक विशेष संकल्प किया है संकल्प प्रस्ताव करने के इरादे के रूप में किया गया और अधिनियम के तहत आवश्यक सूचना विधिवत सामान्य बैठक के लिए दिया गया है।
2. वोट संकल्प के पक्ष में डाली (के शो पर कि क्या हाथ, या एक पोल पर जैसा भी मामला हो), सदस्यों द्वारा जो, किया जा रहा है।

3. इसलिए पात्र व्यक्ति में मतदान करने के लिए, या जहां परदे के पीछे, द्वारा अनुमति दी जाती है प्रॉक्सी, यदि कोई हो, तीन बार वोटों की संख्या कम से कम इसलिए हकदार है और मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के खिलाफ डाली जाये।

87. संकल्प की आवश्यकता होती है विशेष नोटिस

- (1) जिससे किसी प्रावधान अधिनियम में या इन प्रस्तुत करने में निहित है, विशेष सूचना इरादे का नोटिस स्थानांतरित करने के लिए किसी भी प्रस्ताव के लिए जरूरी है, संकल्प के रूप में सदस्यों की इतनी संख्या से कंपनी को दी जाएगी अधिनियम, लेकिन कम से कम चौदह दिन तहत निर्धारित या पहले की तुलना में तीन महीने बैठक, जिस पर यह है पहले दिन, स्थानांतरित करने के लिए दिन के अनन्य मुलाकात और दिन जिस पर नोटिस जारी किया है या कार्य किया जा समझा जायेगा।
- (2) कंपनी, तुरंत आशय की सूचना के बाद स्थानांतरित करने के लिए करेगा किसी भी तरह के संकल्प के लिए अपने सदस्यों को नोटिस देना द्वारा प्राप्त किया गया है, एक ही तरीके से संकल्प के रूप में यह बैठक की सूचना देता है, या अगर किया तो द्वारा उन्हें उसके नोटिस देना होगा साध्य नहीं है, निर्धारित तरीके से एक अखबार में विज्ञापन प्रस्तुत करता है और इस तरह से अनुमति किसी अन्य ढंग से सूचना भी वेबसाइट, कम से कम सात दिन पहले दी जाएगी।

आम बैठक में कार्यवाही

88. आम बैठक में कोरम

अधिनियम, की धारा 103 के उपबंधों के अधीन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पांच सदस्यों के लिए आम बैठक और एक कोरम नहीं किया जाएगा तब तक व्यापार नहीं किया जायेगा जब तक उचित कोरम के कारोबार के प्रारंभ में उपस्थित हो। अपेक्षित किसी भी आम बैठक में कार्यवाही नहीं की जाएगी।

89. कुर्सी खाली होपे के समय अध्यक्ष के चुनाव में टकराव

जब तक चेयर में एक अध्यक्ष के चुनाव के रिक्त है तब तक किसी भी आम बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा लेकिन व्यापार को छोड़कर।

90. सामान्य बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष चेयर लेने का हकदार होगा

अगर कोई अध्यक्ष या यदि कोई भी बैठक आयोजित करने के लिए नियुक्त पंद्रह मिनट के भीतर उपस्थित नहीं हो या इस तरह की बैठक, या बैठक के अध्यक्ष पद के रूप में कार्य करने के लिए तैयार नहीं है तब समय के बाद उनका ऐसा करने के तयशुदा, सदस्य उपस्थित में से एक चुन लेगा।

91. कार्यवाही जब कोरम मौजूद नहीं

एक सामान्य बैठक के आयोजन के लिए नियत समय के बाद आधे घंटे के भीतर है कोरम की बैठक ब उपस्थित नहीं हो, तो शेयरधारकों की माँग भंग कर दी जाएगी और बैठक स्थगित कर दी जाएगी और अगले सप्ताह में उसी दिन फिर से बैठक रखी जाएगी या इस तरह के दूसरे दिन के लिए और ऐसे समय और स्थानों निदेशक के रूप में जगह निर्धारित कर सकते हैं। ऐसे स्थगित बैठक में तो यह भी एक कोरम नहीं हो आयोजन के लिए

नियत समय से आधे घंटे के भीतर मौजूद सदस्य उपस्थित बैठक कोरम होगी व्यापार जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी। हालांकि, एक के मामले में बैठक या बैठक के दिन, समय का एक परिवर्तन या जगह की, स्थगित कर जाएगी कंपनी को कम से कम तीन दिन पहले सदस्यों के लिए नोटिस देना होगा या तो व्यक्तिगत रूप से या अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित करने से तरीके के रूप में अधिनियम के तहत निर्धारित है।

92. स्थगित बैठक

बैठक की सहमति से अध्यक्ष समय-समय पर और जगह से जगह किसी भी बैठक को कर सकता है और जिस दिन बैठक स्थगित की जाएगी उस दिन कोई व्यापार नहीं किया जाएगा किसी भी अन्य की तुलना में स्थगित बैठक में व्यापार हो सकता है सम्पादित बैठक से स्थगन जगह ले ली पर सम्पादित कर दिया गया। यदि बैठक तीस से अधिक दिनों के लिए स्थगित कर दी है तो स्थगित बैठक का कोई नोटिस जब तक दी जानी करने के लिए आवश्यक हो जाएगा।

93. क्या जहां निधन के सबूत या संकल्प होना करने के लिए जनमत सर्वेक्षण नहीं है

किसी भी आम बैठक में एक प्रस्ताव का बैठक का वोट डाला जाए हाथ उठाकर वोट डालने से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान, और जब तक एक सर्वेक्षण है (पहले या घोषणा पर है पर फैसला हाथों की शो पर परिणाम के) तरीके से चलकर में मांग की

उल्लेख में किया है बाहर किया जाता है इसलिए अध्यक्ष द्वारा की मांग की, एक घोषणा एक संकल्प किया है कि किसी पर हाथों की शो, किया जाता है या सर्वसम्मति से किया जाता है या एक विशेष द्वारा की गई बहुमत है, या खो दिया है और कार्यवाही की पुस्तक में उस प्रभाव के लिए एक प्रवेश कंपनी के तथ्य की या इस तरह के खिलाफ सबूत निर्णायक होगी

संकल्प।

94. चुनाव के लिए मांग

(क) के पहले या किसी भी प्रस्ताव पर परिणाम की घोषणा या मतदान पर हाथ के एक शो पर, एक सर्वेक्षण के अध्यक्ष द्वारा उठाए जाने का आदेश दिया जा सकता है अपने ही प्रस्ताव की बैठक की, और द्वारा लिया जा करने के लिए आदेश दिया जाएगा किसी भी सदस्य या सदस्यों द्वारा उस निमित्त किए गए एक मांग पर उसे व्यक्ति में या प्रॉक्सी और कंपनी में पकड़े शेयरों से मौजूद –

1. जो की तुलना में कम नहीं किया जा रहा प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए एक शक्ति प्रदसंकल्प के संबंध में कुल मतदान शक्ति का दसवां या द्वितीय। जिस पर कम से कम पांच लाख रुपए की कुल राशि है पेड-अप कर दिया गया।
2. एक सर्वेक्षण के लिए मांग है, व्यक्ति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

95. जनमत सर्वेक्षण लेने के समय

- (क) एक सर्वेक्षण में एक अध्यक्ष के चुनाव पर या एक सवाल पर मांग की जाती है तोस्थगन की है, यह तत्काल और बिना स्थगन ले लिया जाएगा।
- (ख) एक जनमत सर्वेक्षण किसी अन्य सवाल पर मांग की है ऐसे समय में नहीं लिया जाएगा 48 घंटों के भीतर जब मांग रखी गयी अध्यक्ष प्रत्यक्ष कर सकते हैं।

96. अपने वोट को अलग ढंग से उपयोग करने के सदस्यों के विशेषाधिकार

एक सर्वेक्षण कंपनी की एक बैठक में लिया, एक सदस्य एक वोट से, या उसकी प्रॉक्सी या अन्य व्यक्तियों के रूप में उसके लिए वोट अधिक के हकदार मामला हो सकता है, तो वह वोट उसके सारे वोट का उपयोग करें या एक ही में डाली जाएगी जिस तरह से सभी वोट वह उपयोग करता है।

97. चुनाव में संवीक्षक

- (क) जहां एक सर्वेक्षण लिया जा रहा है, बैठक का अध्यक्ष पोल पर और रिपोर्ट करने के लिए दिए गए वोट की जांच के लिए दो संवीक्षक नियुक्त करेगा और वह अधिनियम के अधीन उसको रिपोर्ट करेंगे।
- (ख) अध्यक्ष के पास किसी भी समय शक्ति होगी, इससे पहले के सर्वेक्षण का परिणाम घोषित किया जाये अध्यक्ष कार्यालय से संवीक्षक हटा सकता है और संवीक्षक हटाने से उत्पन्न उसका रिक्त पद भर सकता है।
- (ग) इस अनुच्छेद के तहत नियुक्त दो संवीक्षक में से एक सदस्य हमेशा उपस्थितजो कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी नहीं होगा)बैठक में हाजिर होगा कि इस तरह के एक सदस्य उपलब्ध है नियुक्त किया है और होने के लिए तैयार है।

98. चुनाव और उसके परिणाम लेने के तरीके

- (क) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, बैठक के अध्यक्ष होंगे जिस तरह एक जनमत सर्वेक्षण लिया जाएगा विनियमित करने की शक्ति है।
- (ख) चुनाव के परिणाम बैठक के निर्णय होना समझा जाएगा।

99. संकल्प जिस पर चुनाव के लिए लिया गया था

वोट के लिए, चाहे हाथ के इस शो में या एक पोल पर समानता के मामले में, बैठक के अध्यक्ष, जिस पर हाथों के शो जगह लेता है या मोशन कैसे वोट की समानता के मामले में फैसला लेता है जो एक सर्वेक्षण की मांग की है पर, इसके अलावा में एक निर्णायक मत का हकदार होगा अपने ही वोट या वोट करने के लिए जो वह एक सदस्य के रूप में हकदार हो सकता है।

100. चुनाव की मांग अन्य व्यवसाय के लेनदेन को रोकने के लिए नहीं

एक सर्वेक्षण के लिए मांग के लिए किसी भी व्यवसाय के लेनदेन के सवाल के अलावा अन्य जो पोल परमांग की गई है। एक बैठक की निरंतरता को रोकने के लिए नहीं करेगा।

101. सामान्य सभा की मिनट

कंपनी सामान्य बैठक के सभी कार्यवाही के मिनट पुस्तकों में दर्ज करेंगे जो उस उद्देश्य के लिए रखा गयीं है। प्रत्येक बैठक के मिनट की एक निष्पक्ष और सही सारांश होनी चाहिए उस समय कार्यवाही। सभी अधिकारियों की नियुक्ति में से किसी में बनाया बैठक बैठक के मिनट में शामिल किया जाएगा। इसकी तरह कोई बैठकों, पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की कथित यदि जो कार्यवाही या जगह ले ली मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में एक निदेशक विधिवत के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत द्वारा कि अध्यक्ष की

उद्देश्य, कार्यवाही का सबूत होगी।

102. मिनट पुस्तकों के निरीक्षण

पुस्तकों की जनरल बैठक की कार्यवाही का मिनट युक्त कंपनी का पंजीकृत कार्यालय में रखा जाएगा और करेगा सभी कार्य दिवसों में 11 से 2 तक के बीच शुल्क के बिना किसी भी सदस्य के निरीक्षण के लिए खुला हो।

103. मिनट की प्रतियां

किसी भी सदस्य के सात दिनों के काम के भीतर प्रस्तुत किया जाना करने का हकदार होगा बाद में वह की प्रति के साथ कंपनी के निमित्त एक अनुरोध किया था। किसी भी मिनट के रूप में द्वारा निर्धारित किया जा सकता इस तरह के आरोपों पर ऊपर उल्लेख है।

सदस्यों के वोट

104. (क) हाथ के एक शो करने पर कंपनी के हर सदस्य मतदान के हकदार और व्यक्तिगत रूप से या वकील या परोक्ष रूप से उपस्थित एक मत होगा।

(ख) एक जनमत सर्वेक्षण करने पर कंपनी के हर सदस्य हैं, जो एक व्यक्ति जा रहा है वकील द्वारा या परोक्ष रूप से या एक निगम होने का व्यक्ति में मौजूद है में एक मतदान का अधिकार होगा एक प्रतिनिधि या परोक्ष रूप से मौजूद है कंपनी की चुकता पूंजी के अपने हिस्से के अनुपात।

105. कंपनी की चुकता पूंजी के निगम द्वारा मतदान

कोई भी सदस्य हैं, जो एक प्रतिनिधि द्वारा एक निगम मौजूद है विधिवत निदेशक संकल्प या इस तरह के अन्य शासी निकाय द्वारा अधिकृत अधिनियम की धारा 113 के प्रावधानों के अनुसार निगम हाथ के एक शो पर मतदान कर सकते हैं जैसे कि वह कंपनी के एक सदस्य था।

इस तरह के संकल्प की बैठक में उत्पादन विधिवत एक द्वारा हस्ताक्षर किए उसके शासी निकाय के एक सदस्य द्वारा ऐसे निगम या के निदेशक और पर करेगा संकल्प की एक सच्ची प्रतिलिपि होने के रूप में उसके द्वारा प्रमाणित बैठक में उत्पादन के लिए पर्याप्त रूप में कंपनी द्वारा स्वीकार किया उनकी नियुक्ति की वैधता का सबूत।

106. कोई सदस्य जब तक कि कॉल का भुगतान कर रहे मतदान करने के लिए

अधिनियम के प्रावधान के अधीन, कोई सदस्य होने का हकदार होगा वर्तमान या व्यक्तिगत रूप से या परोक्ष रूप से या तो किसी भी आम बैठक में मतदान करने के लिए या वकील या एक प्रॉक्सी के रूप में या शेयरों के संबंध में वकील के रूप में पंजीकृत उसके नाम पर है, जिस पर कॉल या अन्य राशि अतिदेय और करने के लिए देय होगा एक महीने से भी अधिक के लिए ऐसे सदस्यों के शेयरों के किसी के संबंध में कंपनी।

107. प्रॉक्सी के योग्यता

(क) कंपनी के किसी भी सदस्य के हकदार में भाग लेने और एक बैठक में मतदान करने के लिए कंपनी को किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने (चाहे एक हकदार होगा सदस्य या नहीं) ने अपने प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और खुद को लेकिन एक के बजाय वोट करने के लिए छद्म नियुक्त बैठक में बात करने के लिए कोई अधिकार नहीं होगा।

(ख) हर कंपनी की एक बैठक बुला नोटिस में, वहाँ दिखाई जाएगी। उचित प्रमुखता के साथ एक बयान एक सदस्य के हकदार है कि भाग लेने और मतदान प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए भाग लेने और बजाय मतदान करने का हकदार है खुद को और एक प्रॉक्सी एक सदस्य होने की जरूरत नहीं है।

108. वोट प्रॉक्सी या वकील द्वारा दी जा सकती है

वोट या तो वकील द्वारा या परोक्ष रूप से या व्यक्तिगत रूप से दिया जा सकता है एक प्रतिनिधि द्वारा एक निगम भी मामले की विधिवत पूर्वोक्त रूप में अधिकृत।

109. प्रॉक्सी के साधन के निष्पादन साधन

एक प्रॉक्सी की नियुक्ति के हाथ के नीचे लिखित रूप में नियुक्त किया जाएगा या अपने वकील या अगर ऐसी नियुक्त एक कंपनी है या अपने आम सील के तहत या विधिवत एक व्यक्ति के हाथ के नीचे निगम उस निमित्त या के तहत इस तरह कंपनी या निगम द्वारा अधिकृत अपने वकील के हाथ जो नियुक्त किया जा सकता है।

110. नियुक्ति और निरीक्षण के साधन के जमा

- (1) कोई व्यक्ति प्रॉक्सी के रूप में कार्य करेगा जब तक कि उनकी नियुक्ति के साधन और वकील या अन्य प्राधिकारी की शक्ति है, तो जिसके तहत यह एक का साइन किया गया प्राधिकरण है जो कि सत्ता के दवजंतपंससल प्रमाणित प्रतिलिपि में जमा किया जाएगा कार्यालय में कम से कम अड़तालीस घंटे में बैठक आयोजित की समय से पहलेजो प्रॉक्सी के साधन में नामित व्यक्ति को मतदान करने का प्रस्ताव है और डिफॉल्ट रूप में साधन प्रॉक्सी की नियुक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा मान्य है। कोई वकील जब तक मुख्तारनामा मतदान करने का हकदार होगा या अन्य साधन उसे वकील के रूप में नियुक्त करने के लिए या एक दवजंतपंससल प्रमाणित प्रतिलिपि क्या है या तो कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है

किसी भी समय नहीं पर बैठक के समय से पहले कम से कम अड़तालीस घंटे जो वकील मतदान करने का प्रस्ताव या कार्यालय में जमा किया जाता है कम नहीं चालीस से आठ घंटे उपरोक्त के रूप में एक ही बैठक के समय से पहले के होते हुए भी कि अटार्नी या अन्य प्राधिकारी की एक शक्ति के लिए किया गया है कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज की गई, कंपनी में नोटिस द्वारा सकता है लेखन कि वकील के सदस्य को संबोधित कम से कम सात दिन एक बैठक की तारीख से पहले उसके बारे में मूल बिजली का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है प्राधिकरण की और जब तक एक ही अटार्नी इस के बाद से जमा किया जाता है समय के लिए तय होने से पहले कंपनी कम से कम अड़तालीस घंटे वकील की बैठक में इस तरह की बैठक में जब तक पर वोट करने के लिए हकदार नहीं होगा।

- (2) के होते हुए भी कि अटार्नी या अन्य प्राधिकारी की एक शक्ति के लिए किया गया है कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज की गई, कंपनी में नोटिस द्वारा सकता है लेखन कि वकील के सदस्य को संबोधित कम से कम सात दिन एक बैठक की तारीख से पहले उसके बारे में मूल बिजली का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है प्राधिकरण की और जब तक एक ही अटार्नी इस के बाद से जमा किया जाता है समय के लिए तय होने से पहले कंपनी कम से कम अड़तालीस घंटे वकील की बैठक में इस तरह की बैठक में जब तक पर वोट करने के लिए हकदार नहीं होगा उनकी पूर्ण विवेक बहाना इस तरह के गैर उत्पादन में निदेशकों और जमा।
- (3) प्रत्येक सदस्य को कंपनी या किसी की बैठक में मतदान करने के हकदार संकल्प उस समय स्थानांतरित करने के लिए अवधि के दौरान हकदार होगा चौबीस घंटे की शुरुआत से पहले समय प्रारंभ के लिए तय बैठक की और इस निष्कर्ष के समाप्त होने के साथ साथ समाप्त कारोबार के दौरान परदे के पीछे किसी भी समय दर्ज कराई निरीक्षण करने के लिए बैठक कंपनी के घंटे कि दिन के कम से कम तीन नोटिस प्रदान की इरादे इतने निरीक्षण करने के लेखन कंपनी को दिया जाता है।

111. साधन की हिरासत

नियुक्ति के किसी भी तरह के साधन की वस्तु तक ही सीमित हो तो यह कंपनी की बैठक में मतदान के लिए एक प्रॉक्सी या विकल्प की नियुक्ति स्थायी रूप से या निदेशक के रूप में ऐसे समय के लिए रहेगा

निदेशक निर्धारित करते हैं, कंपनी की हिरासत में है, और अगर दूसरे को गले लगाते उसकी एक प्रति, मूल के साथ जांच की, करने के लिए वस्तुएं कंपनी की हिरासत में रहने के लिए वितरित किया जाएगा।

112. साधन प्रॉक्सी की नियुक्ति

प्रॉक्सी के हर साधन है कि क्या एक निर्धारित बैठक के लिए या अन्यथा नियुक्त व्यक्ति या उसके वकील के हाथ के नीचे लिखित रूप में किया जाएगा लिखित रूप में या यदि अधिकृत ऐसे नियुक्त, एक निगम है, के तहत अपनी आम सील, यदि कोई हो, या किसी अधिकारी के हाथ या विधिवत एक वकील यह द्वारा अधिकृत है और करीब के रूप में परिस्थितियों में होना स्वीकार करेंगे करेगा और व्यक्तिगत रूप से या वकील या परोक्ष रूप से उपस्थित एक मत होगा। एक जनमत सर्वेक्षण करने पर कंपनी के हर सदस्य हैं, जो एक व्यक्ति जा रहा है वकील द्वारा या परोक्ष रूप से या एक निगम होने का व्यक्ति में मौजूद है में एक मतदान का अधिकार होगा अपने हिस्से के अनुपात एक प्रतिनिधि या परोक्ष रूप से मौजूद है।

113. सदस्य की मृत्यु के होते हुए भी परोक्ष रूप से दिए गए वोट की वैधता, आदि।

एक वोट प्रॉक्सी का एक साधन की शर्तों के अनुसार दिया जाएगा प्रिंसिपल या निरसन के पिछले मौत के होते हुए भी मान्य होगा प्रॉक्सी का या वकील के किसी भी शक्ति है जिसके तहत इस तरह के प्रॉक्सी था की संबंध में शेरों के हस्तांतरण जिनमें से वोट दिया जाता है पर हस्ताक्षर किए कि मौत, निरसन या हस्तांतरण के लेखन में कोई सूचना उपलब्ध कराई होगी बैठक से पहले कार्यालय में प्राप्त किया गया है।

114. वोट करने के लिए आपत्तियों के लिए समय

अनापत्ति पर छोड़कर किसी भी मतदान की वैधता के लिए किया जाएगा बैठक या चुनाव, जिस पर इस तरह के वोट प्रस्तुत किया जाएगा, और हर वोट चाहे वह व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है या परोक्ष रूप से इस तरह की बैठक में अनुमति नहीं दी है या नहीं सर्वेक्षण में इस तरह की बैठक या चुनाव के सभी प्रयोजनों के लिए मान्य समझा जाएगा।

115. किसी भी बैठक की. अध्यक्ष किसी भी मतदान की वैधता के न्यायाधीश होने के लिए।

किसी भी बैठक के अध्यक्ष की वैधता का एकमात्र जज हो जाएगा अध्यक्ष की उपस्थिति में हर वोट ऐसे बैठक में प्रस्तुत किया एक सर्वेक्षण के ले रही हर वोट की वैधता का एकमात्र इस तरह के चुनाव में प्रस्तुत।

निदेशक

116. निदेशकों की संख्या

जब तक अन्यथा के सदस्यों की एक आम बैठक के द्वारा निर्धारित कंपनी के निदेशकों की संख्या कम से कम तीन या उससे अधिक नहीं होगी पंद्रह से जनहित निदेशक, शेयरधारक निदेशक सहित

(कर्मचारी निदेशकों सहित) और प्रबंध निदेशक और निदेशकों की संख्या के अनुमोदन से पंद्रह से परे बढ़ाया जा सकता है।

116ए. इसके विपरीत इन लेखों में निहित करने के लिए कुछ होते हुए भी सेबी द्वारा जारी निर्देशों और ६ या समय-समय पर नियमों में प्रदान की बोर्ड की संरचना के संबंध में, सामान्य आवश्यकताओं से संबंधित

निदेशकों की नियुक्ति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आचार संहिता के तरीके और शासन से संबंधित अन्य आनुषंगिक और पारिणामिक मामलों कंपनी, सीमा लागू करने के लिए, के साथ पालन किया जाएगा।

117. कंपनी के वर्तमान पहले निदेशक का नाम हैं

1. श्री संदीप मेहता
2. श्री विठ्ठल मोरे
3. श्री रविंद्र बटुला

118. (ए) सेबी के निदेशक नामित

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के समय समय पर निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में तीन से अधिक व्यक्ति को नियुक्त नहीं करते हैं कंपनी। इस अनुच्छेद के तहत नियुक्त निदेशक के साथ साथ भेजा जाता है 'सेबी नामित निदेशकों' के रूप में कार्य करने के लिए। सेबी नामित निदेशक बारी-बारी से सेवानिवृत्ति के अधीन हो या द्वारा छोड़कर सेबी के अलावा पद से नहीं हटाया जायेगा उक्त विषय के रूप में, किया जाएगा कंपनी के किसी अन्य निदेशक के रूप में दायित्वों सेबी नामित निदेशक भी विशेषाधिकारों का हकदार हैं।

118. (एए) जनहित निदेशक

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) समय-समय पर, आम तौर पर ध्यान में व्यक्तियों के नाम लेने के बाद कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अग्रेषित पर मनोनीत कंपनी के निदेशक मंडल में तीन से अधिक व्यक्तियों के लिए नहीं भेजा जो की सार्वजनिक हित निदेशकों के रूप में जो हो जाएंगे 'स्वतंत्र निदेशकों' अधिनियम के प्रावधानों अखंडता के व्यक्तियों के बीच से प्रति के रूप में आवश्यक पेशेवर क्षमता और क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले प्रतिभूति बाजार से संबंधित हैं। सेबी हालांकि करेगा, मनोनीत व्यक्तियों, जिनके नाम बोर्ड द्वारा अग्रेषित नहीं किया गया सही करने के लिए है कंपनी के निदेशक। हालांकि, सेबी किसी भी समय पर नियुक्त कर सकता है अधिक से अधिक तीन जनहित निदेशक इतना है कि की कुल संख्या अनुच्छेद 118ए और 118एए के तहत नामित निदेशकों को अधिक नहीं हो सकता शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्देशकों की कुल संख्या। जनहित निदेशक समय नया पब्लिक तक जारी रहेगा ब्याज निर्देशकों को उनके स्थान पर नियुक्त किया जाता है उसके रूप में पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, जनहित निदेशक का हकदार होगा और समान अधिकार और विशेषाधिकार और उसी के रूप में दायित्वों के अधीन हो कंपनी के किसी अन्य निदेशक की वजह से कोई रिक्त स्थान इस्तीफे, हटाने, मृत्यु या इस तरह के मनोनीत सार्वजनिक हित की अन्यथा इसी तरह एक नामजद व्यक्ति द्वारा निदेशक में भरा जाएगा,

(बी) निदेशक डिबेंचर

किसी भी ट्रस्ट डीड या ऋण करार डिबेंचर के मुद्दे को कवर कंपनी, या ऋण कंपनी के लिए उन्नत के लिए उपलब्ध करा सकता है (एक निदेशक की नियुक्ति इन में के रूप में भेजा उपस्थित डिबेंचर निदेशक) के लिए और कम इमदजनतम- धारक ६ ऋणदाता की ओर से ऐसी अवधि के रूप में उसमें प्रदान के लिए, जिसके लिए अवधि से

अधिक नहीं डिबेंचर या उनमें से किसी भी बकाया रहेगा या ऋण अवैतनिक रहता है, और इस तरह के डिबेंचर के कार्यालय से हटाने के लिए निदेशक, और रिक्ति पर कारण होता जा रहा है, इस्तीफा, मौत से हैं, में हटाने या अन्यथा नियुक्ति के लिए, डिबेंचर निदेशक की खाली जगह है। डिबेंचर निदेशक रोटेशन द्वारा रिटायर करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

119. प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक

- (1) अधिनियम के प्रावधानों और प्रतिभूति के अनुमोदन के अधीन और भारत की विनियम बोर्ड, बोर्ड, समय-समय पर, नियुक्ति या फिर से नियुक्त एक या एक से उनके शरीर का अधिक प्रबंध किया जाना है

निदेशक या प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या पूरे समय निदेशक, जो कुछ भी नाम से वह या वे कंपनी के, कहा जा सकता है, ऐसे कब्जा टी आयनों पर और इस तरह के कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं करने के लिए एक समय था और इस तरह के नियम और शर्तों के अधीन में वे ठीक लगता है।

- (2) अधिनियम, प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक के उपबंधों के अधीन निदेशक नहीं, जबकि वह उस पद धारण करने के लिए जारी है, हो जाएगा अनुच्छेद 131 के तहत बारी-बारी से सेवानिवृत्ति के अधीन किया जाएगा लेकिन इस्तीफे और के रूप में हटाने के रूप में एक ही प्रावधानों के अधीन कंपनी के अन्य निदेशकों और करेगा, वास्तव में पचेव, और तुरंत एक प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक यदि नहीं रहेगा वह किसी भी कारण से एक निदेशक का पद धारण करने के लिए रहता है।

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, हो सकता है, समय-समय पर निदेशक, सौंपना और प्रबंध ६ पूरे पर प्रदान - टी प्लस निदेशक (रॉ) समय शक्तियों ऐसी पर उनके द्वारा की ऐसी किया जा रहा है नियम और शर्तों और इस तरह के प्रतिबंध के साथ वे फिट लगता है कि मई के रूप में या तो बवससंजमतंससल के साथ, या उनकी शक्ति का और समय से बहिष्कार करने के लिए समय पर रद्द वापस लेने, बदलने या सभी या ऐसी शक्तियों के किसी भी बदलती हैं।

120. वैकल्पिक निदेशक

- (1) अधिनियम की धारा 161 के अधीन रहते हुए, निदेशक मंडल एक वैकल्पिक निदेशक इस लेख में एक निदेशक के लिए कार्य करने के लिए (बाद में उनके सुझाव पर अन्यथा, 'मूल निदेशक') कहा जाता है नियुक्त कर सकता है या उसके दौरान भारत की ओर से कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए अनुपस्थिति जिसमें बोर्ड की बैठकों आमतौर पर आयोजित की जाती हैं।
- (2) खंड (क) एक वैकल्पिक निदेशक एक अवधि अनुमत से अधिक समय में मूल निदेशक जिसका जगह वह करने के लिए तहत नियुक्त किया गया है नियुक्त और अगर जब मूल निदेशक भारत के लिए आए और पद को छोड़ देंगे पद धारण नहीं करेगा।
- (3) मूल निदेशक का कार्यकाल तो वह पहले निर्धारित किया जाता है भारत के स्वतंत्र पुनर्नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान रिटर्न एक और नियुक्ति के डिफॉल्ट में निदेशक अवकाश ग्रहण करने के लिए मूल और वैकल्पिक निदेशक के लिए लागू नहीं होगी।

121. निदेशक की योग्यता

कोई निदेशक के कंपनी के किसी भी शेयर या योग्यता के शेयरों को नहीं ले सकता।

122. (1) निदेशकों की पारिश्रमिक

पारिश्रमिक के निदेशकों को देय, प्रबंध निदेशक सहित करेगा, अधिनियम की है और इनमें से लागू प्रावधानों के अधीन प्रस्तुत करता है और उसे और कंपनी के बीच किसी भी अनुबंध के द्वारा आम बैठक में कंपनी समय-समय पर, और के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है नियत वेतन और ६ या अनुलाभ या कंपनी के मुनाफे पर आयोग या इस तरह के लाभ में भागीदारी, या किसी भी या इन सभी साधनों द्वारा नहीं स्पष्ट रूप से अधिनियम द्वारा निषिद्ध।

- (2) बैठक में भाग लेने वाले निदेशक की सिटींग फीस

निदेशकों की प्रत्येक बैठक के लिए एक शुल्क के माध्यम से पारिश्रमिक प्राप्त हो सकता है बोर्ड या एक समिति जिसने उसमें भाग लिया है अधिकतम अधिनियम के तहत निर्धारित है।

123. अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने वाले निदेशक

निदेशक मंडल की अनुमति है और किसी भी निदेशक हैं, जो एक नहीं है के लिए भुगतान कर सकते हैं जहां बोर्ड की बैठक आयोजित की जाती है जगह की सदाशयी निवासी और जो एक बैठक में भाग लेने के उद्देश्य के लिए इस तरह की जगह पर आ जाएगा या कंपनी के अनुरोध पर अपने व्यापार में भाग लेने के लिए, इस तरह के योग के रूप में निदेशक यात्रा,

होटल के लिए उचित मुआवजा विचार कर सकते हैं और अन्य खर्चों और अगर किसी भी निदेशक का आह्वान किया जाना या बाहर निवास करने के लिए कंपनी के कारोबार पर उनके आवास के साधारण जगह वह किसी भी यात्रा या अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति की करने का हकदार होगा कंपनी के कारोबार के साथ संबंध में किए गए।

124. निदेशक को विशेष पारिश्रमिक अतिरिक्त सेवाओं के प्रदर्शन

यदि किसी भी निदेशक को अतिरिक्त सेवाओं या विशेष प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है (जो अभिव्यक्ति काम के द्वारा किया जाता शामिल होगा निदेशक द्वारा गठित किसी भी समिति के एक सदस्य के रूप में निदेशक), बोर्ड के लिए इस तरह के विशेष पारिश्रमिक के लिए इस तरह के निदेशक के साथ की व्यवस्था कर सकते हैं इस तरह के विशेष सेवाओं या विशेष थकान या प्रयासों या तो एक निश्चित राशि से या अन्यथा के रूप में बोर्ड द्वारा निर्धारित किया है और करने के लिए विषय अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हो सकता है।

125. अतिरिक्त निदेशक

निदेशक के पास समय-समय प्रावधानों के अधीन किसी भी व्यक्ति के नियुक्त निदेशक या तो एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए या करने के लिए एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में करने की शक्ति होगी इन प्रस्तुत एक के रूप में कुल संख्या किसी भी समय अधिक नहीं होगी बोर्ड लेकिन इतना है कि

अधिकतम संख्या ऊपर के रूप में तय्य लेकिन किसी भी निदेशक तो एक के रूप में नियुक्त अतिरिक्त निदेशक पद पर बने रहेंगे केवल अगले की तारीख करने के लिए कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद और उसके बाद की जाएगी फिर से चुनाव है और इसलिए एक कारण भरने के लिए नियुक्त किसी भी निदेशक के लिए हकदार रिक्ति पद पर बने रहेंगे केवल अप करने के लिए जो निर्देशक की तारीख में करने के लिए ऊपर जिसके स्थान पर नियुक्त किया जाता है वह कार्यालय में आयोजित किया जाएगा यह खाली नहीं किया गया था।

126. निदेशक के होते हुए भी कार्य कर सकते हैं

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जारी रखने के निदेशक कार्य कर सकते हैं निदेशक के रिक्ति स्थान के बावजूद नीचे न्यूनतम संख्या तय निदेशक छोड़कर नहीं जाएंगे आपात स्थिति या रिक्ति पदों को भरने के प्रयोजन के लिए या एक को बुलाने के लिए कंपनी की आम बैठक इतने लंबे समय के रूप में कार्य नंबर नीचे है न्यूनतम और वे तो एक के अभाव होते हुए अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कोरम। इतनी संख्या में गिर जाता है कि कार्य कर सकते हैं।

127. निदेशक खालीस्थान

(1) अधिनियम, एक निदेशक के कार्यालय की धारा 164 के प्रावधान के अधीन यदि रिक्ति हो जाएगा:

- (क) वह अस्वस्थ मन है और इसलिए की एक अदालत सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित;
- (ख) वह एक दिवालिया करनकपबंजमक जा करने के लिए आवेदन किया है और उनके आवेदन पत्र लंबित है;
- (ग) वह अनुमोचित दिवालिया है;
- (घ) वह किसी भी अपराध की एक अदालत ने दोषी ठहराया है नैतिक शामिल है कि क्या अधमता या अन्यथाय और करने के लिए उसके छह महीने से कम नहीं के लिए कारावास और पांच वर्ष की अवधि सजा की अवधि समाप्त होने की तारीख से गुजरा नहीं है;
- (ई) एक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए उसे अयोग्य एक आदेश दिया गया है एक अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित कर दिया और आदेश लागू है;
- (च) वह द्वारा आयोजित की कंपनी के शेयरों के संबंध में किसी भी फोन भुगतान नहीं किया गया उसे अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से हैं, और छह महीने बीत गया है इस तरह के कॉल के भुगतान के लिए तय अंतिम तारीख से;
- (छ) वह अपराध संबंधित पार्टी के साथ निपटने का दोषी पाया गया है पिछले पांच साल के पूर्ववर्तीय या दौरान किसी भी समय अधिनियम की धारा 188 के तहत लेनदेन
- (ज) वह अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (3) के साथ पालन नहीं किया है।

(2) खंड (घ) में किसी बात के होते हुए भी, (ई) और 'नईतजपबसम की (एल), अयोग्यता उन खंड में निर्दिष्ट नहीं ले जाएगा प्रभाव:

- (क) सजा या के आदेश की तारीख से तीस दिनों के लिए अयोग्यता;

- (ख) जहां कोई अपील या याचिका तीस दिनों के भीतर एक एस पसंद किया जाता है सजा की सजा या आदेश में जिसके परिणामस्वरूप के खिलाफ पूर्वोक्त। तारीख से सात दिन की समाप्ति तक जो ऐसी अपील पर या याचिकाओं का निपटारा; या
- (ग) जहां किसी भी आगे अपील या याचिका के आदेश के खिलाफ पसंद किया जाता है या सात दिनों के भीतर की सजा, इस तरह के आगे अपील या याचिका जब तक है खत्म कर दिया।

128. ब्याज का प्रकटीकरण

- (क) कंपनी है जो किसी भी तरह से है की हर निर्देशक, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चिंतित या एक अनुबंध या व्यवस्था में रुचि रखते हैं या प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था प्रवेश किया जा करने के लिए प्रवेश किया निदेशक मंडल की बैठक में ब्याज कंपनी की ओर से है, उसकी चिंता का विषय की प्रकृति खुलासा करेगा। या;
- (ख) (1) के प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था प्रकटीकरण के मामले में धारा के तहत एक निदेशक द्वारा किए जाने के लिए आवश्यक (क) बोर्ड की बैठक पर की जाएगी, जिस में प्रवेश करने का सवाल अनुबंध या व्यवस्था पहले ध्यान में रखा जाता है, या अगर निदेशक कि बैठक की तारीख पर नहीं था, चिंतित या में रुचिप्रस्तावित अनुबंध या बोर्ड की पहली बैठक में व्यवस्था आयोजित करने के बाद वह इतना चिंतित या रुचि हो जाता है।
- (2) किसी अन्य अनुबंध या व्यवस्था के मामले में आवश्यक प्रकटीकरण बोर्ड की पहली बैठक के बाद आयोजित किया जाएगा निदेशक चिंतित या अनुबंध या व्यवस्था में रुचि लेता है।
- (ग) (1) खंड के प्रयोजन (क) और (ख), एक सामान्य नोटिस करने के लिए दिया के लिए इस आशय का एक निदेशक है कि वह एक निर्देशक या एक के एक सदस्य के बोर्ड निर्दिष्ट निगमित निकाय या एक निर्दिष्ट फर्म के एक सदस्य है और हो रहा है माना के रूप में संबंध है या किसी भी अनुबंध या व्यवस्था में रुचि है जो सूचना की तारीख के बाद, कि निगमित निकाय के साथ में प्रवेश किया जा सकता है
- या फर्म, चिंता का पर्याप्त प्रकटीकरण होना समझा जाएगा या किसी भी अनुबंध या व्यवस्था करने के लिए ब्याज इसलिए बनाया है।
- (2) किसी ऐसे सामान्य नोटिस में वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगा जो यह दिया जाता है, लेकिन एक के आगे अवधि के लिए नए सिरे से किया जा सकता है एक समय में वित्त वर्ष के आखिरी महीने में दिए गए एक ताजा नोटिस द्वारा जिसमें वित्तीय वर्ष में इसे अन्यथा समय सीमा समाप्त हो जाएगी
- (3) ऐसी कोई सामान्य सूचना और कोई नवीकरण का प्रभाव हो जाएगा जब तक या तो यह बोर्ड या निदेशक की बैठक संबंध में दिया गया है सुरक्षित करने के लिए है कि यह लाया और पहली बार में पढ़ा जाता है उचित कदम उठा लेता है बोर्ड की बैठक के बाद यह दिया जाता है।
- (घ) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी नियम के प्रवर्तन पूर्वाग्रह लिया जाएगा कानून किसी भी चिंता होने से कंपनी के एक निदेशक को सीमित करने की या कंपनी के साथ किसी भी अनुबंध या व्यवस्था में रुचि।
- (ई) इस अनुच्छेद की कोई प्रवेश किया किसी भी अनुबंध या व्यवस्था को लागू नहीं होगी में या कंपनी और किसी भी अन्य कंपनी के बीच में प्रवेश किया जहां कंपनी या दो से अधिक के निदेशकों में से कोई भी एक साथ रखती है या चुकता शेयर अन्य कंपनी में पूंजी की अधिक से अधिक दो प्रतिशत नहीं पकड़ सकती है।
- (च) इस अनुच्छेद के प्रावधानों आवश्यक परिवर्तनों सहित एक सदस्य को लागू नहीं होगी कार्यकारी समिति के जो कम से अपने हित की प्रकृति खुलासा करेगा कार्यकारी समिति की बैठक।

129. इच्छुक निदेशक भाग लेने या बोर्ड कार्यवाही में वोट नहीं

- (1) कंपनी का कोई निदेशक एक निदेशक के रूप में किसी भी भाग ले जाएगा किसी भी अनुबंध या व्यवस्था पर चर्चा की, या मतदान में या करने के लिए प्रवेश द्वारा में या कंपनी की ओर से दर्ज किया जाना है, तो वह वैसे भी है चाहे वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चिंतित या अनुबंध में रुचि रखते हैं या
- व्यवस्थाय और न ही उनकी उपस्थिति एक बनाने के उद्देश्य के लिए गिनती होगी ऐसे किसी भी चर्चा या मतदान के समय में कोरमय और अगर वह मतदान करता है उसकी वोट शून्य होगी।
- (2) इस अनुच्छेद के लिए लागू नहीं होगा:
- (क) किसी भी हानि के खिलाफ क्षतिपूर्ति के किसी भी अनुबंध है जो निदेशक या किसी भी एक या उनमें से अधिक बनने या जमानत जा रहा है या की वजह से पीड़ित हो सकता है कंपनी के लिए जमानत;

(ख) किसी भी अनुबंध या व्यवस्था में या एक साथ प्रवेश किया जा करने के लिए प्रवेश किया सार्वजनिक कंपनी या एक निजी कंपनी के एक सार्वजनिक की एक सहायक कंपनी है जो कंपनी है, जो में निदेशक पूर्वोक्त के हित पूरी तरह होते हैं –

1. उसकी ऐसी कंपनी के एक निदेशक है, और नहीं और अधिक के धारक होने में उसमें इस तरह के नंबर या मूल्य के शेयरों की तुलना में अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने के लिए है उसे एक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए उसका, वह किया गया हो रही कंपनी, या
2. द्वारा इस तरह के निदेशक के रूप में मनोनीत द्वितीय। उसके एक सदस्य को पकड़ नहीं 2 प्रतिशत से अधिक की (दो प्रतिशत) होने में इस तरह के अन्य कंपनी की शेयर पूंजी का भुगतान किया।

130. निदेशकों को कंपनी द्वारा प्रवर्तित कंपनियों के निदेशक हो सकता है

एक निर्देशक होने या द्वारा पदोन्नत किसी भी कंपनी के एक निदेशक बन सकते हैं कंपनी, या जिसमें कंपनी के एक विक्रेता के रूप में दिलचस्पी हो सकती है, सदस्य या अन्यथा और अधिनियम और इन के प्रावधानों के अधीन प्रस्तुत ऐसी कोई निदेशक किसी भी लाभ के लिए जवाबदेह हो जाएगा एक निर्देशक या ऐसी कंपनी के सदस्य के रूप में प्राप्त निदेशकों के रोटेशन।

131. निदेशक रोटेशन द्वारा प्रतिवर्ष रिटायर करने के लिए

कंपनी के हर वार्षिक आम बैठक पहले से दूसरे पर वार्षिक आम बैठक समय के लिए निर्देशकों की ऐसी की एक तिहाई होने के रूप में बारी-बारी से रिटायर हो या, अगर उनकी संख्या तीन या एक नहीं है उत्तरदायी हैं तीन में से कई, तो एक तिहाई के लिए निकटतम नंबर से रिटायर करेगा कार्यालय।

132. कौन सा निदेशक रिटायर करने के लिए

निदेशक हर वार्षिक आम बैठक में बारी-बारी से रिटायर होंगे जो लोग अपने आखिरी नियुक्ति के बाद से कार्यालय में सबसे लंबे समय तक किया गया है हो सकता है, लेकिन व्यक्तियों के बीच के रूप में जो एक ही दिन, जो उन लोगों पर निदेशक बन गया रिटायर करने के लिए कर रहे हैं करेगा डिफॉल्ट और बीच किसी भी समझौते के विषय में खुद को, बहुत से निर्धारित किया।

133. अवकाश ग्रहण करने वाले निदेशक फिर से चुनाव के लिए पात्र

एक सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक फिर से चुनाव के लिए पात्र होंगे।

134. कंपनी रक्ति को भरने के लिए

वार्षिक आम बैठक में कंपनी, जिस पर एक निदेशक सेवानिवृत्त हो रहे हैं उक्त रक्ति नियुक्त करके निदेशक या कि रक्ति में किसी अन्य व्यक्ति स्थान को भर सकते हैं।

135. निदेशक अवकाश ग्रहण करने वाले कार्यालय में रहने के लिए जब तक उत्तराधिकारी नियुक्त न हो

रिटायर होने वाले निदेशक की जगह भरी नहीं है और बैठक भी नहीं हो सकी तो स्पष्ट रूप से रक्ति को भरने के लिए नहीं सुलझाया गया तब एक ही समय और स्थान पर अगले सप्ताह में एक ही दिन तक के लिए स्थगित किया जायेगा और यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश है तो उससे अगले दिन स्थान भरा जायेगा बैठक में सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक की जगह को भरा नहीं है और है कि बैठक में यह भी स्पष्ट रूप से रक्ति को भरने के लिए नहीं हल नहीं किया, सेवानिवृत्त निदेशक फिर स्थगित कर दी पर नियुक्त किया है समझा जाएगा जब तक बैठक –

- (1) पुनर्नियुक्ति के लिए एक संकल्प है कि बैठक में या पिछले बैठक में इस तरह के निदेशक की बैठक के लिए रखा जाना है और गुम हो गया।
- (2) संन्यास लेने के निदेशक एक सूचना लिखित रूप में संबोधित करने से है कंपनी या उसके निदेशक मंडल, के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की इसलिए फिर से नियुक्त किया।
- (3) वह योग्य नहीं है या नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
- (4) एक संकल्प है, चाहे विशेष या साधारण उसके लिए आवश्यक है नियुक्ति या के किसी प्रावधान के आधार पर फिर से नियुक्ति अधिनियम, या
- (5) अनुच्छेद 136 के उप-अनुच्छेद (2) के परन्तुक मामले के लिए लागू है।

136. निदेशकों की नियुक्ति व्यक्तिगत रूप पर मतदान किया जा करने के लिए

- (1) कंपनी के हर वार्षिक आम बैठक में एक प्रस्ताव नहीं होगा के निदेशक के रूप में दो या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए बने एक भी संकल्प द्वारा कंपनी, एक संकल्प है जब तक कि यह तो हो जाएगा कि किए गए पहले किसी भी मतदान किया जा रहा बिना बैठक के लिए सहमत हो गया है

इसके खिलाफ दिए गए।

- (2) एक संकल्प इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) के उल्लंघन में ले जाया गया शून्य होगी या नहीं, इस आपत्ति इसलिए किया जा रहा करने के लिए समय पर लिया गया था चले गए, बशर्ते कि जहां तो चले गए एक प्रस्ताव पारित किया है, कोई स्वतः में सेवानिवृत्त निदेशक की फिर से नियुक्ति के लिए प्रावधान

एक और नियुक्ति के डिफॉल्ट लागू नहीं होगी।

- (3) इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अनुमोदन करने के लिए एक प्रस्ताव एक व्यक्ति की

नियुक्ति या नामांकित लिए नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति माना जाएगा उनकी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव के रूप में।

137. निदेशक अवकाश ग्रहण करने वाले के लिए खड़े करने के अलावा अन्य व्यक्तियों के अधिकार

- (1) कोई व्यक्ति, एक अवकाश ग्रहण करने वाले निर्देशक, के लिए चुनाव के लिए पात्र होंगे किसी भी आम बैठक में निदेशक के कार्यालय, जब तक कि वह या कोई अन्य उसे प्रस्ताव करने के लिए इच्छुक सदस्य पहले कम से कम चौदह स्पष्ट दिनों की है बैठक में कार्यालय में एक सूचना लिखित रूप में अपने हाथ के तहत वाचक छोड़ा निदेशक के कार्यालय या ऐसे सदस्य के इरादे के लिए अपनी उम्मीदवारी उसके बारे में एक जमा के साथ-साथ कि कार्यालय के लिए प्रस्ताव करने के लिए, एक उम्मीदवार के रूप में एक लाख रुपये है जो ऐसे व्यक्ति को या मामले के रूप में वापस किया जाएगा, इस तरह के किसी सदस्य के लिए हो सकता है यदि व्यक्ति एक निदेशक के रूप में चुने जाने में सफल होता है।

- 2) कंपनी एक व्यक्ति की उम्मीदवारी को अपने सदस्यों को सूचित करेगी निदेशक के कार्यालय या एक सदस्य के इरादे इस तरह का प्रस्ताव करने के लिए पर व्यक्तिगत नोटिस के द्वारा कि कार्यालय के लिए एक उम्मीदवार के रूप में व्यक्ति सदस्यों को बैठक से पहले कम से कम सात दिनों के लिए उसे उपलब्ध कराया जायेगा यह आवश्यक कंपनी अलग-अलग नोटिस की सेवा करने के लिए नहीं होगा सदस्यों को उपरोक्त के रूप में यदि कंपनी इस तरह के विज्ञापन करता है पर उम्मीदवारी के लिए कम से कम सात दिन की बैठक से पहले, में कम से कम दो समाचार पत्रों जगह में घूम जहां पंजीकृत कंपनी स्थित है, जिनमें से एक अंग्रेजी में प्रकाशित होगा और दूसरा उस जगह की स्थानीय भाषा में।

138. निदेशक का हटाया जाना

- (क) कंपनी ने मई, अनुच्छेद 118ए और 118एए, प्रावधानों के अधीन प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंजों और विलयरिंग की निगमों) विनियम, 2012 या किसी भी संशोधन के सिवा और अधिनियम की धारा 169 (1) के प्रावधानों, जिनमें से साधारण संकल्प द्वारा अधिनियम की धारा 169 (2) के अनुसार विशेष नोटिस दिया गया है कार्यालय के अपने अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी निदेशक को हटाने और उसकी जगह नया नियुक्त करने के लिए साधारण संकल्प जो की विशेष नोटिस दिया गया है, एक और निदेशक नियुक्त करेगा और जब तक नया निदेशक नहीं आ जाता तब तक पुराना ही कार्यभार संभालेगा यदि वह निकाल दिया जाता है, बोर्ड को किसी भी समय उसका स्थान भर सकता है इन लेखों के प्रावधानों के तहत रिक्रि।

- (ख) विशेष सूचना निदेशक को हटाने के लिए किसी भी प्रस्ताव के लिए आवश्यक होगा इस अनुच्छेद के तहत या एक निर्देशक के बजाय किसी को नियुक्त करने के लिए इतना है।

- (ग) एक संकल्प की सूचना प्राप्त होने पर इस लेख के तहत एक निदेशक को हटाने के लिए, कंपनी झट से निदेशक को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा और निदेशक बैठक में संकल्प (कंपनी के सदस्य है या नहीं) पर सुने जाने का हकदार होगा।

- (घ) जहां सूचना के तहत इस एक निदेशक को हटाने के लिए एक संकल्प के लिए दिया जाता है अनुच्छेद और निदेशक का संबंध बहां के लिए सम्मान के साथ बनाता है कंपनी को लिखित रूप में अभ्यावेदन (एक उचित से अधिक नहीं लंबाई) और कंपनी के सदस्यों को उनके अधिसूचना अनुरोधों कंपनी जब तक अभ्यावेदनों इसके लिए बहुत देर हो चुकी यह द्वारा प्राप्त करेंगे ऐसा करने के लिए –

1. कंपनी के सदस्यों को दी संकल्प के किसी भी नोटिस में राज्य के प्रतिनिधित्व के तथ्य बनाया गया है, और
2. हर सदस्य को प्रतिनिधित्व की एक प्रतिलिपि भेज जिसे करने के लिए कंपनी की बैठक का नोटिस भेजा है (चाहे पहले या कंपनी द्वारा अभ्यावेदन की प्राप्ति के बाद) और यदि एक अभ्यावेदन की प्रतिलिपि उपरोक्त के

रूप में नहीं भेज दिया जाता है, क्योंकि वे बहुत देर हो चुकी या कंपनी के डिफॉल्ट की वजह से प्राप्त हुए थे, निदेशक (अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मौखिक रूप से सुना जा सकता है) कर सकते हैं आवश्यकता है कि अभ्यावेदन बैठक में पढ़ा जाएगा बशर्ते कि अभ्यावेदन की प्रतियां बाहर भेजने की जरूरत नहीं और अभ्यावेदन बैठक में बाहर पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, अगर या तो कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर जो पीड़ित होने का दावा करता है, कोर्ट से संतुष्ट है कि अधिकार

इस खंड द्वारा प्रदत्त अनावश्यक सुरक्षित करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा अपमानसूचक बात के लिए प्रचार।

- (ई) इसका अनुच्छेद हो सकता है, तहत एक निदेशक को हटाने के द्वारा बनाई गई एक रिक्ति वह आम बैठक में या द्वारा कंपनी द्वारा नियुक्त कर दिया गया था बोर्ड, उसके स्थान पर एक और निदेशक की नियुक्ति के द्वारा भरा गया, बैठक, जिस पर वह हटा दिया गया है, की विशेष सूचना प्रदान की

इरादा नियुक्ति इस अनुच्छेद के खंड (ख) के तहत दी गई है। इस प्रकार नियुक्त निदेशक की तारीख तक पद पर बने रहेंगे जो अपने पूर्ववर्ती कार्यालय में आयोजित होता अगर वह पूर्वोक्त पद से हटाया नहीं गया था।

- (च) रिक्ति इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (ग) के तहत भरा नहीं है, तो यह हो सकता है अब तक के रूप में प्रावधानों के अनुसार एक आकस्मिक रिक्ति के रूप में भरा वे अनुच्छेद 125 के लागू हो सकता है और सभी प्रावधान लागू होंगे तदनुसार बशर्ते कि निर्देशक जो पद से हटा दिया गया था बोर्ड द्वारा एक निदेशक के रूप में नियुक्त करेगा सदस्य की मृत्यु के होते हुए भी परोक्ष रूप से दिए गए वोट की वैधता, आदि। एक वोट प्रॉक्सी का एक साधन की शर्तों के अनुसार दिया जाएगा प्रिंसिपल या निरसन के पिछले मौत के होते हुए भी मान्य होगा प्रॉक्सी का या वकील के किसी भी शक्ति है जिसके तहत इस तरह के प्रॉक्सी था की संबंध में शेयरों के हस्तांतरण जिनमें से वोट दिया जाता है पर हस्ताक्षर किए कि मौत, निरसन या हस्तांतरण के लेखन में कोई सूचना उपलब्ध कराई होगी बैठक से पहले कार्यालय में प्राप्त किया गया है।

139. (1) प्रत्येक सदस्य प्रतिवर्ष लिखित रूप में बोर्ड को तारीख, अंतरंग करेगा जो समय समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है और अगली वार्षिक सामान्य बैठक पर बोर्ड के निर्वाचित होने के लिए अपने उम्मीदवार के नाम लिए जाते हैं।
- (2) लेखन या सूचना इस अनुच्छेद के तहत ही किया गया है समझा जाएगा यह इस तरह के सदस्य के एक निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए और एक के साथ हसंकल्प ऐसे सदस्य मंडल द्वारा पारित की प्रमाणित प्रतिलिपि किसी भी हटाने या नियुक्ति के लिए प्रभाव दे रही है।
- (3) अनुच्छेद 136 और 138 (दोनों होते हैं) के प्रावधानों को पढ़ा जाएगा और इस लेख 139 के प्रावधानों के अनुसार इस विषय में किया जायेगा।

निदेशकों की कार्यवाही

140. निदेशकों की बैठक

निदेशक मंडल कारोबार के संचालन स्थगित और अन्यथाके लिए बैठक कर सकते हैं और जैसा वह ठीक समझते हैं उनकी बैठकों और कार्यवाही को विनियमित रूप से पूरा करते हैं लेकिन वहाँ बोर्ड के चार ऐसी बैठकों की एक न्यूनतम किया जाएगा कि इस तरीके में हर साल कि अधिक से अधिक नहीं 120 (एक सौ और बीस) दिनों की लगातार दो बैठकों के बीच मंडल हस्तक्षेप करेगा।

141. जब बैठक बुलाई जाये

किसी भी समय अध्यक्ष और प्रबंधक या इस तरह के अन्य अधिकारी के रूप में निदेशक के अनुरोध पर निदेशकों की बैठक बुला सकते हैं।

142. बैठक की सूचना

कंपनी के बोर्ड की हर बैठक की सूचना हर निर्देशक को लिखित में उसके पते पर कंपनी के साथ पंजीकृत अपने संबोधन में दिए गए सात दिन पूर्व दी जाएगी।

143. बोर्ड के अध्यक्ष

निर्देशकों अपने अध्यक्ष पद धारण करने के लिए चुनाव और उसके लिए अवधि निर्धारित कर सकते हैं

वह है। यह बोर्ड की सभी बैठकों यदि वो उपस्थित है तो उसकी अध्यक्षता में की जाएगी अध्यक्ष, उपस्थित नहीं हो उसी के आयोजन के लिए नियत समय पर, तब और उस मामले में निदेशक पब्लिक में से एक चुन लेगा ब्याज निदेशक तो वर्तमान बैठक में अध्यक्षता करने के लिए।

144. संचालक मंडल की बैठक में प्रश्न, कैसे निर्णय लिया जाए
 किसी भी बैठक में उत्पन्न होने वाले सवालों मतों का बहुमत से निर्णय लिया जाएगा और मत बराबर होने के मामले में, बैठक के अध्यक्ष (भले अध्यक्ष इन प्रस्तुत या निदेशक की हैसियत से नियुक्त इस तरह की बैठक में) की अध्यक्षता में एक दूसरे या निर्णायक मत होगा।
145. कोरम और अपनी क्षमता शक्तियों का प्रयोग करने के लिए
 कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम करेगा इसकी कुल संख्या का एक तिहाई (किसी भी अंश है कि एक तिहाई में समाहित किया एक) या दो निदेशकों और जो भी अधिक है के रूप में पूर्णांकित किया जा रहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या अन्य द्वारा निदेशकों की भागीदारी ऑडियो विजुअल साधन भी के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा; कोरम प्रदान की है कि जब किसी भी बैठक रुचि के नंबर पर
 निदेशक से अधिक या कुल ताकत का दो-तिहाई के बराबर है, निदेशक जो रुचि बैठक में कम नहीं किया जा रहा है पर मौजूद नहीं हैं, दो से ऐसे समय के दौरान कोरम और आगे कि व्यवस्था की जाएगी:
 उक्त प्रावधान के लागू नहीं होगा जब किसी भी अनुबंध या
 व्यवस्था से या एक साथ कंपनी की ओर से करने में दर्ज किया जाता है।
 निदेशक या किसी फर्म है जो की एक निदेशक सदस्य है या किसी के साथ साथ निजी कंपनी है जो एक निर्देशक या के लिए सदस्य की
 (क) हामीदारी या शेयर या डिबेंचर की सदस्यता की कंपनी; या
 (ख) के शेयरों या किसी अन्य के डिबेंचर की बिक्री की खरीद कंपनी; या
 (ग) कंपनी द्वारा एक ऋण।
 इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए –
 (1) 'कुल ताकत' कंपनी के निदेशकों की कुल संख्या का मतलब वहां से घटाने के बाद अधिनियम के अनुसरण में निर्धारित निदेशकों की संख्या, यदि कोई हो, जिसका जगह समय में खाली हो सकता है।
 (2) 'दिलचस्पी निदेशक' धारा के अर्थ में एक निर्देशक का अर्थ होगा 184 (2) इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अधिनियम की।
146. प्रक्रिया है जहाँ बैठक कोरम के अभाव में स्थगित कर दी
 (क) बोर्ड की बैठक कोरम के अभाव में नहीं ठहराई जा सकती है, तो जब तक निदेशक प्रत्येक बैठक में उपस्थित नहीं तो तय है, बैठक स्वचालित रूप से अगले सप्ताह में एक ही दिन तक के लिए स्थगित हो जाएगी एक ही समय और जगह या अगर उस दिन अगले तक यदि राष्ट्रीय छुट्टी है।
 (ख) अनुच्छेद 141 के प्रावधानों के लिए किया गया है नहीं समझा जाएगा इस तथ्य के कारण महज उल्लंघन है कि बोर्ड की बैठक उस लेख के शर्तों के अनुपालन में बुलाया गया था जो कर सकते थे
 कोरम के अभाव में आयोजित की नहीं।
147. बोर्ड समिति नियुक्त कर सकता है
 निदेशक के किसी भी कृत्य प्रतिनिधि के प्रावधानों के अधीन हो सकती है समितियों को अपनी शक्तियों ऐसे सदस्य या सदस्यों से मिलकर उनके शरीर या व्यक्ति या व्यक्तियों में वे ठीक लगता है, और वे समय समय पर इस तरह के प्रतिनिधिमंडल को रद्द कर सकते हैं किसी भी समिति का गठन करेगा इतने में शक्ति इतनी प्रत्यायोजित के कार्य के किसी भी नियमों के अनुरूप है कि हो सकता समय-समय पर निदेशकों द्वारा उस पर लगाए जाएँ जो कार्यकारी कंपनी है एक्सचेंज की एक समिति के रूप में माना जाएगा।
148. समितियों कैसे की बैठक संचालित हो
 बैठकों और ऐसे किसी भी समिति की कार्यवाही को संचालित किया जाएगा बैठक को विनियमित करने के लिए इन प्रस्तुत के प्रावधानों के द्वारा और निदेशकों की कार्यवाही अब तक के रूप में ही लागू होगी
 और इसके तहत निदेशकों द्वारा पिछले लेख में किए गए किसी भी नियमों नहीं कर रहे हैं।
149. बोर्ड या समिति अधिनियमों के दोष बर्दाश्त नहीं की वैध नियुक्ति
 सभी कृत्यों या उसके द्वारा बोर्ड या एक समिति की किसी भी बैठक में किया एक निर्देशक के रूप में काम कर किसी भी व्यक्ति, यह है कि बावजूद वैध होगी बाद में खोज की जा सकती है कि किसी भी एक या अधिक की नियुक्ति या पूर्वोक्त रूप में काम कर किसी भी व्यक्ति के इस तरह के निदेशकों द्वारा अवैध था दोष या अयोग्यता या के कारण किसी भी हैसियत से समाप्त किया था इन प्रस्तुत की अधिनियम में निहित प्रावधान में कि कुछ भी नहीं प्रदान की यह लेख एक निदेशक द्वारा

किया कृत्यों को वैधता देने के लिए समझा जाएगा बाद में उनकी नियुक्ति कंपनी को दिखाया गया है अवैध या पहले होना समाप्त कर दिया गया है।

150. संचलन के संकल्प

कोई संकल्प विधिवत बोर्ड या द्वारा पारित किया गया है समझा जाएगा उसके परिसंचरण द्वारा एक समिति द्वारा जब तक संकल्प किया गया है मसौदे में एक साथ परिचालित आवश्यक कागजात के साथ, यदि कोई हो, के लिए सभी निदेशक या समिति के सभी सदस्यों को तो भारत में (नहीं संख्या में कम होने के कोरम एक बोर्ड या की एक बैठक के लिए तय है कि समिति के रूप में भी मामला हो) और सभी अन्य निदेशकों या सदस्यों के लिए भारत में अपने सामान्य पते पर और इस तरह के द्वारा अनुमोदित किया गया है जैसे निर्देशकों भारत में या उनमें से इस तरह के बहुमत से तो कर रहे हैं के रूप में हकदार हैं संकल्प पर मतदान करने के लिए। जहां कुल संख्या में से एक—तिहाई से भी कम नहीं कुछ समय के लिए कंपनी के निदेशकों में से किसी का संकल्प है कि आवश्यकता होती है के तहत परिसंचरण बैठक में निर्णय लिया जाना चाहिए, अध्यक्ष डाल दिया जाएगा संकल्प बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

151. निदेशकों और समितियों की कार्यवाही की मिनट

कंपनी के बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त का कारण बन जाएगा निदेशकों और बोर्ड के सभी समितियों विधिवत एक किताब में दर्ज किए जाने की या किताबें इस उद्देश्य के लिए प्रदान की है। मिनट में होना चाहिए —

(क) की बैठक में कार्यवाही के एक निष्पक्ष सही सारांश

(ख) निदेशकों के नाम के बोर्ड की बैठक में उपस्थित निदेशक या निदेशक मंडल की किसी भी समिति

(ग) बोर्ड और बोर्ड और सभी की समिति द्वारा की गई सभी आदेश अधिकारियों की नियुक्तियों और निदेशकों की समितियों

(घ) सभी प्रस्तावों और बोर्ड की बैठकों की कार्यवाही बोर्ड की समितियां और

(ई) प्रत्येक संकल्प के मामले में बोर्ड की बैठक में पारित किया या बोर्ड की समिति निदेशकों के नाम यदि किसी भी असहमति से, या संकल्प में बदबनततपदह नहीं।

152. जिसे मिनट तक हस्ताक्षर किए जाने और इस तरह मिनट का असर बोर्ड की कोई बैठक या किसी भी समितियों के किसी भी मिनट बोर्ड दिनांकित और इस तरह के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तात्पर्यित यदि बैठक में अगले या सफल बैठक के अध्यक्ष द्वारा अधिनियम की धारा 118 के प्रावधानों के अनुसार, सभी के लिए करेगा प्रयोजनों के लिए जो भी की वास्तविक निधन के सबूत हो प्रस्तावों और वास्तविक और नियमित रूप से लेनदेन या की घटना इसलिए दर्ज की गई और बैठक की नियमितता की कार्यवाही, जिस पर एक ही जगह ले लिया है करने के लिए दिखाई जाएगी।

153. अधिनियम के प्रावधान

निदेशक धारा 92, 170, 184 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा, 185 अधिनियम, जो सालाना रिटर्न से संबंधित 188 निर्देशकों के रजिस्टर और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनके शेयरधारिता, द्वारा ब्याज के प्रकटीकरण निदेशक, निदेशक, आदि के लिए ऋण, और संबंधित पक्ष के लेनदेन, हद तक लागू हो।

निदेशकों की शक्तियां

154. कंपनी के जनरल शक्तियों में निहित निदेशक

अधिनियम के प्रावधानों और इन प्रस्तुत करने के लिए व्यापार के अधीन कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, जो सभी तरह के कार्य कर सकते हैं और ऐसे सभी कार्य करता है और बातें करते हैं क्योंकि कंपनी ने अपने द्वारा होता है एसोसिएशन के ज्ञापन या अन्यथा अधिकृत व्यायाम और क्या करने के लिए और इन प्रस्तुत द्वारा या कानून का निर्देशन या होने के लिए आवश्यक नहीं हैं प्रयोग या आम बैठक में कंपनी द्वारा किया जाता है, लेकिन विषय फिर भी इस अधिनियम के प्रावधानों को और ज्ञापन एसोसिएशन और इन प्रस्तुत करता है और किसी भी नियम को नहीं किया जा रहा है ज्ञापन के साथ असंगत आम बैठक द्वारा की गई समय—समय पर ऐसी कोई विनियमन जाएगा बशर्ते निदेशक के किसी भी पूर्व अधिनियम है जो इस तरह यदि मान्य किया गया है रद्द नियमन नहीं बनाया गया था।

155. कुछ शक्तियों बोर्ड की बैठक द्वारा प्रयोग किया जा करने के लिए ही बोर्ड में शामिल किया गया मामलों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेगा धारा 179 (3) अधिनियम और नियमों के आधार पर बनाया है, केवल द्वारा इसकी बैठकों में पारित संकल्प का मतलब है। बशर्ते कि बोर्ड के एक संकल्प के द्वारा एक बैठक में पारित कर सकते हैं निदेशकों की किसी भी समिति, प्रबंध निदेशक, प्रतिनिधि प्रबंधक या कंपनी के लिए या एक के मामले में किसी भी अन्य प्रमुख अधिकारी शाखा कार्यालय, शाखा कार्यालय के प्रमुख अधिकारी, शक्तियों के रूप में इस तरह की स्थितियों पर अधिनियम की धारा 179 (3) (डी) (एफ) में निर्दिष्ट बोर्ड लिख सकते हैं।

156. कंपनी के सहमति निश्चित शक्तियों का प्रयोग के लिए आवश्यक

बोर्ड की सहमति के साथ ही निम्न शक्तियों का प्रयोग करेगा एक विशेष संकल्प द्वारा आम बैठक में कंपनीरू —

- (क) बेचने के लिए पट्टे या अन्यथा पूरे या काफी हद तक के निपटान कंपनी, या जहां कंपनी का मालिक उपक्रम के पूरे पूरा का एक उपक्रम है, या काफी हद तक के पूरे से अधिक किसी भी तरह के उपक्रम
- (ख) परिहार के लिए या एक निदेशक से की वजह से किसी भी कर्ज की फिर से भुगतान के लिए समय देना
- (ग) का निवेश करने के लिए, अन्यथा विश्वास प्रतिभूतियों की तुलना में, की राशि किसी भी विलय का एक परिणाम के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त मुआवजा या समामेलन।
- (घ) धन जहां धन के साथ मिलकर उधार लिया जा करने के लिए उधार ले करने के लिए पैसा पहले ही कंपनी (अलावा अस्थायी ऋण से द्वारा उधार के सामान्य पाठ्यक्रम में कंपनी के बैंकों से प्राप्त व्यापार) की चुकता पूंजी के कुल अधिक होगा कंपनी और उसके मुक्त भंडार।
- (ई) के मामले में धर्मार्थ और अन्य फंडों में योगदान किसी भी मात्रा में कुल जो सभी के लिए, किसी भी वित्तीय वर्ष में पांच प्रतिशत से अधिक अपने तीन के लिए औसत शुद्ध मुनाफे तुरंत वित्तीय वर्ष पूर्ववर्ती।

157. विशेष निदेशक को दिया शक्तियां

अनुच्छेद 154 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और सामान्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अन्य शक्तियों इन प्रस्तुत द्वारा प्रदत्त लेकिन के प्रावधानों के अधीन अधिनियम, यह इसके द्वारा स्पष्ट घोषणा की है कि बोर्ड करेगा निम्नलिखित शक्तियां —

- (1) लागत, शुल्क और व्यय, प्रारंभिक और के लिए प्रासंगिक भुगतान करने के लिए
प्रोन्नति, गठन, स्थापना और कंपनी का पंजीकरण।
- (2) विदेशों में इस्तेमाल के लिए एक आधिकारिक मुहर के लिए।
- (3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार में रखने के लिए विदेशी रजिस्टर।
- (4) खरीद करने के लिए या अन्यथा कंपनी के लिए प्राप्त किसी भी संपत्ति के अधिकार या विशेषाधिकार है जो कंपनी के लिए अधिकृत है ऐसी कीमत पर प्राप्त करने के लिए और आम तौर पर इस तरह के नियम और शर्तों पर वे फिट लगता है के रूप में।
- (5) संपत्ति के लिए भुगतान करने के लिए उनके विवेक पर किसी भी संपत्ति या अधिकार या विशेषाधिकार का अधिग्रहण के लिए भुगतान करने के लिए द्वारा या कंपनी के लिए प्रदान की गई है या तो पूरी तरह या आंशिक रूप में सेवाओं नकदी, या शेयर, बांड, डिबेंचर या शेयर के अन्य प्रतिभूतियों में कंपनी, और किसी भी शेयर है कि क्या रूप में पूरी तरह चुकता जारी किया जा सकता है या के रूप में पर सहमत हो सकता है उस पर चुकता रूप में जमा राशि के साथ इस तरह केय किसी भी तरह के बांड, डिबेंचर, डिबेंचर शेयर या अन्य प्रतिभूतियों हो सकता है या तो विशेष रूप से संपत्ति के सभी या किसी भी हिस्से पर आरोप लगाया कंपनी और उसके अनपेक्षित धन या नहीं तो आरोप लगाया।
- (6) गुण बीमा करने के लिए
बीमा और आग से या अन्यथा नुकसान या क्षति के खिलाफ बीमा रखने के लिए ऐसी अवधि के लिए और इस तरह की हद तक वे उचित सभी या किसी भी सोच सकते हैं के रूप में इमारतों, मशीनरी, सामान, दुकानों का हिस्सा है। निर्माण और अन्य या तो अलग-अलग या संयुक्त रूप से कंपनी के जंगम संपत्तिय यह भी करने के लिए सभी या माल के किसी भी हिस्से को ठीक कर लेना। निर्माण मशीनरी और अन्य लेख आयातित या कंपनी द्वारा निर्यात और समर्पण आवंटित बेचने के लिए या इस के अनुसरण में प्रभावित आश्वासन के किसी भी नीतियों बंद शक्ति।
- (7) बैंक खातों को खोलने के लिए
किसी भी बैंक या बैंकों के साथ या किसी कंपनी के साथ खाते खोलने के लिए। फर्म या व्यक्तिगत और में पैसे का भुगतान और इस तरह के किसी भी खाते से पैसे आकर्षित करने के लिए समय-समय पर निदेशक फिट लगता है कि मई के रूप में।
- (8) खाते सुरक्षित करना
में प्रवेश के लिए किसी भी अनुबंध या सगाई की पूर्ति सुरक्षित करने के लिए बंधक या सभी या की संपत्ति में से किसी का प्रभारी द्वारा कंपनी द्वारा कंपनी के लिए और समय में इस तरह के अन्य में होने के लिए अपनी अवैतनिक राजधानी ढंग वे फिट लगता है के रूप में।

(9) स्थिति

किसी भी शेयर को संलग्न करने के विचार या के हिस्से के रूप में जारी किया जाना द्वारा अधिग्रहीत साथ किसी भी अनुबंध या संपत्ति के लिए विचार कंपनी, या कंपनी को दी गई सेवाओं के लिए भुगतान में, इस तरह के के रूप में शर्तों उसके हस्तांतरण करने के रूप में वे फिट लगता है।

(10) शेयर के आत्मसमर्पण स्वीकार करने के लिए

इस तरह के नियम और शर्तों के रूप में किया जाएगा पर किसी भी सदस्य से स्वीकार करने के लिए अपने शेयर या शेयरों का आत्मसमर्पण या उसके किसी भाग पर सहमत हुए।

(11) न्यासियों की नियुक्ति

किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों (शामिल है या नहीं) को नियुक्त करने के लिए स्वीकार करते हैं और कंपनी के लिए किसी भी संपत्ति से संबंधित विश्वास में पकड़ कंपनी या जिसमें यह रुचि रखते हैं, या किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिए और करने के लिए है निष्पादित और ऐसे सभी कृत्यों और चीजों के रूप में हो सकता है के संबंध में अपेक्षित करना किसी भी तरह के विश्वास और इस तरह के ट्रस्टी के पारिश्रमिक के लिए प्रदान करने के लिए या न्यासियों।

(12) संस्थान और कानूनी कार्यवाही की रक्षा करना

संस्थान के लिए, आचरण, रक्षा, यौगिक या किसी कानूनी छोड़ देना चाहिए द्वारा या कंपनी या उसके अधिकारियों या अन्यथा के खिलाफ कार्यवाही कंपनी के मामलों के विषय में, और भी यौगिक और अनुमति देने के लिए किसी भी ऋण की संतुष्टि के भुगतान की वजह के लिए या किसी भी दावे के लिए या समय द्वारा या कंपनी के खिलाफ की मांग।

(13) मध्यस्थता करने का उल्लेख करने के लिए

मध्यस्थता करने के लिए कंपनी द्वारा या के खिलाफ किसी भी दावे या मांग का उल्लेख करने के लिए और निरीक्षण और पुरस्कार प्रदर्शन करते हैं।

(14) दिवालियापन के मामलों में कार्रवाई करने के लिए

दिवालियापन से संबंधित सभी मामलों में कंपनी की ओर से कार्रवाई करने के लिए और दिवाला।

(15) प्राप्तियों देने के लिए

बनाने के लिए और प्राप्तियों, जारी है और धन के लिए अन्य निर्वहन देने के लिए कंपनी के लिए और दावों और की मांगों के लिए देय कंपनी।

(16) बिलों की जांच अधिकृत करने के लिए

समय से जो पर हस्ताक्षर करने के लिए हकदार होगा—समय पर निर्धारित करने के लिए कंपनी की ओर से बिल, नोट्स, रसीदें, स्वीकृतियां, विज्ञापन, चेक, विभाजित वारंट, विज्ञप्ति, अनुबंध और दस्तावेजों।

(17) पैसा निवेश करने के लिए

निवेश और कंपनी का पैसा किसी के साथ सौदा करने के लिए तुरंत नहीं उसके उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, ऐसी प्रतिभूतियों में है और ऐसे में तरीके के रूप में वे फिट हैं और समय—समय पर भिन्न करने के लिए लगता है कि या इस तरह महसूस कर सकते हैं निवेश।

(18) कर्मचारियों आदि के कल्याण के लिए प्रदान करने के लिए

कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रदान करने के लिए कंपनी और उनकी पत्नियों, और परिवार या आश्रितों या कनेक्शन ऐसे व्यक्तियों, इमारत से या घरों के निर्माण में योगदान दे या की अनुदान या पैसे पेंशन, भत्ते, बोनस या अन्य द्वारा आवास या या सदस्यता लेने या योगदान बनाने के द्वारा और समय—समय पर भुगतान प्रोविडेंट और अन्य संगठनों, संस्थानों, धन या ट्रस्टों को और से प्रदान करने या सदस्यता लेने या अनुदेश के स्थानों की दिशा में योगदान और मनोरंजन, अस्पतालों और औषधालयों, चिकित्सा और अन्य उपस्थिति और कंपनी के रूप में अन्य सहायता फिट लगता होगा। के लिए सदस्यता चौरिटेबल फंड आदि।

(19) चौरिटेबल फंड आदि के लिए सदस्यता

अधिनियम की धारा 181 सदस्यता के लिए या के उपबंधों के अधीन किसी भी राष्ट्रीय, धर्मार्थ, उदार, जनता के लिए पैसे की गारंटी, सामान्य या उपयोगी वस्तु या किसी प्रदर्शनी या किसी संस्था, क्लब, समाज के लिए या निधि।

(20) रिजर्व फंड स्थापित करने के लिए

निदेशक किसी भी विभाजित सिफारिश, कंपनी की रकम के मुनाफे के लिए जो उचित लगता है के रूप में या एक मूल्यह्रास निधि करने के लिए या रिजर्व के रूप में या एक रिजर्व के लिए मूल्यह्रास फंड या डूब फंड या किसी विशेष कोष आकस्मिकताओं या को पूरा करने के लिए प्रतिदेय वरीयता शेयर या डिबेंचर या के भुगतान के लिए चुकाने या लाभांश मुनसप्रपदह के लिए या, मरम्मत में सुधार के लिए लाभांश, विस्तार और कंपनी की संपत्ति के किसी भी हिस्से को बनाए रखने के लिए, या इस तरह के अन्य प्रयोजनों के लिए के रूप में निदेशक सकता है उनके पूर्ण विवेक में कंपनी के हितों के लिए अनुकूल लगता है, और हो सकता निदेशक कई रकम इतनी इतना तत्संबंधी के रूप में करने के लिए आवश्यक अलग सेट या निवेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को इस तरह के निवेश पर (विषय निवेश किया अधिनियम) के रूप में निदेशक सोच सकते हैं फिट और समय से साथ सौदा करने के लिए समय और इस तरह के निवेश से भिन्न है और के निपटान और लागू करते हैं और व्यय सभी या कंपनी के लाभ के लिए किसी भी भाग क्या है, इस तरह के तरीके में और के लिए निदेशक के रूप में इस तरह के उद्देश्यों (उपरोक्त के रूप में इस तरह के प्रतिबंध के अधीन) उनकी पूर्ण विवेक में के हित के लिए अनुकूल लगता है कंपनी बर्दाश्त नहीं है कि मामलों को जो निदेशक, लागू या जिस पर वे एक ही है या उसके किसी भाग के मामलों में हो सकता है विस्तार करने के लिए या जिस पर कंपनी की पूंजी धन ठीक ही हो सकता है लागू या खर्च और निदेशकों रिजर्व या किसी विभाजित कर सकते हैं इस तरह के विशेष कोष में निधि और करने के लिए एक कोष से किसी भी राशि का स्थानांतरण एक निदेशक के रूप में एक और ठीक समझे और परिसंपत्तियों काम कर सकते हैं मूल्यह्रास सहित सभी या ऊपर फंडों में से किसी का गठन फंड, कंपनी के व्यापार में या खरीद या पुनर्भुगतान में प्रतिदेय वरीयता शेयरों और डिबेंचरों और बिना किया जा रहा है कि बिना अन्य परिसंपत्तियों से ही अलग रखने के लिए, और बाध्य उसी पर ब्याज का भुगतान करने के लिए हालांकि शक्ति के साथ, बाध्य किया जा रहा, उनके विवेक पर निदेशक भुगतान या इस तरह के कोष में क्रेडिट करने के लिए अनुमति देने के लिए निदेशक के रूप में इस तरह के दर पर ब्याज उचित सोच सकते हैं।

(21) अधिकारियों आदि के नियुक्ति के लिए

समिति या विशेषज्ञों की समिति तकनीशियनों को सलाहकारों या इस तरह के प्रबंधकों, अधिकारियों, लिपिक कर्मचारियों और स्थायी, अस्थायी या विशेष सेवा समय-समय पर प्रदाय करने वाले अभिकर्ताओं की नियुक्ति या अपने विवेक से उन्हें हटाने या निलंबित करने, और उनकी शक्तियों एवं कर्तव्यों और वेतन-भत्तों को निर्धारित करने और ऐसे मामलों में सुरक्षा की जरूरत और ऐसी राशियां जो उचित समझें, उपरोक्त में बिना किसी भेदभाव के उप अनुच्छेद 22 और 23 के प्रावधानों के अनुसार भारत के किसी भी क्षेत्र में समय-समय पर कंपनी का प्रबंधन एवं लेन-देन के मामले उचित विधि के अनुसार बिना किसी भेद-भाव के इस अनुच्छेद में दी गई समान्य शक्तियों के अनुसार निपटायें जायें।

(22) स्थानीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए

उनकी राय में आवश्यकतानुसार किसी भी स्थानीय कानून का अनुपालन करने के लिए जो यह कंपनी के हित में आवश्यक या समीचीन हो।

(23) स्थानीय बोर्ड स्थापित करने के लिए

समय-समय पर और किसी भी समय, किसी भी स्थानीय बोर्ड स्थापित करने के लिए भारत या इसके किसी भी निर्दिष्ट इलाके में कंपनी के मामलों के किसी भी प्रबंध के लिए किसी भी व्यक्ति और स्थानीय बोर्डों के सदस्य नियुक्त करने के लिए और उनके पारिश्रमिक तय करने के लिए। और समय समय पर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन और इनमें से प्रस्तुत करता है, के अधीन किसी भी व्यक्ति को डेलीगेट शक्तियों के साथ भी नियुक्त किया जा सकता है। अधिकारियों और विवेकाधीन शक्तियां निदेशक में निहित की जा रही हैं, और अधिकृत करने के लिए समय के लिए सदस्यों को किसी भी तरह के स्थानीय मंडल की जा रही है, या उनमें से किसी को उसमें किसी भी रिक्त पदों को भरने के लिए और शक्तियों के होते हुए भी कार्य करने के लिए और ऐसे किसी भी नियुक्ति या प्रतिनिधिमंडल इस तरह के नियम और पर बनाया जा सकता है निदेशक के रूप में इस तरह की स्थितियों के अधीन ठीक समझे, और निदेशक ऐसे नियुक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय निकाल सकते हैं। ऐसे प्रतिनिधियों या उप-प्रतिनिधि को सभी या कुछ शक्तियों के लिए निदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारियों और या उनकी विवेकाधीन शक्तियों द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

(24) किसी भी समय और समय-समय पर, लेकिन अधिनियम और अनुच्छेद 147 के प्रावधानों के अधीन करने के लिए, वकील की शक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए या व्यक्तियों ऐसी लिए वकील या कंपनी के वकीलों होना करने के लिए और ऐसी शक्तियों, अधिकारियों और विवेक के साथ प्रयोजनों (से अधिक नहीं उन इन प्रस्तुत तहत निदेशकों द्वारा प्रदत्त या प्रयोग) और ऐसी अवधि और निदेशक के रूप में इस तरह की स्थितियों के अधीन के लिए योग्य प्रतीत होता है और किसी भी ऐसी नियुक्ति (अगर निदेशक को योग्य प्रतीत होता है) हो सकता है सदस्यों के पक्ष में कर दिया है, या किसी स्थानीय के सदस्यों में से किसी बोर्ड, उपरोक्त के रूप में या किसी भी कंपनी या

सदस्यों के पक्ष में स्थापित निदेशक, प्रत्याशियों या किसी भी कंपनी के प्रबंधकों या फर्म या अन्यथा व्यक्तियों की किसी भी अस्थिर शरीर के पक्ष सीधे चाहे नामित या परोक्ष रूप से निदेशक, और वकील की ऐसी कोई शक्ति हो सकती है, के द्वारा संरक्षण या व्यक्तियों के साथ काम की सुविधा के लिए इस तरह की शक्तियां निदेशक के रूप में इस तरह के वकीलों को ठीक समझे।

(25) शक्तियों का प्रत्यायोजन

आम तौर पर इस अधिनियम के प्रावधानों और करने के लिए इन लेख के अधीन को सौंपने, अधिकारियों और निदेशक में निहित विवेकाधीन शक्तियों के अधीन किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या व्यक्तियों।

(26) प्रतिनिधियों द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन

इस तरह के किसी भी प्रतिनिधि या पूर्वोक्त रूप में वकील द्वारा अधिकृत किया जा सकता उप निदेशक प्रतिनिधि को सभी या शक्तियों के अधिकारियों की किसी भी और समय के लिए विवेक उस में निहित जा रहा है।

(27) अनुबंधों में प्रवेश करने लिए

इस तरह के सभी वार्ताओं और अनुबंध में प्रवेश और पुनः दायित्व सौंपें और भिन्न करने के लिए ऐसे सभी अनुबंधों और निष्पादित और सभी तरह के कृत्यों, कर्म और बातें करते हैं नाम और कंपनी की ओर से वे समीचीन समझे जाने के लिए या इस मामले के किसी भी पूर्वोक्त या अन्यथा के लिए के संबंध में कंपनी के उद्देश्य के लिए।

(28) फ्रेम में संशोधन, परिवर्तन, संशोधित करने और नियमों को लागू, नियमों, उपनियमों और एक्सचेंज के सदस्यों के लिए आचार संहिता, कंपनियों को प्रतिभूतियों पर इस तरह के व्यवहार में भर्ती और अन्य प्रतिभागियों की मांग, जो भी शक्ति उपलब्ध कराई गई है एवं इस खंड केवल एक तीन-चौथाई बहुमत से प्रयोग किया जाएगा। जो वर्तमान निदेशक एवं एक विधिवत बुलाई बैठक में मतदान मंडल के समक्ष होगा।

158. बोर्ड के शक्तियां

(1) बोर्ड, व्यवस्थित बनाए रखने, नियंत्रण, प्रबंधन करने की शक्ति होगी, विनियमित करने और एक्सचेंज (एस) के और प्रतिभूतियों के आपरेशन की सुविधा एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्यों के अधीन द्वारा लेनदेन एससीआर अधिनियम इन लेखों के और के प्रावधानों और नियम बनाए वहाँ के तहत और सेबी अधिनियम और नियम, वहाँ विनियमों के तहत या किसी सेबी के निर्देशों।

(2) एससीआर अधिनियम और इन लेखों के और के उपबंधों के अधीन नियमों के तहत बनाए गए और सेबी अधिनियम और वहाँ नियमों के तहत या किसी सेबी के निर्देश, बोर्ड बनाने की शक्ति और व्यापक अधिकार होगा किसी एक या सभी मामलों के लिए नियम, उपनियमों और समय-समय पर विनियम एक्सचेंज के कारोबार के संचालन के संबंध में बोर्ड, व्यवस्थित बनाए रखने, नियंत्रण, प्रबंधन करने की शक्ति होगी, विनियमित करने और एक्सचेंज (एस) के और प्रतिभूतियों के आपरेशन की सुविधा एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्यों के अधीन द्वारा लेनदेन एससीआर अधिनियम इन लेखों के और के प्रावधानों और नियम बनाए वहाँ के तहत और सेबी अधिनियम और नियम, वहाँ विनियमों के तहत या किसी सेबी के निर्देशों के अधीन।

(3) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड होगा बिजली के नियम, उप-कानूनों और नियमों बनाने के लिए, दूसरे के बीच प्रयोजनों के लिए सभी या निम्न विषयों में से किसी –

(क) एक्सचेंज की सदस्यता के लिए प्रवेश के लिए शर्तें।

(ख) एक्सचेंज के कारोबार का संचालन।

(ग) एक्सचेंज का व्यापार करने के संबंध में व्यापार के सदस्यों के आचरण, सभी प्रकार की प्रतिभूतियों में सभी लेनदेन से संबंधित सभी मामलों सहित और सभी अनुबंधों, जो उपनियमों नियम के अधीन किया गया है, विनियम या विवेक का उपयोग।

(घ) फॉर्म और अनुबंध की शर्तों में प्रवेश किया जा सकता है, और समय, मोड और व्यापार के सदस्यों के बीच अंतर ठेके के प्रदर्शन के तरीके एसई या व्यापार के सदस्यों और उनके घटकों के बीच।

(ई) और शर्तों पर लेन-देन के लिए प्रतिभूतियों के प्रवेश के लिए लेवी अदला बदली।

(च) समय, स्थान और एक्सचेंज पर व्यापार लेनदेन के लिए तरीके।

(छ) अवज्ञा या नियमों के उल्लंघन के लिए दंड, उपनियमों और या एक्सचेंज के सामान्य अनुशासन, निष्कासन या शामिल करने की विनियम ट्रेडिंग सदस्यों के निलंबन।

- (ज) चूककर्ता या निलंबन, या किसी भी रूप में व्यापार के सदस्य की घोषणा इस्तीफे या एक्सचेंज का और के व्यापार सदस्यता से बहिष्कार उसके परिणामों के संबंध में
- (छ) कमीशन या ब्रोकरेज जो व्यापार के सदस्यों को चार्ज कर सकते हैं के बावत्
- (जे) की स्थिति, या में प्रवेश के लिए प्रवेश के लिए सदस्यता के लिए लेवी या एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्यता की निरंतरता। (कश्मीर) के रूप में इस तरह के शेयरों में लेनदेन के लिए चार्ज ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा देय समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।
- (ठ) वित्तीय स्थिति, व्यापार आचरण और व्यवहार की जांच ट्रेडिंग सदस्यों की (एम) विवाद, शिकायत, व्यापार के बीच उत्पन्न होने वाले दावों की बस्तियों सदस्यों और लोगों को, जो परस्पर नहीं व्यापार कर रहे हैं और साथ ही सदस्यों ट्रेडिंग सदस्यों और व्यक्तियों के बीच जो नहीं कर रहे हैं ट्रेडिंग सदस्यों प्रतिभूतियों में किसी भी लेनदेन से संबंधित नियम के अधीन कर दिया, उपनियम और विनियमों और निपटान सहित एक्सचेंज का उपयोग नियम, उप-कानूनों और नियमों के अनुसार और मध्यस्थता द्वारा समय-समय पर बल में एक्सचेंज का उपयोग।
- (एन) की स्थापना और समाशोधन गृह या अन्य के कामकाज समाशोधन के लिए व्यवस्था
- (ओ) के किसी भी उद्देश्य के लिए समिति या समितियों की नियुक्ति अदला बदली।
- (4) बोर्ड की कार्यकारी समिति को सौंपने के लिए सशक्त किया जाएगा या किसी भी व्यक्ति के लिए, सभी शक्तियां या उस में निहित के किसी भी, सभी का प्रबंधन करने के लिए या एक्सचेंज के मामलों के किसी भी।
- (5) इन प्रस्तुत के प्रावधानों और एससीआर अधिनियम और नियम के अधीन फँसाया उसके अधीन बनाए और सेबी अधिनियम और नियम उसके अधीन या किसी सेबी निर्देशों, बोर्ड, भिन्न हो संशोधन या निरसन या जोड़ने के लिए सशक्त किया जाएगा नियम, उपनियम और विनियमों के लिए, यह द्वारा तैयार किए।

मेहर

159. मोहर, अपनी हिरासत और उपयोग

बोर्ड कंपनी के उद्देश्य के लिए एक आम सील प्रदान करेगा और एक ही है और विकल्प नष्ट करने के लिए समय-समय पर की शक्ति होगी उसके एवज में एक नया मोहर, और बोर्ड सुरक्षित लिए प्रदान करेगा समय से किया जा रहा है और मोहर के लिए मोहर की हिरासत कभी नहीं इस्तेमाल किया जाएगा द्वारा या बोर्ड या की एक समिति के अधिकार के तहत छोड़कर निदेशक, एक निदेशक, या सचिव की या की उपस्थिति में छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति की है जो कम से कम इस संबंध में अधिकृत किया जा सकता है, जो मोहर कि प्रदान चिपका है जो करने के लिए हर साधन हस्ताक्षर करेगा शेयरों के प्रमाण पत्र के रूप में ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर के तहत हो सकता है कंपनियों (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 द्वारा प्रदान की सेना में समय-समय पर। बचाने के रूप में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान की एक दस्तावेज या कार्यवाही अधिनियम, कंपनी द्वारा प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है एक निदेशक, या सचिव या किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है बोर्ड द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत और अपनी मुहर के तहत होना जरूरत नहीं है।

लाभांश

160. मुनाफों का बंटवारा

कंपनी के लाभ, किसी भी विशेष उससे संबंधित अधिकारों के अधीन बनाया या संघ या ज्ञापन के द्वारा बनाया जा करने के लिए अधिकृत इन प्रस्तुत करता है और अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है, और इन तोहफे के अनुपात में सदस्यों के बीच विभाज्य किया जाएगा पूंजी की राशि क्रमशः उनके द्वारा धारित शेयरों में भुगतान किया।

161. पूर्व में ब्याज पर दी गई पूंजी पर लाभांश नहीं होना

जहां पूंजी स्तर पर कॉल की अग्रिम में भुगतान किया जाता है कि एक ही ब्याज ले जाएगी, इस तरह के पूंजी नहीं करेगा, जबकि ब्याज ले जाने, (लाभांश) के लिए एक सही मुनाफे में भाग लेने के लिए प्रदान करते हैं।

162. भुगतान की गई राशि के अनुपात में लाभांश

कंपनी की चुकता मात्रा के अनुपात में लाभांश का भुगतान कर सकते हैं के रूप में प्रत्येक शेयर, जहां एक बड़ी राशि का भुगतान किया गया है या पर चुकता करने का श्रेय के रूप में दूसरों पर तो कुछ शेयरों पर चुकता श्रेय दिया।

163. आम बैठक में कंपनी के लाभांश की घोषणा हो सकती है

आम बैठक में कंपनी के लाभांश की घोषणा कर सकते हैं के लिए भुगतान किया उनके संबंधित अधिकारों और मुनाफे में हितों के अनुसार सदस्यों और भुगतान के लिए समय ठीक कर सकता है।

164. निदेशक की सिफारिश से बड़ा लाभांश नहीं
कोई बड़ा लाभांश की तुलना द्वारा सिफारिश की है घोषित किया जाएगा निदेशक लेकिन आम बैठक में कंपनी के एक छोटे घोषणा कर सकती है लाभांश, अधिनियम, और की धारा 123 के प्रावधानों के अधीन कोई लाभांश कंपनी के खिलाफ के रूप में ब्याज ले जाएंगे। कंपनी के शुद्ध मुनाफे की राशि की घोषणा निदेशक द्वारा की जाएगी।
165. अंतरिम लाभांश
निदेशक समय-समय पर इस तरह के सदस्यों को अंतरिम करने के लिए भुगतान कर सकते हैं अपने फैसले को सही ठहराते की स्थिति में लाभांश।
166. अनुच्छेद 58 के तहत स्थानांतरण के पूरा होने तक लाभांश को रोकना
निदेशक के संबंध में लाभांश के शेयरों पर देय रखने सकता है जो किसी भी व्यक्ति के अनुच्छेद 57 के तहत करण है, जब तक स्थानांतरण करने के लिए हकदार ऐसे व्यक्ति को ऐसे शेयरों के संबंध में एक सदस्य हो जाएंगे।
167. कोई भी सदस्य लाभांश प्राप्त करने के लिए, योग्य नहीं होगा जबकि कंपनी के प्रति कर्जदार है।
अधिनियम की धारा 123 के अधीन रहते हुए, कोई सदस्य का हकदार होगा अपने हिस्से के संबंध में किसी भी ब्याज या लाभांश के भुगतान प्राप्त या किसी भी पैसा टूपसेज शेयरों की वजह से या उसके पास से कंपनी के कारण हो सकता है या तो अकेले इस तरह के शेयर या शेयर या अन्यथा कितनी ही के संबंध में या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों और निर्देशकों के साथ घटा सकते हैं ब्याज या लाभांश पैसे के सभी रकम किसी भी सदस्य को देय से इसलिए उसके पास से कंपनी की वजह से।
168. सही शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण तक लाभांश लंबित
शेयरों के हस्तांतरण के किसी भी साधन के लिए दिया गया है पंजीकरण और ऐसे शेयरों के हस्तांतरण के लिए कंपनी नहीं किया गया है कंपनी द्वारा पंजीकृत है, यह होगा, बावजूद किसी भी चीज में निहित इन लेख अवैतनिक करने के लिए इस तरह के शेयरों के संबंध में लाभांश का स्थानांतरण लाभांश खाते में जब तक कंपनी पंजीकृत द्वारा अधिकृत है लिखित रूप में इस तरह के शेयरों के धारक अंतरिती करने के लिए इस तरह के लाभांश का भुगतान करने के लिए हस्तांतरण के ऐसे साधन में निर्दिष्ट।
169. लाभांश के संदर्भ में विशेष उपबंध
कोई लाभांश नकद में छोड़कर देय होगा, इस में कुछ भी नहीं प्रदान की अनुच्छेद लाभ या भंडार का पूंजीकरण प्रतिबंधित करने के लिए समझा जाएगा जारी करने के प्रयोजन के लिए कंपनी के लिए पूरी तरह से बोनस शेयर का भुगतान किया या समय के लिए किसी भी राशि के भुगतान के द्वारा आयोजित किसी भी शेयरों पर अवैतनिक किया जा रहा है।
170. लाभांश निर्गमन का तरीका
किसी भी लाभांश, ब्याज या अन्य पैसा के संबंध में नकद में देय शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से या चेक या वारंट भेजा द्वारा भुगतान किया जा सकता पद धारक का पंजीकृत पता या में, करने के लिए निर्देशित के माध्यम से संयुक्त धारकों के मामले में संयुक्त की है कि एक के पंजीकृत पते पर धारकों जो पहले सदस्यों के रजिस्टर पर नाम है, या ऐसे व्यक्ति के लिए और इस तरह का पता करने के लिए धारक या संयुक्त धारकों प्रत्यक्ष लिखित रूप में हो सकता है।
- 170ए. इस तरह हर चेक या वारंट के आदेश को देय किया जाएगा जिस व्यक्ति के पास भेज दिया है। किसी भी तरह से भुगतान जो भी किया जाएगा पैसे का भुगतान या भुगतान किया जाना करने के हकदार व्यक्ति के जोखिम पर। कंपनी के एक भुगतान जो खो दिया है या देशी हो रही है के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कंपनी के एक भुगतान कर दिया समझा जाएगा और प्राप्त एक भुगतान पूर्वगामी अनुज्ञेय से किसी का उपयोग करता है, तो इसके लिए अच्छा मुक्ति साधन बना है।
- 170बी. एक शेयर के दो या अधिक संयुक्त धारकों में से किसी एक प्रभावी प्राप्ति दे सकता है किसी भी लाभांश, बोनस या अन्य पैसा इस तरह के संबंध में देय के लिए शेयर।
171. लावारिस या अवैतनिक लाभांश जिनका पैसा बकाया है
कोई लाभांश कंपनी के खिलाफ ब्याज वहन करेगा।
- (1) जहां कंपनी लाभांश देने की घोषणा की है लेकिन जो भुगतान नहीं किया गया है या सम्मान में लाभांश वारंट उसका 30 के भीतर नहीं नियुक्त किया गया है (तीस) किसी भी शेयरधारक को घोषणा की तारीख से दिन के हकदार लाभांश के भुगतान, कंपनी करेगा 7 (सात) से दिन के भीतर 30 साल की अवधि की समाप्ति की तिथि (तीस) दिन, एक विशेष खाता खोलने कंपनी के नाम पर किसी भी अनुसूचित बैंक में उस निमित्त और कहा खाते में स्थानांतरित, लाभांश की कुल राशि जो रहता है अवैतनिक या संबंध में जो कोई लाभांश वारंट तैनात किया गया है।

- (2) धारा 124 के उपबंधों के अधीन (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की, किसी भी पैसा कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरित किया जो अवैतनिक या से सात साल की अवधि के लिए लावारिस बनी हुई है इस तरह के हस्तांतरण की तिथि, निवेशक को कंपनी द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा शिक्षा और संरक्षण कोष।
- (3) कोई लावारिस या अवैतनिक लाभांश से पहले बोर्ड द्वारा जब्त कर ली जाएगी दावे हो जाता है कानून द्वारा वर्जित बशर्ते कि एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज प्रावधिक एक कंपनी की प्रतिभूतियों निपटने के लिए स्वीकार कर सकते हैं जो अपनी अगली आम बैठक में संघ के लेख में संशोधन करने के लिए इतना चलाती पूर्वगामी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और इस बीच में कार्य करने के लिए सहमत के रूप में सख्ती से इस खंड के प्रावधानों के अनुसार। सभी लावारिस और अवैतनिक लाभांश प्रति कंपनियों की धारा 125 के रूप में कार्यवाई की जाएगी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों।
- (4) कंपनी किसी भी चेक, लाभांश के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा वारंट या लाभांश के संबंध में डाक द्वारा भेजा पोस्टल ऑर्डर, चाहे द्वारा अनुरोध या अन्यथा, पंजीकृत पते या पते पर सदस्य द्वारा या किसी लाभांश के लिए हाथ से पहले कार्यालय को भेजी सदस्य या व्यक्ति के फर्जी पृष्ठांकन द्वारा बहां हकदार को खो दिया है किसी भी चेक या वारंट या किसी अन्य द्वारा धोखाधड़ी वसूली तत्संबंधी माध्यम।

172. लाभांश और एक साथ बुलावा

अधिनियम के अधीन रहते हुए, किसी भी आम बैठक लाभांश देने की घोषणा कर सकते हैं धनराशि बकाया के संबंध में सदस्यों पर एक कॉल इस तरह के शेयरों पर बैठक सुधारों के रूप में राशि है, लेकिन इतना है कि प्रत्येक सदस्य पर कॉल नहीं करेगा लाभांश और उसे करने के लिए देय इतना है कि कॉल पर देय से अधिक लाभांश, लाभांश के रूप में और एक ही समय है, इसलिए हो सकता है यदि व्यवस्था की कंपनी और सदस्यों के बीच कॉल के खिलाफ बंद सेट किया।

पूंजीकरण

173. पूंजीकरण

(ए) आम बैठक में कंपनी ने बोर्ड की सिफारिश पर

- (1) यह कुछ समय के लिए राशि के किसी भी हिस्से को भुनाने के लिए वांछनीय है कि कंपनी के आरक्षित खातों में से किसी का क्रेडिट करने के लिए खड़े हैं, या करने के लिए लाभ और हानि खाते, या वितरण के लिए उपलब्ध अन्यथा की क्रेडिट; तथा
 - (2) इस तरह के योग तदनुसार ढंग से वितरण के लिए मुक्त होना तय नीचे खंड (ख) में निर्दिष्ट सदस्य जो हो गया होता बीच बहां हकदार, अगर लाभांश के माध्यम से और एक ही में वितरित अनुपात।
- (बी) के योग उक्त नकद में भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन लागू किया जाएगा, के अधीन प्रावधान खंड में निहित (3) के नीचे, या तो में या की दिशा
- (क) समय के लिए किसी भी मात्रा में भुगतान किसी भी द्वारा आयोजित शेयरों पर अवैतनिक किया जा रहा है ऐसे क्रमश सदस्यों
 - (ख) पूर्ण, अनिर्गमित शेयर या कंपनी के अन्य प्रतिभूतियों होने के लिए भुगतान आबंटित और वितरित, पूरी तरह से पेड-अप के रूप में जमा करने के लिए और इस तरह के लोगों के बीच अनुपात पूर्वोक्त में सदस्यों
 - (ग) आंशिक रूप से जिस तरह से उप-खंड (ए) में निर्दिष्ट में और आंशिक रूप से है कि में निर्दिष्ट में उपखंड (ख);
 - (घ) पूरी तरह से पेड-अप बोनस शेयर जारी तथा
 - (ई) एक प्रतिभूतियों प्रीमियम खाते और एक पूंजी के रिजर्व खाते या किसी भी अन्य अनुमत रिजर्व खाते सकता है, इन के प्रयोजनों के लिए लेख, अनिर्गमित शेयरों के लिए भुगतान करने के लिए जारी किए जाने में लागू किया जा के रूप में पूरी तरह से भुगतान बोनस शेयर सदस्य।
- (सी) एक प्रतिभूतियों प्रीमियम खाते और एक पूंजी के रिजर्व खाते या किसी भी अन्य अनुमत रिजर्व खाते सकता है, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अनिर्गमित शेयरों के सदस्यों को जारी किए जाने के भुगतान में लागू किया जा पूरी तरह से भुगतान बोनस शेयर के रूप में कंपनी हिसाब किताब।

लेखा

174. लेखा

बोर्ड की धारा 128 के अनुसार रखा जाना करने के लिए प्रेरित करेगा खाता (के समुचित पुस्तकों में कार्य के लिए सम्मान के साथ (क) पैसे के सभी रकम, प्राप्त के संबंध में कंपनी और मामलों द्वारा खर्च जो इस प्रकार की प्राप्ति और व्यय ले जगह (ख) सभी बिक्री और कंपनी और (ग) संपत्ति से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद क्रेडिट और कंपनी की देनदारियों) और आम तौर पर सभी को अपने वाणिज्यिक वित्तीय और अन्य मामलों, लेनदेन और सगाई और अन्य सभी की मायने रखती है, सच वित्तीय राज्य और की हालत दिखाने के लिए आवश्यक कंपनी, और खातों अंग्रेजी में और में रखा जाएगा ढंग खातों की पुस्तकों अधिनियम की धारा 128 में प्रदान की और पंजीकृत कार्यालय या ऐसी जगह या भारत में स्थानों पर रखा जाएगा बोर्ड के रूप में अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन फिट लगता है (जहां इस तरह के एक निर्णय लिया जाता है, कंपनी, सात दिनों के भीतर क्या है, रजिस्ट्रार के साथ का पूरा पता दे लिखित रूप में नोटिस दाखिल कि अन्य जगह) और के दौरान निदेशक द्वारा निरीक्षण के लिए खुला हो जाएगा काम करने के घंटे।

175. अकाउंट के सदस्य और कंपनी के बही-खातों की जांच निरीक्षण

बोर्ड समय-समय पर तय करेगा कि क्या और किस हद तक और किस समय और स्थानों पर और क्या शर्तों के तहत या नियमों खातों और कंपनी के बही-खातों या उनमें से किसी को सदस्यों को नहीं किया जा रहा निदेशकों और के निरीक्षण के लिए खुला हो जाएगा कोई सदस्य (एक निर्देशक नहीं जा रहा है) का निरीक्षण करने के लिए कोई अधिकार होगा और खाते या किताब या कंपनी के दस्तावेज के रूप में कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर या निदेशकों द्वारा या में जनरल कंपनी द्वारा अधिकृत मुलाकात।

176. वित्तीय वक्तव्यों और रिपोर्ट हर वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए

कंपनी के निदेशक मंडल के हर सालाना आम बैठक में कंपनी इस तरह की बैठक से पहले के लिए वित्तीय वक्तव्यों रखे वित्तीय वर्ष के लिए और के रूप में अधिनियम की धारा 134 के द्वारा जरूरी होगा, हो निदेशकों की एक रिपोर्ट (संलग्न किया जाना है साथ ही) के रूप में के साथ राज्य और कंपनी की हालत।

177. फार्म और वित्तीय बयान की सामग्री

कंपनी के हर वित्तीय बयान को एक सच्चे और निष्पक्ष दृश्य देना होगा कंपनी के मामलों के राज्य के और करेगा, के अधीन धारा 129 और 133 अधिनियम के प्रावधानों की, रूपों में हो में निर्धारित भाग में और अधिनियम की अनुसूची प्प के क्रमशः द्वितीय, या के रूप में निकट के रूप में बहां परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं।

178. सदस्यों को भेजे जाने वाले वित्तीय बयान और अन्य दस्तावेजों का प्रमाणीकरण

(1) कंपनी के वित्तीय बयान हस्ताक्षरित किया जाएगा कंपनी जहां वह बोर्ड द्वारा या दो द्वारा अधिकृत है की अध्यक्ष निदेशक, जिनमें से एक निदेशक और मुख्य प्रबंध किया जाएगा बाहर कार्यकारी अधिकारी, अगर वह कंपनी में एक निदेशक है, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी के कंपनी सचिव, जहाँ भी वे कर रहे हैं नियुक्त किया है। वित्तीय बयान बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा इससे पहले कि वे के अनुसार बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर किए हैं इस अनुच्छेद के प्रावधानों और इससे पहले कि वे के लिए लेखा परीक्षक को प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी प्रतिवेदन। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा वित्तीय बयान या वहाँ वित्तीय के पैर में डाला जाएगा बयानों की रिपोर्ट के लिए एक संदर्भ।

(2) एक साथ लेखा परीक्षित के इस तरह के वित्तीय बयान की एक प्रति की एक प्रति के साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कम से कम करेगा इक्कीस दिनों में बैठक से पहले जो एक ही कंपनी के सदस्यों के समक्ष रखा जा रहे हैं, अधिनियम की धारा 101 के प्रावधानों के अधीन, हर के लिए भेजा जा कंपनी का सदस्य, किसी भी धारकों के लिए हर ट्रस्टी के लिए कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों, इस तरह के किसी सदस्य या ट्रस्टी है कि क्या या आम बैठक के नोटिस का हकदार नहीं है की कंपनी भेजे जाने के लिए उसे करने के लिए और इस तरह के सदस्यों या न्यासियों के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों को, व्यक्तियों की जा रही है ताकि हकदार है और उसी की एक प्रति उपलब्ध कराया जाएगा एक के दौरान कंपनी के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए कार्यालय में उस बैठक से पहले कम से कम इक्कीस दिनों की अवधि।

179. वित्तीय वक्तव्यों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की प्रतियां दाखिल किए जाने के संबंध में

वित्तीय वक्तव्यों एक कंपनी से पहले निर्धारित किया गया है आम बैठक, तीन प्रतियां उसके प्रबंधक या सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए या के रूप में अपेक्षित के साथ अधिनियम की धारा 137 द्वारा अपेक्षित एक साथ करेगा अधिनियम की धारा 92 की आवश्यकताओं के अनुसार रिटर्न हो समय की धारा 137 में निर्दिष्ट के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के साथ दायर की जानी है।

लेखा परीक्षा

180. लेखा ऑडिट होने के लिए

एक बार में कम से कम हर साल में कंपनी के खातों की जाएगी संतुलित और लेखा परीक्षित और वित्तीय बयान की सत्यता एक या एक से अधिक लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों द्वारा पता लगाया।

181. नियुक्ति, योग्यता और लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक

नियुक्ति, फिर से नियुक्ति, रोटेशन, हटाने, इस्तीफा, पात्रता, योग्यता, अयोग्यता, पारिश्रमिक, शक्तियों और कर्तव्यों के आदि सांविधिक लेखा परीक्षकों अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा और उसके अधीन बनाए गए नियमों।

182. लेखा परीक्षकों: उनके अधिकारों और कर्तव्यों

(1) कंपनी के हर लेखा परीक्षक के लिए हर समय का उपयोग का अधिकार होगा किताबें और खातों और कंपनी के वाउचर और हो जाएगा निदेशकों और कंपनी के अधिकारियों से की आवश्यकता के हकदार है, जैसे जानकारी के रूप में और स्पष्टीकरण के प्रदर्शन के लिए आवश्यक हो सकता है लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षकों के कर्तव्यों को रिपोर्ट करेगा खातों उनके द्वारा और हर वित्तीय पर जांच पर शेयरधारकों बयानों जिसके द्वारा और अधिनियम के तहत आवश्यक हैं इससे पहले रखी हैं आम बैठक, और रिपोर्ट में कंपनी राज्य करेगा कि क्या उनके राय और उनकी जानकारी और ज्ञान का सबसे अच्छा करने के लिए कहा लेखा, एक सच्चे और निष्पक्ष दृश्य के रूप में कंपनी के मामलों के राज्य देना अंत में यह अपने वित्तीय वर्ष और वर्ष के लिए लाभ और हानि और नकदी प्रवाह और के रूप में इस तरह के अन्य मामलों निर्धारित किया जा सकता है।

(2) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट भी मामलों के तहत निर्धारित राज्य करेगा अधिनियम की धारा 143 के।

183. लेखा परीक्षकों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार

की सभी सूचनाएं और किसी भी आम बैठक से संबंधित अन्य संचार कंपनी है जो कंपनी के किसी भी सदस्य है हकदार है उसे करने के लिए भेजा भी कंपनी के लेखा परीक्षकों और को भेज दिया जाएगा लेखा परीक्षकों या तो खुद के द्वारा या के माध्यम से भाग लेने के लिए हकदार होगा उसकी अधिकृत प्रतिनिधि, जो भी एक लेखा परीक्षक बनने के लिए योग्य हो जाएगा, और किसी भी सामान्य बैठक है जिसमें वे भाग लेने या के किसी भी हिस्से में सुना जा व्यवसाय है जो उन्हें लेखा परीक्षकों के रूप का सवाल है।

नोटिस

सूचना

184. सूचना

(1) एक दस्तावेज (जो किसी भी सम्मन, नोटिस, प्रार्थना, आदेश भी शामिल है, घोषणा, फार्म और रजिस्टर) किसी भी सदस्य पर भेजकर कार्य किया जा सकता है डाक द्वारा या पंजीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट से या कूरियर द्वारा या उसके द्वारा यह अपने कार्यालय या पते पर, या इलेक्ट्रॉनिक मोड या किसी अन्य द्वारा पहुंचाने साधनों के रूप में अधिनियम के तहत निर्धारित है।

(2) इस तरह की सेवा के लिए एक के मामले में प्रभावित किया गया है समझा जाएगा पत्र के बाद अड़तालीस घंटे की समाप्ति पर एक बैठक का नोटिस एक ही युक्त पर पोस्ट किया जाता है, और किसी भी अन्य मामले में, समय पर जो पत्र पोस्ट के सामान्य पाठ्यक्रम में दिया गया होता। सदस्य एक के माध्यम से किसी भी दस्तावेज की डिलीवरी के लिए अनुरोध कर सकते हैं विशेष विधा है, जिसके लिए वह इस तरह की फीस का भुगतान करेगा के रूप अधिनियम के अनुसार में निर्धारित किया जा सकता है।

185. व्यक्तियों आम बैठक के नोटिस के हकदार

हर आम बैठक की सूचना एक ही तरीके से दी जाएगी इसमें इसके (सहित (क) कंपनी के हर सदस्य के लिए अधिकृत शेयर वारंट), (ख) में एक साझा करने के हकदार हर व्यक्ति के पदाधिकारियों मौत या एक सदस्य के दिवालियेपन का परिणाम है जो लेकिन उसके लिए मौत या दिवालियेपन को बैठक की सूचना प्राप्त करने के हकदार हो जाएगा (ग) लेखा परीक्षक या कंपनी के लेखा परीक्षकों के लिए और भी करने के लिए (घ) के हर निदेशक कंपनी।

186. कंपनी द्वारा सूचना और हस्ताक्षर

किसी भी नोटिस कंपनी द्वारा दी जाने वाली द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा सचिव (अगर कोई है) या ऐसे अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति, इस तरह के रूप में हो सकता द्वारा हस्ताक्षर, लिखा जा सकता है मुद्रित या सपजीवहतंचीमक।

187. स्थानांतरण आदि से जुड़ी पूर्व सूचना वाली नोटिस

प्रत्येक व्यक्ति, जो, कानून, हस्तांतरण या अन्य साधनों के आपरेशन के द्वारा जो भी, किसी भी साझा करने के हकदार हो जाएंगे, हर से बाध्य किया जाएगा इस तरह के शेयर के संबंध में नोटिस है, जो पहले अपने नाम करने के लिए और पता और शेयर कंपनी को अधिसूचित किया जा रहा करने के लिए शीर्षक, होगा विधिवत जिस व्यक्ति से वह इस तरह करने के लिए अपने खिताब प्राप्त कर लेता है के लिए दिया गया शेयर।

188. सूचना वैध हालांकि सदस्य मृत है

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी भी सूचना के अनुसरण में दिया इन प्रस्तुत या दस्तावेजों को जन्म दिया या डाक द्वारा भेजा करने के लिए या पर छोड़ दिया किसी भी सदस्य का या के तहत उसके द्वारा दिए गए पते पर पंजीकृत पता इन प्रस्तुत के अनुसरण में अनुच्छेद 185, करेगा इस तरह के होते हुए भी सदस्य तो मृतक किया जाए या नहीं और कंपनी नोटिस दिया उसके मरने की विधिवत किसी के संबंध में कार्य किया गया है समझा जाएगा पंजीकृत शेयर, कि क्या इस तरह से अन्य व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से या संयुक्त रूप से आयोजित किया कुछ अन्य व्यक्तियों तक सदस्य के रूप में उसके स्थान पर पंजीकृत होना धारक या संयुक्त धारक क्या है, और इस तरह की सेवा सभी प्रयोजनों के लिए करेगा इन प्रस्तुत की ऐसी सूचना या की पर्याप्त सेवा समझा जा उसके या उसके वारिस निष्पादकों या प्रशासकों और सभी व्यक्तियों पर दस्तावेज, अगर किसी भी संयुक्त रूप से इस तरह के किसी भी हिस्से में उसे या उसके साथ दिलचस्पी नहीं है।

गोपनीयता खंड

189. गोपनीयता खण्ड

कोई भी सदस्य की खोज या किसी भी जानकारी की आवश्यकता के लिए हकदार होगा कंपनी के व्यापार के किसी भी विस्तार का सम्मान (या विनिमय के) या किसी भी बात नहीं है जो एक व्यापार रहस्य की प्रकृति में हो सकता है, के रहस्य व्यापार या गुप्त प्रक्रिया है जो व्यापार के संचालन से संबंधित हो सकती है कंपनी और निदेशकों की राय में, जिनमें से हो जाएगा करने के लिए कंपनी के सदस्यों के हित में बेमतलब जनता के लिए संवाद।

क्षतिपूर्ति और जिम्मेदारी

190. निदेशकों और क्षतिपूर्ति करने के लिए अन्य के अधिकार

- (1) अधिनियम, निदेशक मंडल के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए अन्य समय, यदि कोई हो, कंपनी के लेखा परीक्षक और न्यासी होने के लिए समय कंपनी के मामलों के किसी और के संबंध में अभिनय किया जा रहा उनमें से हर एक के लिए और उनके वारिस, निष्पादकों में से हर एक और प्रशासकों क्षतिपूर्ति और हानिरहित से बाहर सुरक्षित किया जाएगा आस्तियों और से और सभी कार्यों, लागत के खिलाफ कंपनी के मुनाफे, आरोप है, हानि, क्षति और खर्च जो वे या उनमें से किसी को, उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादक या प्रशासकों उठाना हो सकता है या जाएगा या द्वारा बनाए रखने या किसी भी, काम में सहमति जताई या में या निष्पादन के बारे में छोड़े गए अधिनियम के कारण अपने कर्तव्य के, या सिवाय उनके संबंधित अधिकारियों या ट्रस्टों में कर्तव्य माना जाता इस तरह, यदि कोई हो, के रूप में वे अपने ऊपर लेना या के माध्यम से या अपने स्वयं के जान-बूझकर द्वारा बनाए रखने जाएगा उपेक्षा या डिफॉल्ट क्रमशः।
- (2) बचाने और छोड़कर अब तक इस अनुच्छेद के प्रावधानों से बचा जा जाएगा अधिनियम, उनमें से कोई भी कृत्य के लिए जवाबदेह होना होगा, रसीदें, दमहसमबजे या दूसरे या उनमें से अन्य की चूक, या किसी में शामिल होने के लिए अनुरूपता की खातिर रसीद, या किसी भी बैंकरो का दिवाला या दूसरे के लिए या जिसे किसी भी पैसा है के साथ व्यक्तियों के प्रभाव कंपनी से संबंधित या दर्ज कराई जा सकती है अथवा सुरक्षित अभिरक्षा के लिए या के लिए जमा कमी या किसी भी सुरक्षा के कोई पैसा है जिस पर की कमी कंपनी से संबंधित बाहर रखा जाएगा या निवेश या निवेश या किसी भी अन्य हानि, दुर्भाग्य या क्षति जो में हो सकता है के लिए उनके संबंधित कार्यालयों या ट्रस्टों के संबंध में या निष्पादन के सिवा, सिवाय जब एक ही द्वारा या हालांकि उनके अपने जानबूझकर उपेक्षा हो जाएगा या क्रमशः डिफॉल्ट।
- (3) अधिनियम, कोई निदेशक या अन्य अधिकारी के उपबंधों के अधीन कंपनी में कार्य करता है, रसीदें, उपेक्षा या किसी के डिफॉल्ट के लिए उत्तरदायी होगा अन्य निदेशक या कंपनी की या किसी रसीद या अन्य में शामिल होने के लिए अधिकारी किसी भी नुकसान या खर्च कंपनी के लिए हो रहा लिए अनुरूप के लिए अधिनियम द्वारा अधिग्रहीत किसी भी संपत्ति को कमी या खिताब के लिए कमी के माध्यम से के लिए या कंपनी के लिए या ओर से निदेशक के आदेश कमी या किसी भी सुरक्षा की कमी में या किसी भी जिस पर कंपनी की धनराशि का निवेश किया जाएगा या किसी भी हानि क्षति के लिए उत्पन्न होने वाले दिवाला, दिवाला या कपटपूर्ण कार्य या जिनके साथ किसी भी व्यक्ति से किसी भी धन, प्रतिभूतियों या प्रभाव या जमा किया जाएगा किसी भी नुकसान के लिए निर्णय या निरीक्षण उसकी ओर से, या के लिए कोई भी त्रुटि से हुआ किसी भी अन्य हानि, या जो भी क्षति है, जो में हो जाएगा उनके कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन के संबंध में या जब तक एक ही बहां अपने ही लापरवाही या बेईमानी के माध्यम से होता है।

- (4) अधिनियम (197 सहित धारा के प्रावधानों के साथ पढ़ने के लिए विषय धारा 196 और अनुसूची) और नियम, उसके अधीन बनाए गए हैं, तो कंपनी इसके प्रबंध निदेशक, पूरे समय की ओर से एक बीमा प्राप्त किया है निदेशक, प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी या में किसी भी दायित्व के खिलाफ उनमें से किसी को क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी सचिव किसी भी लापरवाही, डिफॉल्ट, अपकरण का सम्मान, कर्तव्य या उल्लंघन के उल्लंघन विश्वास का है जिसके लिए वे निर्देशकों के संबंध में दोषी हो सकता है और क्षतिपूर्ति करने के लिए अन्य की सही पारिश्रमिक को देय के हिस्से के रूप में व्यवहार किसी भी तरह के कर्मियों। बशर्ते कि यदि ऐसे व्यक्ति को दोषी साबित हुई है, इस तरह के बीमा पर भुगतान प्रीमियम के एक हिस्से के रूप में माना जाएगा।

समापन करना

191. समापन पर संपत्ति में से वितरण

- (1) कंपनी नुकसान में आ जाये और वितरण के लिए उपलब्ध संपत्ति

जैसे सदस्यों के बीच की सारी चुकाने के लिए अपर्याप्त हो जाएगा पेड-अप कैपिटल, ऐसी संपत्ति वितरित किया जाएगा तो यह है कि के रूप में लगभग, हानि के अनुपात में सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा जा सकता है राजधानी पेड-अप या जो सभी प्रारंभ पर भुगतान किया गया है चाहिए की एक में क्रमश और अगर उनके द्वारा धारित शेयरों पर समापन परिसंपत्तियों उपलब्ध समापन सदस्यों के बीच वितरण के लिए पर राजधानी पेड-अप के पूरे चुकाने के लिए पर्याप्त से अधिक हो जाएगा समापन के प्रारंभ, अतिरिक्त वितरित किया जाएगा के प्रारंभ में पूंजी के अनुपात में सदस्यों के बीच समापन तक भुगतान किया है या जो शेयरों पर भुगतान किया गया है चाहिए क्रमश: उनके द्वारा आयोजित हो।

- (2) संपत्ति के वितरण का तरीका

कंपनी नुकसान में आ जाये चाहे स्वेच्छा से या अन्यथा, समापक के बीच विशेष संकल्प विभाजन की मंजूरी के साथ कर सकते हैं योगदानकर्ताओं, नकदी या वस्तु, पूरे या की संपत्ति के किसी भी हिस्से में कंपनी और, जैसे मंजूरी के साथ, की संपत्ति के किसी भी हिस्से निहित हो सकती है के लाभ के लिए इस तरह के ट्रस्टों पर न्यासियों में कंपनी योगदानकर्ताओं या उनमें से किसी को, परिसमापक के रूप में, जैसे मंजूरी के साथ करेगा लगता है कि फिट है, लेकिन इतना है कि कोई योगदान किसी भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, शेयर या अन्य प्रतिभूतियों जिस पर किसी भी दायित्व है।

सामान्य अधिकार

- 192ए. जहां कहीं भी अधिनियम में, यह प्रावधान किया गया है कि कंपनी होगा किसी अधिकार, विशेषाधिकार या प्राधिकारी या उस कंपनी को कोई बाहर ले सकता है लेन-देन की ही अगर कंपनी तो अपने लेख, द्वारा अधिकृत है तो और में उस मामले में इस अनुच्छेद के लिए अधिकृत है और कंपनी की शक्ति प्रदान करने के लिए इस तरह की राशि अधिकार, विशेषाधिकार या अधिकारियों और इस तरह के लेनदेन ले जाने के लिए के रूप में इस संबंध में कोई विशेष लेख होने के बिना अधिनियम द्वारा अनुमति दी गई, और इस के साथ साथ प्रदान की है।

- 192बी. इसके अलावा, जहां अधिनियम या नियम किसी भी व्यायाम करने के लिए बोर्ड की शक्ति प्रदान

के लिए और कंपनी की ओर से शक्तियां, बोर्ड का हकदार होगा एक ही व्यायाम, ध्यान दिए बिना की ही इस में निहित है कि क्या लेख या नहीं।

- 192सी. अधिनियम के प्रावधानों के कुछ होते हुए भी प्रभावी होंगे इन लेखों में इसके विपरीत होता है। किसी भी प्रावधान में निहित इन लेख करेगा, किस हद तक यह के प्रावधानों के प्रतिकूल है अधिनियम, हो जाते हैं या शून्य हो, और एक ही अन्य को प्रभावित किए बिना करेगा इन लेखों में निहित प्रावधानों के तहत।

- 192डी. इन लेखों के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंजों और विलयरिंग निगमों) विनियम, 2012 के रूप में संशोधन, और अन्य नियमों, विनियमों, परिपत्रों, सूचनाएं, आदेश या प्रतिभूति द्वारा जारी किए गए निर्देशों और समय-समय पर भारत की विनियम बोर्ड (हद तक लागू करने के लिए) के तहत।

हम कई व्यक्तियों, जिनके नाम, पते, विवरण और व्यवसायों नीचे सब्सक्राइब किया जाता है, एसोसिएशन के इस जापन के अनुसरण में एक कंपनी में गठन किया जा रहा करने के इच्छुक हैं और हम क्रमशः कंपनी की राजधानी में संकेत में शेयरों की संख्या लेने के लिए सहमत अपने-अपने नामों के खिलाफ

क्रमांक।	नाम, पता, सब्सक्राइबर के कब्जे और पिता का नाम (s)	ग्राहक के हस्ताक्षर	नाम, पता, व्यवसाय और गवाह के हस्ताक्षर
१	नेशनल सिक्युरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	नेशनल सिक्युरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड टी वेंकट राव - प्रबंध निदेशक	<p>मैं ग्राहकों को जो सदस्यता के लिए और मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं करने के लिए गवाह। इसके अलावा मैं उनकी पहचान के लिए उनकी पहचान सत्यापित विवरण और के रूप में भरा उनकी पहचान के ब्यौरे की अपने आप को संतुष्ट किया है।</p> <p>साइन; - जतिन कपाड़िया</p> <p>कंपनी सचिव</p> <p>एसीएस ; -26725</p> <p>सी.पी.;- 12043</p>
२	अमित अमलानी	अमित अमलानी	
३	नटराजन रामासामी	नटराजन रामासामी	
४	हुजेफा महुवावाला	हुजेफा महुवावाला	
५	रविंद्र मोहन. बी	रविंद्र मोहन. बी	
६	आर. जयकुमार	आर. जयकुमार	
७	नीलेश तीनाइकर	नीलेश तीनाइकर	

तारीख: 16 नवंबर 2016

जगह: मुंबई

एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

नीलेश तीनाइकर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग (समाशोधन) कॉरपोरेशन लिमिटेड
 एन.एस.ई. आई.एफ.एस.सी. क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के उपनियमों में निहित प्रावधान यहां समायोजित हैं
 उपनियम
 अध्यायों की सूची

अध्याय विवरण

1 परिभाषाएं

2 नियम

3 समाशोधन सदस्य

4 समझौतों का समाशोधन और निपटान

5 समाशोधन सदस्यों द्वारा व्यवहार

6 मुनाफा

7 मध्यस्थता

8 निपटान जमानत निधि

9 आभाव/दोष

10 विविध

1 बोर्ड

बोर्ड का मतलब समाशोधन निगम निदेशक मंडल है

2 उपनियम

जब तक संदर्भ अन्यथा सांकेतिक नहीं करता है, उपनियमों का मतलब है कि समाशोधन निगम के उपनियम कुछ समय के लिए लागू होते हैं।

3 समाशोधन और निपटान

“समाशोधन और निपटान” का मतलब समाशोधन या निपटान या समाशोधन और निपटान, इस प्रकार से तथा उन शर्तों पर जो उपयुक्त अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गयी हैं, जब तक कि जब तक कि संदर्भ अन्यथा नहीं दर्शाता

4 समाशोधन बैंक

समाशोधन बैंक ऐसे बैंक हैं, क्योंकि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन समाशोधन निगम के माध्यम से रिक्त किए गए सभी सौदों और समाशोधन सदस्यों के बीच किसी भी अन्य फंड के लिए मार्जिन मनी के संग्रह के लिए धन निकासी एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है और समाशोधन निगम और समाशोधन सदस्यों के बीच समय-समय पर समाशोधन निगम द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

5 समाशोधन निगम

समाशोधन निगम का अर्थ एनएसई आईएफएससी समाशोधन निगम लिमिटेड है।

6 समाशोधन सदस्य

समाशोधन सदस्य का मतलब समाशोधन निगम का सदस्य है और समाशोधन सदस्य की सभी श्रेणियां शामिल हैं जिन्हें समाशोधन निगम द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है लेकिन समाशोधन निगम के शेयरधारकों को लक्षित नहीं करता है।

7 अंशभूत/ग्राहक

एक ग्राहक अंशभूत का अर्थ है एक व्यक्ति, जिनके निर्देशों पर और जिनके खाते पर समाशोधन सदस्य सौदों को समाशोधन और निपटा लेता है। इस प्रयोजन के लिए, ग्राहक शब्द में विनिर्दिष्ट एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों के सभी पंजीकृत घटक शामिल होंगे।

स्पष्टीकरण 1 नियम अंशभूत और ग्राहक का उपयोग नियम में एक दूसरे के लिए किया जाता है, नियम और विनियम और इसका अर्थ यहां पर निर्दिष्ट किया गया है।

स्पष्टीकरण 2 उद्योग के संबंध में अंशभूत शब्द में एक उद्योग सदस्य भी शामिल होगा जिसमें निर्दिष्ट एक्सचेंज पर किए गए ऐसे ट्रेडों को समाशोधन सदस्य द्वारा उनकी ओर से स्पष्ट कर देता है।

- 8 सौदे
सौदे का मतलब है, जब तक कि संदर्भ अन्यथा इंगित नहीं करता है, निर्दिष्ट एक्सचेंज पर निष्पादित ट्रेडों को समाशोधन निगम के माध्यम से स्पष्ट करने और निपटान करने के लिए स्वीकृत कराया जाता है।
- 9 वितरण सदस्य वितरण सदस्य का अर्थ है एक समाशोधन सदस्य जिसकी मूल अंश बांड अन्य प्रतिभूति प्रमाणपत्र, दस्तावेज हस्तांतरण आदि दस्तावेज वितरित किए गए हैं। ऐसे अनुबंधों की पूर्ति में वितरण के लिए जरूरी है, जिसमें ये नियम, उप-नियम और विनियम लागू नहीं हैं संदर्भ अन्यथा इंगित करता है।
- 10 प्राप्तकर्ता सदस्य जिसका अर्थ है कि कोई नियम जो कि ये नियम, उप-नियम और विनियम लागू नहीं होता है, जब तक संदर्भ अन्यथा नहीं दर्शाता है, एक समाशोधन सदस्य को प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए मूल शेयर बांड अन्य प्रतिभूति प्रमाणपत्र, हस्तांतरण दस्तावेज आदि सहित दस्तावेज प्राप्त हैं।
- 11 आईएफएससी
आईएफएससी का मतलब है 2015 के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सेबी द्वारा परिभाषित के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर)।
- 12 नेटिंग
नेटिंग का मतलब समाशोधन निगम द्वारा समाशोधन सदस्यों की समाप्ति या वितरण के दायित्वों द्वारा अंतर की दायित्वों को बदलने या समायोजन या प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से उत्पन्न होने वाले दावों के द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसमें समापन से उत्पन्न होने वाले दावों और दायित्वों सहित समाशोधन निगम, ऐसी परिस्थितियों में, समाशोधन निगम भविष्य की तारीख में निपटारे के लिए स्वीकार किए गए सौदों के नियमों में निर्दिष्ट हो सकती है, ताकि केवल एक शुद्ध दावे की मांग की जा सके, या एक शुद्ध दायित्व बकाया हो।
- 13 नवीनता
नवीनता का अर्थ है एक समाशोधन निगम की धारा, जो कि प्रत्येक व्यापार के दोनों दलों के बीच स्वयं को एक-दूसरे से जोड़ता है, दोनों के लिए कानूनी प्रतिपक्ष है।
- 14 विनियम
विनियम का अर्थ समय के लिए समाशोधन निगम के नियम हैं और समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए व्यवसाय नियम, आचार संहिता और ऐसी अन्य प्रक्रियाएं और नियमों, परिपत्र, निर्देश और आदेश शामिल हैं।
- 15 प्रासंगिक प्राधिकरण
प्रासंगिक प्राधिकरण का अर्थ है बोर्ड या ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं।
- 16 नियम
जब तक संदर्भ अन्यथा इंगित नहीं करता है, नियम का अर्थ है बल के समय के लिए समाशोधन निगम के नियम।
- 17 सेबी
सेबी का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
- 18 प्रतिभूति
प्रतिभूति का अर्थ प्रतिभूतियां होगा जो कि सेबी द्वारा समय-समय पर आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करने की अनुमति है।
- 19 निपटान गारंटी निधि
निपटान गारंटी निधि का मतलब है कि उप-नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार स्थापित और रखी हुई एक निधि।
- 20 विनिर्देशित एक्सचेंज
निर्दिष्ट विनियम या निर्दिष्ट विनियम का अर्थ है एक प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) एक्ट, 1956 के तहत आईएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा समाशोधन निगम द्वारा स्वीकृत और निपटारा करने के लिए भर्ती कराया जा सकता है।

21 ट्रेडिंग सदस्य

ट्रेडिंग सदस्य का अर्थ किसी भी व्यक्ति को उस एक्सचेंज के नियम, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार निर्दिष्ट एक्सचेंज में सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है।

नियमों, उप-नियमों और विनियमों में निचले मामले में प्रयोग किए जाने पर उपर्युक्त शर्तों का मतलब वही होगा, जब तक संदर्भ हों अन्यथा नहीं।

अध्याय 2 – नियम

1 बोर्ड समाशोधन निगम के संचालन के लिए समय-समय पर विनियमों को नियत कर सकता है और समाशोधन के सदस्यों के कार्य और संचालन को विनियमित कर सकता है।

2 उपर्युक्त की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बोर्ड समय-समय पर, अन्य बातों के साथ, के संबंध में नियमों को निर्धारित कर सकता है

1 एक्सचेंजों के प्रवेश के लिए नियम, प्रक्रिया, नियम और शर्तें

2 समाशोधन निगम द्वारा समाशोधन और निपटान के लिए सौदों के प्रवेश के लिए मानदंडों, प्रक्रियाओं, नियमों और शर्तों का अनुपालन करना सौदों के नियमों और शर्तों के समाशोधन और निपटान के लिए मानदंडों, प्रक्रियाओं, नियमों और शर्तों को दर्ज करने के लिए, और समाशोधन सदस्यों के बीच या क्लियरिंग सदस्यों और उनके घटकों के बीच सौदों के प्रदर्शन के लिए समय, मोड और तरीकेय समय-समय पर गारंटी निपटान लिए नियम, प्रक्रियाएं, नियम और शर्तें, दंड, जुर्माना और अन्य जुर्मानों के प्रशासन, जिसमें चूक के लिए क्लियरिंग सदस्यों के निलंबन ६ निष्कासन सहित

3 मानदंड, प्रक्रियाएं, नियम और लगाने के लिए शर्तें विभिन्न प्रकार के मार्जिन और अन्य प्रभारों और प्रतिबंधों का प्रशासन जो समय-समय पर लगाया जा सकता है।

4 समाशोधन सदस्यों द्वारा समाशोधन निगम को देय शुल्क, प्रणाली उपयोग शुल्क, जमा और अन्य धन पर समय-समय पर निर्धारण, समाशोधन सदस्यों द्वारा एकत्र किए जा सकने वाले समाशोधन और अन्य शुल्कों के पैमाने

5 समाशोधन के संचालन की निगरानी और ऐसे व्यावसायिक नियमों का प्रवर्तन और आचरण के संहिताओं के अनुसार इसे उपयुक्त माना जा सकता है

6 अभिलेखों और खातों की पुस्तकों का निरीक्षण और लेखा परीक्षा

7 ववादों, शिकायतों का निपटान, समाशोधन सदस्यों के बीच होने वाले समाशोधन सदस्यों और व्यक्तियों के बीच होने वाले दावों, जो कि प्रतिभूति में किसी भी सौदे से संबंधित सदस्यों को समाशोधन नहीं कर रहे हैं और समाशोधन निगम के माध्यम से निपटारे, जिसमें मध्यस्थता द्वारा निपटारे शामिल है

8 मध्यस्थता के लिए नियम, प्रक्रिया, नियम और शर्तें

9 समाशोधन निगम द्वारा स्थापित निधि के कोष का प्रशासन, रखरखाव और निवेश

10 समाशोधन और निपटान के लिए स्थापना, मानदंड, नियम और शर्तें, कार्यान्वयन और क्लियरिंग हाउस की प्रक्रियाएं, आगार हिरासत सेवाएं सहित अन्य व्यवस्थायें

11 सौदे के बंद करने के लिए आकस्मिक या परिणाम के संबंध में मानदंड, प्रक्रिया, नियम और शर्तें

12 सूचना और घोषणाओं का फैलाव

13 बोर्ड द्वारा तय किए गए कोई भी अन्य मामले।

अध्याय 3 – समाशोधन सदस्य

1 संबंधित प्राधिकरण को समाशोधन सदस्यों को नियम और विनियमों के अनुसार सेबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम वित्तीय आवश्यकताओं के अधीन प्रवेश करने का अधिकार है। इस तरह के समाशोधन सदस्यों को ऐसे शुल्क, सुरक्षा जमा और अन्य धन का भुगतान करना होगा जो समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, समाशोधन सदस्यों के रूप में प्रवेश पर और निरंतर प्रवेश के लिए।

2 समय-समय पर समाशोधन सदस्यों द्वारा समाशोधन निगम के साथ, नकद, बैंक गारंटी, प्रतिभूति या अन्यथा के रूप में फीस, सुरक्षा जमा, अन्य धन और किसी भी अतिरिक्त जमा राशि का भुगतान किया जाता है, पहली बार के अधीन होगा और समाशोधन निगम के कारण किसी भी राशि के लिए सर्वोपरि ग्रहणाधिकार और क्लियरिंग सदस्य के खिलाफ अन्य सभी दावों, जो कि क्लियरिंग सदस्यों से जुड़ा हुआ है या किसी भी सौदे के लिए उत्पन्न होने वाली गतिविधियों, दायित्वों और दायित्वों

की पूर्ति के लिए क्लीयरिंग सदस्य के ब्योरा, नियम और विनियम के अधीन समाषोदन निगम क्लीयरिंग सदस्य, क्लीयरिंग सदस्य के किसी भी संदर्भ के बिना क्लीयरिंग सदस्य के खिलाफ अन्य दावों के बहिष्करण को निकालने के लिए, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऐसे फीस, जमा और दावों के लिए उचित शुल्क, जमा और अन्य धन समायोजित करने के हकदार होंगे।

- 3 समाशोधन सदस्य या तो अपने खाते पर या अपने घटकों की ओर से निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं, जब तक कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो और संबंधित नियमों और शर्तों के अधीन संबंधित प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं।

अध्याय 4 – सौदों का समाशोधन और निपटान

क सौदों के समाशोधन और निपटान

1 सौदों का समाशोधन और निपटान

(1) समाशोधन कॉर्पोरेशन ऐसे सौदों का निपटान और समाशोधन करेगा जैसा कि उप-नियमों और विनियमों में दिया गया है और इस प्रकार प्रदान किए गए रूप से बचाने के लिए, कोई अन्य सौदे को मंजूरी नहीं दी जाएगी और निपटारा किया जाएगा।

(2) उपरोक्त की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, प्रासंगिक प्राधिकारी अपने विवेक में और ऐसी स्थितियों के अधीन हो सकता है, जैसा कि वह उचित मान सकता है, किसी अन्य सौदे को स्वीकार करता है।

(ब) सौदों की स्वीकृति

(1) समाशोधन और निपटान को समाशोधन कॉर्पोरेशन पर उन सौदों में अनुमति दी जाएगी जो उप-नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर स्वीकार किए जाते हैं।

(2) संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर लेन-देन पर स्टॉक एक्सचेंजों को निर्दिष्ट कर सकता है जिस पर उप-नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार समाशोधन और निपटान के लिए दाखिल कराया जा सकता है।

(स) समाशोधन और निपटान की शर्तें और आवश्यकताएं

प्रासंगिक प्राधिकारी एक्सचेंज में निपटाए गए सौदों की स्वीकृति दे सकता है, उपबंध नियमों और विनियमों में निर्दिष्ट सभी शर्तों और आवश्यकताओं और ऐसे अन्य शर्तों और आवश्यकताएं जिन्हें संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर निर्धारित कर सकता है, का अनुपालन किया जाता है।

4 सौदों की स्वीकृति की असम्मति

संबंधित प्राधिकरण, अपने निर्णय में, सौदों में प्रवेश स्वीकार कर सकता है या समाशोधन और निपटान के लिए सौदों के प्रवेश को अस्वीकार कर सकता है, ऐसी शर्तों के अनुरूप हो सकता है जैसे कि वह फिट हो।

5 विशिष्ट सौदे

प्रासंगिक प्राधिकरण उचित मामलों में अनुमति दे सकता है क्योंकि यह अपने विवेकाधिकार से प्रतिभूतियों के मामले में समाशोधन निगम के माध्यम से समय-समय पर विशिष्ट सौदों पर निर्णय ले सकता है और निपटारा हो सकता है, जो कि स्वीकृत नहीं हैं या निषिद्ध या निलंबित होने के समय के लिए नहीं हैं।

6 सौदों की स्वीकृति का स्थगन

संबंधित प्राधिकरण किसी भी समय किसी भी सुरक्षा या समाशोधन निगम पर निर्दिष्ट एक्सचेंज के ऐसे सौदों के प्रवेश को निलंबित कर सकता है, जो ऐसी स्थिति के अनुसार, जो उपयुक्त हो सकता है, ऐसी शर्तों को निर्धारित और पुनर्स्थापित कर सके।

7 सौदों की स्वीकृति का प्रत्याहार

संबंधित प्राधिकरण जहां आवश्यक हो, वह किसी निर्दिष्ट एक्सचेंज के लेन-देन की स्वीकृति को वापस ले सकता है या तो लेन-देन के प्रवेश की आवश्यकताओं या किसी भी अन्य कारण से या किसी भी कारण से अनुपालन या गैर-अनुपालन के लिए हो सकता है।

8 सौदों का पुनः प्रवेश

अपने विवेकाधिकार में संबंधित प्राधिकरण एक निर्दिष्ट एक्सचेंज के सौदों को स्वीकार कर सकता है जो पहले वापस ले लिया गया था।

सौदों का समाशोधन और निपटान

9 समाशोधन और निपटान

नियमों और विनियमों में समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले वितरण करने और भुगतान करने और प्राप्त करने वाले सदस्यों को समाशोधन के द्वारा निपटान किया जाएगा।

9(अ). निपटान अंतिमता

- 1 किसी सौदे के संबंध में भुगतान और निपटान, संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों में सेबी के पूर्व अनुमोदन के साथ निर्दिष्ट जाली या सकल प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
- 2 किसी सौदे के संबंध में भुगतान और निपटान अंतिम, अनिर्णीत और समाशोधन सदस्यों पर बाध्यकारी होगा।
- 3 जब कोई समझौता अंतिम और अयोग्य हो, तो समाशोधन कॉर्पोरेशन का अधिकार किसी भी संपार्श्विक या जमाराशियों या मुनाफे को सही करने के लिए, इन नियमों के अनुसार निपटान या अन्य दायित्वों के लिए समाशोधन सदस्य द्वारा योगदान करने के लिए किसी भी अन्य दायित्व को प्राथमिकता देगा या कथित समाशोधन सदस्य के खिलाफ दावा होगा।
- 4 शंका को हटाने के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपरोक्त धारा (1) में निर्दिष्ट सकल या शुद्ध, चाहे निपटान के परिणामस्वरूप देय धन, प्रतिभूतियां या अन्य लेनदेन के रूप में देय हो, अंतिम और अयोग्य हो, चाहे या नहीं, इस तरह के पैसे, सिक्कोरिटीज या अन्य लेनदेन वास्तव में भुगतान किया जाता है।
- 5 उपर्युक्त खंड (1) के प्रयोजन के लिए, नेटिंग का मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा शुद्ध भुगतान या समाशोधन सदस्यों की वितरण के दायित्वों के द्वारा निर्धारकों द्वारा अंतर की दायित्वों को बंद करने या समायोजन या खरीद और बिक्री से उत्पन्न होने वाले दावों के निर्धारण से होता है समाशोधन निगम द्वारा समाप्ति से उत्पन्न होने वाले दावों और दायित्वों सहित प्रतिभूतियों, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भविष्य की तारीख में निपटारे के लिए स्वीकार किए गए सौदों के, नियमों में निर्दिष्ट हो सकते हैं, ताकि केवल एक शुद्ध दावे की मांग की जा सके या शुद्ध दायित्व होना चाहिए।
- 6 संदेह को हटाने के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपरोक्त धारा (5) में उल्लिखित समाशोधन निगम द्वारा समाप्त होने वाले दावों और दायित्वों का मतलब ये है कि इन नियमों के अनुसार सौदों से उत्पन्न होने वाले दावों और दायित्वों को बंद कर दिया।

9 (ब). समाशोधन निगम के अधिकार

समाशोधन निगम का अधिकार अपने समाशोधन के सदस्यों से बकाया वसूल करने के लिए, उनके समाशोधन और निपटान कार्यों के निर्वहन से उत्पन्न होता है, समपार्श्व, जमा से और समाशोधन के सदस्यों की संपत्ति, को क्लियरिंग सदस्यों के खिलाफ किसी भी अन्य दायित्व या दावे पर प्राथमिकता होगी।

10 अनुबंध के भेद

- 1 यहां बताया गया है, समाशोधन सदस्य नियमों और विनियमों के अनुसार वितरण प्राप्त करेंगे और देंगे, इसके बावजूद कि उन दोनों के बीच कोई सीधा अनुबंध नहीं हो सकता है, ताकि एक दूसरे के साथ विक्रेताओं और खरीदारों के रूप में अनुबंध किया हो। हालांकि उनके तत्काल अनुबंध पक्ष के संबंध में सदस्य पहुंचाने और प्राप्त करने के अधिकार और देनदारियों को इस पर असर नहीं माना जाएगा, सिवाय इसके कि बिक्री करने वाले सदस्य (जब तक वे खुद को सदस्य नहीं देते) शीर्षक के संबंध में सभी जिम्मेदारी से रिहा हो जाएंगे, प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त दस्तावेजों की स्वामित्व, वास्तविकता, नियमितता और वितरित दस्तावेजों की वैधता के संबंध में जिम्मेदार नहीं होंगे या प्राप्त किया गया है और वहां से उत्पन्न हानि और क्षति के संबंध में, जो नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।
- 2 ऐसे मामलों में जहां समाशोधन निगम सामान्यतः या विशेष रूप से निर्दिष्ट कर सकता है, वितरण देने और प्राप्त करने और नियमों और विनियमों में दी गई धनराशि का भुगतान करने और प्राप्त करने वाले सदस्यों को समझा जाएगा, इसके बावजूद कि उनके बीच कोई सीधा अनुबंध मौजूद नहीं है, क्लियरिंग निगम के साथ विक्रेताओं और खरीदार के रूप में पूर्ण नवाचार के माध्यम से और सदस्यों के वितरण और प्राप्त करने के लिए स्वयं के बीच एक अनुबंध किया है। इसके अतिरिक्त बशर्ते कि इस तरह की घटना में सदस्य को वितरित करने और प्राप्त करने के अधिकार और देनदारियों को इस प्रकार प्रभावित नहीं माना जाएगा, सिवाय इसके कि समाशोधन निगम, शीर्षक, स्वामित्व, वास्तविकता, नियमितता और वितरित दस्तावेजों की वैधता के संबंध में जिम्मेदार नहीं होंगे या प्राप्त किया गया है और वहां से उत्पन्न हानि और क्षति के संबंध में, जो नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।
- 3 उपरोक्त किसी भी चीज के बावजूद, समाशोधन निगम आमतौर पर या विशेष रूप से निर्दिष्ट कर सकता है, जहां समाशोधन सदस्यों को नियमों और विनियमों में प्रदान किए गए सौदों को समाशोधन और निपटान करना माना जाएगा,

इसके बावजूद कोई भी प्रत्यक्ष अनुबंध उन दोनों के बीच विद्यमान नहीं है, खरीदार और विक्रेताओं के रूप में और जहां ऐसे अनुबंध को विक्रेता को खरीदार के रूप में और खरीदार को विक्रेता के रूप में समापोदन निगम के साथ जमा किया जाएगा।

22 समाशोधन और निपटान के लिए व्यवस्था

- 1 सौदों के समाशोधन और निपटान समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे व्यवस्थाएं, प्रणाली, एजेंसियों या प्रक्रियाओं को अपनाने और उनका उपयोग करके विलयिंग सदस्यों द्वारा प्रभावी होगा। उपरोक्त व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, प्रासंगिक प्राधिकारी समय-समय पर निपटान व्यवस्था या प्रणाली के सुचारु संचालन के लिए समाशोधन सदस्यों और उनकी सेवाओं को लेने और उपयोग के लिए ऐसे, जमा और अन्य सेवाओं को निर्धारित या निर्दिष्ट कर सकता है।
- 2 समाशोधन और निपटान कार्य समाशोधन निगम द्वारा किया जा सकता है या यह उद्देश्य के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा सम्बंधित किसी एजेंसी की सहायता ले सकता है।

12. निपटान की प्रक्रिया से सम्बंधित मापदंड

- 1 संबंधित प्राधिकरण समाशोधन निगम के माध्यम से सौदों के समाशोधन के संबंध में समय-समय पर प्रक्रिया से सम्बंधित मापदंडों को निर्धारित और घोषित कर सकता है, जिनका समाशोधन सदस्य पालन करेंगे।
- 2 प्रक्रिया से सम्बंधित मापदंड अन्य बातों के साथ, इसमें शामिल हो सकते हैं:
 - क समाशोधन /अरक्षितता सीमा की अनुमति दी गई है जिसमें निवल मूल्य और पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के संदर्भ में समाशोधन / अरक्षितता सीमाएं शामिल हैं:
 - ख समाशोधन मात्रा और सीमाएं जिस पर समाशोधन सदस्यों को समाशोधन निगम को सूचित करने के लिए यह आवश्यक होगा—
 - ग विभिन्न निपटान प्रकारों के लिए वितरण वर्ग का निर्धारण
 - घ अन्य मामले जो जनता के बड़े हित को ध्यान में रखते हुए सौदों का समाशोधन करने के सुगम संचालन को प्रभावित कर सकते हैं
 - ङ समाशोधन सदस्य के लिए और सुरक्षा के लिए अनुमतियों के प्रकार का निर्धारण करना
 - च प्रणाली बनावट, उपभोक्ता मूलवांचा और प्रणाली संचालन सहित समाशोधन और निपटान प्रणाली का कार्यात्मक विवरण निर्धारित करना।

13. समाशोधन घंटे

- 1 समाशोधन निगम के समाशोधन और निपटान के लिए समय समय पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर फैसला किया जा सकता है। संबंधित प्राधिकरण, समय-समय पर विभिन्न प्रकार के सौदों के लिए समाशोधन घंटे निर्दिष्ट कर सकता है।
- 2 संबंधित प्राधिकरण कैलेंडर वर्ष में छुट्टियों की एक सूची घोषित कर सकता है। प्रासंगिक प्राधिकार इन प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अवकाशों में से किसी भी समय-समय पर बदल या रद्द कर सकते हैं। छुट्टियों के अलावा या इसके अलावा अन्य दिनों में यह रिकॉर्ड किए जाने के कारण, समाशोधन और निपटान संचालन को निलंबित कर सकता है।
- 3 प्रतिभूतियों का वितरण
 - 1 सभी प्रतिभूतियों, दस्तावेजों और कागजात का वितरण और निपटान और सभी सौदों के संबंध में भुगतान ऐसे तरीके से हो और ऐसे स्थान में हो जो प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
 - 2 संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर निर्दिष्ट करेगा, प्रतिभूतियों, दस्तावेजों और कागजात, जो, निर्दिष्ट तरीके से वितरित किए जाने पर, अच्छे वितरण के रूप में बनाए जाएंगे। जहां परिस्थितियों इतनी वारंट होती है, संबंधित प्राधिकरण कारणों को दर्ज करने के लिए निर्धारित कर सकता है, चाहे वितरण एक अच्छा वितरण हो या न हो, ऐसे निष्कर्ष संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे। जहां प्रासंगिक प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि वितरण एक अच्छे वितरण का गठन नहीं करता है, वितरित करने वाली पार्टी को उस समय के भीतर अच्छी डिलीवरी का स्थान लेने की आवश्यकता होगी, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।
 - 3 बाजार लॉट, अंतर लॉट, न्यूनतम लॉट, थोड़ा वितरण, आंशिक रूप से चुकती प्रतिभूतियों आदि के वितरण के संबंध में वितरण के लिए नियम और प्रक्रियाएं, प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट होगी।

- 4 विवादित वितरण या दोषपूर्ण वितरण निर्धारित करने के लिए आवश्यकताओं और प्रक्रियाएं, और उपायों, प्रक्रियाओं और विवाद या वितरण में दोष या इस तरह के वितरण या उनके प्रस्ताव के परिणाम को हल करने की प्रणाली, इन उप-नियमों के अधीन होगा, जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया है।

15. पद का स्थान्तरण

समाशोधन और निपटान के लिए स्वीकार किए गए एक सौदा एक अन्य गैर-डिफॉल्ट समाशोधन सदस्य को एक समाशोधन सदस्य वितरण, भुगतान और सौदों के निपटान से संबंधित किसी भी प्रावधान का पालन करने के लिए उसकी सहमति के साथ स्थानांतरित किया जा सकता है या नियम और शर्तों को पूरा करने में कोई भी विफलता, जिसके अधीन सौदा किया गया है या प्रासंगिक प्राधिकरण के रूप में ऐसी अन्य परिस्थितियों को समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस सौदे को समाशोधन निगम द्वारा किसी अन्य गैर-डिफॉल्ट समाशोधन सदस्य को ऐसे समय सीमा के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है, और इस तरह की शर्तों और प्रक्रियाओं के अधीन संबंधित प्राधिकारियों को समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

16. बंद करना

- 1 समाशोधन सदस्य वितरण, भुगतान और सौदों के निपटारे या नियमों और शर्तों को पूरा करने में किसी भी विफलता से संबंधित किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने के लिए समाशोधन और निपटान के लिए भर्ती एक समझौता बंद हो सकता है जिसके में यह सौदा किया गया है, या ऐसी अन्य परिस्थितियां जो प्रासंगिक प्राधिकरण के रूप में समय-समय पर निर्दिष्ट हैं। इस समझौते को समाशोधन निगम द्वारा ऐसे समय में बंद कर दिया जा सकता है, ऐसे समय सीमा के भीतर और प्रासंगिक शर्तों के अनुसार ऐसी शर्तों और प्रक्रियाओं के अधीन समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

- 4 पूर्वगामी की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, संबंधित प्राधिकरण एक समाशोधन सदस्य के खिलाफ खरीदने या बेचने वाले सौदों, अन्य बातों के साथ-साथ बंद हो सकता है –

अ विक्रय समाशोधन सदस्यों के मामले में, नियत तारीख को वितरण पूरा करने में विफलता, तथा

ब क्रय समाशोधन सदस्यों के मामले में, नियत तारीख पर देय राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर,

स और इस तरह के समापन के परिणामस्वरूप किसी भी हानि, क्षति या कमी का सामना करना पड़ता है या भुगतान होता है, समाशोधन सदस्यों द्वारा देय वितरण देने में विफल रहे या देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे।

- 3 समाशोधन सदस्य द्वारा पदों से उत्पन्न होने वाले समाशोधन निगम को डिफॉल्ट के मामले में संबंधित प्राधिकारी समाशोधन सदस्य के पदों को बंद करने का हकदार होगा।

3ण समाशोधन निगम अपने स्वयं के नाम में पद धारण करने का हकदार होगा, या तो इसके ऊपर या उपर्युक्त खंड में उसके विवेक के समापन के अंत तक ऐसे पदों और शर्तों के अनुसार, जो उपयुक्त हो सकता है।

17. दायित्वों को पूरा करने में विफलता

एक समाशोधन सदस्य समाशोधन निगम को स्वीकार किए गए सौदों के समाशोधन और निपटान कार्यों से उत्पन्न होने वाले समाशोधन निगम के दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, संबंधित प्राधिकारी ऐसे ब्याज का भुगतान कर सकता है, ऐसे दंड और जुर्माना लगा सकता है और समाशोधन सदस्य के खिलाफ इस तरह के अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है और समय-समय पर निर्धारित करें। संबंधित प्राधिकरण उपर्युक्त अनुपालन के अनुसार कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई समाशोधन सदस्य के दायित्वों को समाशोधन निगम या किसी ऐसे उपाय से प्रभावित नहीं करेगा जिसके तहत समाशोधन निगम लागू कानून के तहत हकदार हो सकता है।

अध्याय 5 रु समाशोधन सदस्यों से व्यवहार

1. अधिकार क्षेत्र

- (1) समाशोधन निगम द्वारा समाशोधन और निपटान के लिए स्वीकार किए गए सभी सौदों को आईएफएससी में दर्ज किया गया माना जाएगा, जब तक प्रासंगिक अधिकारी से स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाये।
- (2) संबंधित प्राधिकरण, समय-समय पर, किसी विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन सौदों को सौदा के प्रकार या प्रकृति के संबंध में, जिस सौदे पर समझौता किया गया था और अन्य प्रासंगिक कारक निर्दिष्ट कर सकता है।

2. प्रमाण के लिए रिकॉर्ड

एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या प्रसंस्करण इकाइयों या कंप्यूटर प्रसंस्करण इकाइयों के एक समूह द्वारा बनाए रखा गया रिकॉर्ड, जो कि किसी भी अन्य तरीके से बनाए रखा गया है, समाशोधन निगम के माध्यम से साफ और निपटारा किसी भी सौदे के संबंध में सहमति और प्रामाणिक रिकॉर्ड का गठन होगा। सौदों के समाशोधन और निपटान के संबंध में किसी भी विवाद के प्रयोजनों के लिए, समाशोधन निगम समाशोधन सदस्य के बीच या क्लियरिंग सदस्यों के बीच या क्लियरिंग सदस्यों और समाशोधन निगम के बीच किसी भी विवाद या घटकों को समाशोधन निगम द्वारा बनाए गए अभिलेखों से गठित करेंगे।

3. निपटान के लिए केवल सदस्य पार्टियां

समाशोधन निगम अपने स्माषोधन सदस्यों के अलावा किसी भी व्यक्ति को सौंपने के लिए पार्टियों के रूप में पहचान नहीं करता है, और प्रत्येक क्लियरिंग सदस्य सीधे और पूरी तरह से उत्तरदायी है जिसके अनुसार इस तरह के स्माषोधन सदस्य को सौदा की पूर्ति के लिए कोई सौदा है या इसके द्वारा संबंधित प्राधिकरण निर्दिष्ट किया जा सकता है, चाहे वह सौदा इस पर कार्रवाई करने वाले किसी घटक के खाते के लिए या एक घटक के खाते के लिए हो।

4. नियमों के अधीन सभी नियम, और विनियम

सभी सौदों को नियम, उप-नियमों और विनियमों के अधीन किया जाएगा और यह सभी ऐसे सौदों के नियमों और शर्तों का एक हिस्सा होगा और यह उप-नियमों, नियमों और विनियमों द्वारा सौदों के संबंध में अधिकार के साथ संबंधित अधिकारों के संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

5. संलग्न सौदों की अनुल्लंघनीयता

प्रतिभूतियों में किए गए सभी लेनदेन, उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अधीन किए जाते हैं, अगर उल्लंघन हुआ तो उन्हें बाई कानून, नियम और विनियमों के अनुसार साफ कर लिया जाएगा। हालांकि, समाशोधन निगम किसी निर्दिष्ट एक्सचेंज द्वारा एक सौदे के विलोपन पर कार्य कर सकता है और इस तरह की घटना में, स्माषोधन सदस्य इसके घटकों के साथ प्रासंगिक सौदे रद्द करने का हकदार होगा।

6. प्रतिनिधियों द्वारा निपटान के मामले

एक स्माषोधन सदस्य प्रासंगिक प्राधिकार की पूर्व अनुमति के साथ एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए एक अन्य क्लियरिंग सदस्य को अधिकृत कर सकता है।

7. सेबी द्वारा संशोधित रूप में अलग शब्दों में व्यक्त किया गया है—

समाशोधन निगम समाशोधन सदस्य के नाम पर कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति की किसी भी गतिविधि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे समाशोधन निगम के माध्यम से समाशोधन या निपटान किए गए सौदों सहित प्राधिकृत या अनधिकृत सहेजा गया हो और बकाया राशि के अलावा और बकाया राशि को छोड़कर, कानून और नियम।

अध्याय 6 रु मार्जिन

1. मार्जिन की आवश्यकताएँ

- (1) प्रासंगिक प्राधिकरण समय-समय पर समाशोधन निगम के माध्यम से साफ किए गए सौदों के लिए मार्जिन की आवश्यकताएँ निर्धारित कर सकता है और क्लियरिंग सदस्य ऐसी मार्जिन को एक शर्त उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेगा।
- (2) उपरोक्त धारा (1) के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, प्रासंगिक प्राधिकरण समय-समय पर निर्धारित किए गए नियमों और शर्तों के अधीन ऐसे पदों के लिए समाशोधन निगम के माध्यम से समाशोधन और निपटान के लिए क्रॉस मार्जिन लाभ प्रदान कर सकता है।
- (3) प्रत्येक स्माषोधन सदस्य के पास ऐसे स्तर पर मार्जिन बनाए रखने के लिए निरंतर दायित्व है और ऐसे समय में समाशोधन निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

2. मार्जिन के प्रकार

उप-नियमों और विनियमों के तहत एक समाशोधन सदस्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले मार्जिन नकद और नकद समकक्ष में होंगे। संबंधित प्राधिकार अपने विवेकानुसार, जमा रसीदों को स्वीकार कर सकता है, संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बैंकों की गारंटी या स्वीकृत अनुमोदित और ऐसे अन्य मोड द्वारा अनुमोदित हो सकता है और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन हो सकता है जैसा संबंधित प्राधिकारी से समय-समय पर लागू हो सकता है। जमा रसीद जैसे कोई भी विकल्प, विधिवत रूप से अनुमोदित प्रतिभूति या अन्य किसी भी विधि द्वारा स्वीकृत अनुमोदित और या निगमित किए गए समझा जाएगा क्योंकि मामले में समाशोधन निगम के पक्ष में हो सकता है।

3. मार्जिन की मात्रा

समाशोधन सदस्य प्रतिभूतियों के रूप में प्रतिभूतियों के रूप में या अन्यथा या ऐसे अन्य मोड में जमा करते हैं, जो प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं, संबंधित प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए हमेशा आवश्यक मूल्य की मात्रा से कम नहीं रहेंगे और अधिक सुरक्षा प्रदान करके उस समय के लिए कवर किया जा रहा है जो निर्धारित मूल्य निर्धारित करेगा और जिसका मूल्यांकन निश्चित रूप से समय-समय पर बनाये जाने वाले किसी भी कमी की राशि को तय करेगा।

4. मार्जिन को निपटान निगम द्वारा आयोजित किया जाएगा

मार्जिन निपटान निगम द्वारा आयोजित किया जाएगा और जब वे बैंक जमा रसीदों और प्रतिभूतियों के रूप में होंगे, ऐसी प्राप्तियां और प्रतिभूतियों को ऐसे व्यक्तियों को या संरक्षक या निपटान निगम द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य इकाई के नाम पर स्थानांतरित किया जा सकता है। सभी मार्जिन जमा निपटान निगम और या स्वीकृत व्यक्तियों द्वारा और या ऐसे फॉर्म में और ऐसे खाते में, जैसे निपटान निगम जमा स्माशोधन सदस्य के किसी भी अधिकार के बिना योग्य माना जा सकता है। या उन लोगों के सवाल जो इस तरह के विवेक का प्रयोग करते हैं पर कॉल करने का अधिकार है।

5. मार्जिन पर ग्रहणाधिकार

उप-नियमों और विनियमों के प्रावधानों के तहत मार्जिन के बदले समाशोधन के सदस्य द्वारा गारिबद्ध या गढ़ने वाले मार्जिन या बैंक जमा प्राप्तिओं या अन्य प्रतिभूतियों या संपत्तियों के माध्यम से भुगतान किए गए धन पहले और सर्वोपरि समाशोधन निगम के कारण सभी रकम के लिए धारणाधिकार के अधीन होंगे। मार्जिन स्माशोधन सदस्य के विरुद्ध अन्य सभी दावों के वरीयता में उपलब्ध होगा जो उप-नियमों, नियमों और विनियमों या उनके अनुसरण में किए गए कुछ भी किए गए किसी भी सौदे से या उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली दायित्वों और देनदारियों की पूर्ति के लिए जुड़ा हुआ है।

6. उपनिवेशों को पूरा करने में असफलता का उपयोग

- (1) इस घटना में एक समाशोधन सदस्य उप-नियमों और विनियमों में प्रदान किए गए सौदों के समाशोधन और निपटान परिचालनों से उत्पन्न होने वाले समाशोधन निगम के दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, संबंधित प्राधिकरण को किसी भी राशि का इस्तेमाल समाशोधन और निपटान के उद्देश्य के लिए मार्जिन या समाशोधन निगम द्वारा बनाए गए किसी अन्य भुगतान के रूप में करने का अधिकार होगा।
- (2) किसी समाशोधन सदस्य द्वारा पदों से निकलने वाले समाशोधन निगम को डिफॉल्ट रूप से, प्रासंगिक प्राधिकार इस तरह से उत्पन्न होने वाली दायित्वों को पूरा करने के लिए इस तरह के समाशोधन सदस्य के मार्जिन या किसी अन्य धन का उपयोग करने का हकदार होगा।

7. मार्जिन अनुरोधों की ईसाई अभियोजन पक्ष

एक स्माशोधन सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यवस्था में प्रवेश नहीं करेगा या बाय कानून और विनियमों के तहत निर्दिष्ट मार्जिन आवश्यकताओं की चोरी में बचने या सहायता करने के उद्देश्य के लिए किसी भी प्रक्रिया को अपनाना चाहेगा।

8. मार्जिन भुगतान करने में विफलता पर निलंबन

यदि एक समाशोधन सदस्य उप-नियमों और विनियमों में जरूरी मार्जिन का भुगतान करने में विफल रहता है, तो संबंधित प्राधिकारी ऐसी कार्रवाई कर सकता है, जो वह उचित समझे और निलंबन सहित समय-समय पर निर्दिष्ट हो सके।

9. ब्याज, लाभांश और कॉल्स

- (1) प्राप्तकर्ता को सभी वाउचर, कूपन, लाभांश, नकद बोनस, बोनस अंक, अधिकार और अन्य विशेषाधिकार प्राप्त करने का हकदार होगा जो खरीददार वाउचर, सह कूपन, सह लाभांश, सह नकदी बोनस, सह बोनस इश्यू, सह अधिकार, आदि से संबंधित होंगे। वितरित सदस्य को सभी वाउचर, कूपन, लाभांश, नकद बोनस, बोनस अंक, अधिकार और अन्य विशेषाधिकार प्राप्त करने का हकदार होगा जो पूर्व वाउचर, पूर्व कूपन, पूर्व लाभांश, पूर्व नकद बोनस, पूर्व बोनस मुद्दों, पूर्व अधिकार आदि से संबंधित होंगे।
- (2) वाउचर, कूपन, लाभांश, नकद बोनस, बोनस अंक, अधिकार प्राप्त करने और वितरित करने वाले सदस्यों के बीच अधिकार और अन्य विशेषाधिकारों के संबंध में समायोजन के तरीके, मोड, सूचना आवश्यकताओं, परिवर्तन, तिथि और समय आदि आदि के अनुसार प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जायेगा। अन्यथा उप-नियमों और विनियमों में प्रदान किए गए रूप में सहेजें, समाशोधन के सदस्यों को इस तरह के समायोजन के लिए स्वयं और उनके घटकों के बीच जिम्मेदार होगा।

- (3) प्रतिभूतियों में एक सौदा के संबंध में जो पुनर्निर्माण या पुनर्गठन की एक योजना के तहत नए या अन्य प्रतिभूतियों के लिए विनिर्दिष्ट या विनिमय योग्य हैं, वितरित करने वाला सदस्य प्राप्तकर्ता को वितरित करेगा, अनुबंधित प्रतिभूतियों या पुनर्निर्माण या पुनर्गठन की ऐसी योजना के तहत प्रतिभूतियों और या नकद और या अन्य प्राप्य संपत्ति में समकक्ष प्रासंगिक प्राधिकरण निर्देशित करता है।

10. फीस और शुल्क

संबंधित प्राधिकरण सौदों के समाशोधन और निपटान के संबंध में क्लियरिंग सदस्यों पर समय-समय पर फीस और शुल्क लगाएगा।

अध्याय 7 रु मध्यस्थता

1. स्माषोधन सदस्यों और घटकों या स्माषोधन सदस्यों के बीच, समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य पार्टियों के बीच या बीच में होने वाले सभी दावों, विवादों, मतभेद, द्वारा समाशोधन और निपटान के लिए स्वीकार किए गए सौदों से उत्पन्न या संबंधित समाशोधन निगम या इन सौदों के अनुपालन में या किसी भी प्रकार के संदर्भ में संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऋण में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्रों द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता, मध्यस्थता और अन्य विवाद समाधान तंत्रों द्वारा संदर्भित और तय किया जाएगा।

अध्याय 8— प्रतिभूति गारंटी निधि

1. समझौता गारंटी फंड को बनाए रखने के लिए समाशोधन निगम

- (1) समाशोधन निगम ऐसे प्रयोजनों के लिए निपटान गारंटी फंड को बनाए रखेगा, जो प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है। समाशोधन निगम के पास निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज पर निष्पादित ट्रेडों के निपटान की गारंटी देने के लिए इस तरह का एक निधि होगा। एक स्माषोधन सदस्य निपटान दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, निपटान गारंटी फंड स्माषोधन सदस्य के निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
- (2) संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर निर्धारित मानदंडों, प्रक्रियाओं, नियमों और शर्तों से निपटान गारंटी निधि को नियंत्रित कर सकता है, जो अन्य सभी फंडों को जमा करने या योगदान करने के लिए राशि, निधि, निधि या योगदान के तरीके और विधि, निधि के योगदान के जमा या निकासी की वापसी की शर्तों, उपयोग के लिए शुल्क, दंड और न प्रदर्शन के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।

2. प्रतिभूति गारंटी फंड के लिए अंशदान

- (1) विनिर्दिष्ट एक्सचेंज से प्रतिभूति गारंटी फंड सहित विभिन्न योगदानकर्ताओं का अंश समय-समय पर सेबी द्वारा जारी परिपत्रों दिशाओं और समाशोधन निगम द्वारा निर्दिष्ट के अधीन होगा। समाशोधन निगम को समाशोधन सदस्य प्राथमिक योगदान एकत्रित करने के लिए लचीलापन होगा, जो कि समय-समय पर अग्रिम या सीमित हो। कंपित योगदान के मामले में शेष शेष राशि समाशोधन निगम द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूति गारंटी फंड कोष की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए पूरी होगी। ऐसे समाशोधन निगम का योगदान समाशोधन निगम के लिए वापसी के लिए उपलब्ध होगा और जब समाशोधन सदस्यों से अतिरिक्त योगदान प्राप्त होंगे।
- (2) समाशोधन निगम द्वारा लगाया गया कोई भी दंड, प्रतिभूति गारंटी फंड में जमा किया जाएगा।
- (3) प्रतिभूति गारंटी फंड में नकद योगदान पर ब्याज भी प्रतिभूति गारंटी फंड और उनके नकद अंशदान के अनुपात में संबंधित योगदानकर्ताओं के लिए श्रेय देना होगा।
- (4) समाशोधन निगम सामान्यतः— प्रतिभूति गारंटी फंड अंशदान के लिए नगद संपार्श्विक स्वीकार करेगी। हालांकि, समाशोधन निगम बैंक एफडी के रूप में समाशोधन सदस्य योगदान को स्वीकार कर सकता है। स्मशोधन निगम विशिष्ट मार्गदर्शन का पालन करेगा जो कि इस संबंध में समय-समय पर सेबी द्वारा जारी किया जा सकता है।

3. योगदान के प्रकार

संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर निपटान गारंटी फंड में योगदान के रूप में निर्धारित करेगा। अपने विवेकाधिकार में संबंधित प्राधिकरण, एक समाशोधन सदस्य को नकद, फिक्स्ड डिपॉजिट या किसी अन्य तरीके से या तो समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन योगदान करने के लिए अनुमति दे सकता है।

4. प्रतिभूति गारंटी फंड का प्रशासन और उपनिवेश

- (1) समझौता गारंटी फंड का उपयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जो उप-नियमों और विनियमों में प्रदान किए जा सकते हैं और प्रासंगिक शर्तों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन हो सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे—

(अ) डीफॉल्ट फंड के निर्माण, रखरखाव और पुनर्भुगतान के खर्च को चुकाना

- (ब) ऐसे अनुमोदित प्रतिभूतियों और अन्य अवसरों में निवेश ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जो समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा तय किया जा सकता है।
- (स) बीमा कवर पर प्रीमियम को पूरा करने के लिए निपटान गारंटी फंड का आवेदन जो प्रासंगिक प्राधिकरण समय-समय पर ले सकता है।
- (द) अल्पावधि और उप-नियमों और विनियमों में प्रदान किए गए सौदों के समाशोधन और निपटान से उत्पन्न होने वाली कमी और कमियों को पूरा करने के लिए निपटान गारंटी फंड का आवेदन।
- (इ) इन उप-नियमों और विनियमों में प्रदान किए गए ऐसे सौदों के समाशोधन और निपटान कार्यों से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि या देयता को पूरा करने के लिए निपटान गारंटी फंड का आवेदन।
- (ई) जमा राशि चुकौती के संबंध में प्रावधानों के अनुपालन के दौरान किसी सदस्य के रूप में समाप्त होने पर, इन नियम, बाय कानून और विनियम के तहत सभी दायित्वों को पूरा करने के बाद शेष राशि का पुनर्भुगतान।
- (उ) बोर्ड द्वारा समय-समय पर किसी भी अन्य उद्देश्य के रूप में निर्देश।
- (2) समाशोधन निगम में किसी भी या सभी (प) सेटलमेंट गारंटी फंड नकद या अन्य उपकरणों को प्रतिज्ञा, पुनः प्रतिज्ञा, रेहम नामा, बदली, सुरक्षा हित बनाने, या सौंपने के लिए पूर्ण शक्ति और प्राधिकार होगा जिसमें सेटलमेंट गारंटी विलयरिंग सदस्य के द्वारा समाशोधन सदस्य के पास स्माशोधन मैनेजमेंट के पक्ष में जारी किए गए किसी भी अन्य उपकरण द्वारा निधि नकद जमा करने के लिए निपटारा गारंटी फंड द्वारा जमा किया जाता है।
5. उपनिवेशों को पूरा करने में विफलता की उपयोगिता
- इस बाय कानून और विनियमों में प्रदान किए गए सौदों के समाशोधन और निपटान परिचालन से उत्पन्न होने वाले समाशोधन निगम के लिए एक स्माशोधन सदस्य विफलताओं को पूरा करने में विफल रहता है, संबंधित प्राधिकरण निपटान गारंटी फंड और अन्य धन का उपयोग आवश्यक सीमा तक कर सकता है ऐसे नियमों और शर्तों के तहत दायित्व को पूरा करें, जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकरण समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है।
6. डिफॉल्ट के मामले में उपयोग
- समाशोधन निगम का डिफॉल्ट चक्र आम तौर पर निम्नलिखित क्रम का पालन करेगा
- 1) अकरण सदस्य (मसौदा निपटान गारंटी फंड में सदस्य की प्राथमिक योगदान सहित) के पैसे।
 - 2) बीमा, यदि कोई हो।
 - 3) समाशोधन निगम संसाधन (एमआरसी) के 5 प्रतिशत के बराबर)
 - 4) निम्नलिखित आदेश में निपटान गारंटी फंड—
 - (क) दंड
 - (ख) एमआरसी के कम से कम 25% की सीमा तक समाशोधन निगम का योगदान
 - (ग) शेष निपटान गारंटी फंड- समाशोधन निगम का अंशदान, निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज का अंशदान और समर्थकता के आधार पर गैर-चूक वाले सदस्यों सेटलमेंट गारंटी फंड में प्राथमिक योगदान
 - 5) शेष समाशोधन निगम संसाधन (100 करोड़ रुपये के बराबर राशि को छोड़कर)
 - 6) गैर-अकरण वाले सदस्यों द्वारा अतिरिक्त योगदान को टोपित किया गया।
 - 7) किसी भी शेष हानि को भुगतान के लिए यथानुपात हेयरकट के माध्यम से कवर किया जाना है।
- ‘संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर सेबी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार समाशोधन निगम के निपटान गारंटी फंड के न्यूनतम आवश्यक संग्रह (एमआरसी) को निर्दिष्ट करेगा।
7. किसी भी शेष हानि को भुगतान के लिए यथानुपात बाल कटवाने के माध्यम से कवर किया जाना है।
- समाशोधन सदस्य को उसके द्वारा जमा किए गए जमा राशि के पुनर्भुगतान के धन वापसी के हकदार होगा,
- (i) समाशोधन सदस्य सदस्य बनना बंद कर देता है, और
 - (इ) सभी लंबित सौदे उस समय समाशोधन सदस्य समाशोधन सदस्य के रूप में समाप्त हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप सेटलमेंट गारंटी फंड के प्रभार का परिणाम बंद हो चुका है और यह तय हो चुका है, और

- (ब) सभी दायित्व जिनके लिए स्माषोधन सदस्य जिम्मेदार था जब वह सदस्य था, संबंधित प्राधिकारी के विवेक पर संतुष्ट हो गया है, स्माषोधन सदस्य के वास्तविक योगदान से समाशोधन निगम द्वारा कटौती की गईय
- (क) संबंधित प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य दायित्वों के प्रति अपने विवेक से निर्धारित किया जा सकता है, जो कि अस्तित्व में है या भविष्य में उत्पन्न होने के लिए माना जा सकता है।

अध्याय 9 रु डिफॉल्ट

1. डिफॉल्ट का विवरण

संबंधित प्राधिकारी की दिशाध परिपत्रध अधिसूचना द्वारा एक स्माषोधन सदस्य को एक डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है यदिरू

- 1) वह अपने समाशोधन या निपटान दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हैय या
- 2) वह अपने कर्तव्यों, दायित्वों और दायित्वों को पूरा करने या उनकी मुक्ति के लिए अपनी अक्षमता को स्वीकार या प्रकट करता हैय या
- 3) वह नियम, उप-नियमों और विनियमों के तहत उसके खिलाफ एक समापन-आउट पर होने वाले नुकसान और धन अंतर के निर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान करने में असमर्थ है याय
- 4) समाशोधन निगम के कारण किसी भी राशि का भुगतान करने में वह विफल हो जाता है क्योंकि संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर लिख सकता हैय या
- 5) यदि वह क्लियरिंग सदस्य के कारण सभी धनियों, प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्तियों का भुगतान या भुगतान करने में विफल रहता है, ऐसे समय में इस तरह के स्माषोधन सदस्य की डिफॉल्ट घोषणा के ऐसे समय में और संबंधित प्राधिकरण के रूप में इस तरह के व्यक्ति को प्रत्यक्ष डिफॉल्टर घोषित किया गया होय या
- 6) यदि वह नियम, बाय कानून और विनियम के तहत निर्धारित मध्यस्थता पुरस्कार का पालन करने में विफल रहता हैय या
- 7) अगर उसे किसी भी दावेदार द्वारा दायर की गई याचिका में सक्षम न्यायालय के एक न्यायालय द्वारा दिवालिया होने का फैसला किया गया है, तो उसे एक चूककर्ता घोषित कर दिया जाएगा, हालांकि उस पर उसके समाशोधन निगम पर किसी भी दायित्व पर चूक नहीं होनी चाहिएय या
- 8) अगर वह एक दिवाला के रूप में खुद के फैसले के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र के एक अदालत के सामने याचिका दायर करता हैय या
- 9) किसी भी अन्य परिस्थिति में, जो समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा तय किया जा सकता है।
 1. इस अध्याय के नियम (1) में निहित पूर्वगामी प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जहां एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों का कोई सदस्यध्रेडिंग सदस्य भी है, को ऐसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया जाता है, कहा क्लियरिंग सदस्य प्रासंगिक खड़े होने पर प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा एक डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा।
 1. नियम और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के नियमों में से कुछ के बावजूद, यदि कोई स्माषोधन सदस्य सदस्यध्रेडिंग सदस्य के एक एसोसिएट है तो किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एक डिफॉल्टर घोषित किया जाता है, तो कहा जाता है कि समाशोधन सदस्य खुद को प्राधिकरण संबंधित द्वारा डिफॉल्टर घोषित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरणरू

उपरोक्त नियम के प्रयोजन के लिए एसोसिएट शब्द का अर्थ होगा जैसा कि समय-समय पर सेबी द्वारा परिभाषित किया गया है।

2. स्माषोधन का सूचित करने का कर्तव्य

स्माषोधन सदस्य समाशोधन निगम को तुरंत सूचित करने के लिए बाध्य होगा यदि किसी क्लियरिंग सदस्य द्वारा पूर्ण रूप से अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल हो।

3. दर्ज कराई गई शिकायत

स्माषोधन कॉर्पोरेशन द्वारा स्माषोधन कॉर्पोरेशन के माध्यम से साफ किए गए किसी सौदे से उत्पन्न होने वाले किसी ऋण के निपटारे में एक स्माषोधन सदस्य किसी भी स्माषोधन सदस्य से कोई पूर्ण और सशक्त धन भुगतान स्वीकार नहीं करेगा।

4. डिफॉल्ट का विवरण नोटिस
स्मापोधन सदस्य को डिफॉल्टर घोषित किए जाने पर, समाशोधन निगम के सभी क्लियरिंग सदस्यों को एक नोटिस तुरंत जारी किया जाएगा।
5. स्टॉक एक्सचेंज को सूचना
एक समाशोधन सदस्य को डिफॉल्टर घोषित किए जाने पर, एक नोटिस को तुरंत एक्सचेंज को जारी किया जाएगा यदि क्लियरिंग सदस्य उस एक्सचेंज के एक ट्रेडिंग सदस्य भी है।
6. डिफॉल्टर की पुस्तके और दस्तावेज
जब एक स्मापोधन सदस्य को डिफॉल्टर घोषित किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी अपने सभी खातों, दस्तावेजों, कागजात और वाउचर के प्रभारों को अपने मामलों की स्थिति का पता लगाने के लिए जिम्मेदार करेगा और डिफॉल्टर ऐसे पुस्तकों, दस्तावेजों, कागजात और वाउचर संबंधित प्राधिकरण को सौंप देगा।
7. डेबर्टर्स और क्रेडिटर्स की सूची
डिफॉल्टर प्रासंगिक प्राधिकारी के साथ अपने डिफॉल्ट घोषित करने के ऐसे समय के भीतर फाइल करेगा जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकारी निर्देशित कर सकता है, एक लिखित बयान जिसमें उसके देनदार और लेनदारों की पूरी सूची और प्रत्येक कुल राशि होती है।
8. जानकारी देने के लिए डिफॉल्टर
डिफॉल्टर संबंधित प्राधिकरण को उनके मामलों के विवरण, सूचना और विवरण के लिए प्रस्तुत करेगा क्योंकि प्रासंगिक प्राधिकरण को समय-समय पर आवश्यकता पड़ सकती है और यदि ऐसा चाहें तो संबंधित प्राधिकारी के सामने अपने डिफॉल्ट के संबंध में आयोजित बैठकों में पेश किया जाएगा।
9. पूछताछ
संबंधित प्राधिकरण बाजार में डिफॉल्टर के खातों और सौदे की सख्त जांच कर सकता है और किसी भी अनुचित, गैर-व्यापार की रिपोर्ट कर सकता है या इसके समाशोधन के किसी सदस्य को उसके बारे में जानकारी दे सकता है।
10. डिफॉल्टर की संपत्ति
संबंधित प्राधिकरण किसी भी रूप में सुरक्षा जमा राशि, मार्जिन धन, जमाकर्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूतियों और अन्य प्रतिभूतियों, प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्तियों को देय, देय या किसी भी द्वारा डिफॉल्टर के लिए वितरित करने के लिए झूठ बोलने वाले किसी भी रूप में कॉल करेगा और उसे महसूस करेगा स्मापोधन कॉरपोरेशन में स्मापोधन कॉरपोरेशन में किसी भी स्मापोधन सदस्य की घोषणा पर, समाशोधन निगम के लाभ के लिए, किसी भी सौदे के संबंध में अन्य स्मापोधन सदस्य या समाशोधन निगम के उप-नियम, नियम और विनियमों के अधीन किए गए सौदे और समाशोधन निगम के कारण, संबंधित निर्दिष्ट एक्सचेंज, सिक्क्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डिफॉल्टर के मजदूरों, स्वीकृत बैंकों और प्रासंगिक प्राधिकरण और अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग निगमों द्वारा अनुमोदित हो सकता है।
11. प्राधिकरण को जारी करने का भुगतान
 - (1) सभी धन, प्रतिभूति और अन्य परिसंपत्तियों को देय, देय या डिफॉल्टर के लिए डिलीवर किया जाना चाहिए या संबंधित प्राधिकारियों को डिफॉल्ट की घोषणा के ऐसे समय के भीतर भुगतान करना होगा जैसे संबंधित प्राधिकरण सीधे निर्देशित करता है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले एक क्लियरिंग सदस्य को डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है।
 - (2) एक समाशोधन सदस्य जो खाते में अंतर प्राप्त होगा या ऐसे खाते या सौदे के निपटारे के लिए निर्धारित तारीख से पहले किसी भी सौदे में कोई ध्यान प्राप्त होगा, ऐसे स्मापोधन सदस्य की स्थिति में, जिसे वह इस तरह के अंतर से प्राप्त किया है या विचाराधीन एक डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है, लेनदार सदस्यों के लाभ के लिए खाते में धन वापसी संबंधित प्राधिकारी को करेगा। किसी भी स्मापोधन सदस्य को ऐसे निपटारे के दिन से पहले किसी भी अन्य स्मापोधन सदस्य को भुगतान या भुगतान किया जाएगा या उस पर विचार किया जाएगा या फिर वह भुगतान के लिए संबंधित प्राधिकारी को और डिफॉल्ट के मामले में लेनदार सदस्य के खाते में दे देगा।
 - (3) एक स्मापोधन सदस्य जो किसी स्मापोधन सदस्य से किसी स्मापोधन सदस्य के पास कोई क्लीयर नोट या क्रेडिट नोट के दौरान प्राप्त करता है, जो उसके कारण अंतर के अलावा अन्य राशि का प्रतिनिधित्व करता है या उसके घटक के कारण जो राशि उसके द्वारा ओर से और उसके द्वारा प्राप्त की जानी है उस घटक को ऐसी राशि वापस करनी होगी यदि निपटारे के दिन के बाद संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए गए ऐसे अन्य क्लियरिंग सदस्य को ऐसे दिनों के भीतर एक डिफॉल्टर घोषित किया जाए। इस तरह की धनवापसी लाभकारी और लेनदार सदस्यों के खाते के लिए संबंधित प्राधिकरण को की जाएगी और यह ऐसे लेनदार सदस्यों के दावों के परिसमापन में लागू किया जाएगा जिनके दावों को नियम, बाय कानून और विनियमों के अनुसार भर्ती किया गया है।

12. वितरण

संबंधित प्राधिकरण, लेनदार सदस्यों के जोखिम और लागत पर ऐसे बैंक में प्राप्ति के दौरान प्राप्त सभी परिसंपत्तियों का भुगतान करेगा और उन्हीं से संबंधित नामों में समाशोधन निगम के साथ रखेंगे, जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकरण समय-समय पर प्रत्यक्ष और नियम, बाय कानून और विनियमों के अनुसार ही वितरित करेगा।

13. समापन

(1) डिफॉल्टर के साथ खुले सौदे वाले क्लियरिंग सदस्यों को डिलीवरी की घोषणा के बाद इस तरह के सौदों को बंद करना होगा। इस तरह के समापन का समय ऐसे तरीके से होगा, जो प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है। प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट इस संबंध में नियमों के अधीन, जब प्रासंगिक प्राधिकारी की राय में, परिस्थितियों इतनी वारंट, ऐसी समापन से संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है इस तरह के रूप में जगह ले लिया समझा जाएगा।

(2) समापन के उपरोक्त समायोजन से उत्पन्न होने वाले अंतर डिफॉल्टर से दावा किया जाएगा या डिफॉल्टर के लेनदार स्माशोधन सदस्यों के लाभ के लिए संबंधित प्राधिकरण को भुगतान किया जाएगा।

14. दोष के खिलाफ दावे

संबंधित प्राधिकरण के रूप में डिफॉल्ट की घोषणा के ऐसे समय के भीतर, प्रत्येक क्लियरिंग सदस्य को व्यापार करने का निर्देश दे सकता है, जैसा कि ऐसा करने की आवश्यकता हो सकती है, या तो संबंधित प्राधिकारी के साथ तुलना की जा सकती है जिसमें डिफॉल्टर के साथ उसके खातों को व्यवस्थित समायोजित किया जाता है और जैसा कि नियम, उप-नियम और विनियम या संबंधित प्राधिकारी के रूप में इस तरह के फार्म या फॉर्म में डिफॉल्टर के साथ ऐसे खातों का बयान प्रस्तुत करते हैं, जो प्रमाण पत्र लिख सकते हैं या उसे प्रस्तुत कर सकते हैं कि उनका कोई ऐसा खाता नहीं है।

15. खातों की तुलना या जमा करने में देरी

कोई भी समाशोधन करने वाले सदस्य अपने खातों की तुलना करने या निर्दिष्ट करने वाले समय के भीतर किसी डिफॉल्टर से संबंधित बयान या प्रमाण पत्र भेजने में असमर्थ हैं, उनके खातों की तुलना करने या निर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे वक्त में ऐसे वक्तव्य या प्रमाण पत्र भेजना होगा।

16. खातों की तुलना या जमा करने में विफलता के लिए दंड

संबंधित प्राधिकारी ऐसी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वह किसी भी समाशोधन वाले सदस्य पर ठीक और निलंबन के आकार सहित योग्य लग सकता है, जो अपने खातों की तुलना करने या डिफॉल्टर या प्रमाण पत्र के साथ अपने खाते का बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जिसके अनुसार उसका उस समय कोई ऐसा खाता नहीं है।

17. भ्रामक बयान

प्रासंगिक प्राधिकारी ऐसी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि यह ठीक और निलंबन के आकार सहित योग्य समझ सकता है, अगर यह संतुष्ट हो जाता है कि इस तरह के स्माशोधन सदस्य द्वारा भेजे गए किसी डिफॉल्टर से संबंधित कोई तुलना बयान या प्रमाण पत्र गलत या भ्रामक था।

18. संबंधित प्राधिकरण के खातों

संबंधित प्राधिकारी, एक अलग खाता रख सकता है जो सभी धन, सिक्योरिटीज और अन्य संपत्तियों के संबंध में एक डिफॉल्टर को देय होगा, और वहां से सभी लागतों, शुल्कों और इन परिसंपत्तियों के संग्रह में या उसके बाद किए गए खर्चों और खर्चों में से डिफॉल्ट के संबंध में किसी भी कार्यवाही के बारे में इस्तेमाल किया जा सकता है।

19. संपत्ति का आवेदन

प्रासंगिक प्राधिकार इस प्रकार की प्राथमिकता के क्रम में दावों को संतुष्ट करने में, समाशोधन निगम द्वारा किए जाने वाले नियम, उप-नियमों और विनियमों के अधीन सभी तरह की लागतों, शुल्कों और खर्चों को परिभाषित करने के बाद अपने हाथों में शेष कुल परिसंपत्तियों को लागू करेगा। रु -

(अ) समाशोधन निगम के बकाया, संबंधित निर्दिष्ट एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया समाशोधन निगम के कारण ऐसी सदस्यता, ऋण, जुर्माना, फीस, शुल्कों और अन्य धन भुगतान का भुगतान, प्रासंगिक प्राइवेटेड एक्सचेंज और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक प्रो-राटा आधार पर है,

(ब) डिफॉल्टर के घटकों के लिए बकाया

भुगतान के रूप में प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा भर्ती कराया जा सकता है, क्योंकि ऋण, देनदारियों, दायित्वों और दावों के लिए डिफॉल्टर के घटकों के कारण डिफॉल्टर द्वारा समाशोधन निगम के नियम, उप-नियमों और नियमों के अधीन किए गए किसी भी अनुबंध से उत्पन्न होने वाले दावों, बशर्ते कि अगर राशि अपर्याप्त है तो राशियों को चूकने वाले सभी सविधानों में प्रो-राट वितरित किया जाएगा,

(स) स्वीकृत बैंकों के बकाया और प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य व्यक्ति के दावों

उपर्युक्त (ब) के तहत भुगतान करने के बाद, शेष राशि, यदि कोई हो, का उपयोग अनुमोदित बैंकों और किसी अन्य व्यक्ति के दावों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसे प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा भर्ती किया जा सकता है। स्वीकृत बैंकों के दावे को समाशोधन निगम या संबंधित निर्दिष्ट एक्सचेंज के आधार पर बैंक द्वारा जारी की गई किसी भी बैंक गारंटी के जरिए उत्पन्न होनी चाहिए, जो विलयरिंग निगम या संबंधित निर्दिष्ट एक्सचेंज से जारी की जाती है, जैसा कि मामला अपराधियों की ओर से पूरा करने के लिए हो सकता है बैंक गारंटी जमा करने का दायित्व, बयाल के तहत दायित्वों का निर्वहन, समाशोधन निगम के नियम और विनियम संबंधित निर्दिष्ट एक्सचेंज। समाशोधन निगम या समाशोधन निगम द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के समाशोधन और निपटान के लिए अन्य व्यक्तियों के दावे से उत्पन्न या आकस्मिक रूप से उत्पन्न होना चाहिए, बशर्ते कि अगर उपलब्ध राशि में ऐसे सभी दावों का भुगतान पूर्ण नहीं हो, तो वे प्रो-राटा का भुगतान किया जाएगा,

(द) किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज समाशोधन निगम के बकाया राशि

उपरोक्त (स) के तहत दावों को पूरा करने के बाद, शेष राशि, यदि कोई हो, तो उस विनियम समाशोधन निगम के सदस्य के रूप में डिफॉल्टर के दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज & विलयरिंग निगम को वितरित किया जाएगा। यदि डिफॉल्टर एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज & विलयरिंग निगम का सदस्य है, तो शेष राशि सभी ऐसे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों विलयरिंग निगमों के बीच वितरित की जाएगी और यदि शेष राशि ऐसे सभी स्टॉक एक्सचेंजों के दावों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, फिर शेष राशि ऐसे सभी स्टॉक एक्सचेंजों समाशोधन निगमों में प्रो-राटा वितरित की जाएगी तथा

(इ) अधिशेष

उपर्युक्त सभी दावों को पूरा करने के बाद शेष राशि, यदि कोई हो, समाशोधन सदस्य को भुगतान किया जाएगा।

20. कुछ दावों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए

संबंधित प्राधिकारी किसी डिफॉल्टर के खिलाफ कोई दावा नहीं करेगा

- (1) जो प्रतिभूतियों में अनुबंध से उत्पन्न होता है, जिसमें लेनदेन की अनुमति नहीं है या जो उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अधीन नहीं किए जाते हैं या जिसमें दावेदार ने या तो खुद को भुगतान नहीं किया है या डिफॉल्टर के साथ मार्जिन की चोरी किसी भी सुरक्षा में सस्ते पर देय होय
- (2) जो किसी अनुबंध से उत्पन्न होता है, जिसके संबंध में खातों की तुलना नियम, उप-नियमों और विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से नहीं की गई है या जब कोई तुलना नहीं की गई है, तो ऐसे सौदों के संबंध में कोई अनुबंध नोट नहीं है नियम, बाय कानून और विनियमों में प्रदान की गई हैय
- (3) जो दावे के निपटारे के लिए किसी भी व्यवस्था से उत्पन्न होता है, जब ऐसे दावों की वजह से पूरा भुगतान किया जाता हैय
- (4) जो सुरक्षा के साथ या बिना ऋण के संबंध में हैय
- (5) जो कि प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट के रूप में डिफॉल्ट की घोषणा के ऐसे समय के भीतर प्रासंगिक प्राधिकरण के साथ दायर नहीं किया गया है।

21. डिफॉल्टर्स की संपत्ति पर दावों का सौंपना

डिफॉल्टर के लेनदार होने वाला कोई समाशोधन सदस्य संबंधित प्राधिकारी की सहमति के बिना ऐसे डिफॉल्टर की संपत्ति पर दावे को बेची, आवंटित या प्रतिज्ञा नहीं करेगा।

22. डिफॉल्ट के नाम पर या उसके खिलाफ कार्यवाही

प्रासंगिक प्राधिकरण को (अ) किसी न्यायालय में समाशोधन निगम के नाम पर या डिफॉल्टर के कारण किसी भी व्यक्ति की चूक के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ डिफॉल्टर के नाम पर कोई कार्यवाही आरंभ करने का अधिकार होगा (ब) कानून के किसी न्यायालय में समाशोधन निगम के नाम पर या लेनदारों के नाम पर कोई कार्यवाही आरंभ की जाती है (जो सौदों के परिणामस्वरूप डिफॉल्टर के लेनदार बन गए हैं और बायलोस, नियम और विनियम के अधीन बसा हुआ है) डिफॉल्टर के कारण किसी भी राशि को उगाहने के उद्देश्य से डिफॉल्टर के खिलाफ डिफॉल्टर के समाशोधन निगम डिफॉल्टर के साथ-साथ डिफॉल्टर के लेनदारों को इस तरह की कार्यवाही करने के उद्देश्य के लिए समाशोधन निगम को उनके गठित वकील नियुक्त करने के लिए समझा जाएगा।

23. संबंधित प्राधिकरण का भुगतान

अगर कोई समाशोधन सदस्य डिफॉल्टर के खिलाफ अदालत में किसी भी दावे को लागू करने के लिए उसके मूलभूत अवधि के दौरान किसी भी कार्यवाही को ले जाता है या तो डिफॉल्टर की संपत्ति के खिलाफ या उसके बाद फिर से प्रवेश के लिए बाजार में किए गए किसी भी आये गए सौदों से उत्पन्न होता है इससे पहले कि वो डिफॉल्टर घोषित किया गया हो और एक हुकमनामा प्राप्त करता है और उस पर किसी भी राशि का धन जुटाने से पहले नियम और विनियम, यह उस राशि या उसके किसी भी भाग का भुगतान करेगा जो कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा लाभ के लिए और लेनदार के खाते में तय किया जा सकता है, ऐसे डिफॉल्टर के खिलाफ होने वाले सदस्यों का दावा होता है।

अध्याय 10 रु विविध

1. समाशोधन और निपटान व्यवस्था के बारे में संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उप-नियमों और विनियमों में अन्यथा विशेष रूप से प्रदान किए जाने के रूप में सहेजें, क्लियरिंग निगम को बढ़ावा देने, सहायता करने, विनियमन, प्रबंधन और संचालन में कोई दायित्व नहीं माना जाना चाहिए और तदनुसार प्रतिभूतियों में किसी भी सौदे के संबंध में या इसके संबंध में या इसके संबंध में संबंधित कोई दावा या सहारा समाशोधन निगम के लिए अभिनय किए गए किसी भी अधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ नहीं होगा।
2. कोई भी दावा, मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही, किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ समाशोधन निगम के लिए किसी भी चीज के संबंध में झूठ बोलने वाली नहीं होगी जो किसी भी आदेश या अन्य बाध्यकारी निर्देश जारी किए गए अच्छे इरादे में किसी भी कानून के तहत समाशोधन निगम या बल में समय के लिए सौंपी गई विधान से किए गए हैं।

एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

नीलेश तीनाइकर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पणी : हिन्दी पाठ में भिन्नता की स्थिति अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

NSE IFSC LIMITED

Regd. Office: Unit no. 48 & 53, GIFT Aspire One Business Centre, 1st Floor, Block 12, Road 1-D, Zone-1, GIFT-SEZ, Gandhinagar District, Gujarat - 382355

The provisions contained in the Rules of NSE IFSC Limited are given hereunder:

NSE IFSC LIMITED**RULES****ARRANGEMENT OF CHAPTERS****Chapter Description**

I.	Board
II.	Committee
III.	Trading Membership
IV.	Disciplinary Proceeding, Penalties Suspension and Expulsion

I. BOARD

- (1) The Board of Directors (herein referred to as Board) of NSE IFSC Limited, constituted in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, may organise, maintain, control, manage, regulate and facilitate the operations of the Exchange and of securities transactions by trading members of the Exchange, subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Rules and Regulations thereunder, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and Rules, Regulations or directions or guidelines thereunder and the regulations or directives which RBI may prescribe from time to time.
- (2) Directors of the NSE IFSC Limited shall be appointed in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company as amended from time to time and in particular, provisions of Articles 116, 116A, 117, 118(A), 118(AA), 118(B), 119, 120 thereof. Any such appointment of Directors shall be considered as one being made under the provisions of these rules.
- (3) Subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Rules and Regulations thereunder, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and Rules, Regulations or directions or guidelines thereunder and the regulations or directives which RBI may prescribe from time to time, the Board is empowered to make Bye Laws, Rules and Regulations from time to time, for all or any matters relating to the conduct of business of the Exchange, the business and transactions of trading members between trading members inter-se as well as the business and transactions between trading members and persons who are not trading members, and to control, define and regulate all such transactions and dealings and to do such acts and things which are necessary for the purposes of the Exchange.
- (4) Directors of NSE IFSC Limited shall be appointed in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company as amended from time to time. Any such appointment of Directors shall be considered as one being made under the provisions of these rules.
- (5) Without prejudice to the generality of the foregoing, the Board is empowered to make Regulations, subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Rules and Regulations thereunder, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and Rules, Regulations or directions or guidelines thereunder and the regulations or directives which RBI may prescribe from time to time, for all or any of the following matters:
 - (a) Conditions for admission to membership of the Exchange;
 - (b) Conduct of business of the Exchange;
 - (c) Conduct of trading members with regard to the business of the Exchange;
 - (d) Penalties for disobedience or contravention of the Rules, Bye Laws and Regulations of the Exchange or of general discipline of the Exchange, including expulsion or suspension of the trading members;
 - (e) Declaration of any trading member as a defaulter or suspension or expulsion from trading membership of the Exchange and consequences thereof;
 - (f) Conditions, levy for admission or subscription for admission or continuance of trading membership of the Exchange;
 - (g) Charges payable by trading members for transactions in such securities as may be laid down from time to time;

- (h) Investigation of the financial condition, business conduct and dealings of the trading members;
 - (i) Appointment of Committee or Committees for any purpose of the Exchange;
 - (j) Such other matters in relation to the Exchange as may be prescribed under the provisions of the Articles of Association, Bye Laws or these Rules or as may be necessary or expedient for the organisation, maintenance, control, management, regulation and facilitation of the operations of the Exchange.
- (6) The Board is empowered to delegate, from time to time, to such Committee(s) or to the Managing Director or to any person, such of the powers vested in it and upon such terms as they may think fit, to manage all or any of the affairs of the Exchange and from time to time, to revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.
- (7) The Board may, from time to time, constitute one or more committees comprising of members of the Board or such others as the Board may in its discretion deem fit or necessary and delegate to such committees such powers as the Board may deem fit and the Board may from time to time revoke such delegation. The Committees constituted by the Board may inter alia include :
- (a) Admissions Committee for admission of trading members of the Exchange;
 - (b) Infrastructure Committee to recommend appropriate infrastructure and implement the same;
 - (c) Systems Committee to recommend setting up of systems for carrying on the functioning of the Exchange and to implement and monitor the same;
 - (d) Any other matter which the Board may think fit.
- (8) The Board shall have the authority to issue directives from time to time to the any Committee(s) or any other person or persons to whom any powers have been delegated by the Board. Such directives issued in exercise of this power, which may be of policy nature or may include directives to dispose off a particular matter or issue, shall be binding on the concerned Committee(s) or person(s).
- (9) Subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Rules and Regulations thereunder, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and Rules, Regulations or directions or guidelines thereunder and the regulations or directives which RBI may prescribe from time to time, the Board is empowered to vary, amend, repeal or add to Bye Laws, Rules and Regulations framed by it.
- (10) The Members of the Board and of such committees as may be identified by the Ethics Committee shall adhere to the Code of Conduct as may be prescribed by the Board or Ethics Committee from time to time.

II. COMMITTEE

(1) CONSTITUTION

One or more Committee(s) may be appointed by the Board for the purposes of managing the day to day affairs of the Stock Exchange. The Board may decide on the constitution, duration and powers of the Committee(s), nomination and vacation of the nominees from the Committee(s) and appointment of office bearers and rules and procedures for the functioning of the Committee(s).

(2) POWERS OF COMMITTEE(S)

- (1) The Board may delegate from time to time to the Committee(s) such of the powers vested in them and upon such terms as they may think fit, to manage all or any of the affairs of the Stock Exchange and from time to time, to revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.
- (2) The Committee(s) shall be bound and obliged to carry out and implement any directives issued by the Board from time to time and shall be bound to comply with all conditions of delegation and limitations on the powers of the Committee(s) as may be prescribed.

III. TRADING MEMBERSHIP

- (1) The rights and privileges of a trading member shall be subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.
- (2) All trading members of the Exchange shall have to register themselves prior to commencing operations on the Exchange, with the Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Eligibility

- (3) The following persons shall be eligible to become trading members of the Exchange:
 - (a) companies as defined in the Companies Act, 2013 and
 - (b) any other entity as may be permitted by Securities and Exchange Board of India

No person shall be eligible to be admitted to the trading membership of the Exchange unless the person satisfies:

- (a) the requirements prescribed in that behalf under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, and the Rules framed thereunder and under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, and
- (b) such additional eligibility criteria as SEBI or relevant authority may prescribe from time to time.

(4) Certification

No company or any other entity shall be eligible to be admitted to the trading membership of the Exchange unless two of the designated directors have passed the Certification Programme conducted by the Exchange or such other institution as determined by the Exchange from time to time

Admission

- (5) Any company or entity desirous of becoming a trading member shall apply to the Exchange for admission to the trading membership of the Exchange. Every application shall be dealt with by the relevant authority who shall be entitled to admit or reject such applications at its discretion.
- (6) The application shall be made in such formats as may be specified by the relevant authority from time to time for application for admission of trading members.
- (7) The application shall have to be submitted along with such fees, security deposit and other monies in such form and in such manner as may be specified by the relevant authority from time to time.
- (8) The applicant shall have to furnish such declarations as may be specified from time to time by the relevant authority.
- (9) The relevant authority shall have the right to call upon the applicant to pay such fees or deposit such additional security in cash or kind, to furnish any additional guarantee or to require the deposit of any building fund, computerisation fund, training fund or fee as the relevant authority may prescribe from time to time.
- (10) The relevant authority may admit the applicant to the trading membership of the Exchange provided that the applicant satisfies the eligibility conditions and other procedures and requirements of admission. The relevant authority may at its absolute discretion reject any application for admission without communicating the reason thereof.
- (11) If for any reason the application is rejected, the admission fee shall be refunded to the applicant, without any interest.
- (12) The relevant authority may at any time from the date of admission to the trading membership of the Exchange cancel the admission and expel a trading member if it has in or at the time of his application for admission to membership or during the course of the inquiry made by the relevant authority preceding his admission :
 - (a) made any willful misrepresentation; or
 - (b) suppressed any material information required of him as to his character and antecedents; or
 - (b) has directly or indirectly given false particulars or information or made a false declaration.
- (13) When an applicant is admitted to the trading membership of the Exchange, intimation of the applicant's admission shall be sent to the applicant and to the Securities and Exchange Board of India. If the applicant admitted to the membership of the Exchange and after intimation of its admission is duly sent, does not become a member by complying with acts and procedures for exercising the privileges of membership as may be prescribed by the relevant authority within a specified time period from the date of despatch of the intimation of admission, the admission fee paid by applicant shall be forfeited by the Exchange.
- (14)
 - (a) Every trading member of the Exchange shall, upon being admitted as a trading member of the Exchange be issued a certificate or entitlement slip as proof of having been admitted to the benefits and privileges of the trading membership of the Exchange. Such a certificate or entitlement slip shall not be transferable or transmittable except as herein mentioned.
 - (b) Subject to such terms and conditions as the relevant authority may prescribe from time to time and to the prior written approval of the relevant authority, transfer of the certificate / entitlement slip, may be effected as follows:
 - (i) by an amalgamation or merger of a trading member company;
 - (ii) by takeover of a trading member company;
 - (c) The relevant authority may permit the transfer of the certificate / entitlement slip in the following circumstances:
 - (i) Upon amalgamation or merger of a trading member company;
 - (ii) Upon takeover of a trading member company;

- (d) The relevant authority may, while permitting the transfer, prescribe from time to time such transfer fee as it deems fit in the following circumstances viz.,
- (i) amalgamation or merger of a trading member company with a non trading member company resulting in the loss of majority shareholding and/ or control of management by the majority shareholders of the trading member company;
 - (ii) takeover of the trading member company by non trading member(s) company resulting in the loss of majority shareholding and/ or control of management by the majority shareholders of the trading member company;

Explanation I

For the purpose of sub-clauses (i) and (ii) above, the term “loss of majority shareholding” means a shareholder or a group of shareholders holding 51% or more shares / interest in the trading member company ceases to hold 51% of shares / interest in the trading member company or in the amalgamated company which shall take up trading membership upon amalgamation of the trading member company with a non trading member company.

Explanation II

For the purpose of sub-clauses (i) and (ii) above, the term “loss of control in management” means the loss of the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decision exercisable by person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner.

- (e) Without prejudice to any other provision of the Rules, the trading membership may be suspended, for such period as the relevant authority may deem fit, in the following circumstances:
- (i) Upon any deadlock in the management of a trading member company, which, in the opinion of the relevant authority will affect the ability of such trading member company to carry on its business. The trading member shall be entitled for an opportunity for representation before the relevant authority, before being suspended under this sub-clause, but the decision of the relevant authority shall be final.

Explanation I

For the purposes of this sub-clause, the term “Deadlock in the Management” means a situation wherein there is a loss of confidence or disagreement among the directors/shareholders of a trading member company, which, in the opinion of the relevant authority, will affect or is likely to affect the conduct of business by the trading member company, as the case may be or an equality of vote at a meeting of the directors or shareholders of a trading member company.

- (15) The entitlement slip does not confer any ownership right as a member of the Company. The original of the entitlement slip shall stand deposited with the relevant authority. An authenticated photocopy or duplicate of such entitlement slip shall remain in the possession of the trading member as a proof of the trading membership of the Exchange.
- (16) A trading member shall not assign, mortgage, pledge, hypothecate or charge his right of membership or any rights or privileges attached thereto and no such attempted assignment mortgage, pledge, hypothecation or charge shall be effective as against the Exchange for any purpose, nor shall any right or interest in any trading membership other than the personal right or interest of the trading member therein be recognised by the Exchange. The relevant authority shall expel any trading member of the Exchange who acts or attempts to act in violation of the provisions of this Rule.

Termination of membership

- (17) Any trading member may cease to be a member, if one or more apply:
- (a) expulsion in accordance with the provisions contained in the Bye Laws, Rules and Regulations;
 - (b) declared a defaulter in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange;
 - (c) winding up of such trading member;
 - (d) Surrender of the trading membership of the Exchange.

Failure to pay Charges

- (18) Save as otherwise provided in the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange if a member fails to pay his annual subscription, fees, charges or other monies which may be due by him to the Exchange within such time as the relevant authority may prescribe from time to time after notice in writing has been served upon him by the

Exchange, he may be suspended by the relevant authority until he makes payment and if within a further period of fifteen days he fails to make such payment, he may be expelled by the relevant authority.

Continued Admittance

- (19) The relevant authority shall from time to time prescribe conditions and requirements for continued admittance to trading membership which may, inter alia, include maintenance of minimum networth and capital adequacy, renewal of certification, if any, etc. The trading membership of any person who fails to meet these requirements shall be liable to be terminated.

Readmission of Defaulters

- (20) A trading member's right of membership shall lapse and vest with the Exchange immediately he is declared a defaulter. The member who is declared a defaulter shall forfeit all his rights and privileges as a member of the Exchange, including any right to use of or any claim upon or any interest in any property or funds of the Exchange, if any.
- (21) The relevant authority may readmit a defaulter as a trading member subject to the provisions as may be prescribed by the relevant authority from time to time.
- (22) The relevant authority may readmit only such defaulter which in its opinion:
- (a) has paid up all dues to the Exchange, other trading members and constituents;
 - (b) has no winding up proceedings against him in a Court or has not been wound up by any Court;
 - (c) has defaulted owing to the default of principals or constituents whom he might have reasonably expected to be good for their commitments;
 - (d) has not been guilty of bad faith or breach of the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange;
 - (e) has been irreproachable in his general conduct.

IV. DISCIPLINARY PROCEEDINGS, PENALTIES, SUSPENSION AND EXPULSION

Disciplinary Jurisdiction

- (1) The relevant authority may expel or suspend and/or fine under censure and/or warn and/or withdraw any of the membership rights of a trading member if it be guilty of contravention, non-compliance, disobedience, disregard or evasion of any of the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange or of any resolutions, orders, notices, directions or decisions or rulings of the Exchange or the relevant authority or of any other Committee or officer of the Exchange authorised in that behalf or of any conduct, proceeding or method of business which the relevant authority in its absolute discretion deems dishonourable, disgraceful or unbecoming a trading member of the Exchange or inconsistent with just and equitable principles of trade or detrimental to the interests, good name or welfare of the Exchange or prejudicial or subversive to its objects and purposes.

Penalty for Misconduct, Unbusiness like Conduct and Unprofessional Conduct

- (2) In particular and without in any way limiting or prejudicing the generality of the provisions in Rule (1) above, a trading member shall be liable to expulsion or suspension or withdrawal of all or any of its membership rights and/or to payment of a fine and/or to be censured, reprimanded or warned for any misconduct, unbusiness like conduct or unprofessional conduct in the sense of the provision in that behalf contained herein.

Misconduct

- (3) A trading member shall be deemed guilty of misconduct for any of the following or similar acts or omissions namely:
- (a) Fraud: If it is convicted of a criminal offence or commits fraud or a fraudulent act which in the opinion of the relevant authority renders it unfit to be a trading member;
 - (b) Violation: If it has violated provisions of any statute governing the activities, business and operations of the Exchange, trading members and securities business in general;
 - (c) Improper Conduct: If in the opinion of the relevant authority it is guilty of dishonourable or disgraceful or disorderly or improper conduct on the Exchange or of willfully obstructing the business of the Exchange;
 - (d) Breach of Rules, Bye Laws and Regulations: If it shields or assists or omits to report any trading member whom it has known to have committed a breach or evasion of any Rule, Bye-law and Regulation of the Exchange or of any resolution, order, notice or direction thereunder of the relevant authority or of any Committee or officer or the Exchange authorised in that behalf;

- (e) Failure to comply with Resolutions : If it contravenes or refuses or fails to comply with or abide by any resolution, order, notice, direction, decision or ruling of the relevant authority or of any Committee or officer of the Exchange or other person authorised in that behalf under the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange;
- (f) Failure to submit to or abide by Arbitration : If it neglects or fails or refuses to submit to arbitration or to abide by or carry out any award of the arbitrators made in connection with a reference under the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange;
- (g) Failure to testify or give information : If it neglects or fails or refuses to submit to the relevant authority or to a Committee or an officer of the Exchange authorised in that behalf, such books, correspondence, documents and papers or any part thereof as may be required to be produced or to appeal and testify before or cause any of its attorneys, agents, authorised representatives or employees to appear and testify before the relevant authority or such Committee or officer of the Exchange or other person authorised in that behalf;
- (h) Failure to submit Special Returns : If it neglects or fails or refuses to submit to the relevant authority within the time notified in that behalf special returns in such form as the relevant authority may from time to time prescribe together with such other information as the relevant authority may require whenever circumstances arise which in the opinion of the relevant authority make it desirable that such special returns or information should be furnished by any or all the trading members;
- (i) Failure to submit Audited Accounts: If it neglects or fails or refuses to submit its audited accounts to the Exchange within such time as may be prescribed by the relevant authority from time to time.
- (j) Failure to compare or submit accounts with Defaulter : If it neglects or fails to compare its accounts with the Defaulters' Committee or to submit to it a statement of its accounts with a defaulter or a certificate that it has no such account or if it makes a false or misleading statement therein;
- (k) False or misleading Returns : If it neglects or fails or refuses to submit or makes any false or misleading statement in its clearing forms or returns required to be submitted to the Exchange under the Bye Laws, Rules and Regulations;
- (l) Vexatious complaints: If it or its agent brings before the relevant authority or a Committee or an officer of the Exchange or other person authorised in that behalf a charge or complaint, complaint which in the opinion of the relevant authority is frivolous, vexatious or malicious;
- (m) Failure to pay dues and fees: If it fails to pay its subscription, fees, arbitration charges or any other money which may be due by it or any fine or penalty imposed on it.

Unbusiness like Conduct

- (4) A trading member shall be deemed guilty of unbusiness like conduct for any of the following or similar acts or omissions namely :
 - (a) Fictitious Names: If it transacts its own business or the business of its constituent in fictitious names;
 - (b) Fictitious Dealings: If it makes a fictitious transaction or gives an order for the purchase or sale of securities the execution of which would involve no change of ownership or executes such an order with knowledge of its character;
 - (c) Circulation of rumours: If it, in any manner, circulates or causes to be circulated, any rumours;
 - (d) Prejudicial Business: If it makes or assists in making or with such knowledge is a party to or assists in carrying out any plan or scheme for the making of any purchases or sales or offers of purchase or sale of securities for the purpose of upsetting the equilibrium of the market or bringing about a condition in which prices will not fairly reflect market values;
 - (e) Market Manipulation and Rigging: If it, directly or indirectly, alone or with other persons, effects series of transactions in any security to create actual or apparent active trading in such security or raising or depressing the prices of such security for the purpose of inducing purchase or sale of such security by others;
 - (f) Unwarrantable Business: If it engages in reckless or unwarrantable or unbusiness like dealings in the market or effects purchases or sales for its constituent's account or for any account in which it is directly or indirectly interested which purchases or sales are excessive in view of its constituent's or his own means and financial resources or in view of the market for such security;
 - (g) Compromise: If it connives at a private failure of a trading member or accepts less than a full and bona fide money payment in settlement of a debt due by a trading member arising out of a transaction in securities;

- (h) Dishonoured Cheque: If it issues to any other trading member or to its constituents a cheque which is dishonoured on presentation for whatever reasons;
- (i) Failure to carry out transactions with Constituents: If it fails in the opinion of the relevant authority to carry out its committed transactions with its constituents;

Unprofessional Conduct

- (5) A trading member shall be deemed guilty of unprofessional conduct for any of the following or similar acts or omissions namely :
- (a) Business in Securities in which dealings not permitted: If it enters into dealings in securities in which dealings are not permitted;
 - (b) Business for Defaulting Constituent: If it deals or transacts business directly or indirectly or executes an order for a constituent who has within its knowledge failed to carry out engagements relating to securities and is in default to another trading member unless such constituent shall have made a satisfactory arrangement with the trading member who is its creditor;
 - (c) Business for Insolvent: If without first obtaining the consent of the relevant authority it directly or indirectly is interested in or associated in business with or transacts any business with or for any individual who has been insolvent even though such individual shall have obtained his final discharge from an Insolvency Court;
 - (d) Business without permission when under suspension : If without the permission of the relevant authority it does business on its own account or on account of a principal with or through a trading member during the period it is required by the relevant authority to suspend business on the Exchange;
 - (e) Business for or with suspended, expelled and defaulter trading members: If without the special permission of the relevant authority it shares brokerage with or carries on business or makes any deal for or with any trading member who has been suspended, expelled or declared a defaulter;
 - (f) Business for Employees of other trading members: If it transacts business directly or indirectly for or with or executes an order for an authorised representative or employee of another trading member without the written consent of such employing trading member;
 - (g) Business for Exchange Employees: If it makes a speculative transaction in which an employee of the Exchange is directly or indirectly interested;
 - (h) Advertisement: If it advertises for business purposes or issues regularly circular or other business communications to persons other than its own constituents, trading members of the Exchange, Banks and Joint Stock Companies or publishes pamphlets, circular or any other literature or report or information relating to the stock markets without the prior written permission of the Exchange or in contravention of the advertisement code prescribed by the Exchange;
 - (i) Evasion of Margin Requirements: If it willfully evades or attempts to evade or assists in evading the margin requirements prescribed in these Bye Laws and Regulations;
 - (j) Brokerage Charge: If it willfully deviates from or evades or attempts to evade the Bye Laws and Regulations relating to charging and sharing of brokerage.
 - (k) Dealings with entities prohibited to buy or sell or deal in securities market: If it deals, directly or indirectly, in the course of its business with or transacts any business with or for any entity, which has been prohibited by SEBI to buy or sell or deal in the securities market.

Trading member's responsibility for Agents and Employees

- (6) A trading member shall be fully responsible for the acts and omissions of its authorised officials, attorneys, agents, authorised representatives and employees and if any such act or omission be held by the relevant authority to be one which if committed or omitted by the trading member would subject it to any of the penalties as provided in the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange then such trading member shall be liable therefore to the same penalty to the same extent as if such act or omission had been done or omitted by itself.

Suspension on failure to provide deposit and/or Capital Adequacy requirements

- (7) The relevant authority shall require a trading member to suspend its business when it fails to provide the deposit and/or meet capital adequacy norms as provided in these Bye Laws, Rules and Regulations and the suspension of business shall continue until it furnishes the necessary deposit or meet capital adequacy requirements. The relevant authority may expel a trading member acting in contravention of this provision.

Suspension of Business:

- (8) The relevant authority may require a trading member to suspend its business in part or in whole :
- (a) **Prejudicial Business:** When in the opinion of the relevant authority, the trading member conducts business in a manner prejudicial to the Exchange by making purchases or sales of securities or offers to purchase or sell securities for the purpose of upsetting equilibrium of the market or bringing about a condition of demoralisation in which prices will not fairly reflect market values, or
 - (b) **Unwarrantable Business:** When in the opinion of the relevant authority it engages in unwarrantable business or effects purchases or sales for its constituent's account or for any account in which it is directly or indirectly interested which purchases or sales are excessive in view of its constituent's or its own means and financial resources or in view of the market for such security, or
 - (c) **Unsatisfactory Financial Condition:** When in the opinion of the relevant authority it is in such financial condition that it cannot be permitted to do business with safety to its creditors or the Exchange.

Removal of Suspension

- (9) The suspension of business under clause (8) above shall continue until the trading member has been allowed by the relevant authority to resume business on its paying such deposit or on its doing such act or providing such thing as the relevant authority may require.

Penalty for Contravention

- (10) A trading member who is required to suspend its business shall be expelled by the relevant authority if he acts in contravention of this provision.

Trading members and others to testify and give information

- (11) A trading member shall appear and testify before and cause its attorneys, agents, authorised representatives and employees to appear and testify before the relevant authority or before other Committee(s) or an officer of the Exchange authorised in that behalf and shall produce before the relevant authority or before other Committee(s) or an officer of the Exchange authorised in that behalf, such books, correspondence, documents, papers and records or any part thereof which may be in its possession and which may be deemed relevant or material to any matter under inquiry or investigation.

Permission necessary for Legal Representation

- (12) No person shall have the right to be represented by professional counsel, attorney, advocate or other representative in any investigation or hearing before the relevant authority or any other Committee unless the relevant authority or other Committee so permits.

Explanation before suspension or expulsion

- (13) A trading member shall be entitled to be summoned before the relevant authority and afforded an opportunity for explanation before being suspended or expelled but in all cases the findings of the relevant authority shall be final and conclusive.

Temporary Suspension

- (14)
- (a) Notwithstanding what is contained in clause (13) herein above if in the opinion of the Managing Director it is necessary to do so, he may, for reasons to be recorded in writing, temporarily suspend a trading member, pending completion of the proceedings for suspension under this chapter by the relevant authority, and no notice of hearing shall be required for such temporary suspension and such temporary suspension shall have the same consequences of suspension under this chapter.
 - (b) A notice to show cause shall be issued to the trading member within five working days of such temporary suspension.
 - (c) Any such temporary suspension may be revoked at the discretion of the Managing Director, for reasons to be recorded in writing, if the Managing Director is satisfied that the circumstances leading to the formations of opinion of the Managing Director to effect temporary suspension, have ceased to exist or are satisfactorily resolved.
 - (d) A trading member aggrieved by the temporary suspension may appeal to the relevant authority, provided that such appeal shall not automatically suspend the temporary suspension unless otherwise directed by the relevant authority.

Effect of suspension of registration by SEBI

- (15) Notwithstanding anything contained in any of the Byelaws and Rules of the Exchange, if the registration of a Trading Member is suspended by SEBI, such Trading Member shall ipso facto stand suspended from the trading membership of the Exchange for the period of suspension, so imposed by SEBI or till such suspension is in force.

Imposition of Penalties

- (16) The penalty of suspension, withdrawal of all or any of the membership rights, fine, censure or warning may be inflicted singly or conjointly by the relevant authority. The penalty of expulsion may be inflicted by the relevant authority.

Pre-determination of Penalties

- (17) The relevant authority shall have the power to pre-determine the penalties, the period of any suspension, the withdrawal of particular membership rights and the amount of any fine that would be imposed on contravention, non-compliance, disobedience, disregard or evasion of any Bye Law, Rules or Regulation of the Exchange or of any resolution, order, notice, direction, decision or ruling thereunder of the Exchange, the relevant authority or of any other Committee or officer of the Exchange authorised in that behalf.

Commutation

- (18) Subject to the provision of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 the relevant authority in its discretion may in any case suspend a trading member in lieu of the penalty of expulsion or may withdraw all or any of the membership rights or impose a fine in lieu of the penalty of suspension or expulsion and may direct that the guilty trading member be censured or warned or may reduce or remit any such penalty on such terms and conditions as it deems fair and equitable.

Reconsideration/Review

- (19) Subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 the relevant authority may of its own motion or on appeal by the trading member concerned within 90 days from the date of communication of decision of the relevant authority to the member reconsider and may rescind, revoke or modify its resolution withdrawing all or any of the membership rights or fining, censuring or warning any trading member. In a like manner the relevant authority may rescind, revoke or modify its resolution expelling or suspending any trading member.

Failure to pay fines and penalties

- (20) If a trading member fails to pay any fine or penalty imposed on it within such period as prescribed from time to time by the relevant authority after notice in writing has been served on it by the Exchange it may be suspended by the relevant authority until it makes payment and if within a further period as prescribed from time to time it fails to make such payment it may be expelled by the relevant authority.

Consequence of Suspension

- (21) The suspension of a trading member shall have the following consequences namely:
- (a) Suspension of Membership Rights: The suspended trading member shall during the terms of its suspension be deprived of and excluded from all the rights and privileges of membership, but it may be proceeded against by the relevant authority for any offence committed by it either before or after its suspension and the relevant authority shall not be debarred from taking cognisance of and adjudicating on or dealing with any claim made against it by other trading members;
 - (b) Rights of creditors unimpaired: The suspension shall not affect the rights of the trading members who are creditors of the suspended trading member;
 - (c) Fulfillment of Contracts: The suspended trading member shall be bound to fulfill contracts outstanding at the time of its suspension;
 - (d) Further business prohibited : The suspended trading member shall not during the terms of its suspension make any trade or transact any business with or through a trading member provided that it may with the permission of the relevant authority close with or through a trading member the transactions outstanding at the time of its suspension;
 - (e) Trading members not to deal: No trading member shall transact business for or with or share brokerage with a suspended trading member during the terms of its suspension except with the previous permission of the relevant authority.

Consequences of Expulsion

- (22) The expulsion of a trading member shall have the following consequences namely:
- (a) Trading membership Rights forfeited: The expelled trading member shall forfeit to the Exchange its right of trading membership and all rights and privileges as a trading member of the Exchange including any right to the use of or any claim upon or any interest in any property or funds of the Exchange but any liability of any such trading member to the Exchange or to any trading member of the Exchange shall continue and remain unaffected by its expulsion;
 - (b) Office vacated: The expulsion shall create a vacancy in any office or position held by the expelled trading member;
 - (c) Rights of Creditors unimpaired: The expulsion shall not affect the rights of the trading members who are creditors of the expelled trading member;
 - (d) Fulfillment of Contracts: The expelled trading member shall be bound to fulfill transactions outstanding at the time of his expulsion and it may with the permission of the relevant authority close such outstanding transactions with or through a trading member;
 - (e) Trading members not to deal: No trading member shall transact business for or with or share brokerage with the expelled trading member except with the previous permission of the relevant authority.
 - (f) Consequences of declaration of defaulter to follow: The provisions of Chapter XI and Chapter XII of the Byelaws pertaining to default and Protection Fund respectively shall become applicable to the Trading Member expelled from the Exchange as if such Trading Member has been declared a defaulter.

Expulsion Rules to Apply

- (23) When a trading member ceases to be such under the provisions of these Bye Laws otherwise than by default or surrender of membership it shall be as if such trading member has been expelled by the relevant authority and in that event all the provisions relating to expulsion contained in these Rules shall apply to such trading member in all respects.

Suspension of Business

- (24) (a) The relevant authority shall require a trading member to suspend its business when it fails to maintain or provide further security as prescribed in the Bye Laws and Regulations and the suspension shall continue until it pays the necessary amount by way of security.
- (b) Penalty for Contravention: A trading member who is required to suspend its business under clause (a) shall be expelled by the relevant authority if it acts in contravention of the provisions of the Bye Laws.

Notice of Penalty and suspension of Business

- (25) Notice shall be given to the trading member concerned and to the trading members in general by a notice on the trading system of the Exchange of the expulsion or suspension or default of or of the suspension of business by a trading member or of any other penalty imposed on it or on its attorneys, agents, authorised representatives or other employees. The relevant authority may in its absolute discretion and in such manner as it thinks fit notify or cause to be notified to the trading members of the Exchange or to the public that any person who is named in such notification has been expelled, suspended, penalised or declared a defaulter or has suspended its business or ceased to be a trading member. No action or other proceedings shall in any circumstances be maintainable by such person against the Exchange or the relevant authority or any officer or employee of the Exchange for the publication or circulation of such notification and the application for trading membership or the application for registration as the constituted attorney or authorised representative or by the person concerned shall operate as license and the Bye Laws, Rules and Regulations shall operate as leave to print, publish or circulate such advertisement or notification and be pleadable accordingly.
- (26) The Relevant authority for the purpose of this Chapter shall be the Disciplinary Action Committee as may be constituted by the Board of Directors from time to time. The Composition of Disciplinary Action Committee shall be such as may be prescribed by SEBI.

For NSE IFSC Limited
Sandip Mehta
Chief Executive Officer

The provisions contained in the Memorandum of Association and Articles of Association of NSE IFSC Limited are given hereunder:

THE COMPANIES ACT, 2013

COMPANY LIMITED BY SHARES

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF NSE IFSC LIMITED

- I. The name of Company is NSE IFSC Limited.
- II. The Registered office of the Company will be situated in the State of Gujarat.
- III. The objects for which the Company is established are
 - A. THE MAIN OBJECTS TO BE PURSUED BY THE COMPANY ON ITS INCORPORATION ARE:**
 1. To set up and operate an exchange as a unit in an International Financial Service Centre (IFSC) in any Special Economic Zone as approved by the Government of India under the relevant statute (including the Gujarat International Finance Tec-City) or anywhere globally to provide such services in such IFSCs or globally as may be permitted by the regulatory authorities in order to facilitate, promote, assist, regulate and manage in the public interest, dealings in securities, depository receipts, commodity, currency, derivatives and products of all kinds as specified and permitted by the regulatory authorities for trading by an exchange in IFSC or globally by providing specialised, advanced, automated and modern facilities for trading with a high standard of integrity and honour to ensure trading in a transparent fair and open manner with access to global investors from all over the world including India.
 2. To support, develop, promote and maintain healthy Capital Markets, Money Markets, Debt Markets, Securities Markets, Commodity Markets, Currency Markets, Derivatives Markets, by initiating, facilitating, promoting, assisting, undertaking and managing all activities in relation to Stock Exchanges, Commodity Exchanges, Derivatives Exchanges or any other Exchanges as may be permitted by the regulatory authorities in the best interest of investors globally including India.
 - B. MATTERS WHICH ARE NECESSARY FOR FURTHERANCE OF THE OBJECTS SPECIFIED IN CLAUSE 3(A) ARE:**
 3. To initiate facilitate and undertake all steps of all such activities in relation to exchange as are required for better investor service and protection, including but not limited to taking measures for ensuring greater liquidity (both in terms of breadth and depth of securities) for the investor providing easier access to the exchange, facilitating inter-market dealings and generally to facilitate transactions in a cost effective, expeditious and efficient manner.
 4. To establish and support or assist in the establishment and support of any funds trusts and conveniences calculated to advance and further the cause of creating investor awareness, education and financial literacy and also to further the objects and purposes of the Company and the Capital and Financial markets in general.
 5. To develop, construct and maintain indices on securities, depository receipts, commodity, derivatives and products of all kinds that serve as useful market performance benchmarks and are the underlying indices for derivatives trading and to provide data and information on the trading activity in global financial markets.
 6. To apply for and obtain from the Government of India, recognition of the Exchange as a recognized Stock Exchange for the purpose of managing the business of purchase, sale, dealings and transaction in the securities within the meaning of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Rules made thereunder.
 7. To frame and enforce Rules, Byelaws and Regulations regulating the mode and manner, the conditions subject to which the business on the Stock Exchange shall be transacted and the rules of conduct of the members of the Exchange, including all aspects relating to membership, trading, settlement, constitution of committees, delegation of authority and general diverse matters pertaining to the Exchange and also including code of conduct and business ethics for the members and from time to time, to amend or alter such rules, bye-laws and regulations or any of them and to make any new amended or additional rules, bye-laws or regulations for the purpose aforesaid.
 8. To settle disputes and to decide all questions of trading methods, practices, usages, custom or courtesy in the conduct of trade and business at the Stock Exchange.
 9. To fix, charge, recover, receive security deposits, admission fee, fund subscription, subscription from members of the exchange or the company in terms of the Articles of Association and rules and bye-laws of the Exchange and also to fix, charge and recover deposits, margins, penalties, adhoc levies and other charges.
 10. To regulate and fix the scale of commission and brokerage and other charges to be charged by the members of the Exchange.

11. To facilitate resolution of disputes by the arbitration or to nominate arbitrators or umpires on such terms and in such cases as may seem expedient; to set up Regional or local arbitration panels and to provide for arbitration of all disputes and claims in respect of all transactions relating to or arising out of or in connection with or pertaining to transactions in securities and including arbitration of disputes between members and the exchange and between members of the exchange and persons who are not members of the exchange but constituents of members of the Exchange; and to remunerate such Arbitrators, Regional Arbitration panels or Local Panels and to make rules, bye-laws and regulations in relation to such arbitration proceedings, the fees of arbitrators, the costs of such arbitration, and related matters and to regulate the procedures thereof and enforcement of awards and generally to settle disputes and to decide all questions of usage, custom or courtesy in the conduct of trade and business in securities.
12. To act as a custodian or depository of securities of all kinds, by itself or in association with or through any other company or person or Department of the Government or authority for purposes of storage, in any form gratuitously or otherwise, letting on hire and otherwise disposing off safes, strong rooms and other receptacles for money, securities and securities or documents of all kinds.
13. To establish and maintain or to arrange or appoint agents, to establish and maintain clearing house for the objects and purposes of the Company or maintain a stock holding and clearing corporation, depository clearing house or division and to control and regulate the working and administration thereof.
14. To enter into any arrangements with the government which may seem desirable and to obtain from such Government any powers, rights, licenses, privileges or concessions which may be deemed necessary and desirable for the purposes set out in the Memorandum.
15. To act as Trustees of any deeds constituting or securing any debentures, debenture stock or other securities or obligations and to undertake and execute any other trusts and also undertake the office of or exercise the powers of executor, administrator, receiver, custodian and trust corporation.
16. To constitute any trusts with a view to issue preferred and deferred or any other special stocks, securities, certificates or other documents based on or representing any shares, stocks, securities, certificates or other document or other assets appropriated for the purpose of any such trust and to settle and regulate and, if required, to undertake and execute any such preferred, deferred or other special stocks, securities, certificates or documents.
17. To enter into arrangements with any State or Authority Central or State municipal local or otherwise which may seem conducive to the Company's objects or any of them and to obtain from any such government or authority any concessions, grants or decrees, rights or privileges, whatsoever which the Company may think fit or which may seem to the Company capable of being turned to account and to comply with work, develop, carry out, exercise and turn to account any such arrangements, concessions, grants, decrees, rights or privileges.
18. To acquire, collect, preserve, disseminate or sell statistical or other information in connection with the trade, to maintain a library and to print, publish, undertake, manage and carry on any newspaper, journal, magazine, pamphlet, official year book, daily or other periodicals quotation lists or other works in connection with or in furtherance of the objects of the Exchange.
19. To improve and elevate the technical and business knowledge of persons engaged in or about to be engaged in trade, banking, commerce, finance or company administration or dealing in stocks, shares and like securities or in connection therewith and with a view thereto to provide for delivery of lectures and the holding of classes and to test by examination or otherwise the competence of such persons and to award certificates and diplomas and to institute and establish scholarships, grants and other benefactions and to set up or form any such technical or educational institutions and to run and administer it.
20. To subscribe for becoming a member of and co-operate with any other association whether incorporated or not, whose objects are to promote the interests represented by Exchange or to promote general, commercial and trade interests and to procure from and communicate to such association such information as may further the objects of the Exchange or promote measures for the protection of the trade or any interest therein.
21. To take part in the management of or set up an advisory or research division and act as consultants and advisers for the setting up and organizing of Exchanges in India or abroad, and to act as consultants for securities & their marketing and advising on the incidents and features of trading on the Exchange and to enter into an association with any other Exchange in India or abroad whether by subscription or on a co-operation principle for furthering the objects of the company.
22. To enter into any partnership or arrangement in the nature of a partnership, co-operation or union of interest, with any person or persons, company or corporation engaged or interested or about to become engaged or interested in the carrying on or conduct of any business or enterprises which this company is authorised to carry on or conduct or from which the Company would or might derive any benefit whether direct or indirect.

23. To appoint trustee (whether individuals or corporations) to hold securities on behalf of and to protect the interest of the Company.
24. To amalgamate with any Company or companies or associations having objects altogether or in part similar to those of this Company.
25. To form, promote, subsidise or organise and assist or aid in forming, constituting, promoting, subsidising, organising and assisting or aiding companies or partnership of all kinds for the purpose of acquiring any undertaking or any property whether movable or immovable, whether with or without liability of such undertaking or company or any other company, for advancing directly or indirectly the objects hereof and to take or otherwise acquire, hold and dispose of shares, debentures and other securities in or of any such Company and to subsidise or otherwise assist or manage or own any such Company.
26. To do in India or any other part of the world either as principals, agents, trustees, contractors or otherwise and then alone or in conjunction with others and either by or through agents, contracts, trustees or otherwise to the attainment of the objects of the Company.
27. To own, establish or have and maintain offices, branches and agencies in or out of India for its business and for securing its Customers.
28. To exercise all or any of its corporate powers, rights and privileges and to conduct its business in all or any of its branches in the Union of India and in any or all states, territories, possessions, colonies and dependencies thereof and in any or all foreign countries and for this purpose and agencies therein as may be convenient.
29. To subscribe, contribute, make donations or grants or guarantee money for any general or useful object or fund or institution and to aid pecuniarily or otherwise, any association, body or movement.
30. To establish and support or assist in the establishment and support of any funds, (whether Broker Protection fund or Investor Protection Fund or any other funds) trusts and conveniences calculated to advance and further the objects and purposes of the Company and the Capital and Financial markets in general.
31. To make payments or disbursements out of the funds or other movable property of the Company for any of the purposes specified in those presents and the Articles of Association and Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and to make, draw, accept, endorse, discount, execute warrants, debentures or other negotiable or transferable documents.
32. To seek for and secure openings and opportunities for the employment of capital with the view to prospect, inquire, examine, explore and test the capital and security markets and despatch and employ expeditions, commissions and other agents for the business of the Company.
33. To borrow, raise loans in any form, received deposits, create indebtedness, to receive grants or advances (whether interest free or not), equity loans or raise any monies required for the objects and purposes of the company upon such terms and in such manner and with or without security as may from time to time be determined and in particular by the issue of debentures, debenture stock, bonds or other securities, provided always and it is hereby expressly declared as an original and fundamental condition of any such borrowing or raising of monies, that in all cases and under all circumstances any person claiming payment whether of principal or interest or otherwise howsoever in respect of the monies so borrowed or raised shall be entitled to claim such payment only out of the funds, properties and other assets of the Company which alone shall be deemed to be liable to answer and make good all claims and demands whatsoever under and in respect of the monies so borrowed or raised and not the personal funds, properties and other assets of all or any one or more of the members of the Board of Directors or members of the Company, their or his heirs, executors, administrators, successors and assigns who shall not and shall not be deemed to in any way incur any personal liability or render themselves or himself personally subject or liable to any claims or demands or be charged under and in respect of the monies so borrowed or raised, and in the event of the funds, properties and other assets of the Company being insufficient to satisfy the claims of all persons claiming payment as aforesaid, the right of any such person shall be limited to and he shall not be entitled to claim anything more than his part or share of such funds, properties and other assets of the Company in accordance with the terms and conditions on which the monies have been so borrowed or raised.
34. To invest, lend or advance the monies of the Company not immediately required in or upon such security and with or without interest and in such other investments as may from time to time be determined by the Company.
35. For all or any of the purposes of the Company, to draw, make, accept, endorse, discount, execute, issue, negotiate and sell bills of exchange, promissory notes, cheques, bills of lading, warrants, debentures and other negotiable instruments with or without security and also to draw and endorse promissory notes and negotiate the same and also take and receive advances by discounting or otherwise with or without security, upon such terms and conditions as the company deems fit and also to advance any sum or sums of monies upon materials or other goods or any other things of the company upon such terms and securities as the company may deem expedient.

36. To receive money on deposit or otherwise upon such terms and conditions as the Company may approve, and to give guarantee and indemnities in respect of debts and contracts of others.
37. To secure or discharge any debt or obligation or binding in such manner as may be thought fit and in particular by mortgages and charges upon the undertaking and all or any of the assets and property (present and future) and the uncalled capital of the Company or by the creation and issue on such terms as may be thought expedient, of debentures, debenture-stock, or other securities of any description or by the issue of shares credited as fully or partly paid-up.
38. To give guarantee, and carry on and transact every kind of guarantee and counter guarantee business and in particular the payment of any principal monies, interest or other monies secured by or payable under debentures, bonds, debenture-stock, mortgage, charges, contracts, obligations and securities and the payment of dividends on and the repayment of the capital stocks and shares of all kinds and descriptions.
39. To undertake and subscribe for, conditionally or unconditionally, stocks, shares and securities of any other Company.
40. To acquire any such shares, stocks, debentures, debenture-stock, bonds, obligations or securities by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise and to subscribe for the same either conditionally or otherwise, and to guarantee to the subscription thereof and to exercise and enforce all rights and powers conferred by or incidental to the ownership thereof in furtherance of the objects of the Company.
41. To erect, construct, extend and maintain suitable building(s) or premises for use by the Company or its members and for any other purposes of the Company and to alter, add, modify, change to or remove or replace or substitute, or augment space in any such building or buildings.
42. To acquire by purchase, taking on lease or hire purchase or on suppliers credit or otherwise and to develop any property movable or immovable and any rights or privileges necessary or convenient for the purposes of the company and in particular any land, buildings, easements or safe deposit vaults or depositories or custody facilities.
43. To sell, insure, mortgage, exchange, lease, let, underlease or sub-let, grant licenses, easement and other rights over, improve, manage, develop and turn to account and in any other manner deal with or dispose of the undertaking, investments, property, assets, rights and effects of the Company or any part thereof for such considerations as may be thought fit, including any stocks, shares or securities of any other company, whether partly or fully paid up.
44. To train or pay for the training in India or abroad of any of the Company's employees or any candidate in the interest of or for the furtherance of the company's objects.
45. To provide for the welfare of employees or ex-employees of the Company and the wives and families or the dependents or connections of such person by building or contributing to the building of houses or dwellings or by grants of money, pensions, allowances, bonus or other payments or by creating from time to time, subscribing or contributing to provident and other associations, institutions, funds or trustees and by providing or subscribing or contributing towards place of instruction and recreation, hospitals and dispensaries, medical and other attendance and other assistance as the Company shall think fit.
46. To indemnify officers, Directors, promoters and servants of the company against proceedings, costs, damages, claims and demands in respect of anything done or ordered to be done, for and in the interest of the Company or for any loss or damage or misfortune whatever happens in execution of duties of their offices or in relation whereto.
47. To do all such other things as are incidental or conducive to the above objects or any of them.
48. To take part in the management, supervision or control of the business or operations of any company or undertaking and for that purpose to render technical and professional services and act as administrators or in any other capacity, and to appoint and remunerate any directors, administrators or accountants or other experts or agents for consideration or otherwise.

AND it is hereby declared that:

- a. The objects incidental or ancillary to the attainment of the main objects of the company as aforesaid shall also be incidental or ancillary to the attainment of the other objects of the company herein mentioned.
- b. The word "Company" save when used in reference to this Company, in this clauses shall be deemed to include any partnership or other body of persons whether incorporated and not incorporated whether domiciled in India or elsewhere, and
- c. The several sub-clauses of this Clause and all the powers thereof are to be cumulative and in no case is the generality of any one sub-clause to be narrowed or restricted by any particularity of any sub-clause nor is any general expression in any sub-clause to be narrowed or restricted by any particularity of expression in the same sub-clause or by the application of any rule of construction ejusdem generis or otherwise.

d. The term "India" when used in this clause unless repugnant to the context shall include all territories from time to time comprised in the Union of India.

IV. The liability of the member(s) is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them.

V.# The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 100,00,00,000 (Rupees One hundred crore only) divided into 10,00,00,000 (Ten crore) equity shares of Rs. 10/- (Rupee Ten only) each, with power to increase and reduce the capital of the Company.

Amended vide resolution passed by the members at the Extraordinary General Meeting held on April 5, 2017 for increasing the Authorized Share Capital from Rs. 25 crores to Rs. 100 crores.

We the several persons, whose names, addresses, descriptions and occupations are subscribed below, are desirous of being formed into company in pursuance of this Memorandum of Association and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company indicated against our respective names.

SL. NO	Name, Address, Occupation & father's name of the Subscriber(s)	Number of Equity Shares agreed to be taken by each Subscriber	Signature of the Subscriber	Name, Address, Occupation and Signature of the Witness
1	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza C-1 Block G,Bandra - Kurla Complex, Bandra East Mumbai – 400051 through its Authorised representative Mr. Madhavan Sampath, S/o Shri Sampath Kumar, vide Board Resolution dated June 23, 2016 Address:302, Purbhani, Swastika Park, Chembur, Mumbai- 400071 Occupation- Service	49,994 (Forty nine thousand nine hundred and ninety four	-sd/-	I Witness to Subscribers who have Subscribe and signed in my presence, Further I have verified their identity details (ID) for their identification and satisfied myself of their identification particulars as filled in Jatin H kapadia -sd/- Company Secretary ACS: 26725 CP:12043
2	Mukesh Agarwal S/o Shanbhu Dayal Agrawal Address:904-A, Paradise, Raheja Vihar, Opp. Chandivali Studio, Powai, Mumbai 400072	1 (One)	-sd/-	
3	Mosalkanti Vasudev Rao Address:E- 2/ 902, HydePark Residency Tulsidham Thane(w)- 400607 S/o Shri Mosalkanti Narsing Rao Occupation- Service	1 (One)	-sd/-	
4	Vitthal More S/o Shri. Pandurang More Address:Flat no 10, Vani CHS, Sector 6, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614 Occupation- Service	1 (One)	-sd/-	
5	Sandip Nagindas Mehta S/o Nagindas Amritlal Mehta Address- 301Glengate Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai- 400076 Occupation- Service	1 (One)	-sd/-	
6	Ravindra Mohan Bathula S/o Chinna Apparao Bathula Address: A-405, Lake Pleasant, Lake Homes, Powai, Mumbai- 400076. Occupation- Service	1 (One)	-sd/-	

7	Arindam Saha S/o Dilip Kumar Saha Address: 18A, Tara Sankar Sarani Kolkata 700037 Occupation- Service	1 (One)	-sd/-	
	TOTAL	50000 (Fifty Thousand)		

Place: Mumbai

Date: 16 November, 2016

THE COMPANIES ACT, 2013
COMPANY LIMITED BY SHARES
ARTICLES OF ASSOCIATION OF NSE IFSC LIMITED

The Regulations contained in Table marked 'F' in Schedule I to the Companies Act, 2013 shall not apply to the Company, but the regulations for the management of the Company and for the observances by the members thereof and their representatives, shall subject to any exercise of the statutory powers of the Company with reference to the repeal or alteration of, or addition to its regulations by Special Resolution, or as prescribed by the Companies Act, 2013 be such as are contained in these Articles.

INTERPRETATION:

1. In these presents, the following words and expressions shall have the following meaning unless excluded by the subject or the context,
 - (a) "The Act" or "the said Act" shall mean The Companies Act, 2013 and includes all rules made thereunder, clarifications, circulars, notifications and every statutory modification or replacement thereof, for the time being in force, and the relevant provisions of the Companies Act, 1956, to the extent such provisions have not been superseded by the Companies Act, 2013 or de-notified as the case may be.
 - (b) "Bye-laws", "Rules" and "Regulations" shall mean the Bye-Laws, Rules and Regulations of the Exchange, for the time being in force.
Explanation: 'Rules' shall include Memorandum and Articles of Association of the Company.
 - (c) "Company" shall mean "NSE IFSC Limited" and shall be a Public Company as defined under the provisions of Section 2(71) of the Companies act, 2013.
 - (d) "Exchange" shall mean one or more undertakings of the Company wherein the dealings in securities by Trading Members of the Exchange shall be conducted.
 - (e) "Board", "Board of Directors" or "the Directors" shall mean the Board of Directors of the Company or the Directors of the Company collectively.
 - (f) "Members of the Company" or "Members" shall mean the duly registered holders, from time to time, of the shares of the Company and include the subscribers to the Memorandum of Association of the Company.
 - (g) "The Office" shall mean the registered office for the time being of the Company.
 - (h) "Register" shall mean the register of the members to be kept pursuant to Section 88 of the Act.
 - (i) "SCR Act" shall mean the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and include any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force.
 - (j) "Seal" shall mean the Common Seal for the time being of the Company.
 - (k) "SEBI Act" shall mean the securities and Exchange Board of India Act, 1992 and include any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force.
 - (l) "Trading Member of the Exchange" or "Trading Member" shall mean a member of the Exchange.
Explanation: There may be more than one class of Trading members of the Exchange as may be determined by the Board from time to time. A trading member of the Exchange shall not have any rights as a member of the Company. A 'Trading member' is not necessarily required to be a member of the Company.
 - (m) "Writing" shall include printing, typewriting, lithography and any other usual substitutes for writing.
 - (n) "Year" shall mean "Financial Year of the Company".

2. (a) Words importing persons shall include companies, corporations, firms, joint families or joint bodies, association of persons, societies, trusts, public financial institutions, subsidiaries of any of the public financial institutions or banks or companies;
- (b) Words importing the masculine gender shall include the feminine gender and vice versa and neutral gender in the case of companies, corporations, firms etc.
- (c) Words importing the singular shall include the plural and vice versa.
- (d) Unless otherwise defined in these presents or unless the context requires or indicates a different meaning, any words or expression occurring in these presents shall bear the same meaning as in the Act and the SCR Act and the SEBI Act, or any modifications or re-enactments thereof or any Rules framed thereunder.
- (e) Marginal notes shall not affect the construction hereof.

SHARE CAPITAL

3. Authorised Share Capital

The Authorised Share Capital of the Company shall be of such amount and of such description as is stated for the time being or at any time, in the Memorandum of Association of the Company and the Company shall have power to increase or reduce the share capital from time to time in accordance with the regulations of the Company and the legislative provisions for the time being in force in this regard.

4. Register of Members and Debenture holders etc.

The Company shall cause to be kept a Register of Members, an Index of members, a Register of Debenture-holders and an Index of Debenture-holders in accordance with Section 88 of the Act.

5. Inspection of Register of Members and Debenture holders etc.

The Register of Members, the Index of Members, the Register and Index of Debenture-holders, copies of all returns prepared under the Act, together with the copies of certificate and documents required to be annexed thereto under the Act shall, except when the Register of Members or Debenture-holders is closed under the provisions of the Act or these presents, be open during business hours, (subject to such reasonable restriction as the Company may impose) to inspection of any Member or Debenture-holder gratis and to inspection of any other person on payment of such sum as may be prescribed by the Act for each inspection. Any such Member or person may take extracts therefrom on payment of such sum as may be prescribed by the Act.

6. The Company to send extracts of Register, etc.

The Company shall send to any Member, Debenture-holder or other person on request, a copy of the Register of Members, the Index of Members, the Register and Index of Debenture-holders or any part thereof required to be kept under the Act, on payment of such sum as may be prescribed by the Act. The copy shall be sent within a period of seven days, or such other time as may be prescribed under the Act or rules made thereunder

7. Restriction on allotment

The Board shall observe the restriction as to allotment contained in Section 39 of the Act and shall cause to be made the returns as to allotment provided for in Section 39 of the Act.

8. Shares at the disposal of the Governing Board

Subject to the provisions of the Act and these presents, the shares in the Capital of the Company for the time being (including any shares forming part of any increased capital of the Company) shall be under the control of the Directors who may allot or otherwise dispose off the same or any of them to such persons in such proportions and on such terms and conditions and either at a premium or at par or (subject to compliance with the provisions of Section 53 of the Act) at a discount and at such times as they may from time to time think fit and proper with the sanction in the General Meeting to give to any person or persons the option or right to call for any Shares either at par or premium during such time and for such consideration as the Directors think fit, and may issue and allot Shares in the capital of the Company on payment in full or part of any property sold and transferred or for any services rendered to the Company in the conduct of its business and any Shares which may so be allotted may be issued as fully paid up Shares and if so issued, shall be deemed to be fully paid Shares.

Provided that option or right to call shares shall not be given to any person except with the sanction of the Company in General Meeting.

9. Board may allot shares as fully paid-up or partly paid-up

Subject to the provisions of the Act and these presents the Board may allot and issue shares in the capital of the Company as payment or part payment for any property sold or goods transferred or machinery supplied or for services rendered to the Company and any shares which may be so allotted may be issued as fully paid-up or

partly paid-up and if so issued shall be deemed to be fully paid-up shares or partly paid-up shares.

10. Acceptance of shares

Any application signed by or on behalf of an applicant for shares in the Company, followed by an allotment of any shares therein, shall be an acceptance of shares within the meaning of these presents; and any person who thus or otherwise accepts any shares and whose name is on the Register of Members shall for the purpose of these presents be a Member.

11. Deposits and calls, etc. to be a debt payable immediately

The money, (if any), which the Board shall, on allotment of any shares being made by them, require or direct to be paid by way of deposit, call or otherwise, in respect of any shares allotted by them, shall, immediately on insertion of the name of allottee in the Register of Members as the name of the holder of such shares, become a debt due to and recoverable by the Company from the allottee thereof, and shall be paid by him accordingly.

12. Installments on shares

If, by the conditions of allotment of any shares, the whole or part of the amount or issue price thereof shall be payable by installments, every such installment shall, when due, be paid to the Company by the person who, for the time being and from time to time, shall be the registered holder of such share or his legal representative.

13. Calls on shares of the same class to be on uniform basis

Where any calls for further share capital are made on shares, such call shall be made on a uniform basis on all shares falling under the same class. For the purpose of this Article, shares of the same nominal value on which different amounts have been paid-up shall not be deemed to fall under the same class.

14. Company not bound to recognise any interest in shares other than that of the registered holders

Save as herein otherwise provided, the Company shall be entitled to treat the person whose name appears on the Register of Members as the holder of any shares as the absolute owner thereof and accordingly shall not (except as ordered by a Court of Competent jurisdiction or as by law required) be bound to recognize any benami, trust or equity or equitable, contingent or other claim to or interest in such share on the part of any other person whether or not it shall have express or implied notice thereof.

15. Company's funds may not be applied in purchase of or lent on shares of the Company

Except to the extent permitted by Section 67 of the Act no part of the funds of the Company shall be employed in the purchase of or lent on the security of the shares of the Company.

15A. Buy back of own shares or securities

Notwithstanding anything contained in these articles, the Company may, when and if thought fit, buy back such of the Company's own equity shares or securities as it may think necessary, subject to such limits, upon such terms and conditions, and subject to such approvals, as may be required under the provisions of section 68, 69, 70 and other applicable provisions, if any, of the Act and rules framed thereunder.

16. Liability of Members

Every member shall pay to the Company the portion of the capital representation by his share or shares, which may for the time being remain unpaid thereon, in such amounts at such time or times and in such manner as the Board shall, from time to time, require or fix payment thereof.

17. Trusts not recognised

Except as required by law, no person shall be recognised by the company as holding any share upon any trust, and the company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.

UNDERWRITING COMMISSION

18. Commission for placing of shares

- (i) The Company may at any time pay a commission to any person for subscribing or agreeing to subscribe (whether absolutely or conditionally) for any shares, debentures or debenture stock or any other security of the Company or for procuring or agreeing to procure subscriptions (whether absolute or conditional) for any share debentures or debenture stock or any other security of the Company but so that if the commission in respect of shares shall be paid or payable out of the proceeds of the respective issue or profit or both, the statutory conditions and requirements shall be observed and complied with and the

amount or rate of commission shall not exceed the rates prescribed by the Act. The Commission may be paid or satisfied in cash or in shares, debenture or debenture stock of the Company.

Brokerage

- (ii) The Company may also, on issue of such shares pay such brokerage as may be permissible under the Act.

CERTIFICATES

19. Certificates how to be issued and limitation of time for issue of certificates

The certificate of title to securities shall be issued under the Seal of the Company in presence of and bearing the signature of two Directors or persons duly authorized by the Board or its committee, as the case may be and the secretary or some other persons appointed by the Board for the purpose. If the composition of the Board permits of it, at-least one of the aforementioned two Directors shall be a person other than a managing director or a whole time director. The certificate of such shares shall subject to provisions of Section 56 of the Act be delivered in accordance with the procedure laid down in the Act within two months after the allotment in case of allotment of shares or within one month from the date of receipt by the Company of the instrument of transfer in case of transfer or within one month from the date of receipt of intimation of transmission by the Company or in case of allotment of debentures within six months from the date of allotment such debentures, as the case may be. Provided always that notwithstanding anything contained in this Articles, the certificate of title to share may be executed and issued in accordance with such other provisions of the Act or Rules made thereunder, as may be in force for the time being and from time to time. In respect of a share or shares held jointly by several persons, the Company shall not be bound to issue more than one certificate and delivery of a certificate of shares to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holder. Notwithstanding the above, the certificates of securities, shall be issued in accordance with the provisions of the Act, the SCR Act, as amended, and any other applicable laws.

19A. Dematerialisation of equity shares

Notwithstanding anything contained in these Articles, the Company shall be entitled to dematerialise its securities and to offer securities in a dematerialised form pursuant to the Depositories Act, 1996. In respect of the securities so dematerialised, the relevant SEBI circulars and directives besides the provisions of the Depositories Act, 1996 and the relevant regulations shall apply. For securities dealt with in a depository, the Company shall intimate the details of allotment of securities to depository immediately on allotment of such securities.

20. Member's right to Certificates

Every Member shall be entitled without payment to one or more certificates in marketable lots for all the shares of each class or denomination registered in his name or, if the Directors so approve (upon paying such fee or fees or at the discretion of the Directors without payment of fees as the Directors may from time to time determine) to several certificates each for one or more shares of each class. Every certificate of shares shall contain such particulars and, shall be in such form as prescribed by the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, as amended or any other Rules in substitution or modification thereof. Where a Member has transferred a part of the shares comprised in his holding he shall be entitled to a certificate for the balance without charge.

21. As to issue of new certificate in place of one defaced, lost or destroyed

- (1) A certificate may be renewed or a duplicate of a certificate may be issued within the period prescribed under applicable law if (a) such certificate(s) is proved to have been lost or destroyed to the satisfaction of the Company and on execution of such indemnity as the Company deem adequate, or (b) having been defaced or mutilated or torn or worn out or has no further space on the back thereof for endorsement or transfer, is produced and surrendered to the Company. Every certificate under this Article shall be issued on payment of fees if the Directors so decide, or on payment of such fees (not exceeding Rs. 50 for each certificate) as the Directors shall prescribe.
- (2) The manner of issue or renewal of a certificate or issue of a duplicate thereof, the form of a certificate (origin or renewed) or of a duplicate thereof, the particulars to be entered in the Register of Members or in the Register or renewed or a duplicate certificates, the form of such Registers, the fee on payment of which the terms and conditions on which a certificate may be renewed or a duplicate thereof may be issued, shall be such as prescribed by the Act and rules made thereunder, rules or regulation or requirements of any recognised stock exchange, the SCR Act and or any other act or rules applicable in this behalf.

The provisions of the foregoing Articles relating to issue of certificates shall mutatis mutandis apply to issue of certificates for any other securities including Debentures (except where the Act otherwise requires).

CALLS**22. Calls**

The Directors may, from time to time, make such calls as they think fit upon the Members in respect of all monies unpaid on the shares held by them respectively and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times, and each Member shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the times and places appointed by the Directors. A call may be made payable by installments.

23. Notice of call

A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorizing such call was passed and may be made payable by Members on the Register of Members on such date or at the discretion of the Directors on such subsequent date as shall be fixed by the Directors.

24. Not less than fourteen days notice of every call shall be given specifying the time of payment provided that before the time for payment of such call the Directors may, be notice in writing to the Members, revoke the same.**25. Board may extend time**

The Directors may from time to time, at their discretion, extend the time fixed for the payment of any call and may extend such time as to all or any of the Members whom the Directors may deem entitled to such extension save as a matter of grace and favour.

26. Liability of Joint- holders

The joint-holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

27. Amount payable at fixed time or by installments as calls

If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is made payable at any fixed time or by installments at fixed times, whether on account of the nominal value or by way of premium, every such amount or installments shall be payable as if it were a call duly made by the Directors and of which due notice has been given and all the provisions herein contained in respect of calls shall relate to such amount or installments accordingly.

28. When interest on call or installment payable

If the sum payable in respect of any call or installment be not paid on or before the day appointed for payment thereof the holders for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made or the installment shall be due shall pay interest on the same at such rate as the Directors shall fix from time to time from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Directors may waive payments of such interest wholly or in part. A call may be revoked or postponed at the discretion of the Board.

29. Partial payment not to preclude forfeiture

Neither a judgment nor a decree in favour of the Company for calls or other monies due in respect of any shares nor any payment or satisfaction thereunder nor the receipt by the Company of a portion of any money which shall from time to time be due from the Member in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by the Company in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such shares as herein provided.

30. Payment in anticipation of calls may carry interest

The Directors may, if they think fit (subject to the provisions of the Act) agree to and receive from any Member willing to advance the same the whole or any part of the moneys due upon the shares held by him beyond the sums actually called for, and upon the moneys so paid or satisfied in advance or so much thereof as from time to time exceeds the amount of the calls then made upon the shares in respect of which such advance has been made the Company may pay interest at such rate as the Member paying such sum in advance and the Directors agree upon and the Directors may at any time repay the amount so advanced upon giving to such Member one month's notice in writing; provided that moneys paid in advance of calls on Shares may carry interest but shall not confer a right to dividend or to participate in profits.

No Member paying any such sum in advance shall be entitled to voting rights in respect of the moneys so paid by him until the same would but for such payment become presently payable. The provisions of this Article shall mutatis mutandis apply to calls on Debentures issued by the Company.

31. Members not entitled to privilege of membership until all calls are paid

No Member shall be entitled to receive any dividend or exercise any privilege as a Member until he shall have paid all calls from the time being due and payable on every share held by him, whether alone or jointly with any person, together with interest and expenses if any.

32. If call or installment not paid notice must be given

If any Member fails to pay the whole or any part of any call or installment of any money due in respect of any shares either by way of principal or interest on or before the day appointed for the payment of same the directors may at any time thereafter during such time as the call or installment or any part thereof or other monies remain unpaid or a judgment or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole or in part serve a notice on such Member or on the person (if any) entitled to the share by transmission requiring him to pay such call or installment or such part thereof or other moneys as remain unpaid together with any interest that have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by the Company by reason of such non-payment.

33. Form of Notice

The notice shall name a day not being less than fourteen days from the day of the notice and the place or places on and at which such call or installment or such part or other moneys as aforesaid and such interest and expenses as aforesaid are to be paid. The notice shall also state that in the event of non-payment at or before the time and at the place appointed the share in respect of which the call was made or installment is payable will be liable to be forfeited.

34. In default of payment shares to be forfeited

If the requisitions of any such notice as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter before payment of all calls or installments, interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by resolution of the Directors to the effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeiture shares and not actually paid before the forfeiture, subject to the Act.

35. Entry of forfeiture on Register of Members

When any share shall have been so forfeited an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the Register of Members.

36. Forfeited shares to be property of the Company and may be sold etc

Any share so forfeited shall be deemed to be the property of the Company and may be sold reallocated or otherwise disposed of either to the original holder thereof or to any other person upon such terms and in such manner as the Directors shall think fit.

37. Power to annul forfeiture

The Directors may at any time before any share so forfeited shall have been sold, reallocated or otherwise disposed of, annul the forfeiture thereof upon such conditions as they think fit.

38. Shareholders still liable to pay money owing at time of forfeiture and interest

Any Member whose share have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to the company all calls, installments, interest, expenses and other monies owing upon or in respect of such shares at the time of the forfeiture together with interest thereon from the time of the forfeiture until payment, at such rates as may be prescribed by the Directors and the Directors may enforce the payment of the whole or a portion thereof if they think fit but shall not be under any obligation to do so. Liability of such person shall cease if and when the Company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares.

39. Company's lien on shares/debentures

The Company shall have no lien on its fully paid shares. In the case of partly paid up shares/debentures, registered in the name of each member (whether solely or jointly with another or others) and upon the proceeds of sale thereof the Company shall have a first and paramount lien only for all monies called or payable (whether presently payable or not) at a fixed time in respect of such shares/debentures and no equitable interest in any share shall be created except upon the footing and condition that this Article will have fullest effect. Any such lien shall extend to all dividends, from time to time, and bonus declared in respect of such shares/ debentures subject to the Act. Unless otherwise agreed the registration of a transfer of shares/ debentures shall operate as a waiver of the Company's lien, if any, on such shares/ debentures. Provided that the Board may at any time declare any Share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.

40. As to enforcing lien by sale

For the purpose of enforcing such lien the Directors may sell the shares subject thereto in such manner as they think fit, but no sale be made unless certain sum in respect of which the lien exists is presently payable nor until notice in writing of the intention to sell shall have been served on such Member or the person (if any) entitled

by transmission to the share and default shall have been made by him in payment of the sum presently payable for seven days after such notice.

41. Application of proceeds of sales

The net proceeds of any such sale after payment of the costs of such sale shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is presently payable and the residue (if any) paid to the Member or the person (if any) entitled to the transmission of the shares so sold.

42. Certificate of forfeiture

A certificate in writing under the hands of any Directors, Manager or the Secretary of the Company that the call in respect of a share was made, and that the forfeiture of the share was made, by a resolution of the Directors to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such share.

43. Title of purchaser and allottee of forfeited shares

The Company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale, allotment or other disposition thereof and the person to whom such share is sold allotted or disposed of may be registered as the holder of the share and such person shall not be bound to see the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, re-allotment or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Company exclusively.

44. Application of the forfeiture provisions

The provisions of these presents as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by terms of issue of a share become payable at a fixed time, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.

TRANSFER AND TRANSMISSION OF SHARES

45. Form of Transfer

The instrument of transfer of any share shall be in writing in the form prescribed under Section 56 of the Act.

46. Execution of instrument of transfer

Every such instrument of transfer shall be executed both by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of such share until the name of the transferee shall have been entered in the Register of members in respect thereof.

47. The Company, the transferor and the transferee of the shares shall comply with provisions of Section 56 of the Act.

48. Transfer instrument to be presented with evidence of title

Every instrument of transfer shall be presented to the Company duly stamped for registration within a period of sixty days from the date of execution, or such lesser period as may be prescribed under the applicable law, accompanied by the relative share certificates and such evidence as the Board may require to prove the title of the transferor, his right to transfer of shares and generally under and subject to such conditions and regulations as the Board shall from time to time, prescribe and every registered instrument of transfer shall remain in the custody of the Company until destroyed by order of the Board of Directors, subject to the provisions of law.

49. Title of shares of deceased member

The executors or administrators or holders of a succession certificate or the legal representative of a deceased (not being one of two or more joint holders) shall be the only persons recognized by the Company as having any title to the shares registered in the name of such member and Company shall not be bound to recognize such executors or administrators or holders of succession certificate or the legal representatives unless they shall have first obtained Probate or Letters of Administration or Succession Certificate or other legal representation as the case may be, from a duly constituted court in the Union of India provided that in any case where the Board in its absolute discretion thinks fit, the Board may dispense with production of probate or letters of Administration or Succession certificate, upon such terms as to indemnity or otherwise as the Board, in its absolute discretion may think necessary and under Article 51 register the name of any person who claims to be absolutely entitled to the shares standing in the name of the deceased member as a member.

50. Insolvency or liquidation of one or more joint holders of the shares

In the case of insolvency or liquidation of one or more of the persons named in the Register of Members as the joint-holders of any share, the remaining holder or holders shall be the only persons recognized by the Company as having any title to, or interest in, such share, but nothing herein contained shall be taken to release

the estate of the person under insolvency or liquidation from any liability on shares held by him jointly with any other person.

51. Registration of persons entitled to shares otherwise than by transfer

Subject to the provisions of the Act, any person becoming entitled to shares in consequences of death, lunacy, bankruptcy, insolvency or liquidation of any Member, by any lawful means other than by a transfer in accordance with this Articles, may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either (a) to be registered himself as holder of the share; or (b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member could have made. The Board shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had transferred the share before his death or insolvency.

Provided nevertheless, that the person who shall elect to have his nominee registered shall testify the election by executing in favour of his nominee an instrument of transfer in accordance with the provisions herein contained, and until he does so, he shall not be freed from any liability in respect of the shares.

52. Fee on transfer or transmission

No fee shall be charged for registration of transfer, transmission, probate, succession certificate and letters administration, certificate of death or marriage, power of attorney or similar other document.

53. Register of Transfers to be kept

The Company shall keep a book, to be called the "Register of Transfer" and therein shall be fairly and distinctly entered particulars of every transfer or transmission of any share.

54. Closure of transfer books

The Board shall have power on giving at least seven days', or such lesser period as may be prescribed under the applicable law, previous notice, in such manner as may be prescribed, by advertisement at least once in a vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district and having a wide circulation in the place where the Registered Office of the Company is situated, in English language in an English newspaper circulating in that district and having wide circulation in the place where the Registered Office of the Company is situated and publish the notice on website as may be notified by the Central Government and on the website of the Company, to close the Transfer Books, the Register of Member or Register of Debenture Holders at such time or times and for such period or periods not exceeding thirty days at a time and not exceeding in aggregate forty-five days, or such lesser period as may be prescribed under the applicable law, in each year as it may deem expedient.

55. Directors may refuse to register transfers

Subject to the provisions of the Act, these Articles, as amended, and any other applicable law, the Board may, at its absolute and uncontrolled discretion refuse with cause whether in pursuance of any power of the Company under these Articles or otherwise to register or acknowledge the transfer of, or the transmission by operation of law of the right to, any shares, whether fully paid or not, or interest of a member therein, or debentures of the Company, and the right of refusal, shall not be affected by the circumstances that the proposed transferee is already a member of the Company but in such cases, and the Company shall within thirty days or such lesser period as may be prescribed under the applicable law, from the date on which the instrument of transfer, or the intimation of such transmission, as the case may be, was delivered to the Company, send notice of the refusal to the transferee and the transferor or to the person giving intimation of such transmission, as the case may be.

Provided that the registration of a transfer shall not be refused on the grounds of the transferor being either alone or jointly with any other person or persons indebted to the Company on any account whatsoever except where the Company has a lien on shares. Transfer in whatever lot shall not be refused.

56. Rights to shares through transmission by operation of law

Nothing contained in Article 48 shall prejudice any power of the Company to register as shareholder any person to whom the right to any shares in the Company has been transmitted by operation of law.

57. Transfer by legal representative

A transfer of shares or other interest in the Company of a deceased member thereof made by legal representative shall, although the legal representative is not himself a member, be as valid as if he had been a Member at the time of the execution of the instrument of transfer.

58. Company's power to refuse transfer

Nothing in these presents shall prejudice the powers of the Company to refuse to register the transfer of any shares subject to the provisions of the Act, these Articles, as amended.

59. Transferor liable until the transferee entered on register

The transferor shall be deemed to remain the holder of such shares until the name of the transferee is entered into the Register of Members in respect thereof.

60. Custody of transfer

The instrument of transfer shall after registration be retained by the Company and shall remain in its custody. All the instruments of transfer which the Director may decline to register shall on demand be returned to the person depositing the same. The Directors may cause to be destroyed all transfer deeds lying with the Company after such period as they may determine.

61. The Company not liable for disregard of a notice

The Company shall incur no liability or responsibility whatever in consequence of their registering or giving effect to any transfer of shares made or purporting to be made by the apparent legal owner thereof (as shown or appearing in the register of Members) to the prejudice of persons having or claiming any equitable right title or interest to or in the same shares notwithstanding that the Company may have had notice of such equitable right title or interest or notice prohibiting registration of such transfer and may have entered such notice or referred thereto in any book of the Company and the Company shall not be bound or required or regard or attend or give effect to any notice which may be given to them of any equitable title or interest or be under any liability whatsoever for refusing or neglecting so to do, though it may have been entered or referred in some book of the company but the Company shall nevertheless be at liberty to regard and attend to any such notice and give effect thereto, if the Directors shall so think fit.

62. Transfer Of Debentures

The provisions of these Articles shall mutatis mutandis, apply to the allotment and transfer of or the transmission by law of the right to Debentures of the Company.

63 (1) Issue, acquisition and holding of shares subject to SEBI Regulations

Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles, the provisions of Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 or any modification thereto, as the case may be, shall apply in respect of issue, acquisition and holding of equity shares of the Company.

(2) Restriction on the transfer

As provided in the foregoing Articles and without prejudice to the provisions of Articles 55, a member shall be at liberty to transfer the share:

Provided however that the Board may refuse the transfer if in its opinion-

- (a) the transfer is being made otherwise than in accordance with relevant SEBI circulars and directives beside the provisions of Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 or any modification thereto, as the case may be; or
- (b) the transfer, if made, will not be in the interest of the Company.

CONVERSION OF SHARES INTO STOCK

64. Conversion of Shares into stock and reconversion

The Directors with the sanction of a resolution of the Company in General Meeting may convert any paid-up shares into stock and may convert all or any stock into paid-up shares of any denomination. When any shares have been converted into stock, the several holders of such stock may thenceforth transfer their respective interests therein or any part of such interest in the same manner and subject to the same regulations as and subject to which fully paid-up shares in the Company's capital may be transferred or as near thereto as circumstances will admit.

65. Rights of stockholders

The stock shall confer on the holders thereof respectively the same privileges and advantages as regards voting at meeting of the Company and for other purposes as would have been conferred by shares of equal amount in the capital of the Company of the same class as the shares from which such stock is converted but so that none of such privileges or advantages, except the participation in profits of the Company or in assets of the Company on winding up, shall be conferred by any such shares allotted part of stock as would not if existing in shares have conferred such privileges or advantages. Such conversion shall not affect or prejudice any preference or other special privileges attached to the shares so converted. Save as aforesaid all the provisions herein contained shall, so far as circumstances shall admit, apply to stock as well to the shares.

INCREASE, REDUCTION AND ALTERATION OF CAPITAL

66. Increase of Capital

The Company may from time to time in General Meeting increase its Authorised Share Capital by issuing further shares of such amount as it thinks expedient.

67. Further issue of Capital

(1) Where at any time the Board or the Company, as the case may be, may, propose to increase the subscribed capital by the issue of further shares then such shares shall be offered, subject to the provisions of section 62 of the Act, and the rules made thereunder :-

- (A) (i) to the persons who at the date of the offer are holders of the equity shares of the Company in proportion as nearly as circumstances admit to the paid-up share capital on those shares by sending a letter of offer subject to the conditions mentioned in (ii) to (iv) below;
- (ii) The offer aforesaid shall be made by notice specifying the number of shares offered and limiting a time not being less than fifteen days and not exceeding thirty days from the date of the offer, within which the offer if not accepted, shall be deemed to have been declined;
- (iii) The offer aforesaid shall be deemed to include a right exercisable by the person concerned to renounce the shares offered to him or any of them in favour of any other person and the notice referred to in sub-clause (ii) shall contain a statement of this right;
- (iv) After the expiry of time specified in the notice aforesaid or on receipt of earlier intimation from the person to whom such notice is given that the person declines to accept the shares offered, the Board of Directors may dispose of them in such manner which is not disadvantageous to the Shareholders and the Company;
- (B) subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 or any modification thereto, to employees under any scheme of employees' stock option subject to special resolution passed by the Company and subject to the Rules and such other conditions, as may be prescribed under applicable law; or
- (C) to any person(s), if it is authorised by a special resolution, whether or not those persons include the persons referred to in clause (A) or clause (B) above either for cash or for a consideration other than cash, if the price of such shares is determined by the valuation report of a registered valuer subject to such conditions as may be prescribed under the Act and the rules made thereunder.

(2) Nothing in sub-clause (iii) of Clause (1)(A) shall be deemed:-

- (i) To extend the time within which the offer should be accepted; or
- (ii) To authorize any person to exercise the right of renunciation for a second time on the ground that the person in whose favour the renunciation was first made has declined to take the shares compromised in the renunciation.

(3) Nothing in this Article shall apply to the increase of the subscribed capital of the Company caused by the exercise of an option as a term attached to the Debentures issued or loan raised by the Company to convert such Debentures or loans into Shares in the Company or to subscribe for Shares of the Company:

Provided that the terms of issue of such Debentures or loan containing such an option have been approved before the issue of such Debentures or the raising of loan by a special resolution passed by the Company in a General Meeting.

(4) Notwithstanding anything contained in Article 67(3) hereof, where any debentures have been issued, or loan has been obtained from any Government by the Company, and if that Government considers it necessary in the public interest so to do, it may, by order, direct that such debentures or loans or any part thereof shall be converted into Shares in the Company on such terms and conditions as appear to the Government to be reasonable in the circumstances of the case even if terms of the issue of such debentures or the raising of such loans do not include a term for providing for an option for such conversion:

Provided that where the terms and conditions of such conversion are not acceptable to the company, it may, within sixty days from the date of communication of such order, appeal to the National Company Law Tribunal which shall after hearing the Company and the Government pass such order as it deems fit.

A further issue of shares may be made in any manner whatsoever as the Board may determine including by way of preferential offer or private placement, subject to and in accordance with the Act and the rules made thereunder.

68. Shares under control of General Meeting

In addition to and without derogating from the powers for the purpose conferred on the Directors under Articles 8, the Company in the General Meeting may in accordance with the provisions of Section 62 of the Act determine that any shares (whether forming part of the original capital of the Company or not) shall be offered to such persons (whether Members or holders of Debentures of the company or not) in such proportion and on such terms and conditions and either at a premium or at par or (subject to compliance with the provisions of Section 53 of the Act) at a discount, as such General Meeting shall determine.

69. Same as original capital

Except so far as otherwise provided by the conditions of issue or by these presents any capital raised by issue of further shares shall be considered part of the original capital and shall be subject to the provisions herein contained with reference to the payment of calls and installments, transfer and transmissions, forfeiture, lien, surrender, voting and otherwise.

70. Reduction of Capital

The Company from time to time by Special Resolution reduce its share capital (including the Capital Redemption Reserve Account if any) in any way authorised by law and in particular may pay off any paid up share capital upon the footing that it may be called up again or otherwise and if and so far as necessary alter its Memorandum by reducing the amount of its share capital and of its share accordingly.

71. Division and sub-division

The Company may in the General Meeting by Ordinary Resolution alter the conditions of its Memorandum as follows:-

- (a) Consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares; Provided that no consolidation and division which results in changes in the voting percentage of shareholders shall take effect unless it is approved by the National Company Law Tribunal on an application made in the prescribed manner
- (b) Sub-divided shares or any of them into shares of smaller amount than originally fixed by the Memorandum subject nevertheless to the provisions of the Act in that behalf. Subject to these presents the resolution by which any shares are sub-divided may determine that as between the holders of the shares resulting from such sub-division one or more of such shares may be given any preference or advantage or otherwise over the others or any other such shares.
- (c) Cancel shares which at the date of such General Meeting have not been taken or agreed to be taken by any person and diminish the amount of the shares so canceled.

JOINT HOLDERS

72. Joint Holders

Where two or more persons are registered as the holders of any share the person first named in the Register of Members shall be deemed the sole holder for matters connected with the Company subject to the following and other provisions contained in the Articles:

- (a) The Company shall be entitled to decline to register more than four persons as the joint holders of any share.
- (b) The joint holders of any share shall be liable severally as well as jointly for and in respect of all calls and other payments which ought to be made in respect of such share.
- (c) on the death of any such joint holders, the survivor(s) shall be the only person(s) recognized by the Company as having any title to the share but the Directors may require such evidence of death as they may deem fit and nothing herein contained shall be taken to release the estate of a deceased joint holder from any liability on shares held by him jointly with any other person(s).
- (d) Any one of such joint holders may give effectual receipts for any dividends or other monies payable in respect of such share.
- (e) Only the person whose name stands first in Register of Members as one of the joint holders of any share shall be entitled to delivery of the certificate relating to such share or to receive document (which expression shall be deemed to include all documents mentioned in Article 188) from the Company and any notice given to or document served on such person shall be deemed service on all the joint holders.
- (f) Any one of two or more joint holders may vote at any meeting either personally or by attorney or by proxy in respect of such shares as if he were solely entitled thereto and if more than one of such joint holders be present at any meeting personally or by proxy or by attorney then that one of such persons so present whose name stands first or higher (as the case may be) on the Register in respect of such shares shall alone be entitled to vote in respect thereof but the other or others of the joint holder shall be entitled to

vote in preference to a joint holder present by attorney or by proxy although the name of such joint holders present by attorney or proxy stands first or higher (as the case may be) in the Register in respect of such shares.

BORROWINGS POWERS

73. Conditions on which money may be borrowed

Subject to the provisions of the Act, the Board may from time to time, by a resolution passed at a Meeting of the Board accept deposits or borrow moneys from members, either in advance of calls or otherwise or accept deposits from public and may generally raise and secure the payment of such sum or sums in such manner and upon such terms and conditions in all respects as they think fit and in particular by the issue of bonds perpetual or redeemable debentures or debentures or debenture stock, or any mortgage or charge or other security on the undertaking or the whole or any part of the property of the Company (both present and future) including its uncalled capital for the time being.

74. Bond, Debentures etc. to be subject to control of Directors

Any bonds, debentures, debentures stock or other securities issue or to be issued by the Company shall be under the control of the Directors who may issue them upon such terms and conditions and in such manner and for such consideration as they shall consider to be for the benefit of the Company.

75. Securities may be assignable free from equities

Debenture, debenture stock, bonds or other securities may be assignable free and equities between the Company and the person to whom the same may be issued.

76. Issue at discount, etc. or with special privileges

Any bonds, debentures, debenture stocks or other debt securities may be issued at a discount, premium or otherwise and may be issued on condition that they shall be convertible into shares of any denomination and with any special privilege as to redemption, surrender, drawing, allotment of shares, attending at General Meetings of the Company, appointment of Directors and otherwise Debenture with the right to conversion into or allotment of shares shall be issued only with the consent of the Company in the General Meeting by a special resolution.

77. Mortgage of uncalled capital

If any uncalled capital of the Company is included in or charged by any mortgage or other security the Directors may authorize the person in whose favour such mortgage or security is executed or any other person in trust for him to make calls on the Members in respect of such uncalled capital and the provisions herein before contained in regard to call shall mutatis mutandis apply to calls made under such authority and such authority may be made exercisable either conditionally or unconditionally and either presently or contingently and either to the exclusion of the Board's power or otherwise and shall be assignable, if expressed so to be.

78. Indemnity may be given

If the Directors or any of them or any other person shall become personally liable for the payment of any sum primarily due from the Company, the Directors may execute or cause to be executed any mortgage, charge or security over or affecting the whole or any part of the assets of the Company by way of indemnity to secure the Directors or person so becoming liable as aforesaid from any loss in respect of such liability.

79. Register of charges to be kept

The Board shall cause a proper Register to be kept in accordance with the provisions of the Act of all mortgages, debentures and charges specifically affecting the property of the Company, and shall duly comply with the requirements of the said Act in regard to registration of mortgages and charges and in regard to inspection to be given to creditors or Members of the Register of Charges and copies of instruments creating charges. Such sums as may be prescribed by the Act shall be payable by any person other than a creditor or Member of the Company for each inspection of the Register of Charges.

MEETINGS

80. Annual General Meeting

- (a) (i) The Company shall, in addition to any other meeting hold a general meeting which shall be styled as "Annual General Meeting" at the intervals and in accordance with the provisions, specified below:
- (ii) The Annual General Meeting of the Company, subsequent to the first Annual General Meeting shall be held by the Company within six months after the expiry of the financial year in which the first General Meeting was held; and thereafter an Annual General Meeting shall be held in each year by the Company within six months after the expiry of each financial year;

- (iii) Not more than fifteen months shall elapse between the date of one Annual General Meeting and that of the next;
- (b) Every Annual General Meeting shall be called for a time during business hours i.e. between 9 a.m. to 6 p.m. on a day that is not a national holiday, and shall be held either at the Registered Office of the Company or at some other place within the city where the registered office is situated and the notices calling the meeting shall specify it as Annual General Meeting.

81. Extra-Ordinary General Meeting

All general meetings other than Annual General Meeting shall be called Extra- Ordinary General Meetings.

82. Calling of Extra- Ordinary General Meeting

- (a) The Board may whenever they think fit, and shall, on the requisition of such number of Members of the Company as is hereinafter specified, forthwith proceed to call an Extra-ordinary General Meeting of the Company and in case of such requisition the following provision shall apply :
- (b) The requisition shall set out the matters for the consideration of which the meeting is to be called and shall be signed by the requisitionists and shall be deposited at the Registered Office of the Company.
- (c) The requisition may consist of several documents in like form each signed by one or more requisitionists.
- (d) The number of Members of the Company entitled to requisition a meeting in regard to any matter shall be such number of them as hold at the date of deposit of the requisition, not less than one- tenth of such of the paid-up capital of the Company as at the date carries the right of voting in regard to that matter.
- (e) Where two or more distinct matters are specified in the requisition, the provisions of clause (d) shall apply separately in regard to each such matter, and the requisition shall accordingly be valid only in respect of those matters in regard to which the condition specified in that sub-article is fulfilled.
- (f) If the Board does not, within twenty one days from the date of deposit of a valid requisition in regard to any matters, proceed duly to call a meeting for the consideration of those matters on a day not later than forty five days from the deposit of the requisition, the meeting may be called and held by the requisitionists as represent either majority in value of the paid-up share capital held by all of them or not less than one-tenth of such of the paid-up share capital of the Company as is referred to in Clause (d) whichever is less, within a period of three months from the date of requisition. However, the purpose of this Clause the Board shall, in the case of a meeting at which a resolution is to be proposed as a Special Resolution give, such notice thereof as is required by the Act;
- (g) a meeting called under clause (f) by the requisitionists or any of them:
 - (i) shall be called in the same manner, as nearly as possible, as that in which the meetings are to be called by the Board, but
 - (ii) shall not be held after the expiration of three months from the date of the deposit of the requisition; Provided that nothing contained in this sub-clause (ii) shall be deemed to prevent a meeting duly commenced before the expiry of the period of three months aforesaid, from adjourning to some day after the expiry of that period;
- (h) Where two or more persons hold any shares or interest in the Company jointly, a requisition, or a notice calling a meeting, signed by one or some only of them shall, for the purpose of this Article have the same force and effect as if it had been signed by all of them.
- (i) Any reasonable expenses incurred by the requisitionists by reason of the failure of the Board to call a meeting shall be reimbursed to the requisitionists by the Company, and any sum so reimbursed shall be retained by the Company out of any sums due or to become due from the Company by way of fees or other remuneration for their services to such of the Directors as were in default.

83. Notice of Meeting

- (a) A General Meeting of the Company may be called by giving not less than twenty one day's notice in writing;
- (b) A General Meeting may be called after giving shorter notice than that specified in Clause (a) if consent is accorded thereto in writing or by electronic mode by not less than ninety-five per cent of the members entitled to vote at such meeting;

Provided that where any Members of the Company are entitled to vote only on some resolution to be moved at a meeting and not on the others, those members shall be taken into account for the purposes of this sub clauses in respect of the former resolution or resolutions and not in respect of the latter.

84. Consent and manner of service of notice and persons on whom it is to be served

- (a) Every Notice of a meeting of the Company shall specify the place and the day and the hour of the

meeting, and shall contain a statement of business to be transacted thereat;

- (b) Notice of every meeting of the Company shall be given
 - (i) to every Member of the Company, legal representative of any deceased member or the assignee of an insolvent member;
 - (ii) to every director of the Company; and
 - (iii) to the Auditor or Auditors for the time being of the Company in any manner authorised by Section 20 of the Act in the case of any Member or Members of the Company;

Omission to give notice not to invalidate proceedings at the meeting

- (c) The accidental omission to give notice to or the non-receipt of notice by, any Member or other person to whom it should be given shall not invalidate the proceedings at the meeting.

85. Business at General Meeting

- (a) In the case of an Annual General meeting all business to be transacted at the meeting shall be deemed special, with the exception of business relating to:
 - i) the consideration of financial statements and reports of the Board of Directors and Auditors;
 - ii) the declaration of dividend;
 - iii) the appointment of Directors in the place of those retiring;
 - iv) the appointment of and fixing the remuneration of the Auditors.
- (b) In the case of any other meeting all business shall be deemed special.
- (c) Where any items of business to be transacted at the meeting are deemed to be special as aforesaid, there shall be annexed to the notice of meeting a statement setting out all material facts concerning each such item of business, including in particular the nature of the concern or interest, if any, therein, of every Director, and the Manager, if any, every other key managerial personnel and relatives of such Director, Manager and the key managerial personnel.

Provided that where any item of Special business as aforesaid to be transacted at a meeting of the Company relates to, or affects any other company, the extent of shareholding interest in that other company of every Director, manager, if any, and every other key managerial personnel of the Company shall also be set out in the statement if the extent of such shareholding interest is not less than two percent of the paid-up capital of that other Company.

- (d) Where any item of business consist of the according of approval to any document by the meeting, the time and place where the document can be inspected shall be specified in the statement aforesaid.

86. Ordinary and Special Resolution

- (1) A resolution shall be an Ordinary Resolution when at a general meeting of which the notice required under the Act has been duly given, the votes cast (whether on a show of hands, or on a poll, as the case may be), in favour of the resolution (including the casting vote, if any, of the Chairman) by Members who, being entitled to do so, vote in person or where proxies are allowed, by proxy exceed the votes, if any, cast against the resolution by Members entitled and voting.
- (2) A resolution shall be a Special Resolution when:-
 - i. the intention to propose the resolution as a Special Resolution has been duly specified in the notice calling the General Meeting or other intimation given to the Members of the resolution.
 - ii. The notice required under the Act has been duly given of the General Meeting;
 - iii. The votes cast in favour of the resolution (whether on show of hands, or on a poll as the case may be), by Members who, being eligible so to do vote in person, or where proxies are allowed, by proxy, are not less than three times the number of votes, if any, cast against the resolution by Members so entitled and voting.

87. Resolution requiring Special Notice

- (1) Whereby any provisions contained in the Act or in these presents, Special Notice is required of any resolution, notice of the intention to move the resolution shall be given to the Company by such number of members as prescribed under the Act, not earlier than three months but at least fourteen days before the meeting at which it is to be moved, exclusive of the day on which the notice is served or deemed to be

served and the day of the meeting.

- (2) The Company shall, immediately after the notice of the intention to move any such resolution has been received by it, give its members notice of the resolution in the same manner as it gives notice of the meeting, or if that is not practicable, shall give them notice thereof, either by advertisement in a newspaper in the manner prescribed under the Act or in any other mode allowed by these presents and such notice shall also be posted on the website, not less than seven days before the meeting.

PROCEEDINGS AT GENERAL MEETING

88. Quorum at General Meeting

Subject to the provisions of Section 103 of the Act, five Members personally present shall be a quorum for General Meeting and no business shall be transacted at any general meeting unless the requisite quorum be present at the commencement of the business.

89. Business confined to election of Chairman whilst chair vacant

No business shall be discussed at any General Meeting except the election of a Chairman whilst the Chair is vacant.

- 90.** The Chairman of the Board shall be entitled to take the Chair at every General Meeting. If there be no Chairman or if at any meeting he shall not be present within fifteen minutes after the time appointed for holding such meeting, or is unwilling to act as Chairman of the meeting and on default of their doing so, the Members present shall choose one of the Directors to take the Chair and if no Director present be willing to take the Chair, the Members present shall choose one of their number to be the Chairman of the Meeting.

91. Proceedings when quorum not present

If within half an hour after the time appointed for the holding of a General Meeting a quorum be not present the meeting if commenced on the requisition of shareholders shall be dissolved and in any other case shall stand adjourned to the same day in the next week; at the same time and place or to such other day and at such time and places as the Directors may determine. If at such adjourned meeting also a quorum be not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting the Members present shall be a quorum and may transact the business for which the meeting was called. However, in case of an adjourned meeting or of a change of day, time or place of meeting, the Company shall give not less than three days notice to the members either individually or by publishing an advertisement in the newspaper in the manner as prescribed under the Act.

92. Adjourned Meeting

The Chairman with the consent of meeting may adjourn any meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than business might have been transacted at the meeting from which the adjournment took place. No notice of adjourned meeting shall be necessary to be given unless the meeting is adjourned for more than thirty days.

93. What is to be evidence of the passing or resolution where poll not demanded

At any General Meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands unless a poll is (before or on the declaration of the result on the show of hands) demanded in the manner hereinafter mentioned or the voting is carried out electronically, and unless a poll is so demanded, a declaration by the Chairman that a resolution has, on a show of hands, been carried or carried unanimously or by a particular majority, or lost and an entry to that effect in the book of the proceedings of the Company shall conclusive evidence of the fact or against such resolution.

94. Demand for poll

- (a) Before or on the declaration of the result or the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any member or members present in person or by proxy and holding shares in the Company:-
- i. which confer a power to vote on the resolution not being less than one-tenth of the total voting power in respect of the resolution; or
 - ii. on which an aggregate sum of not less than five lakh rupees has been paid-up.
- (b) The demand for a poll, may be withdrawn at any time by the person who made the demand.

95. Time of taking poll

- (a) If a poll is demanded on the election of a Chairman or on a question of adjournment, it shall be taken forthwith and without adjournment.
- (b) A poll is demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman may direct.

96. Rights of Members to use his votes differently

On a poll taken at a meeting of the Company, a Member entitled to more than one vote, or his proxy or other persons entitled to vote for him as the case may be, need not, if he votes, use all his votes or cast in the same way all the votes he uses.

97. Scrutinisers at poll

- (a) Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutinizers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him in the manner as prescribed under the Act;
- (b) The Chairman shall have power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineer from office and to fill vacancies in the office of the scrutineer arising from such removal
- (c) Of the two scrutineers appointed under this Article, one shall always be a member (not being an Officer or employee of the Company) present at the Meeting, provided that such a member is available and willing to be appointed.

98. Manner of taking poll and result thereof

- (a) Subject to the provisions of the Act, the Chairman of the meeting shall have the power to regulate the manner in which a poll shall be taken,
- (b) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken

99. Motion how decided in case of equality of votes

In the case of equality of votes, whether in show of hands or on a poll, the Chairman of the meeting at which the show of hands takes place or at which a poll is demanded, shall be entitled to a casting vote in addition to his own vote or votes to which he may be entitled as a member.

100. Demand of poll not to prevent transaction of other business

The demand for a poll shall not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business other than the question on which the poll has been demanded.

101. Minutes of General Meeting

The Company shall cause minutes of all proceedings of General Meetings to be entered in the books kept for that purpose. The Minutes of each Meeting shall contain a fair and correct summary of the proceedings thereat. All the appointment of officers made at any of the Meetings shall be included in the minutes of the meeting. Any such meetings, if purported to be signed by the Chairman of the Meeting at which the proceedings took place or in the event of the death or inability of that Chairman by a Director duly authorised by the Board for the purpose, shall be evidence of the proceedings.

102. Inspection of Minutes books

The books containing minutes of proceedings of General Meetings of the Company shall be kept at the Registered Office of the Company and shall be open to the inspection of any member without charges between 11 a.m. and 2.00 p.m. on all working days.

103. Copies of Minutes

Any Member shall be entitled to be furnished within seven working days after he had made a request in that behalf to the Company with copy of any minutes referred to above at such charges as may be prescribed by the Act.

VOTES OF MEMBERS

- 104. (a) Upon a show of hands every Member of the Company entitled to vote and present in person or by attorney or proxy shall have one vote.
- (b) Upon a poll every Member of the Company who being an individual is present in person or by attorney or by Proxy or being a Corporation is present by a representative or proxy shall have a voting right in proportion to his share of the Paid-up Capital of the Company

105. Voting by Corporation

Any Member who is a Corporation present by a representative duly authorised by resolution of the Directors or other governing body of such corporation in accordance with the provisions of Section 113 of the Act may vote on a show of hands as if he was a Member of the Company. The Production at the Meeting of such resolution duly signed by one director of such Corporation or by a member of its governing body and certified by him as being a true copy of the resolution shall on production at the meeting be accepted by the Company as sufficient evidence of the validity of his appointment.

106. No Member to vote unless calls are paid up

Subject to the provision of the Act, no Member shall be entitled to be present or to vote at any General Meeting either personally or by proxy or attorney or as a proxy or as attorney in respect of shares registered in his name, on which calls or other sum shall be overdue and payable to the company in respect of any of the shares of such Members for more than one month

107. Qualification of Proxy

- (a) Any member of the Company entitled to attend and vote at a meeting of the Company shall be entitled to appoint another person (whether a member or not) as his proxy to attend and vote instead of himself but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.
- (b) In every notice calling a meeting of the Company, there shall appear with reasonable prominence a statement that a Member entitled to attend and vote is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself and that a proxy need not be a member.

108. Votes may be given by proxy or attorney

Votes may be given either personally or by attorney or by proxy or in case of a corporation also by a representative duly authorised as aforesaid.

109. Execution of instrument of proxy

The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney or if such appointer is a company or corporation under its common seal or under the hand of a person duly authorised by such company or corporation in that behalf or under the hand of its attorney who may be the appointer.

110. Deposit of instrument of appointment and inspection

- (i) No person shall act as proxy unless the instrument of his appointment and the power of attorney or other authority if any under which it is signed of a notarially certified copy of that power of authority shall be deposited at the Office at least forty eight hours before the time of holding the meeting at which the person named in the instrument of proxy proposes to vote and in default the instrument appointing the proxy shall not be treated as valid. No attorney shall be entitled to vote unless the Power of Attorney or other instrument appointing him as attorney or a notarially certified copy thereof has either been registered in the records of the Company at any time not less than forty eight hours before the time of the meeting at which the attorney proposes to vote or is deposited at the office not less than forty eight hours before the time of same meeting as aforesaid
- (ii) Notwithstanding that a power of Attorney or other authority has been registered in the records of the company, the company may by notice in writing addressed to the Member of that attorney at least seven days before the date of a meeting require him to produce the original Power of Attorney of authority and unless the same is thereupon deposited with the Company not less than forty eight hours before the time fixed for the meeting the attorney shall not be entitled to vote at such meeting unless the Directors in their absolute discretion excuse such non production and deposit.
- (iii) Every member entitled to vote at a meeting of the Company or any resolution to be moved thereat shall be entitled during the period beginning twenty four hours before the time fixed for the commencement of the meeting and ending with the conclusion of the meeting to inspect the proxies lodged at any time during the business hours of the Company provided that not less than three days' notice in writing of the intention so to inspect is given to the Company.

111. Custody of the Instrument

If any such instrument of appointment be confined to the object of appointing a proxy or substitute for voting at meeting of the Company it shall remain permanently or for such time as the Director may determine, in the custody of the Company, and if embracing other objects a copy thereof, examined with the original, shall be delivered to the Company to remain in custody of the Company

112. Instrument appointing Proxy

Every instrument of proxy whether for a specified meeting or otherwise shall be in writing under the hand of the appointee or his attorney authorised in writing or if such appointer is a Corporation, under its Common Seal, if any, or the hand of an officer or an attorney duly authorised by it and shall as nearly as circumstances will admit be in the form specified in Section 105 of the Act.

113. Validity of votes given by proxy notwithstanding death of Member, etc.

A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous death of the principal or revocation of the Proxy or of any power of attorney under which such proxy was signed to the transfer of the shares in respect of which the vote is given provided that no intimation in writing of the death, revocation or transfer shall have been received at the office before the meeting.

114. Time for objections to votes

No Objection shall be made to the validity of any vote except at the meeting or poll at which such vote shall be tendered, and every vote whether given personally or by proxy not disallowed at such meeting or poll shall be deemed valid for all purposes of such meeting or poll whatsoever

115. Chairman of any meeting to be the judge of validity of any vote.

The Chairman of any meeting shall be the sole judge of the validity of every vote tendered at such meeting. The Chairman present at the time of taking of a poll shall be the sole judge of the validity of every vote tendered at such poll.

DIRECTORS

116. Number of Directors

Unless otherwise determined by a General Meeting of the members of the Company, the number of Directors shall not be less than three or more than fifteen including Public Interest Directors, Shareholder Directors (including employee Directors) and the Managing Director and the number of Directors may be increased beyond fifteen with the approval of the Central Government.

116A. Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles, directives issued by SEBI and/ or provided in the Rules from time to time with regard to composition of the Board, general requirements related to manner of appointment of directors, chief executive, code of conduct and other incidental and consequential matters relating to governance of the Company, to the extent applicable, shall be complied with.

117. The present hereinafter named are the first Directors of the Company

- i. Mr. Sandip Mehta
- ii. Mr. Vitthal More
- iii. Mr. Ravindra Bathula

118. (A) SEBI Nominee Directors

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) may from time to time nominate not more than three person as Directors on the Board of the Company. The Directors appointed under this Article are herein referred to as "SEBI Nominee Directors". The SEBI Nominee Directors shall not be subject to retirement by rotation or be removed from office except by the SEBI. Subject as aforesaid, the SEBI Nominee Directors shall be entitled to the same rights and privileges and be subject to the same obligations as any other Director of the Company.

118. (AA) Public Interest Directors

Securities and Exchange Board of India (SEBI) may from time to time, generally after taking into consideration the names of the persons forwarded by the Board of Directors of the Company nominate on the Board of Directors of the Company not more than three persons referred to as "Public Interest Directors" who shall be 'independent directors' as per the provisions of the Act from amongst the persons of integrity having necessary professional competence and experience in the areas related to securities markets. SEBI shall however, have the right to nominate persons, whose names have not been forwarded by the Board of Directors of the Company. However, SEBI may at any time appoint more than three Public Interest Directors so that the total number of Directors nominated under Article 118A & 118AA may not exceed the total number of directors representing shareholders.

The Public Interest Directors shall continue till the time new Public Interest Directors are appointed in their place.

Subject to as aforesaid, the Public Interest Directors shall be entitled to the same rights & privileges and be subject to the same obligations as any other Director of the company. Any vacancy caused by the resignation, removal, death or otherwise of such nominated Public Interest Directors shall be filled in, by a similarly nominated person.

(B) Debenture Director

Any Trust Deed or Loan Agreement covering the issue of debentures of the Company, or loans advanced to the Company, may provide for the appointment of a Director (in these present referred to as the Debenture Director) for and on behalf of the Debenture- Holder/ Lender for such period as therein provided, not exceeding the period for which the Debentures or any of them shall remain outstanding or the loan remains unpaid, and for the removal from office of such Debenture Directors, and on vacancy being caused, whether by resignation, death, removal or otherwise for appointment, of a Debenture Director in the vacant place. The Debenture Director shall not be liable to retire by rotation

119. Managing Director/Whole time Director

- (i) Subject to the provisions of the Act and the approval of Securities and Exchange Board of India, the Board may, from time to time, appoint or re-appoint one or more of their body to be Managing Director or Managing Directors or Whole-time Director or Whole-time Directors, by whatever name he or they may be called, of the Company, on such conditions and for such term not exceeding five years at a time and subject to such terms and conditions as they may think fit.
- (ii) Subject to the provisions of the Act, the Managing Director or Whole-time Director shall not, whilst he continues to hold that office, be subject to retirement by rotation under Article 131 but shall be subject to the same provisions as to the resignation and removal as the other Directors of the Company and shall, ipso facto, and immediately cease to be a Managing Director or Whole-time Director if he ceases to hold the office of a Director from any cause.

Subject to the provisions of the Act, Directors may, from time to time, entrust and confer upon the Managing /Whole-time Director(s) for the time being such of the powers exercisable by them upon such terms and conditions and with such restrictions as they may think fit either collaterally with, or to the exclusion of their power and from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

120. Alternate Director

- (i) Subject to Section 161 of the Act, the Board of Directors may appoint an Alternate Director to act for a Director (hereinafter in this Article called “the original Director”) at his suggestion or otherwise, during his absence for a period of not less than three months from India in which meetings of the Board are ordinarily held.
- (ii) An alternate Director appointed under clause (a) shall not hold office for a period longer than permissible to the original Director in whose place he has been appointed and shall vacate office if and when the original Director returns to India.
- (iii) If the term of office of the original Director is determined before he so returns to India any provision for the automatic reappointment of the retiring Directors in default of another appointment shall apply to the original and not to the Alternate Director.

121. Qualification of Directors

No Director shall be required to hold any share or qualification shares of the Company.

122. (i) Remuneration of Directors

The remuneration payable to Directors, including the Managing Director shall, subject to the applicable provisions of the Act and of these presents and of any contract between him and the Company, be fixed by the Company in General Meeting from time to time, and may be by way of fixed salary and /or perquisites or commission on profits of the Company or participation in such profits, or by any or all these modes not expressly prohibited by the Act.

(ii) Sitting Fee to Directors attending meeting

Directors may receive remuneration by way of a fee for each meeting of the Board or a Committee thereof attended by him, subject to the maximum prescribed under the Act.

123. Director's not bona fide residents of place where a meeting is held may receive extra compensation

The Board of Directors may allow and pay to any Director who is not a bona fide resident of the place where a meeting of the Board is held and who shall come to such place for the purpose of attending a meeting or for attending its business at the request of the Company, such sum as the Directors may consider fair compensation for traveling, hotel and other expenses and if any Director be called upon to go or reside out of the ordinary place of his residence on the Company's business he shall be entitled to be reimbursed any travelling or other expenses incurred in connection with the business of the Company.

124. Special remuneration to Director performing extra services

If any Director, be called upon to perform extra services or special exertions or efforts (which expression shall include work done by Directors as a member of any Committee formed by the Directors), the Board may arrange with such Director for such special remuneration for such special services or special exertions or efforts either by a fixed sum or otherwise as may be determined by the Board and subject to the provisions of the Act.

125. Additional Directors

The Directors shall have power at any time and from time to time appoint subject to the provisions of these presents any person as a Director either to fill a casual vacancy or as an additional Director to the Board but so that the total number shall not at any time exceed the maximum number fixed as above; but any Director so appointed as an additional Director shall hold office only up to the date of the next following Annual General Meeting of the Company and shall then be entitled for re-election and any Director so appointed to fill a casual vacancy shall hold office only up to the date up to which the Director in whose place he is appointed would have held office had it not been vacated.

126. Directors may act notwithstanding

Subject to the provisions of the Act, the continuing Directors may act notwithstanding any vacancy in their body; but so that if the number falls below the minimum number fixed the Directors shall not except in emergencies or for the purpose of filling up vacancies or for summoning a General Meeting of the Company act so long as the number is below the minimum and they may so act notwithstanding the absence of a necessary quorum under the provisions of Article 145.

127. Directors vacating

(1) Subject to the provision of Section 164 of the Act, the office of a Director shall become vacant if:

- (a) he is unsound mind and stands so declared by a Court of competent jurisdiction;
- (b) he has applied to be adjudicated an insolvent and his application is pending;
- (c) He is an undischarged insolvent;
- (d) he is convicted by a court of any offence, whether involving moral turpitude or otherwise; and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence;
- (e) an order disqualifying him for appointment as a director has been passed by a court or Tribunal and the order is in force;
- (f) he has not paid any calls in respect of shares of the Company held by him, whether alone or jointly with others, and six months has elapsed from the last date fixed for the payment of such calls;
- (g) he has been convicted of the offence dealing with related party transactions under Section 188 of the Act at any time during the last preceding five years; or
- (h) he has not complied with sub-section (3) of section 152 of the Act.

(2) Notwithstanding anything contained in clauses (d), (e) and (g) of sub-article (1), the disqualification referred to in those clauses shall not take effect:

- (a) For thirty days from the date of conviction or order of disqualification;
- (b) Where any appeal or petition is preferred within thirty days as aforesaid against the conviction resulting in the sentence or order. Until the expiry of seven days from the date on which such appeal or petitions disposed of; or
- (c) Where any further appeal or petition is preferred against order or sentence within seven days, until such further appeal or petition is disposed off.

128. Disclosure of interest

- (a) Every Director of the Company who is in any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in a contract or arrangement or proposed contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of the Company, shall disclose the nature of his concern or interest at a meeting of the Board of Directors.
- (b) (i) In the case of proposed contract or arrangement the disclosure required to be made by a Director under Clause (a) shall be made at the meeting of the Board at which the question of entering into the contract or arrangement is first taken into consideration, or if the Director was not at the date of that meeting, concerned or interested in the proposed contract or arrangement at the first meeting of the Board held after he becomes so concerned or interested
- (ii) In the case of any other contract or arrangement, the required disclosure shall be made at the first

meeting of the Board held after the Director becomes concerned or interested in the contract or arrangement.

- (c) (i) For the purpose of Clause (a) and (b), a general notice given to the Board of a Director to the effect that he is a Director or a Member of a specified body corporate or is a Members of a specified firm and is to be regarded as concerned or interested in any contract or arrangement which may after the date of the notice, be entered into with that body corporate or firm, shall be deemed to be a sufficient disclosure of concern or interest to any contract or arrangement so made.
- (ii) Any such general notice shall expire at the end of the financial year in which it is given, but may be renewed for further periods of one financial year at a time, by a fresh notice given in the last month of the financial year in which it would otherwise expire.
- (iii) No such general notice and no renewals thereof shall be of effect unless either it is given at a meeting of the Board or the Director concerned takes reasonable steps to secure that it is brought up and read at the first meeting of the Board after it is given.
- (d) Nothing in this Article shall be taken to prejudice the operation of any rule of law restricting a Director of the Company from having any concern or interest in any contracts or arrangements with the Company.
- (e) Nothing in this Article shall apply to any contract or arrangement entered into or to be entered into between the Company and any other company where any of the Directors of the Company or two or more of them together holds or hold not more than two percent of the paid up share capital in the other company.
- (f) The provisions of this Article shall mutatis mutandis apply to a member of the Executive Committee who shall disclose the nature of his interest at a meeting of the Executive Committee.

129. Interested Directors not to participate or vote in Board Proceedings

- (1) No Director of the Company shall as a Director take any part in the discussion of, or vote on any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of the Company, if he is in anyway whether directly or indirectly, concerned or interested in the contract or arrangements; nor shall his presence count for the purpose of forming a quorum at the time of any such discussion or vote; and if he does vote his vote shall be void.
- (2) This Article shall not apply to:
 - (a) any contract of indemnity against any loss which the Directors or any one or more of them may suffer by reason of becoming or being surety or sureties for the Company;
 - (b) any contract or arrangement entered into or to be entered into with a public company or a private company which is a subsidiary of a public company, in which the interest of the Director aforesaid consists solely –
 - ii. in his being a Director, of such company and the holder of not more than shares of such number or value therein as is requisite to qualify him for appointment as a Director thereof, he having been nominated as such Director by the Company, or
 - iii. in his being a member holding not more than 2 % (two percent) of the paid up share capital of such other company.

130. Directors may be Directors of Companies promoted by the Company

A Director may be or become a Director of any company promoted by the Company, or in which the Company may be interested as a vendor, member or otherwise and subject to the provisions of the Act and these presents no such Director shall be accountable for any benefits received as a Director or member of such company

ROTATION OF DIRECTORS

131. Directors to retire Annually by rotation

At every Annual General Meeting of the Company other than the first Annual General Meeting one-third of such of the directors for the time being as are liable to retire by rotation or, if their number is not three or a multiple of three, then the number nearest to one-third shall retire from office.

132. Which Directors to retire

The Directors to retire by rotation at every Annual General Meeting shall be those who have been longest in office since their last appointment, but as between persons who became Directors on the same day those who are to retire shall in default of and subject to any agreement among themselves, be determined by lot.

133. Retiring Director eligible for re-election

A retiring Director shall be eligible for re-election.

134. Company to fill up vacancy

The Company at the Annual General Meeting at which a Director retires in manner aforesaid may fill up the vacancy, by appointing the retiring Director or some other person in that vacancy.

135. Retiring Directors to remain in office until successors appointed

If the place of the retiring Director is not so filled up and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall stand adjourned till the same day in the next week at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place and if at the adjourned meeting also, the place of the retiring Director is not filled up and that meeting also has not expressly resolved not to fill the vacancy, the retiring Director shall be deemed to have re-appointed at the adjourned meeting unless –

- (i) at that meeting or at the previous meeting a resolution for the re-appointment of such Director has to be put to the meeting and lost.
- (ii) the retiring Director has by a notice in writing addressed to the Company or its Board of Directors, expressed his unwillingness to be so reappointed.
- (iii) he is not qualified or is disqualified for appointment
- (iv) a resolution, whether Special or Ordinary is required for his appointment or re-appointment by virtue of any provisions of the Act, or
- (v) the proviso to sub-article (2) of Article 136 is applicable to the case.

136. Appointment of Directors to be voted on individually

- (1) At every Annual General Meeting of the Company, a motion shall not be made for the appointment of two or more persons as Directors of the Company by a single resolution, unless a resolution that it shall be so made has first been agreed to by the meeting without any vote being given against it.
- (2) A resolution moved in contravention of sub-article (1) of this Article shall be void whether or not objection was taken at the time to this being so moved; provided that where a resolution so moved is passed, no provision for the automatic re-appointment of the retiring Director in default of another appointment shall apply.
- (3) For the purpose of this Article, a motion for approving a person's appointment or for nominating a person for appointment shall be treated as motion for his appointment.

137. Rights of persons other than retiring Directors to stand for Directorship

- (1) No person, not being a retiring Director, shall be eligible for election to the office of Director at any General Meeting, unless he or some other Member intending to propose him has at least fourteen clear days before the meeting, left at the office a notice in writing under his hand signifying his candidature for the office of Director or the intention of such Member to propose him, as a candidate for that office along with a deposit of one lakh rupees which shall be refunded to such person or as the case may be to such member, if the person succeeds in getting elected as a Director.
- (2) The Company shall inform its Members of the candidature of a person for the office of Director or the intention of a Member to propose such person as a candidate for that office for serving individual notices on the Members not less than seven days before the Meeting. Provided that it shall not be necessary for the Company to serve individual notices upon the Members as aforesaid if the Company advertises such candidature or intention not less than seven days before the Meeting, in at least two newspapers circulating in the place where the Registered Office of the Company is located, of which one is published in the English language and the other in the vernacular language of that place.

138. Removal of Directors

- (a) The Company may, subject to the Article 118A and 118AA, the provisions of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 or any modification thereto and the provisions of Section 169(1) of the Act, by ordinary resolution of which special notice according to Section 169(2) of the Act has been given remove any Director before the expiry of his period of office and may by ordinary resolution of which special notice has been given, appoint another person instead of the removed Director. A Director so appointed shall hold office until the date up to which his predecessor would have held office if he had not been so removed. If the vacancy created by the removal of a Director under the provisions of this Article is not so filled by the meeting at which he is removed, the Board may at any time thereafter fill such vacancy under the provisions of these Articles.
- (b) Special Notice shall be required of any resolution to remove a Director under this Article or to appoint

- somebody instead of a Director so removed at the meeting at which he is removed.
- (c) On receipt of notice of a resolution to remove a Director under this Article, the Company shall forthwith send a copy thereof to the Director concerned, and the Director (whether or not he is a Member of the Company) shall be entitled to be heard on the resolution at the meeting.
 - (d) Where notice is given of a resolution to remove a Director under this Article and the Director concerned makes with respect to thereto representations in writing to the Company (not exceeding a reasonable length) and requests their notification to Members of the Company, the Company shall unless the representations are received by it too late for it to do so :-
 - (i) in any notice of the resolution given to Members of the Company, state the fact of the representation having been made, and
 - (ii) send a copy of the representation to every Member of the Company to whom notice of the meeting is sent (whether before or after receipt of the representations by the Company) and if a copy of the representations is not sent as aforesaid because they were received too late or because of the Company's default, the Director may (without prejudice to his right to be heard orally) require that the representations shall be read out at the meeting provided that copies of the representations need not be sent out and the representations need not be read out at the meeting, if on the application either of the Company or any other person who claims to be aggrieved, the Court is satisfied that the rights conferred by this clause are being abused to secure needless publicity for defamatory matter.
 - (e) A vacancy created by the removal of a Director under this Article may, if he had been appointed by the Company in the General Meeting or by the Board, be filled by the appointment of another Director in his stead, by the meeting at which he is removed, provided special notice of the intended appointment has been given under clause (b) of this Article. A Director so appointed shall hold office until the date up to which his predecessor would have held office if he had not been removed as aforesaid.
 - (f) If the vacancy is not filled under sub-article (c) of this Article, it may be filled as a casual vacancy in accordance with the provisions so far as they may be applicable of Article 125 and all the provisions shall apply accordingly; provided that the Director who was removed from office shall not be reappointed as a Director by the Board.
- 139.** (i) Each member shall annually intimate to the Board in writing by such date as may be fixed from time to time by the Board for the time being, the name of its candidate for being elected to the Board at the next Annual General Meeting.
- (ii) A writing or notice under this Article shall be deemed to have been only given if it is signed by a Director of such member and accompanied by a certified copy of the resolution passed by the Board of such member giving effect to any removal or appointment.
- (iii) The provisions of Article 136 to 138 (both inclusive) shall be read subject to and in accordance with the provisions of this Article 139.

PROCEEDINGS OF THE DIRECTORS

140. Meeting of Directors

The Board of Directors may meet for conduct of business, adjourn and otherwise regulate their meetings and proceedings as they think fit provided however that there shall be a minimum of four such meetings of the Board every year in such a manner that not more than 120 (one hundred and twenty) days shall intervene between two consecutive meetings of the Board.

141. When meeting to be convened

The Chairman at any time and the Manager or such other Officer of the Company as may be authorized by the Directors shall upon the request of a Director convene a meeting of the Directors.

142. Notice of Meeting

Notice of every meeting of the Board of the Company shall be given in writing to every Director at his address registered with the Company by giving not less than seven day's notice.

143. Chairman of the Board

The Directors may elect their Chairman and determine the period for which he is to hold office. All meetings of the Board shall be presided over by such Chairman if present, but if at any meetings of Directors the Chairman be not present, at the time appointed for holding the same, then and in that case the Directors shall choose one of the Public Interest Directors then present to preside at the meeting.

144. Questions at a meeting of the Governing Board, how decided

Questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes and in case of an equality of votes, the Chairman of the meeting (whether the Chairman appointed by virtue of these presents or the Director presiding at such meeting) shall have a second or casting vote.

145. Quorum and its competence to exercise powers

The quorum for meeting of the Board of Directors of the Company shall be one-third of its total strength (any fraction contained in that one-third being rounded off as one) or two Directors whichever is higher and the participation of the directors by video conferencing or by other audio visual means shall also be counted for the purposes of quorum provided that when at any meeting the number of interested Directors exceeds or is equal to two-third of the total strength, the Directors who are not interested, present at the meeting being not less than two shall be the quorum during such time and provided further that the aforesaid proviso shall not be applicable when any contract or arrangement is entered in to by or on behalf of the company with a Director or with any firm of which a Director is Member or with any private company of which a Director or member for

- (a) The underwriting or subscription of shares or debentures of the company; or
- (b) the purchase or sale of shares or debentures of any other Company; or
- (c) a loan by the Company

For the purpose of this Article:-

- (i) "total strength" means the total strength of the Directors of the Company as determined in pursuance of the Act after deducting there from the number of the Directors, if any, whose place may be vacant at the time.
- (ii) "Interested Directors" shall mean a director within the meaning of Section 184(2) of the Act for the purpose of this article.

146. Procedure where meeting adjourned for want of quorum.

- (a) If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then unless the Directors present at each meeting otherwise decide, the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week at the same time and place or if that day is a national holiday till the next succeeding day which is not a national holiday at the same time and place.
- (b) the provisions of Article 141 shall not be deemed to have been contravened merely by reason of the fact that a meeting of the board which had been called in compliance with the terms of that Article could not be held for want of quorum.

147. Board may appoint Committee

The Directors may subject to the provisions of the Act delegate any of their powers to committees consisting of such member or members of their body or person or persons as they think fit, and they may from time to time revoke such delegation. Any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regulations that may from time to time be imposed on it by the Directors. The Executive Committee of the Exchange shall be considered as a Committee of the Company, where the context so admits.

148. Meeting of Committees how to be governed

The meetings and proceeding of any such Committee shall be governed by the provisions of these presents for regulating the meeting and proceeding of the Directors so far as the same are applicable thereto and are not superseded by any regulations made by the Directors under the last preceding Article.

149. Acts of the Board or Committee valid notwithstanding defect of appointment

All acts done at any meeting of the Board or a Committee thereof or by any person acting as a Director, shall be valid notwithstanding that it may be afterwards discovered that the appointment of any one or more of such Directors or of any person acting as aforesaid was invalid by reason of defect or disqualification or had terminated by virtue of any provision contained in the Act of these presents provided that nothing in this Article shall be deemed to give validity to acts done by a Director after his appointment has been shown to the company to be invalid or to have been terminated.

150. Resolution by Circulation

No resolution shall be deemed to have been duly passed by the Board or by a Committee thereof by circulation unless the resolution has been circulated in draft together with the necessary papers, if any, to all the Directors or to all the Members of the Committee then in India (not being less in number than the quorum fixed for a meeting of a Board or Committee as the case may be) and to all other Directors or Members at their usual

address in India and has been approved by such of the directors as are then in India or by majority of such of them as are entitled to vote on the resolution. Where not less than one-third of the total number of directors of the Company for the time being require that any resolution under circulation must be decided at a meeting, the chairperson shall put the resolution to be decided at a meeting of the Board.

151. Minutes of proceedings of Directors and Committees

The Company shall cause minutes of Meetings of the Board of Directors and all Committees of the Board to be duly entered in a book or books provided for this purpose. The minutes shall contain:-

- (a) a fair correct summary of the proceedings at the Meeting.
- (b) The names of the Directors present at the Meeting of the Board of Directors or any Committee of the Board
- (c) all orders made by the Board and Committee of the Board and all appointments of Officers and Committees of Directors
- (d) all resolutions and proceedings of meetings of the Board and the Committees of the Board : and
- (e) in the case of each resolution passed at a Meeting of the Board or Committee of the Board the names of the Directors if any dissenting from, or not concurring in the resolution.

152. By whom Minutes to be signed and the effect of such Minutes

Any minutes of any Meeting of the Board or any Committees of the Board if purporting to be dated and signed by the Chairman of such meeting or by the Chairman of the next succeeding meeting in accordance with the provisions of Section 118 of the Act, shall for all purposes whatsoever be evidence of the actual passing of the resolutions and the actual and regular transaction or occurrence of the proceeding so recorded and of the regularity of the meeting at which the same shall appear to have taken place.

153. Provisions of the Act

The Directors shall comply with the provisions of Section 92, 170, 184, 185, 188 of the Act which pertain to annual return, register of directors and key managerial personnel and their shareholding, disclosure of interest by director, loan to directors, etc, and Related party transactions, to the extent applicable.

POWERS OF DIRECTORS

154. General powers of the Company vested in Directors

Subject to the provisions of the Act and these presents the business of the Company shall be managed by the Directors who may exercise all such powers and do all such acts and things as the Company is by its Memorandum of Association or otherwise authorized to exercise and do and are not by these presents or by statute directed or required to be exercised or done by the Company in General Meeting, but subject nevertheless to the provisions of the Act and of the Memorandum of Association and these presents and to any regulations not being inconsistent with the Memorandum from time to time made by the Company in General Meeting provided that no such regulation shall invalidate any prior act of Directors which have been valid if such regulation had not been made.

155. Certain powers to be exercised by the Board meeting only

The Board shall exercise the powers in respect of the matters covered in the Section 179(3) of the Act and the rules made thereunder, only by means of resolution passed at its Meetings.

Provided that the Board may, by a resolution passed at a meeting delegate to any Committee of Directors, the Managing Director, the Manager or any other principal officer of the Company or in the case of a branch office, the principal officer of the branch office, the powers specified in Section 179(3) (d) to (f) of the Act on such conditions as the Board may prescribe.

156. Consent of the Company necessary for exercise of certain powers

The Board shall exercise the following powers only with the consent of the Company in the General Meetings by a special resolution:-

- (a) To sell, lease or otherwise dispose of the whole or substantially the whole of the undertaking of the Company, or where the Company owns more than one undertaking of the whole, or substantially the whole of any such undertaking
- (b) To remit or give time for the re-payment of any debt due from a Director
- (c) To invest, otherwise than in trust securities, the amount of compensation received by the Company as a result of any merger or amalgamation.

- (d) To borrow moneys where the moneys to be borrowed together with the money already borrowed by the Company (apart from temporary loans obtained from the Company's bankers in the ordinary course of business) will exceed the aggregate of the paid up capital of the Company and its free reserves.
- (e) Contribute to charitable and other funds in case any amounts the aggregate of which all, in any financial year, exceed five percent of its average net profits for three immediately preceding financial year.

157. Special powers given to Directors

Without prejudice to the general powers conferred by Article 154 and the other powers conferred by these presents but subject to the provisions of the Act, it is hereby expressly declared that the Board shall have the following powers :-

- (1) To pay the costs, charges and expenses, preliminary and incidental to the promotions, formation, establishment and registration of the Company.
- (2) To have an Official Seal for use abroad.
- (3) To keep Foreign Register in accordance with the provisions of the Act.
- (4) To purchase or otherwise acquire for the Company any property rights or privileges which the Company is authorized to acquire at such price and generally on such terms and conditions as they think fit.

(5) To pay for property

At their discretion to pay for any property or rights or privileges acquired by or services rendered to the Company, either wholly or partially in cash, or in shares, bonds, debentures stock or other securities of the Company, and any shares may be issued whether as fully paid up or with such amount credited as paid up thereon as may be agreed upon; any such bonds, debentures, debenture stock or other securities may be either specially charged upon all or any part of the property of the Company and its uncalled capital or not so charged.

(6) To Insure properties

To insure and keep insured against loss or damage by fire or otherwise for such period and to such extent as they may think proper all or any part of the buildings, machinery, goods, stores. Produce and other moveable property of the Company either separately or jointly; also to insure all or any portion of the goods. Produce machinery and other articles imported or exported by the Company and to sell assign surrender or discontinue any policies of assurance effected in pursuance of this power.

(7) To open bank accounts

To open accounts with any bank or bankers or with any company. Firm or individual and to pay money into and draw money from any such account from time to time as the Directors may think fit.

(8) To secure contracts

To secure the fulfillment of any contracts or engagements entered into by the Company by mortgage or charge of all or any of the property of the Company and its unpaid capital for the time being in such other manner as they think fit.

(9) To attach conditions

To attach to any shares to be issued as the consideration or part of the consideration for any contract with or property acquired by the Company, or in payment for services rendered to the Company, such conditions as to transfer thereof as they think fit.

(10) To accept surrender of Shares

To accept from any Member on such terms and conditions as shall be agreed a surrender of his shares or stocks or any part thereof.

(11) To appoint Trustees

To appoint any person or persons (whether incorporated or not) to accept and hold in trust for the Company any property belonging to the Company or in which it is interested, or for any other purposes and to execute and do all such acts and things as maybe requisite in relation to any such trust and to provide for the remuneration of such trustee or trustees.

(12) To institute and defend legal proceedings

To institute, conduct, defend, compound or abandon any legal proceedings by or against the Company or its officers or otherwise concerning the affairs of the Company, and also to compound and allow time for payment of satisfaction of any debt due or of any claims or demands by or against the Company.

(13) To refer to arbitration

To refer any claim or demand by or against the Company to arbitration and observe and perform the awards.

(14) To act in matters of bankruptcy

To act on behalf of the Company in all matters relating to bankruptcy and insolvency.

(15) To give receipts

To make and give receipts, release and other discharges for moneys payable to the Company and for the claims and demands of the Company.

(16) To authorize enquiry of bills

To determine from time to time who shall be entitled to sign on the Company's behalf bills, notes, receipts, acceptances, endorsements, cheques, divided warrants, releases, contracts and documents.

(17) To invest monies

To invest and deal with any of the monies of the Company not immediately required for the purposes thereof, in such securities and in such manner as they may think fit and from time to time to vary or realize such investments.

(18) To provide for the welfare of employees etc.

To provide for the welfare of employees or ex-employees of the Company and their wives, and families or the dependents or connections of such persons, by building or contributing to the building of houses or dwellings or by grants or money pensions, allowances, bonus or other payments or by creating and from time to time subscribing or contributing to provident and other associations, institutions, funds or trusts and by providing or subscribing or contributing towards places of instruction and recreation, hospitals and dispensaries, medical and other attendance and other assistance as the Company shall think fit. To subscribe for Charitable fund etc.

(19) To subscribe for Charitable Fund etc.

Subject to the provisions of Section 181 of the Act to subscribe or guarantee money for any national, charitable, benevolent, public, general or useful object or for any exhibition or any institution, club, society or fund.

(20) To establish Reserve Fund

The Directors may, before recommending any divided, set aside out of the profits of the Company such sums as they may think proper for Depreciation or to a Depreciation Fund or as Reserve or to a Reserve Fund or Sinking Fund or any Special Fund to meet contingencies or to repay redeemable preference shares or Debentures or for payment of dividends or for equalising dividends or for repairing, improving, extending and maintaining any part of the property of the Company, or for such other purposes as the Directors may in their absolute discretion think conducive to the interests of the Company, and the Directors may invest the several sums so set aside or so much thereof as required to be invested upon such investments (subject to the restrictions imposed by the Act) as the Directors may think fit and from time to time deal with and vary such investments and dispose of and apply and expend all or any part thereof for the benefit of the Company, in such manner and for such purposes as the Directors (subject to such restrictions as aforesaid) in their absolute discretion think conducive to the interest of the Company notwithstanding that the matters to which the Directors, apply or upon which they expand the same or any part thereof may be matters to or upon which the Capital moneys of the Company might rightly be applied or expended and the Directors may divide the reserve or any fund into such special fund and transfer any sum from one fund to another as a Directors may think fit and may employ the assets constituting all or any of the above funds including the Depreciation Fund, in the business of the Company or in the Purchase or repayment of redeemable preference shares and Debentures and that without being bound to keep the same separate from the other assets, and without being bound to pay interest on the same, with power however, to the Directors at their discretion to pay or allow to the credit to such fund interest at such rate as the Directors may think proper.

(21) To appoint officers etc.

To appoint and at their discretions remove or suspend such committee or committees of exports, technicians and advisers or such Managers, officers, clerks employees and agent for permanent, temporary or special services as they may from time to time think fit, and to determine their powers and duties and fix their salaries and emoluments and require security in such instances and to such amounts as they may think fit, and also without prejudice as aforesaid, from time to time to provide for the management

and transaction of the affairs of the company in any specified locality in India in such manner as they think fit and the provisions contained in sub-articles 22 and 23 following shall be without prejudice to the general powers conferred by this sub-article.

(22) To ensure compliances of local laws

To comply with the requirements of any local law which in their opinion it shall be in the interest of the company be necessary or expedient to comply with.

(23) To establish local Boards

From time to time and at any time, to establish any Local Board for managing any of the affairs of the company in any specified locality in India or elsewhere and to appoint any persons to be members of any Local Boards and to fix their remuneration. And from time to time and at any time, but subject to provisions of the Act and of these presents, to delegate to any person so appointed any of the powers. Authorities and discretions for the time being vested in the Directors, and to authorize the members for the time being of any such Local Board, or any of them to fill up any vacancies therein and to act notwithstanding vacancies and any such appointment or delegation may be made on such terms and subject to such conditions as the Directors may think fit, and the Directors may at any time remove any persons so appointed and may annul or vary any such delegation. Any such delegates may be authorized by the Directors to sub-delegate all or any of the powers, authorities and discretions for the time being vested in them.

(24) At any time and from time to time but subject to the provisions of the Act and Article 147 by power of Attorney to appoint any person or persons to be the attorney or attorneys of the company for such purposes and with such powers, authorities and discretion (not exceeding those vested in or exercisable by the Directors under these presents) and for such period and subject to such conditions as the Directors may from time think fit, and any such appointment (if the Directors think fit) may be made in favour of the members, or any of the members of any Local Board established as aforesaid or in favour of any company or members, directors, nominees or managers of any company or firm or otherwise in favour of any fluctuating Body of persons whether nominated directly or indirectly by the Directors, and any such power of Attorney may contain such powers for the protection or convenience of persons dealing with such attorneys as the Directors may think fit.

(25) Delegation of powers

Generally subject to the provisions of the Act and these Articles to delegate the powers, authorities and discretion vested in the Directors to any person, firm, company or fluctuating body or persons.

(26) Such Delegation of powers by Delegates

Any such delegate or attorney as aforesaid may be authorised by the Directors to sub-delegate all or any of the powers authorities and discretion for the time being vested in him.

(27) To enter into contracts

To enter into all such negotiations and contracts and reassign and vary all such contracts and execute and do all such acts, deeds and things in the name and on behalf of the company as they may consider expedient for or in relation to any of the matter aforesaid or otherwise for the purpose of the company.

(28) To frame, amend, alter, modify and enforce rules, regulations, bye-laws and codes of conduct for the members of the Exchange, companies seeking enlistment and other participants in such dealings in securities on the Exchange by whatsoever name called provided that the power under this clause shall be exercised only by a three-fourths majority of the Directors present and voting at a duly convened meeting of the Board.

158. Powers of the Board

- (1) The Board shall have power to organize, maintain, control, manage, regulate and facilitate the operations of the Exchange(s) and of securities transactions by trading members of the Exchange subject to the provisions of these Articles and of the SCR Act and the Rules framed there under and the SEBI Act and Rules, Regulations there under or any SEBI directives.
- (2) Subject to the provisions of these Articles and of the SCR Act and the Rules framed there under and the SEBI Act and Rules there under or any SEBI Directives, the Board shall have power and wide authority to make Rules, Bye-laws and Regulations from time to time for any or all matters relating to the conduct of the business of the Exchange, the business and transactions of trading members between trading members inter se as well as between trading members and persons who are not trading members, and to control, define and regulate all such transactions and to do such acts and things which are necessary for the purposes of the Exchange or of the company.

- (3) Without prejudice to the generality of the foregoing, the Board shall have power to make rules, bye-laws and regulations, amongst other purposes, for all or any of the following matters:-
- (a) Conditions for admission to membership of the Exchange.
 - (b) Conduct of business of the Exchange.
 - (c) Conduct of trading members with regard to the business of the Exchange, including all matters relating to all transactions in securities of all kinds and all contracts which have been made subject to Rules, Bye-Laws, Regulations or Usage of the Exchange.
 - (d) Form and conditions of contracts to be entered into, and the time, mode and manner of performance of contracts between trading members inter se or between trading members and their constituents.
 - (e) Conditions and levy for admission of securities for dealings on the Exchange.
 - (f) Time, place and manner for transacting business on the Exchange.
 - (g) Penalties for disobedience or contravention of the Rules, Bye-Laws and Regulations or of general discipline of Exchange, including expulsion or suspension of the trading members.
 - (h) Declaration of any trading member as defaulter or suspension, or resignation or exclusion from trading membership of the Exchange and of consequences thereof;
 - (i) Scale of commission or brokerage which trading members can charge;
 - (j) Conditions, levy for admission or subscription for admission to or continuance of trading membership of Exchange.
 - (k) Charge payable by trading members for transactions in such scrips as may be laid down from time to time.
 - (l) Investigations of the financial conditions, business conduct and dealings of trading members
 - (m) Settlements of disputes, complaints, claims arising between trading members and persons who are not trading members inter se as well as between trading members and persons who are not trading members relating to any transaction in securities made subject to the Rules, Byelaws and regulations and usage of the Exchange including settlement by arbitration in accordance with the Rules, Bye-laws and regulations and usage of the Exchange in force from time to time.
 - (n) Establishment and functioning of Clearing Houses(s) or other arrangements for clearing;
 - (o) Appointment of Committee or Committees for any purposes of the Exchange
- (4) The Board shall be empowered to delegate to Executive Committee(s) or to any person, all or any of the powers vested in it, to manage all or any of the affairs of the Exchange.
- (5) Subject to the provisions of these presents and the SCR Act and the Rules framed thereunder and the SEBI Act and Rules thereunder or any SEBI directives, the Board shall be empowered to vary, amend or repeal or add to Rules, Byelaws and Regulations, framed by it.

THE SEAL

159. The Seal, its custody and use

The Board shall provide a Common Seal for the purpose of the Company and shall have power from time to time to destroy the same and substitute a new seal in lieu thereof, and the Board shall provide for the safe custody of the Seal for the time being and the Seal shall never be used except by or under the authority of the Board or a Committee of Directors, except in the presence of one Director, or of the secretary or any other person who may have been authorised in this regard at the least, who shall sign every instrument to which the Seal is affixed provided that certificates of shares may be under the signatures of such persons as provided by the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 in force from time to time. Save as otherwise expressly provided by the Act a document or proceeding, requiring authentication by the Company may be signed by a Director, or the Secretary or any other officer authorised in that behalf by the Board and need not be under its Seal.

DIVIDENDS

160. Division of profits

The profit of the Company, subject to any special rights relating thereto created or authorised to be created by the Memorandum of Association or these presents and subject to the provisions of the Act, and these presents shall be divisible among the Members in proportion to the amount of capital paid up in the shares held by them respectively.

161. Capital paid up in advance at interest not to earn dividend

Where capital is paid up in advance of calls upon the footing that the same shall carry interest, such capital shall not, whilst carrying interest, confer a right (to dividend) to participate in profits.

162. Dividends in proportion to amount paid up

The Company may pay Dividends in proportion to the amounts paid up of credited as paid up on each share, where a large amount is paid up or credited as paid up on some shares then on others.

163. The Company in General Meeting may declare a dividend

The Company in General Meeting may declare a dividend to be paid to the Members according to their respective rights and interests in the profits and may fix the time for payment.

164. No larger dividend than recommended by Directors

No larger dividend shall be declared than is recommended by the Directors but the Company in General Meeting may declare a smaller dividend, subject to the provisions of Section 123 of the Act, and no dividend shall carry interest as against the Company. The declaration of the Directors as to the amount of the net profits of the Company shall be conclusive.

165. Interim dividend

The Directors may from time to time, pay to the Members such interim dividends as in their judgment the position of the Company justifies.

166. Retention of Dividends until completion of transfer under Article 58

The Directors may retain the dividends payable upon shares in respect of which any person is under Article 57 hereof, entitled to transfer until such person shall become a Member in respect of such shares.

167. No member to receive dividend while indebted to the Company and Company's right to reimbursement thereof

Subject to Section 123 of the Act, no Member shall be entitled to received payment of any interest or dividend in respect of his share or shares whilst any money may be due or owing from him to the Company in respect of such share or shares or otherwise howsoever either alone or jointly with any other person or persons and the Directors may deduct from the interest or dividend payable to any Member all sums of money so due from him to the Company.

168. Right to Dividend pending registration of transfer of Shares

Where any instrument of transfer of shares has been delivered to the Company for registration and the transfer of such shares has not been registered by the Company, it shall, notwithstanding anything contained in these Articles transfer the dividend in relation to such shares to the Unpaid Dividend Account unless the Company is authorised by the registered holder of such shares in writing to pay such dividend to the transferee specified in such instrument of transfer.

169. Special provision with reference to dividend

No dividend shall be payable except in cash, provided that nothing in this Article shall be deemed to prohibit the capitalisation of profits or reserves of the Company for the purpose of issuing fully paid up bonus shares or paying up any amount for the time being unpaid on any shares held by the Members of the Company.

170. Dividend how remitted

Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of Shares may be paid by electronic mode or by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the register of Members, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct.

170A. Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent. Payment in any way whatsoever shall be made at the risk of the person entitled to the money paid or to be paid. The Company will not be responsible for a payment which is lost or delayed. The Company will be deemed to having made a payment and received a good discharge for it if a payment using any of the foregoing permissible means is made.

170B. Any one of two or more joint holders of a Share may give effective receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of such Share.

171. Unclaimed or unpaid dividends whom the money is due

No dividend shall bear interest against the Company.

- (1) Where the Company has declared a dividend but which has not been paid or the dividend warrant in respect thereof has not been posted within 30 (thirty) days from the date of declaration to any Shareholder entitled to the payment of the dividend, the Company shall within 7 (seven) days from the date of expiry of the said period of 30 (thirty) days, open a special account in that behalf in any scheduled bank in the name of the Company and transfer to the said account, the total amount of dividend which remains unpaid or in relation to which no dividend warrant has been posted.
- (2) Subject to the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013, any money transferred to the Unpaid dividend Account of the Company which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (the "Fund").
- (3) No unclaimed or unpaid dividend shall be forfeited by the Board before the claim becomes barred by law provided that a recognized stock exchange may provisionally admit to dealing the securities of a company which undertakes to amend articles of association at its next General Meeting so as to fulfill the foregoing requirements and agrees to act in the meantime strictly in accordance with the provisions of this clause. All unclaimed and unpaid dividends shall be dealt with as per Section 125 of the Companies Act, 2013 and the rules made there under.
- (4) The Company shall not be responsible for the loss of any cheque, dividend warrant or postal order sent by post in respect of dividends, whether by request or otherwise, at the registered address or the address communicated to the office before hand by the Member or for any dividend lost to the Member or person entitled thereto by the forged endorsement of any cheque or warrant or the fraudulent recovery thereof by any other means.

172. Dividends and call together

Subject to the Act, any General Meeting declaring a dividend may make a call on the Members in respect of moneys unpaid on shares for such amount as the meeting fixes but so that the call on each Member shall not exceed the dividend payable to him and so that the call made payable at the same time as the dividend, and the dividend may, if so arranged between the Company and the Members be set off against the call.

CAPITALISATION**173. Capitalisation**

- (A) The Company in general meeting may, upon the recommendation of the Board, resolve—
 - (i) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts, or to the credit of the profit and loss account, or otherwise available for distribution; and
 - (ii) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (B) below amongst the Members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions.
- (B) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (3) below, either in or towards:
 - (a) paying up any amounts for the time being unpaid on any Shares held by such Members respectively;
 - (b) paying up in full, unissued Shares or other securities of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such Members in the proportions aforesaid;
 - (c) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in sub-clause (B);
 - (d) issuing fully paid-up bonus Shares; and
 - (e) A securities premium account and a capital redemption reserve account or any other permissible reserve account may, for the purposes of these Articles, be applied in the paying up of unissued Shares to be issued to Members as fully paid bonus Share.
- (C) A securities premium account and a capital redemption reserve account or any other permissible reserve account may, for the purposes of this Article, be applied in the paying up of unissued Shares to be issued to Members of the Company as fully paid bonus Shares;

ACCOUNTS**174. Accounts**

The Board shall cause to be kept in accordance with Section 128 of the Act proper books of account (with respect to: (a) all sums of money received, expended by the Company and the matters in respect of which such

receipt and expenditure take place (b) all sales and purchases of goods and services by the Company and (c) the assets credits and liabilities of the Company) and generally of all its commercial financial and other affairs, transaction and engagement and of all other matters, necessary for showing the true financial state and condition of the Company, and the accounts shall be kept in English and in the manner provided in Section 128 of the Act and the books of accounts shall be kept at the Registered Office or such place or places in India subject to compliance of the provisions of the Act as the Board think fit (where such a decision is taken, the Company shall, within seven days thereof, file with the Registrar a notice in writing giving the full address of that other place) and shall be open to inspection by the Directors during business hours.

175. Inspection of Members of account and books of the Company

The Board shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations the accounts and books of the Company or any of them shall be open to the inspection of Members not being Directors and no Member (not being a Director) shall have any right to inspecting and Account or book or document of the Company except as conferred by law or authorised by the Directors or by the Company in the General Meeting.

176. Financial Statements and Report to be furnished at every Annual General Meeting

At every Annual General Meeting of the Company, the Board of the Company shall lay before such meeting the financial statements for the financial year and shall as required by Section 134 of the Act, be accompanied by a Report (to be attached hereto) of the Directors as to the state and condition of the Company

177. Form and contents of financial statements

Every financial statements of the Company shall give a true and fair view of the state of affairs of the Company and shall, subject to the provisions of Section 129 and 133 of the Act, be in the Forms set out in Parts I and II respectively of Schedule III of the Act, or as near thereto as circumstances admit.

178. Authentication of financial statements and other documents; Copies thereof to be sent to Members

- (i) The financial statements of the Company shall be signed by the chairperson of the company where he is authorised by the Board or by two Directors out of which one shall be Managing Director and the Chief Executive Officer, if he is a director in the company, the Chief Financial Officer and the company secretary of the company, wherever they are appointed. The financial statements shall be approved by the Board before they are signed on behalf of the Board in accordance with the provisions of this Article and before they are submitted to the Auditor for their report thereon. The Auditor's report shall be attached to the financial statements or there shall be inserted at the foot of the financial statements a reference to the Report.
- (ii) A copy of such financial statements of audited together with a copy of the Auditor's Report shall at least twenty one days before the meeting at which the same are to be laid before the Members of the Company, subject to the provisions of Section 101 of the Act, be sent to every Member of the Company, to every trustee for the holders of any debentures issued by the Company, whether such member or trustee is or is not entitled to notices of General Meeting of the Company to be sent to him and to all other persons other than such members or trustees, being persons so entitled and a copy of the same shall be made available at the Office for inspection by the Members of the Company during a period of at least twenty one days before that meeting.

179. Copies of financial statements and Auditor's Report to be filed

After the financial statements have been laid before the Company at a General Meeting, three copies thereof signed by the Manager or Secretary or as required by Section 137 of the Act shall together with the requisite Returns in accordance with the requirements of Section 92 of the Act be filed with the Registrar of Companies within the time specified in Section 137 of the Act.

AUDIT

180. Accounts to be audited

Once at least in every year the accounts of the Company shall be balanced and audited and the correctness of the financial statements ascertained by one or more Auditor or Auditors.

181. Appointment, Qualifications and remuneration of Auditors

Appointment, re-appointment, rotation, removal, resignation, eligibility, qualification, disqualification, remuneration, powers and duties etc. of the Statutory Auditors shall be in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder.

182. Auditors : their powers and duties

- (1) Every Auditor of the Company shall have a right of access at all the times to the books and accounts and vouchers of the Company and shall be entitled to require from the Directors and officers of the Company, such information and explanations as may be necessary for the performance of the duties of the Auditors and the Auditors shall make report to the Shareholders on the accounts examined by them and on every financial

statements which are required by and under the Act are laid before the Company in General Meeting, and the report shall state whether in their opinion and to the best of their information and knowledge, the said Accounts, give a true and fair view the state of the Company's affairs as at the end of its financial year and profit and loss and cash flow for the year and the such other matters as may be prescribed.

- (2) The Auditors Report shall also state the matters prescribed under the Section 143 of the Act.

183. Auditors' right to attend Meetings

All notices of and other communications relating to any General Meeting of the Company which any Member of the Company is entitled to have sent to him shall also be forwarded to the Auditors of the Company and the Auditors shall be entitled to attend either by himself or through his authorized representative, who shall also be qualified to be an auditor, and to be heard at any General Meeting which they attend or any part of the business which concerns them as Auditors.

NOTICE

184. Notice

- (1) A document (which includes any summons, notice, requisition, order, declaration, form and register) may be served on any member by sending it to him by post or by registered post or by speed post or by courier or by delivering at his office or address, or by electronic mode or any other modes as prescribed under the Act.
- (2) Such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a Meeting at the expiry of forty eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post. The Member may request for delivery of any document through a particular mode, for which he shall pay such fees as may be determined in accordance with the Act.

185. Persons entitled to notice of General Meetings

Notice of every General Meeting shall be given in same manner hereinbefore authorised to (a) every member of the company (including bearers of share warrants), (b) every person entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a Member who but for his death or insolvency would be entitled to receive notice of the meeting to (c) the Auditor or Auditors of the company and also to (d) every Director of the Company.

186. Notice by Company and signature thereto

Any notice to be given by the company shall be signed by the secretary (if any) or by such officer as the Directors may appoint, such signature may be written, printed or lithographed.

187. Transfers etc. bound by prior notice

Every person who, by operation of law, transfer or other means whatsoever, shall become entitled to any share, shall be bound by every notice in respect of such share, which previously to his name and address and title to the share being notified to the company, shall have been duly given to the person from whom he derives his title to such share.

188. Notice valid though Member deceased

Subject to the provisions of the Act, any notice given in pursuance of these presents or documents delivered or sent by post to or left at the registered address of any Member or at the address given by him under Article 185 in pursuance of these presents, shall notwithstanding such Member be then deceased and whether or not the company have notice of his decease be deemed to have been duly served in respect of any registered share, whether held solely or jointly with other persons by such Member until some other persons be registered in his stead as the holder or the joint holder thereof, and such service shall for all purposes of these presents be deemed a sufficient service of such notice or document on his or her heir executors or administrators and all persons, if any jointly interested with him or her in any such share.

SECRECY CLAUSE

189. Secrecy Clauses

No member shall be entitled to require discovery of or any information respecting any detail of the company's trading (or of the exchange.) or any matter which may be in the nature of a trade secret, mystery of trade or secret process which may relate to the conduct of the business of the company and which in the opinion of the Directors, will be inexpedient in the interest of the Members of the company to communicate to the public.

INDEMNITY AND RESPONSIBILITY

190. Directors and Other's right to indemnity

- (1) Subject to the provisions of the Act, the Board of Directors, Managing Director, Managers, Secretary and other officers or other employees for the time being of the company, Auditor and the Trustees, if any, for the time being acting in relation to any of the affairs of the company and every one of them and every one of their heirs, executors and administrators shall be indemnified and secured harmless out of the assets and profits of the

company from and against all actions, costs, charges, losses, damages and expenses which they or any of them, their heirs, executors or administrators shall or may incur or sustain by or reason of any act done, concurred in or omitted in or about the execution of their duty, or supposed duty in their respective offices or trusts except such, if any, as they shall incur or sustain through or by their own willful neglect or default respectively.

- (2) Save and except so far the provisions of this Article shall be avoided by the Act, none of them shall be answerable for the acts, receipts, neglects or defaults of the other or other of them, or for joining in any receipt for the sake of conformity, or for insolvency of any bankers or other persons with whom any money's or effects belonging to the company shall or may be lodged or deposited for safe custody or for the insufficiency or deficiency of any security upon which any money's belonging to the company shall be placed out or invested or invested or for any other loss, misfortune or damage which may happen in the execution of their respective offices or trusts or in relation thereto, except when the same shall happen by or through their own willful neglect or default respectively.
- (3) Subject to the provisions of the Act, no Director or other officer of the company shall be liable for the acts, receipts, neglect or default of any other Director or officer of the company or for joining in any receipt or other act for conformity for any loss or expenses happening to the company through the insufficiency or deficiency to title to any property acquired by the order of the Director for or on behalf of the company or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the moneys of the company shall be invested or for any loss damage arising from the bankruptcy, insolvency or tortuous act or any person with whom any moneys, securities or effects shall be deposited or for any loss occasioned by any error of judgment or oversight on his part, or for any other loss, or damage whatsoever, which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto unless the same happens through his own negligence or dishonesty.
- (4) Subject to the provisions of the Act (including Section 197 read with Section 196 and Schedule V) and rules made thereunder, if the Company has obtained an insurance on behalf of its Managing Director, Whole-Time Director, Manager, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer or Company Secretary for indemnifying any of them against any liability in respect of any negligence, default, misfeasance, breach of duty or breach of trust for which they may be guilty in relation to the Directors and other's right to indemnity treated as part of the remuneration payable to any such personnel. Provided that if such person is proved to be guilty, the premium paid on such insurance shall be treated as part of the remuneration.

WINDING UP

191. Distribution of assets on winding up

- (1) If the company shall be wound up and assets available for distribution among the Members as such shall be insufficient to repay the whole of the paid-up capital, such assets shall be distributed so that as nearly may be, the losses shall be borne by the Members in proportion to the capital paid-up or which ought to have been paid up at all commencement of the winding up on the shares held by them respectively and if in a winding up the assets available for distribution among the Members shall be more than sufficient to repay the whole of the capital paid-up at the commencement of the winding up, the excess shall be distributed among the Members in proportion to the capital at the commencement of the winding up paid up or which ought to have been paid up on the shares held by them respectively.

- (2) **Manner of distribution of assets**

If the company shall be wound up, whether voluntarily or otherwise, the Liquidator may with the sanction of special resolution divide among the contributors, in specie or in kind, the whole or any part of the assets of the company and may, with like sanction, vest any part of the assets of the Company in trustees upon such trusts for the benefit of the contributors or any of them, as the Liquidator, with the like sanction shall think fit, but so that no contributor shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.

GENERAL POWER

- 192A. Wherever in the Act, it has been provided that the Company shall have any right, privilege or authority or that the Company could carry out any transaction only if the Company is so authorized by its articles, then and in that case this Article authorizes and empowers the Company to have such rights, privileges or authorities and to carry such transactions as have been permitted by the Act, without there being any specific Article in that behalf herein provided.
- 192B. Further, where the Act or rules empowers the Board to exercise any powers for and on behalf of the Company, the Board shall be entitled to exercise the same, irrespective of whether the same is contained in this Articles or not.
- 192C. The provisions of the Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles. Any provision contained in these Articles shall, to the extent to which it is repugnant to the provisions of the Act, become or be void, and the same shall without affecting other provisions contained in these Articles.
- 192D. The provisions of these Articles must be read in conjunction with the Securities Contracts (Regulation)(Stock

Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 as amended, and other rules, regulations, circulars, notifications, orders or directions issued by Securities and Exchange Board of India from time to time (each to the extent applicable).

The Article shall be signed by each subscriber of Memorandum of association who shall add his address, description and occupation, if any, in the presence of at least one witness who shall attest the signature and shall likewise add his address, description and occupation, if any, and such signatures shall be in form specified below:

SL. NO	Name, Address, Occupation & father's name of the Subscriber(s)	Signature of the Subscriber	Name, Address, Occupation and Signature of the Witness
1	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza C-1 Block G, Bandra - Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051 through its Authorised representative Mr. Madhavan Sampath, S/o Shri Sampath Kumar, vide Board Resolution dated June 23, 2016 Address: 302, Purbhani, Swastika Park, Chembur, Mumbai- 400071 Occupation- Service	-sd/-	I Witness to Subscribers who have Subscribe and signed in my presence, Further I have verified their identity details (ID) for their identification and satisfied myself of their identification particulars as filled in. Jatin H Kapadia -sd/- Company Secretary ACS: 26725 CP:12043
2	Mukesh Agarwal S/o Shanbhu Dayal Agrawal Address: 904-A, Paradise, Raheja Vihar, Opp. Chandivali Studio, Powai, Mumbai 400072	-sd/-	
3	Mosalkanti Vasudev Rao Address: E- 2/ 902, Hyde Park Residency Tulsidham Thane(w)- 400607 S/o Shri Mosalkanti Narsing Rao Occupation- Service	-sd/-	
4	Vitthal More S/o Shri. Pandurang More Address: Flat no 10, Vani CHS, Sector 6, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614 Occupation- Service	-sd/-	
5	Sandip Nagindas Mehta S/o Nagindas Amritlal Mehta Address- 301 Glengate Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai- 400076 Occupation- Service	-sd/-	
6	Ravindra Mohan Bathula S/o Chinna Apparao Bathula Address: A-405, Lake Pleasant, Lake Homes, Powai, Mumbai- 400076. Occupation- Service	-sd/-	
7	Arindam Saha S/o Dilip Kumar Saha Address: 18A, Tara Sankar Sarani, Kolkata - 700037 Occupation- Service	-sd/-	

Place: Mumbai

Date: 16 November, 2016

For NSE IFSC Limited
Sandip Mehta
Chief Executive Officer

The provisions contained in the Byelaws of NSE IFSC Limited are given hereunder:

NSE IFSC LIMITED

BYELAWS

ARRANGEMENT OF CHAPTERS

Chapter	Description
	Definitions
I.	Committee
II.	Regulations
III.	Dealings in Securities
IV.	Trading Members
V.	Participants
VI.	Dealings by Trading Members
VII.	Trading System and Market Makers
VIII.	Transactions and Settlements
IX.	Rights & Liabilities of Members and Constituents
X.	Arbitration
XI.	Default
XII.	Investor Protection Fund
XIII.	Miscellaneous

DEFINITIONS

- (1) "Board" means Board of Directors of the Exchange.
- (2) "Exchange Securities" means the securities which have been admitted to the Official List(s) of securities to trade on the Exchange.
- (3) "Exchange" means the Stock Exchange(s) operated by NSE IFSC Limited.
- (4) "Committee" means the Committee of the Exchange formed in accordance with Chapter I.
- (5) IFSC means International Financial Services Centre as defined by SEBI under the Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015.
- (6) "Issuer" includes a Government, a body corporate or other entity, whether incorporated or not, which issues any security or other instrument, or draws or accepts a negotiable instrument which is admitted to dealings on the Exchange.
- (7) "Market-Maker" means a trading member registered under Chapter VII.
- (8) "Official List of Exchange Securities" means the list of securities which are listed or permitted to trade on the Exchange.
- (9) "Participant" means a constituent who is registered by the relevant authority from time to time under Chapter V of the Bye Laws.
- (10) "Regulations", unless the context indicates otherwise, includes business rules, code of conduct and such other regulations prescribed by the relevant authority from time to time for the operations of the Exchange and these shall be subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Rules and Regulations thereunder, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and Rules, Regulations or directions or guidelines thereunder
- (11) "Relevant Authority" means the Board or such other authority as specified by the Board from time to time as relevant for a specified purpose.

- (12) "Rules", unless the context indicates otherwise, means rules as mentioned hereunder for regulating the activities and responsibilities of trading members of the Exchange and as prescribed by the relevant authority from time to time for the constitution, organisation and functioning of the Exchange and these rules shall be subject to the provisions of the Securities Law.
- (13) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India.
- (14) "Securities" shall mean securities as permitted by SEBI from time to time to be traded on a stock exchange in IFSC.
- (15) "Securities Laws" shall include Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Rules and Regulations thereunder, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and Rules, Regulations, directions or guidelines thereunder including Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015
- (16) "Security admitted to dealings" includes a security which is listed or permitted to trade on Exchange.
- (17) "Trading Member" means a Stock broker and the member of the Exchange registered in accordance with Chapter IV of the Bye-Laws.
- (18) "Trading system of the Exchange" means a system which makes available to trading members and the investing public, by whatever method, quotations in Exchange Securities and disseminates information regarding trades effected, volumes, etc. and such other notifications as may be placed thereon by the Committee.

CHAPTER I

COMMITTEE

- (1) Committee(s) shall be appointed by the Board for the purposes of managing the day to day affairs of the Exchange in such manner as laid down in the Rules.
- (2) The Committee(s) of the Exchange shall have such responsibilities and powers as maybe delegated to it by the Board as provided for in the Rules.

CHAPTER II

REGULATIONS

- (1) The relevant authority may prescribe Regulations from time to time for the functioning and operations of the Exchange and to regulate the functioning and operations of the trading members of the Exchange.
- (2) Without prejudice to the generality of (1) above, the relevant authority may prescribe regulations from time to time, inter alia, with respect to:
 - (a) norms, procedures, terms and conditions to be complied with for inclusion of securities in the Official List of Exchange Securities;
 - (b) fees payable by an Issuer for inclusion and continued inclusion in the Official List of Exchange Securities;
 - (c) norms and procedures for admission of trading members in accordance with Chapter IV;
 - (d) norms and procedures for approval of market-makers to act as such;
 - (e) forms and conditions of contracts to be entered into, and the time, mode and manner for performance of contracts between trading members inter se or between trading members and their constituents;
 - (f) determination from time to time, of fees, system usage charges, deposits, margins and other monies payable to the Exchange by trading members, participants and by Issuers whose securities are admitted/to be admitted to dealings on the Exchange and the scale of brokerage chargeable by trading members;
 - (g) prescription, from time to time, of capital adequacy and other norms which shall be required to be maintained by trading members;
 - (h) supervision of the market and promulgation of such Business Rules and Codes of Conduct as it may deem fit;
 - (i) maintenance of records and books of accounts by trading members as it may deem fit and records as required under the Securities Laws;
 - (j) inspection and audit of records and books of accounts;

- (k) rescription, from time to time, and administration of penalties, fines and other consequences, including suspension /expulsion for defaults or violation of any requirements of the Bye Laws and Regulations and the Rules and Codes of Conduct and criteria for readmission, if any, promulgated thereunder;
- (l) disciplinary action/procedures against any trading member;
- (m) settlement of disputes, complaints, claims arising between trading members inter-se as well as between trading members and persons who are not trading members relating to any transaction in securities made on the Exchange including settlement by arbitration;
- (n) norms and procedures for arbitration;
- (o) administration, maintenance and investment of the corpus of the Fund(s) set up by the Exchange including Investor Protection Fund;
- (p) norms and procedures for settlement and clearing of deals, including establishment and functioning of clearing house or other arrangements for clearing and settlement;
- (q) norms, procedures, terms and conditions for registration and continuance of registration of Participants;
- (r) norms and procedures in respect of, incidental or consequential to closing out of contracts, deals or transactions;
- (s) dissemination of information, announcements to be placed on the trading system;
- (t) any other matter as maybe decided by the Board.

CHAPTER III

DEALINGS IN SECURITIES

Dealings Allowed

- (1) Dealings in securities shall be permitted on the Exchange as provided in these Bye Laws and Regulations and save as so provided, no other dealings are permitted.

Admission of Securities to Dealings

- (2)
 - (a) Dealings are permitted on the Exchange in accordance with the provisions prescribed in these Bye Laws and Regulations in that behalf, in securities which are, from time to time, listed or permitted to trade on the Exchange by the relevant authority.
 - (b) Admission of securities to listing on the Exchange shall be in accordance with provisions prescribed in these Bye Laws and Regulations in that behalf.
 - (a) The relevant authority may admit from time to time securities which are permitted to trade on the Exchange.

Dealings in Securities Dealt on other Stock Exchanges

- (3) Without prejudice to the generality of Byelaw (2) above, the relevant authority may in its discretion and subject to such conditions as it may deem proper, permit dealings in any securities admitted to dealings on any other Stock Exchange or which are regularly dealt in on such Stock Exchange.

Application for Admission to Listing

- (4) Applications for admission of securities to listing on the Exchange shall be made to the relevant authority in such form as the relevant authority may from time to time prescribe.

Conditions and Requirements of Dealings

- (5) The relevant authority may not grant admission to dealings to the securities of an Issuer unless it complies with the conditions and requirements prescribed in these Bye Laws and Regulations and such other conditions and requirements as the relevant authority may from time to time prescribe.

Refusal of Admission to Listing

- (6) The relevant authority may, in its discretion, approve subject to such terms as it deems proper, or defer, or reject any application for admission of a security to listing on the Exchange.

Fees

- (7)
 - (a) Issuers whose securities are granted admission to dealings on the Exchange shall pay such listing and such other fees and such other deposits as the relevant authority may from time to time determine.

- (b) Every Issuer shall comply with the conditions of the Listing Agreement as prescribed by Exchange and/or SEBI from time to time and shall be liable to pay such fine(s) as may be prescribed by Exchange and/or SEBI from time to time for non-compliance of provisions of the Listing Agreement or any of the SEBI Regulations dealing with listing as may be applicable to Issuers listed on Exchange.

Specific Deals

- (8) The relevant authority may permit specific deals to be made in the case of securities of Issuers not admitted to dealings on the Exchange, which for the time being are prohibited or suspended for dealings.

Prohibited Dealings

- (9) The relevant authority may prohibit dealings on the Exchange in any security or securities for any cause.

Suspension of Admission to Dealings on the Exchange

- (10) (a) The relevant authority may suspend at any time the admission to dealings on the Exchange granted to any security for such period as it may determine. At the expiration of the period of suspension the relevant authority may revoke the suspension subject to such conditions as it deems fit.
- (b) The manner of suspension and revocation of suspension of admission to dealings on the Exchange shall be in accordance with the procedures prescribed by Exchange and/ or SEBI from time to time.

Withdrawal of Admission to Dealings on Redemption or Conversion

- (11) The relevant authority may, if necessary, withdraw admission to dealings granted to securities which are about to be exchanged or converted into other securities as a result of any scheme of reorganisation or reconstruction or which being redeemable or convertible securities are about to fall due for redemption or conversion.

Withdrawal of Admission to Dealings on Liquidation or Merger

- (12) If any issuer be placed in final or provisional liquidation or is about to be merged into or amalgamated with another entity, the relevant authority may withdraw the admission to dealings on the Exchange granted to its securities. The relevant authority may accept such evidence as it deems sufficient on such liquidation, merger or amalgamation. Should the merger or amalgamation fail to take place or should an issuer placed in provisional liquidation be reinstated and an application be made for readmission of its securities to dealings on the Exchange, the relevant authority shall have the right of approving, refusing or deferring such application.

Withdrawal of Admission to Dealings on the Exchange

- (13) The relevant authority may, where deemed necessary, after giving an opportunity to the issuer to explain, withdraw the admission to dealings on the Exchange granted to its securities either for breach of or non-compliance with any of the conditions or requirements of admission to dealings, or for any other reason whatsoever.

Readmission to Dealings on the Exchange

- (14) The relevant authority in its discretion may readmit to dealings on the Exchange the securities of an issuer whose admission to dealings has been previously withdrawn.

CHAPTER IV

TRADING MEMBERS

Appointment and Fees

- (1) (a) The relevant authority is empowered to admit trading members in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations it may frame from time to time in accordance with the Securities Laws.
- (b) The relevant authority may specify prerequisites, conditions, formats and procedures for application for admission, termination, re-admission, etc. of trading members to the Exchange. The relevant authority may, at its absolute discretion, refuse permission to any applicant to be appointed as trading member.
- (c) The trading member shall pay such fees, security deposits and other monies as may be specified by the relevant authority from time to time, on admission as trading member and for continued admission. The fees, security deposits, other monies and any additional deposits paid, whether in the form of cash, Bank Guarantee, Securities or otherwise, with the Exchange, by a trading member from time to time, shall be subject to a first and paramount lien for any sum due to the Exchange and all other claims against the trading member for due fulfillment of engagements, obligations and liabilities of trading members arising out of or incidental to any dealings made subject to the Byelaws, Rules and Regulations of the Exchange. The Exchange shall be entitled to adjust or appropriate such fees, deposits and other monies for such dues and claims, to the exclusion of the other claims against the trading member, without any reference to the trading member.

- (d) Trading member may trade on the Exchange in the Exchange Securities.
- (e) Trading members may trade in relevant securities either on their own account as principals or on behalf of their clients unless otherwise specified by the relevant authority and subject to such conditions which the relevant authority may prescribe from time to time. They may also act as market-makers in such securities if they are so authorised and subject to such conditions as under Chapter VII.

Conditions

- (2)
 - (a) Trading members shall adhere to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange and shall comply with such operational parameters, rulings, notices, guidelines and instructions of the relevant authority as may be applicable.
 - (b) All contracts issued for deals on the Exchange shall be in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.
 - (c) Trading members shall comply with such Exchange requirements as may be prescribed by the relevant authority from time to time with regard to advertisements and issue of circulars in connection with their activities as trading members.
 - (d) Trading members shall furnish declarations relating to such matters and in such forms as may be prescribed by the relevant authority from time to time.
 - (e) Trading members shall furnish to the Exchange an annual Auditors' Certificate certifying that specified Exchange requirements as may be prescribed from time to time by the relevant authority pertaining to their operations have been complied with.
 - (f) Trading members shall furnish such information and periodic returns pertaining to their operations as may be required by the relevant authority from time to time.
 - (g) Trading members shall furnish to the extent such audited and/or unaudited financial or quantitative information and statements as may be required by the relevant authority from time to time.
 - (h) Trading members shall extend full co-operation and furnish such information and explanation as may be required for the purpose of any inspection or audit authorised by the relevant authority or other authorised official of the Exchange into or in regard to any trades, dealings, their settlement, accounting and/or other related matters.
 - (i) A trading member shall not deal with sub-brokers who are not registered with SEBI nor allow operation of its trading terminal at any office other than its registered office, branch offices and the offices of its registered sub-brokers.

CHAPTER V

PARTICIPANTS

Registration of Participants on application

- (1) The relevant authority may register as a "Participant", those from amongst the constituents as are desirous of registering themselves as such, in accordance with these Bye Laws and Regulations framed from time to time, for such purpose and subject to such terms and conditions as may be prescribed by the relevant authority.

Suo Moto Registration of Participant

- (2) Notwithstanding anything contained in Byelaw (1) above, the relevant authority may suo moto register as a 'Participant' those from amongst the constituents as, in the opinion of the relevant authority for reasons to be recorded, should be so registered, subject to such terms and conditions as may be prescribed by the relevant authority.

Rights and Liabilities of Participants

- (3)
 - (a) Notwithstanding any provisions to the contrary as may be contained in any other part of the Bye Laws especially VI(3) (a), the Exchange may recognise a Participant as a party to the deal or trade made, firmed up or contracted by the Participant through a trading member of the Exchange, for such purposes (including for clearing and settlement) subject to such terms, conditions and requirements and in such circumstances as may be prescribed by the relevant authority from time to time
 - (b) Save as otherwise provided in these Bye Laws and Regulations, recognition of the Participant by the Exchange as a party to the deal or trade made, firmed up or contracted by the Participant through the trading member, shall not in any way affect the jurisdiction of the Exchange on the concerned trading member in regard thereto and such trading member shall continue to remain responsible, accountable and liable to the Exchange in this behalf.

- (4) The relevant authority may prescribe from time to time such guidelines governing the functioning and operation of the Participants on the Exchange and conditions for continuance of their registration or recognition. Without prejudice to the generality of the foregoing, such norms, requirements and conditions may include prescription of, inter alia, deposits, margins, fees, system usage charges, system maintenance/propriety, etc.
- (5) Rights and liabilities of the Participants as mentioned in this Byelaw are in addition to their rights and liabilities under these Bye Laws as Constituents, save where a specific provision of these Bye Laws or Regulations prescribed from time to time regarding any right or liability of a Participant is at variance with that applicable to a Constituent. In the event of such a variance, the specific provision by virtue of the terms and conditions of their registration with the Exchange, regarding any right or liability of a Participant shall prevail.
- (6) Rights and liabilities of the Participants shall be subject to these Bye Laws and Regulations as maybe prescribed by the relevant authority from time to time.
- (7) Subject to the regulations prescribed from time to time, the relevant authority shall at any time be entitled to cancel the registration or recognition of a Participant on such terms and conditions as the relevant authority may specify. Save as otherwise expressly provided in the regulation or in the decision of the relevant authority, all rights and privileges available to the Participant shall accordingly stand terminated on such cancellation.
- (8) At the discretion of the Exchange, and subject to such regulations as may be prescribed or other terms and conditions as may be stipulated by the relevant authority, the Participant may be permitted conditional and / or limited access to the trading system or any part thereof, as may be decided by the relevant authority from time to time.

CHAPTER VI

DEALINGS BY TRADING MEMBERS

Jurisdiction

- (1)
 - (a) Any deal entered into through automated trading system of the Exchange or any proposal for buying or selling or any acceptance of any such proposal for buying and selling shall be deemed to have been entered at the computerised processing unit of the Exchange at IFSC and the place of contracting as between the trading members shall be at IFSC. The trading members of the Exchange shall expressly record on their contract note that they have excluded the jurisdiction of all other Courts save and except, Civil Courts in Gandhinagar in relation to any dispute arising out of or in connection with or in relation to the contract notes, and that only the Civil Courts at Gandhinagar have exclusive jurisdiction in claims arising out of such dispute. The provisions of this Byelaw shall not object the jurisdiction of any court deciding any dispute as between trading members and their constituents to which the Exchange is not a party.
 - (b) The record of the Exchange as maintained by a central processing unit or a cluster of processing units or computer processing units, whether Maintained in any register, magnetic storage units, electronic storage optical storage units or computer storage units or in any other manner shall constitute the agreed and authentic record in relation to any transaction entered into through automated trading system. For the purposes of any dispute the record as maintained by the computer processing units by the Exchange shall constitute valid evidence in any dispute or claim between the constituents and the trading member of the Exchange or between the Trading members of the Exchange inter-se.

Indemnity

- (2) The Exchange shall not be liable for any unauthorised dealings on the Exchange by any persons acting in the name of trading member(s).

Trading Members Only Parties to Trades

- (3)
 - (a) The Exchange does not recognise as parties to any deal any persons other than its own trading members, and
 - (b) Every trading member is directly and wholly liable, in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange, to every other trading member with whom such trading member effects any deal on the Exchange for due fulfillment of the deal, whether such deal be for account of the trading member effecting it or for account of a constituent.

All Dealings Subject to Bye Laws, Rules and Regulations

- (4) All dealings in securities on the Exchange shall be deemed made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange and this shall be a part of the terms and conditions of all such deals and the deals shall be subject to the exercise by the relevant authority of the powers with respect thereto vested in it by the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.

Inviolability of Trade

- (5) (a) All the dealings in securities on the Exchange made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange shall be in-violable and shall be cleared and settled in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange. However, the Exchange may by a notice annul the deal(s) on an application by a Trading Member in that behalf, if the relevant authority is satisfied after hearing the other party/parties to the deal(s) that the deal(s) is/are fit for annulment on account of fraud or willful misrepresentation or material mistake in the trade.
- (b) Notwithstanding anything contained in clause (a) above, the Exchange may, to protect the interest of investors in securities and for proper regulation of the securities market, suo motu annul deal(s) at any time if the relevant authority is satisfied for reasons to be recorded in writing that such deal(s) is/are vitiated by fraud, material mistake, misrepresentation or market or price manipulation and the like.
- (c) Any annulment made pursuant to clauses (a) and (b) above, shall be final and binding upon the parties to trade(s). In such an event, the trading member shall be entitled to cancel the relevant contracts with its constituents.

Deals by Representative trading members

- (6) (a) A trading member may authorise another trading member to act as a representative for a specified period with the prior permission of the relevant authority.
- (b) When a trading member employs another trading member as a representative to put through the transaction of a constituent, such representative shall report the transaction to the employing trading member at the same price as dealt in the market and the employing trading member shall report the same price to the constituent in respect of such transaction.

Restriction on the trading members

- (7) Unless the Exchange otherwise specifies, a Trading Member shall not become a constituent of another Trading Member.

CHAPTER VII**TRADING SYSTEM AND MARKET MAKERS**

- (1) Securities which will be eligible for market making, if at all, will be specified by the relevant authority from time to time.

Registration of Market Makers

- (2) (a) Trading members may apply to be market makers in any security eligible for market making.
- (b) No trading member shall act as a market maker unless such Member is approved in accordance with this Bye Law and the approval has not been suspended or cancelled. Application for registration shall be in such and with such particulars as maybe prescribed from time to time.
- (c) A market maker shall apply to be registered to the relevant authority before commencing market making operations in each relevant security. If the relevant authority is satisfied, it shall within fifteen business days of receipt of such notification, designate the market maker as a registered market maker for that security. A registered market maker shall not commence to make a market in any relevant security until one business day after notice of its registration has been disseminated through the Trading system.
- (d) A registered market maker in any Exchange security must :
- (i) undertake to make bid and offer quotations in the trading system with respect to that security and to effect transactions in a minimum quantity of such other number of securities as may be prescribed from time to time at its quoted price per business day;
- (ii) undertake to make market for the security for as long as prescribed from time to time from the date the security becomes available for trading by public in the case of a registered market makers approved under Byelaw 2(b) above.
- (iii) undertake to execute orders for the purchase or sale of relevant securities at its quoted prices with trading members or clients.
- (e) A registered market maker may cease making a market in a particular Exchange security any time after a minimum period as prescribed from time to time from commencement of making market in that security, after having given the required notice of intention to the relevant authority. The required period of notice in this case shall be fifteen business days or such other period as maybe prescribed from time to time.

- (f) A registered market maker may cease making a market in that security provided formal approval has been obtained from the relevant authority. Such approval will normally be granted in situations where, in the opinion of the relevant authority, it is either impractical or undesirable for the registered market maker to continue to operate on account of events beyond its control.
- (3) An obligation may be imposed on a trading member taking up market making operations in certain securities to take up additional market making operations in certain other securities as determined by the relevant authority from time to time.

Suspension and Prohibition of Market Makers

- (4) (a) The relevant authority may limit or prohibit the authority of a registered market maker to display on or enter quotations into the trading system or deal in the securities in which he is registered as a market maker if:
 - (i) such market maker has been or is expelled or suspended from membership of the Exchange, or is unable to comply with the Exchange's Bye Laws, Rules and Regulations or whose registration is cancelled by the Securities and Exchange Board of India;
 - (ii) such market maker has defaulted on any transaction effected in respect of Exchange securities;
 - (iii) such market maker is in such financial or operating difficulty that the relevant authority determines that such market maker cannot be permitted to display on or enter quotation into the trading system with safety to investors, creditors, other trading members of the Exchange;
 - (iv) where such market maker in the view of the relevant authority, ceases to meet qualification requirements for registration as market maker.
- (b) Any market maker which the relevant authority takes action against pursuant to Byelaw 4 (a) above shall be notified in writing of such action. Such a market maker shall forthwith cease to make market.
- (c) Any market maker against which the relevant authority takes action may request an opportunity for a hearing within ten days of the date of notification pursuant to Byelaw 4 (b) above. A request for hearing shall not operate as a stay of action.
- (d) A written decision shall be issued within one week of the date of hearing and a copy shall be sent to the market maker.
- (e) On revocation of suspension or prohibition, the market maker can display on or enter quotations into the trading system.

Operational Parameters for Market Makers

- (5) The relevant authority may determine and announce from time to time operational parameters for market makers which registered market makers shall adhere to.
- (6) The operational parameters may, inter alia, include :
 - (a) limit of spread between bid and offer rates for different securities, if found necessary;
 - (b) fixation of market lots, and/or minimum number of securities to be offered to be bought or sold;
 - (c) limit of variation within a day or between days in bid and offer prices;
 - (d) the minimum stock of scrips which the trading member must maintain, below which he must intimate the relevant authority;
 - (e) in the event of stock of scrips with a market maker being sold out, allowing the market maker to quote only purchase price offers till such time as marketable lot of securities is built up to re-commence selling operations; and
 - (f) other matters which may affect smooth operation of trading in securities in which he acts as a market maker, keeping in view larger interest of the public.

CHAPTER VIII

TRANSACTIONS AND SETTLEMENTS

Transactions

Business Hours

- (1) The business hours for dealing in the Exchange Securities on the Exchange shall be during such time as may be decided by the relevant authority from time to time. The relevant authority may, from time to time, specify business hours for different types of deals.

- (2) The relevant authority may declare a list of holidays in a calendar year. The relevant authority may from time to time alter or cancel any of the Exchange holidays fixed in accordance with these provisions. It may, for reasons to be recorded, close the market on days other than or in addition to holidays.

Trading System

- (3) (a) Deals may be effected through order driven, quote driven (market makers) or such other system as the Exchange may put in place from time to time.
- (b) Deals between trading members may be effected by electronic media or computer network or such other media as specified by the relevant authority from time to time.
- (c) Deals may be effected on such basis as may be specified by the relevant authority from time to time, subject to the Securities Laws.

Transaction at Best Quotation

- (4) In transaction with or on behalf of clients, trading members must indicate to the clients the current best quotation as reflected in the trading system.

Operational Parameters for Trading

- (5) The relevant authority may determine and announce from time to time operational parameters regarding dealing of securities on the Exchange which trading members shall adhere to.
- (6) The operational parameters may, inter alia, include :
- (a) trading limits allowed which may include trading limits with reference to net worth and capital adequacy norms;
- (b) trading volumes and limits at which it will be incumbent for trading members to intimate the Exchange;
- (c) limit of spread between bid and offer rates for different securities, if found necessary;
- (d) fixation of market lots, and/or minimum number of securities to be offered to be bought or sold;
- (e) limit of variation within a day or between days in bid and offer prices;
- (f) other matters which may affect smooth operation of trading in securities keeping in view larger interest of the public;
- (g) determine the types of trades permitted for a member and a security;
- (h) determining functional details of the trading system including the system design, users infrastructure, system operation.

Suspension on Failure to meet Trading Limits

- (7) A trading member failing to restrict dealings on the Exchange to its trading limits as provided in these Bye Laws and Regulations shall be required by the relevant authority to reduce dealings to within trading limits forthwith. The relevant authority at its discretion may suspend a trading member for violation of trading limits and the suspension shall continue until the relevant authority withdraws such suspension.

Contract Notes

- (8) Contract Notes shall be issued within such period as may be specified by the relevant authority from time to time for deals effected with clients or on behalf of clients, and will contain such details as the relevant authority may specify from time to time. The contract notes shall specify that the deal is subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange and subject to arbitration as provided therein.
- (9) Details of all deals effected, as may be specified, shall be communicated to the offices of the Exchange on the day of the transaction.
- (10) Unless otherwise provided in these Bye Laws, all dealings carried out in respect of Exchange securities shall be subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.

Delivery of securities

- (11) Delivery of all securities, documents and papers and payments in respect of all deals shall be in such manner and such place(s) as may be prescribed by the relevant authority from time to time.
- (12) The relevant authority shall specify from time to time, the securities, documents and papers which, when delivered in prescribed manner, shall constitute good delivery. Where circumstances so warrant, the relevant authority may determine, for reasons to be recorded, whether or not a delivery constitutes a good delivery and such finding shall be

binding on the parties concerned. Where the relevant authority determines that a delivery does not constitute a good delivery, the delivering party shall be required to substitute good delivery instead within such time period as maybe specified.

- (13) The norms and procedures for delivery with respect to market lot, minimum lot, part delivery, etc. shall be as prescribed by the relevant authority from time to time.
- (14) The requirements and procedures for determining disputed deliveries or defective deliveries, and measures, procedures and system of resolving the dispute or defect in deliveries or of consequences of such deliveries or the resolution shall, subject to these Bye Laws, be as prescribed by the relevant authority from time to time.

Clearing and Settlement

- (15) Clearing and Settlement of deals shall be effected by the parties concerned by adopting and using such arrangements, systems, agencies or procedures as may be prescribed or specified by the relevant authority from time to time. Without prejudice to the generality of the foregoing, the relevant authority may prescribe or specify, for adoption and use by the trading members, participants, and other specified constituents, such custodial and depository services from time to time to facilitate smooth operation of the clearing and settlement arrangement or system.
- (16) The function of the clearing house may be performed by the Exchange or any agency identified by the relevant authority for this purpose. The role of the clearing house shall be to act as a facilitator for processing of deliveries and payments between trading members/participants for trades effected by them on the Exchange. Settlement in the Exchange shall be either on netted basis, gross basis, trade for trade basis or any other basis as may be specified by the relevant authority from time to time. Save as otherwise expressly provided in the regulations, when funds and securities are, under a prescribed arrangement, routed through the clearing house, the settlement responsibility shall rest wholly and solely upon the counter parties to the trade and /or the concerned trading members as the case may be and the clearing house shall act as the common agent of the trading members / Participants for receiving or giving delivery of securities and for receiving and paying funds, without incurring any liability or obligation as a principal.

Clearing and Settlement through a recognized Clearing Corporation

- (17) The trades executed on the Exchange, as specified by the relevant authority, may be cleared and settled through a recognized Clearing Corporation in IFSC. In such an eventuality, the clearing and settlement of such trades shall be subject to the Rules, Byelaws and Regulations of the recognized Clearing Corporation. In case of a conflict between the Rules, Byelaws, Regulations and Circulars issued thereunder by the Exchange and the Rules, Byelaws, Regulations and Circulars issued thereunder by the Clearing Corporation in so far as the clearing and settlement is concerned, the Rules, Byelaws, Regulations and Circulars issued thereunder of the Clearing Corporation shall prevail.

Closing out

- (18) Subject to the regulations prescribed by the relevant authority from time to time, any dealing in securities made on the Exchange maybe closed out by buying in or selling out on the Exchange against a trading member and/or Participant as follows:-
 - (a) in case of the selling trading member/Participant, on failure to complete delivery on the due date; and
 - (b) in case of the buying trading member/Participant, on failure to pay the amount due on the due date, and any loss, damage or shortfall sustained or suffered as a result of such closing out shall be payable by the trading member or participant who failed to give due delivery or to pay amount due.
- (19) Closing out of contracts or dealings in securities and settlement of claims arising therefrom shall be in such manner within such time frame and subject to such conditions and procedures as may be prescribed from time to time by the relevant authority.
- (20) Subject to the regulations prescribed by the relevant authority from time to time, any deal in securities made on the Exchange may be transferred from one Trading Member to another Trading Member under such circumstances and of the Exchange as may be specified by the relevant authority from time to time.

Interest, Dividends, Rights and Calls

- (21) The buying constituent shall be entitled to receive all vouchers, coupons, dividends, cash bonus, bonus issues, rights and other privileges which may relate to securities bought cum voucher, cum coupons, cum dividends, cum cash bonus, cum bonus issues, cum rights, etc. The selling constituent shall be entitled to receive all vouchers, coupons, dividends, cash bonus, bonus issues, rights and other privileges which may relate to securities sold ex voucher, ex coupons, ex dividends, ex cash bonus, ex bonus issues, ex rights, etc.

- (22) The manner, mode, information requirements, alterations, date and timing, etc., of adjustment with respect to vouchers, coupons, dividends, cash bonus, bonus issues, rights and other privileges between buying trading member and selling trading member shall be as prescribed by the relevant authority from time to time. The trading members shall be responsible between themselves and to their constituents for effecting such adjustments.
- (23) In respect of a contract in securities which shall become or are exchangeable for new or other securities under a scheme of reconstruction or reorganisation, the selling constituent shall deliver to the buyer, as the relevant authority directs, either the securities contracted for or the equivalent in securities and/or cash and/or other property receivable under such scheme of reconstruction or reorganisation.

Brokerage on Dealings

Brokerage

- (24) Trading members are entitled to charge brokerage upon the execution of all orders in respect of purchase or sale of securities at rates not exceeding the official scale prescribed by the relevant authority from time to time.

Brokerage on Calls

- (25) A trading member buying securities on which calls have been prepaid by the seller may charge brokerage on the purchase price with the amount of such calls added.

Underwriting Commission and Brokerage

- (26) Unless otherwise determined and restricted by the relevant authority, a trading member may, in its discretion, charge such brokerage or commission for underwriting or placing or acting as a broker or entering into any preliminary arrangement in respect of any floatation or new Issues or Offer for Sale of any security as it may agree upon with the issuer or offerer or with the principal underwriters or brokers engaged by such issuer or offerer, subject to limits stipulated under the relevant statutory provisions as may be applicable from time to time.

Sharing of Brokerage

- (27) (a) A trading member may not share brokerage with a person who -
- (i) is one for or with whom trading members are forbidden to do business under the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange;
 - (ii) is a trading member or employee in the employment of another trading member;
- (b) Irrespective of any arrangement for the sharing of brokerage with any person, the trading member shall be directly and wholly liable to every other member with whom such trading member effects any deal on the Exchange.

CHAPTER IX

RIGHTS AND LIABILITIES OF MEMBERS AND CONSTITUENTS

All Contracts subject to Bye Laws, Rules and Regulations

- (1) All contracts relating to dealings permitted on the Exchange made by a trading member shall in all cases be deemed made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange. This shall be a part of the terms and conditions of all such contracts and shall be subject to the exercise by the relevant authority of the powers with respect thereto vested in it by the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.

Trading members not bound to accept Instructions and Orders

- (2) A trading member may not accept instructions or orders of constituents for purchase, sale, etc., of securities where circumstances appear to justify such action or on reasonable grounds. Where such refusal is made, the same may be communicated to the constituent. The trading member shall also furnish the constituent the reasons for such refusal on a request being made by him.

Margin

- (3) A trading member shall have the right to demand from its constituent the margin deposit he has to provide under these Bye Laws, Rules and Regulations in respect of the business done by it for such constituent. A trading member shall also have the right to demand an initial margin in cash and/or securities from its constituent before executing an order and/or to stipulate that the constituent shall make a margin deposit or furnish additional margin according to changes in market prices. The constituent shall when from time to time called upon to do so forthwith provide a margin deposit and/or furnish additional margin as required under these Bye Laws, Rules and Regulations in respect of the business done for him by and/or as agreed upon by him with the trading member concerned.

Closing-out of Constituent's Account

- (4) (a) The Exchange may close-out open positions of a constituent or transfer his open positions to another trading member under such circumstances and in respect of the Exchange as may be specified by the relevant authority from time to time.
- (b) When closing-out the account of a constituent a trading member may assume or take over such transactions to its own account as a principal at prices which are fair and justified by the condition of the market or he may close-out in the manner specified by the relevant authority and any expense incurred or any loss arising therefrom shall be borne by the constituent. The contract note in respect of such closing-out shall disclose whether the trading member is acting as a principal or on account of another constituent.
- (c) Notwithstanding anything contained in clause (a) above closing out of Participants' account shall be in such manner and subject to such stipulations as maybe prescribed from time to time.

Trading member not Liable to attend to Registration of Transfer

- (5) A trading member shall not be deemed to be under any obligation to attend to the transfer of securities and the registration thereof in the name of the constituent. If it attends to such work in the ordinary course or at the request or desire or by the consent of the constituent it shall be deemed to be the agent of the constituent in the matter and shall not be responsible for loss in transit or for the issuer's refusal to transfer nor be under any other liability or obligation other than that specifically imposed by these Bye Laws, Rules and Regulations. The stamp duty, the transfer fees and other charges payable to the issuer, the fee for attending to the registration of securities and all incidental expenses such as postage incurred by the trading member shall be borne by the constituent

Closing-out/ transfer by Constituent on Failure to perform a Contract

- (6) If a trading member fails to complete the performance of a contract by delivery or payment in accordance with the provisions of these Bye Laws, Rules and Regulations the constituent shall, after giving notice in writing to the trading member and Exchange, close-out such contract through any other trading member of the Exchange or make an application to the Exchange for transfer of contracts to another trading member as soon as possible and any loss or damages sustained as a result of such closing-out or transfer, as the case may be, shall be immediately payable by the defaulting trading member to the constituent. If closing-out or transfer be not effected as provided herein, the damages between the parties shall be determined on such basis as specified by the relevant authority from time to time and the constituent and the trading member shall forfeit all further right of recourse against each other.

No Lien on Constituent's Securities

- (7) If a trading member is declared a defaulter after delivering securities on account of its constituent, the constituent shall be entitled to claim and on offering proof considered satisfactory by the relevant authority, and in the absolute discretion of the relevant authority, receive from the Exchange accordingly as the relevant authority directs either such securities or the value thereof subject to payment or deduction of the amount if any due by him to the defaulter.

Complaint by Constituent

- (8) When a complaint has been lodged by a constituent with the relevant authority that any trading member has failed to implement his dealings, the relevant authority shall investigate the complaint and if it is satisfied that the complaint is justified it may take such disciplinary action as it deems fit.

Relationship between trading member and Constituents

- (9) Without prejudice to any other law for the time being in force and subject to these Bye Laws, the mutual rights and obligations inter se between the trading member and its constituent shall be such as may be prescribed by the relevant authority from time to time.
- (10) The Relevant Authority shall constitute an Investors' Services Committee to supervise the working of the Investors' Services Cell of the Exchange and in suitable cases attend to grievances of the Investors personally. The composition of Investors' Services Committee shall be such as may be prescribed by SEBI.

CHAPTER X**ARBITRATION**

All claims, differences or disputes between the Trading Members inter se and between Trading Members and Constituents or between such other parties as specified by the relevant authority from time to time, arising out of or in relation to dealings, contracts and transactions made subject to the Bye-Laws, Rules and Regulations of the Exchange or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to their validity, construction, interpretation, fulfillment or the rights, obligations and liabilities of the parties thereto and including any question of whether such dealings, transactions and contracts have been entered into shall be referred to and decided by arbitration, mediation and other dispute resolution mechanisms offered by such International Arbitration Centres in IFSC as specified by the relevant authority from time to time.

CHAPTER XI**DEFAULT****Declaration of Default**

- (1) A trading member may be declared a defaulter by direction / circular / notification of the relevant authority if-
- (a) it is unable to fulfill its obligations; or
 - (b) it admits or discloses its inability to fulfill or discharge its duties, obligations and liabilities; or
 - (c) it fails or is unable to pay within the specified time the damages and the money difference due on a closing-out effected against it under these Bye Laws, Rules and Regulations; or
 - (d) it fails to pay any sum due to the Exchange or to submit or deliver to the Exchange on the due date, delivery and receive orders, statement of differences and securities, balance sheet and such other clearing forms and other statements as the relevant authority may from time to time prescribe; or
 - (e) if it fails to pay or deliver to the Defaulters' Committee all monies, securities and other assets due to a trading member who has been declared a defaulter within such time of the declaration of default of such trading member as the relevant authority may direct; or
 - (f) if it fails to abide by the arbitration proceedings as laid down under the Bye Laws, Rules and Regulations; or
 - (g) if it, being a company incorporated under the Companies Act, files a petition before a Court of Law for adjudication of itself as insolvent or for its winding up, as the case may be.
- (2) Without prejudice to the foregoing, if a trading member is either expelled or declared a defaulter by any other recognised stock exchange on which it is a member or if the registration certificate is cancelled by SEBI, the said Trading Member may be expelled from the Exchange after providing an opportunity of being heard to such Trading Member.

Notwithstanding anything contained in this Byelaw, the trading facility of the member shall be withdrawn immediately after the receipt of information of expulsion /default by any other stock exchange or cancellation of registration certificate by SEBI.

Failure to fulfill Obligations

- (3) The relevant authority may order a trading member to be declared a defaulter if it fails to meet an obligation to a trading member or constituent arising out of Exchange transactions.

Insolvent a Defaulter

- (4) A trading member, being a company incorporated under the Companies Act, has been ordered to be wound up by a Court of Law in the petition filed by any of its creditors, shall be declared a defaulter although it may not have at the same time defaulted on any of its obligations on the Exchange provided however the time for preferring an appeal against such order under the applicable Acts, if any, has expired.

Trading member's Duty to Inform

- (5) A trading member shall be bound to notify the Exchange immediately if there be a failure by any trading member to discharge its liabilities in full.

Compromise Forbidden

- (6) A trading member guilty of accepting from any trading member anything less than a full and bona fide money payment in settlement of a debt arising out of a transaction in securities shall be suspended for such period as the relevant authority may determine.

Notice of Declaration of Default

- (7) On a trading member being declared a defaulter a notice to that effect shall be placed forthwith on the trading system.

Defaulter's Book and Documents

- (8) When a trading member has been declared a defaulter, the Defaulters' Committee shall take charge of all its books of accounts, documents, papers and vouchers to ascertain the state of its affairs and the defaulter shall hand over such books, documents, papers and vouchers to the Defaulters' Committee.

List of Debtors and Creditors

- (9) The defaulter shall file with the Defaulters' Committee within such time of the declaration of its default as the relevant authority may direct a written statement containing a complete list of its debtors and creditors and the sum owing by and to each.

Defaulter to give Information

- (10) The defaulter shall submit to the Defaulters' Committee such statement of accounts, information and particulars of its affairs as the Defaulters' Committee may from time to time require and if so desired shall appear before the Committee at its meetings held in connection with its default.

Inquiry

- (11) The Defaulters' Committee shall enter into a strict inquiry into the accounts and dealings of the defaulter in the market and shall report to the relevant authority anything improper, unbusiness like or unbecoming a trading member in connection there with which may come to its knowledge.

Vesting of assets in the Exchange

- (12) The Defaulters' Committee shall call in and realise the security deposits in any form, other amounts lying to the credit of and securities deposited by the defaulter and recover all moneys, securities and other assets due, payable or deliverable to the defaulter by any other Trading Member in respect of any transaction or dealing made subject to the Bye-laws, Rules and Regulations of the Exchange and such assets shall vest ipso facto, on declaration of any trading member as a defaulter, in the Exchange for the benefit of and on account of any dues of the Exchange, NSE IFSC Clearing Corporation Limited, Securities and Exchange Board of India, other trading members, Constituents and registered sub-brokers of the defaulter, approved banks and any other persons as may be approved by the Defaulters' Committee and other recognised stock exchanges.

Payment to Defaulters' Committee

- (13) (a) All monies, securities and other assets due, payable or deliverable to the defaulter must be paid or delivered to the Defaulters' Committee within such time of the declaration of default as the relevant authority may direct. A trading member violating this provision shall be declared a defaulter.
- (b) A trading member who shall have received a difference on account or shall have received any consideration in any transaction prior to the date fixed for settling such account or transaction shall, in the event of the trading member from whom it has received such difference or consideration being declared a defaulter, refund the same to the Defaulters' Committee for the benefit and on account of the creditor members. Any trading member who shall have paid or given such difference or consideration to any other trading member prior to such settlement day shall again pay or give the same to the Defaulters' Committee for the benefit and on account of the credit or member in the event of the default of such other member.
- (c) A trading member who receives from another trading member during any clearing a claim note or credit note representing a sum other than a difference due to it or due to its constituent which amount is to be received by it on behalf and for the account of that constituent shall refund such sum if such other trading member be declared a defaulter within such number of days as prescribed by the relevant authority after the settling day. Such refunds shall be made to the Defaulters' Committee for the benefit and on account of the creditor members and it shall be applied in liquidation of the claims of such creditor members whose claims are admitted in accordance with these Bye Laws, Rules and Regulations.

Distribution

- (14) The Defaulters' Committee shall at the risk and cost of the creditor members pay all assets received in the course of realisation into such bank and/or keep them with the Exchange in such names as the relevant authority may from time to time direct and shall distribute the same as soon as possible pro rata but without interest among creditor members whose claims are admitted in accordance with these Bye Laws, Rules and Regulations.

Closing-out

- (15) (a) Trading members having open transactions with the defaulter shall close out such transactions on the Exchange after declaration of default. Such closing out shall be in such manner as may be prescribed by the relevant authority from time to time. Subject to the regulations in this regard prescribed by the relevant authority, when in the opinion of the relevant authority, circumstances so warrant, such closing out shall be deemed to have taken place in such manner as may be determined by the relevant authority or other authorised persons of the Exchange.
- (b) Differences arising from the above adjustments of closing out shall be claimed from the defaulter or paid to the Defaulters' Committee for the benefit of creditor trading members of the defaulter.

Accounts of Defaulters' Committee

- (16) The Defaulters' Committee shall keep a separate account in respect of all monies, securities and other assets payable to a defaulter which are received by it and shall defray therefrom all costs, charges and expenses incurred in or about the collection of such assets or in or about any proceedings it takes in connection with the default.

Report

- (17) The Defaulters' Committee shall every six months present a report to the relevant authority relating to the affairs of a defaulter and shall show the assets realised, the liabilities discharged and dividends given.

Inspection of Accounts

- (18) All accounts kept by the Defaulters' Committee in accordance with these Bye Laws, Rules and Regulations shall be open to inspection by any creditor trading member.

Scale of Charges

- (19) The charges to be paid to the Exchange on the amounts transferred to the Defaulters' Committee account shall be such sum as the relevant authority may from time to time prescribe.

Application of Assets

- (20) The Defaulters' Committee shall apply the net assets remaining in its hands after defraying all such costs, charges and expenses as are allowed under the Rules, Bye-laws and Regulations to be incurred by the Exchange, in satisfying the claims in the order of priority provided hereunder:-

- (a) Dues to the Exchange, NSE IFSC Clearing Corporation Limited, Securities and Exchange Board of India

The payment of such subscriptions, debts, fines, fees, charges and other moneys due to the Exchange, NSE IFSC Clearing Corporation Limited, Securities and Exchange Board of India, in the order in which their names appear herein;

- (b) Dues to other Trading Members and to Constituents and registered sub- brokers of the defaulter

The payments as may be admitted by the Defaulters' Committee, as being due to other Trading Members and Constituents and registered sub- brokers of the defaulter for debts, liabilities, obligations and claims arising out of any contracts made by the defaulter subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, shall, if the amount is insufficient, be distributed pro rata amongst other Trading Members, all the Constituents and registered sub-brokers of the defaulter. The other Trading members in turn share the amounts so received with their Constituents on pro rata basis.

- (c) Dues to the Approved Banks and claims of any other persons as approved by the Defaulters' Committee

After making payments under Clause (b) above, the amounts remaining, if any, shall be utilised to meet the claims of the approved banks and of any other person as may be admitted by the Defaulters' Committee. The claims of the approved banks should have arisen by virtue of the Exchange or NSE IFSC Clearing Corporation Limited invoking any bank guarantee issued by the bank concerned to the Exchange or NSE IFSC Clearing Corporation Limited as the case may be on behalf of the defaulter to fulfill its obligation of submitting bank guarantee, guaranteeing discharge of obligations under the Byelaws, Rules and Regulations of NSE IFSC Limited / NSE IFSC Clearing Corporation Limited. The claims of other persons should have arisen out of or incidental to the transaction done on the Exchange or requirements laid down by the Exchange, provided that if the amount available be insufficient to pay all such claims in full, they shall be paid pro rata, and

- (d) Dues to any other recognised stock exchange:

After meeting the claims under (c) above, the remaining amounts, if any, shall be disbursed to any other recognised Stock Exchange for the purpose of meeting the obligations of the defaulter as a member of that Exchange. If the defaulter is a member of more than one recognised stock exchange, then the remaining amounts shall be distributed amongst all such recognised stock exchanges and if the remaining amount is insufficient to meet the claims of all such stock exchanges, then the remaining amount shall be distributed pro rata among all such stock exchanges.

- (e) Surplus assets:

Surplus assets, if any, may be released to the defaulter after a period of atleast one year from the date of declaration of the trading member as defaulter or after satisfying the claims falling under Bye-law 20, whichever is later.

Certain claims not to be entertained

- (21) The Defaulters' Committee shall not entertain any claim against a defaulter:

- (a) which arises out of a contract in securities dealings in which are not permitted or which are not made subject to Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange or in which the claimant has either not paid himself or colluded with the defaulter in evasion of margin payable on bargains in any security;

- (b) which arises from any arrangement for settlement of claims in lieu of bona fide money payment in full on the day when such claims become due;
- (c) which is in respect of a loan with or without security;
- (d) which is not filed with the Defaulters' Committee within such time of date of declaration of default as may be prescribed by the relevant authority.

Claims against Defaulting Representative trading member

- (22) The Defaulters' Committee shall entertain the claim of a trading member against a defaulter in respect of loss incurred by it by reason of the failure of the constituents introduced by such defaulter to fulfill their obligations arising out of dealings which are permitted on the Exchange and made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange provided the defaulter was duly registered as a representative trading member working with such creditor member.

Claims of Defaulters' Committee

- (23) A claim of a defaulter whose estate is represented by the Defaulters' Committee against another defaulter shall not have any priority over the claims of other creditor members but shall rank with other claims as provided in Byelaw 20 (b) above.

Assignment of Claims on Defaulter's Estate

- (24) A trading member being a creditor of a defaulter shall not sell, assign or pledge its claim on the estate of such defaulter without the consent of the relevant authority.

Proceedings in the Name of or against the defaulter

- (25) The Defaulters' Committee shall be empowered to
 - (a) initiate any proceedings in a court of law either in the name of the Exchange or in the name of the defaulter against any person for the purpose of recovering any amounts due to the defaulter
 - (b) to initiate any proceedings in a court of law either in the name of the Exchange or in the name of the creditors (who have become creditors of the defaulter as a result of transactions executed subject to Byelaws, Rules and Regulations of the Exchange) of the defaulter against the defaulter for the purpose of recovering any amounts due from the defaulter. The defaulter as well as the creditors of the defaulter shall be deemed to have appointed the Exchange as their constituted attorney for the purpose of taking such proceedings.

Payment of Defaulters' Committee

- (26) If any trading member takes any proceedings in a court of law against a defaulter whether during the period of its default or subsequent to its re-admission to enforce any claim against the defaulter's estate arising out of any transaction or dealing in the market made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange before it was declared a defaulter and obtains a decree and recovers any sum of money thereon it shall pay such amount or any portion thereof as may be fixed by the relevant authority to the Defaulters' Committee for the benefit and on account of the creditor members having claims against such defaulter.
- (27) The Defaulters' Committee for the purpose of this Chapter shall be a Committee as may be constituted by the Board of Directors from time to time. The composition of Defaulters' Committee shall be such as may be prescribed by SEBI.
- (28) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Chapter, where any securities are lodged for rectification of company objection arising out of signature difference or otherwise against a defaulter, the Exchange or NSE IFSC Clearing Corporation Limited (Clearing Corporation) shall, after satisfying itself about the bonafides of the receiving members/ client of the receiving member, acquire the securities in its own name for the benefit of or in trust for the receiving member/ client of the receiving member. The Exchange/ Clearing Corporation may upon payment of such charges as it may prescribe, sell or otherwise dispose of the securities so acquired or transfer the securities to the receiving member/ client of the receiving member, in full and final satisfaction of the claim; Provided that the Exchange/ Clearing Corporation shall be free to require such receiving member/ client of the receiving member to indemnify the Exchange and Clearing Corporation in such form and manner as it may prescribe, as a condition precedent; Provided further that such payment of sale proceeds or transfer of securities to the receiving member/ client of the receiving member shall discharge the claim completely and no further claim shall lie against the defaulter on any ground whatsoever.

CHAPTER XII**INVESTOR PROTECTION FUND**

- (1) In respect of the Exchange as may be prescribed by the Exchange, an Investor Protection Fund (IPF) to be held in trust by NSE IFSC Limited Investor Protection Fund Trust (Trust) shall be maintained to make good claims for compensation which may be submitted by a trading member's Constituent who suffers loss arising from the said trading member being declared as a defaulter by the Exchange under Chapter XI. No claim of a claimant, who is a Trading Member of the Exchange or an associate of a Trading Member, shall be eligible for compensation from the IPF unless he has acted as a Constituent of the said trading member to the extent permitted by the Exchange.
- (2) Subject to this Part, the amount which any claimant shall be entitled to claim as compensation shall be the amount of the actual loss suffered by him less the amount or value of all monies or other benefits received or receivable by him from any source in reduction of the loss.
- (3) The amount that may be paid under this Part to a claimant shall not exceed such amount as may be decided by the Trust from time to time. The Trust shall disburse the compensation to the claimants as and when claims have been crystallised against the defaulter and admitted for payment by the Trust based on the recommendations, if any, of the Defaulters' Committee and such compensation shall not be more than the maximum amount fixed for a single claim.
- (4) The Trust shall have the power to utilise corpus and interest earned on the corpus of the IPF for meeting expenses or claims relating to services provided to investors as stipulated by SEBI or Board from time to time.
- (5) Notwithstanding anything contained in any other Byelaw, the Trust shall have the power to utilise the interest income earned on the investments made out of IPF, either in part or whole, for educating investors, creating awareness among the investor community at large and for any research connected therewith or incidental thereto.
- (6) The Exchange shall publish in all editions of at least one English national daily with wide circulation and in at least one regional language daily with wide circulation, a notice specifying a date not being less than 3 months after the said publication, on or before which claims for compensation shall be made in relation to the defaulter specified in the notice. The notice shall contain the specified period, the maximum compensation limit for a single claim of a claimant, etc. The said notice shall also be displayed on the premises of the Exchange as well as on the web-site of the Exchange for the entire specified period.
- (7) A claim for compensation in respect of a default shall be made in writing to the Exchange on or before the date specified in the said notice and any claim which is not so made shall be barred unless the Trust otherwise determines. The Exchange shall process the claims in accordance with procedures as may be laid down by Defaulters' Committee and if the assets of the defaulter are insufficient to meet the approved claims, it shall forward the claims along with the recommendations of the Defaulters' Committee to the Trust. However, the Trust need not wait for the realization of the assets of the defaulter before the disbursement towards claims.
- (8) A claimant under this Chapter must sign an undertaking to be bound by the decision of the Trust whose decision shall be final and binding.
- (9) The Trust in disallowing (whether wholly or partly) a claim for compensation shall serve notice of such disallowance on the claimant.
- (10) The Trust, if satisfied that the default on which the claim is founded was actually committed, may allow the claim and act accordingly.
- (11) The Trust may at any time and from time to time require the claimant to produce and deliver any securities, documents or statements of evidence necessary to support any claim made or necessary for the purpose of establishing his claims and in default of delivery of any such securities, documents or statements of evidence by such claimant, the Trust may disallow any claim by him under this Chapter.
- (12) Contributions shall be made to the IPF from the sources as may be specified by the relevant authority from time to time.
- (13) The IPF to be held in trust as aforesaid shall vest with the Trust which shall administer the same. The IPF shall be well segregated and shall be immune from any liabilities of the Exchange.
- (14) The Exchange, in consultation with the Trust, shall review and progressively increase the amount of compensation available against a single claim from an investor every three years. The Exchange shall disseminate the compensation limit fixed and any change thereof, to the public through a Press Release and also through web site of the Exchange.

- (15) The Trust may seek the advice of the Defaulters' Committee as to the eligibility or otherwise of individual claims of investors.
- (16) The Exchange shall arrange to provide administrative assistance to the Trust to facilitate the processing and settlement of investor claims.
- (17) The claims of the claimants arising out of speculative transactions or which are sham or collusive shall not be eligible for compensation from the IPF.
- (18) The balance of the IPF lying unutilised with the Trust shall continue to be utilised only for such purposes as prescribed by SEBI. In the event of winding up of the Exchange, the balance lying unutilised with the Trust shall be transferred to SEBI. The funds will be maintained in a separate account and SEBI would act as Trustee of these funds to be utilised for purposes of investor education, awareness and research.

CHAPTER XIII

MISCELLANEOUS

- (1) The relevant authority shall be empowered to impose such restrictions on transactions in one or more Exchange securities as the relevant authority in its judgment deems advisable in the interest of maintaining a fair and orderly market in the securities or if it otherwise deems advisable in the public interest or for the protection of investors. During the effectiveness of such restrictions, no trading member shall, for any account in which it has an interest or for the account of any client, engage in any transaction in contravention of such restrictions.
- (2) Any failure to observe or comply with any requirement of this Bye Law, or any Bye Laws, Rules or Regulations, where applicable, may be dealt with by the relevant authority as a violation of such Bye Laws, Rules or Regulations.
- (3) Trading members have an obligation as the trading members of the Exchange to inform the relevant authority of the Exchange and the Securities Exchange Board of India about insider trading, information on takeover and other such information/practices as may be construed as being detrimental to the efficient operations of the Exchange and as may be required under SEBI Act and Rules and Regulations.
- (4) Save as otherwise specifically provided in the regulations prescribed by the relevant authority regarding clearing and settlement arrangement, in promoting, facilitating, assisting, regulating, managing and operating the Exchange, the Exchange should not be deemed to have incurred any liability, and accordingly no claim or recourse, in respect of, in relation to, any dealing in securities or any matter connected therewith shall lie against the Exchange or any authorised person(s) acting for the Exchange.
- (5) No claim, suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Exchange or any authorised person(s) acting for the Exchange, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order or other binding directive issued to the Exchange under any law or delegated legislation for the time being in force.

For NSE IFSC Limited
Sandip Mehta
Chief Executive Officer

NSE IFSC CLEARING CORPORATION LIMITED

Regd. Office: Unit no. 46 & 47, GIFT Aspire One Business Centre, 1st Floor, Block 12, Road 1-D, Zone-1, GIFT-SEZ, Gandhinagar District, Gujarat - 382355

The provisions contained in the Rules of NSE IFSC Clearing Corporation Limited are given hereunder:

NSE IFSC CLEARING CORPORATION LIMITED**RULES****ARRANGEMENT OF CHAPTERS**

CHAPTER	I:	DEFINITIONS
CHAPTER	II:	BOARD
CHAPTER	III:	COMMITTEES
CHAPTER	IV:	CLEARING MEMBERSHIP
CHAPTER	V:	DISCIPLINARY PROCEEDINGS, PENALTIES, SUSPENSION AND EXPULSION

CHAPTER 1: DEFINITIONS**1. BOARD**

"Board" means Board of Directors of the Clearing Corporation.

2. BYE LAWS

Unless the context indicates otherwise, "Bye Laws" means the Bye Laws of Clearing Corporation for the time being in force.

3. CLEARING BANK(S)

"Clearing Bank(s)" is/are such bank(s) as the Clearing Corporation may appoint to act as a funds settling agency, for the collection of margin money for all deals and any other funds movement between Clearing Members and the Clearing Corporation and between Clearing Members as may be directed by the Clearing Corporation from time to time.

4. CLEARING CORPORATION

"Clearing Corporation" means NSE IFSC Clearing Corporation Limited.

5. CLEARING MEMBER

"Clearing Member" means a member of Clearing Corporation and includes all categories of Clearing Members as may be admitted as such by the Clearing Corporation but does not denote the shareholder of the Clearing Corporation.

6. DEALS

"Deals" means, unless the context indicates otherwise, trades executed on a Specified Exchange which are admitted to be cleared and settled through the Clearing Corporation.

7. IFSC

IFSC means International Financial Services Centre as defined by SEBI under the Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015

8. REGULATIONS

"Regulations" means Regulations of the Clearing Corporation for the time being in force and includes business rules, code of conduct and such other procedures and regulations, circulars, directives and orders as issued by the relevant authority from time to time for the operations of the Clearing Corporation.

9. RELEVANT AUTHORITY

"Relevant Authority" means the Board or such other authority as specified by the Board from time to time as relevant for a specified purpose.

10. SETTLEMENT GUARANTEE FUND

"Settlement Guarantee Fund" means a fund established and maintained in accordance with the relevant provisions of the Bye Laws of the Clearing Corporation.

11. SPECIFIED EXCHANGE

"Specified Exchange" or "specified exchange" means a recognised stock exchange in IFSC under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 trades on which may be admitted to be cleared and settled by the Clearing Corporation subject to such terms and conditions as may be specified from time to time by the relevant authority.

12. TRADING MEMBER

"Trading Member" means any person admitted as a member in any Exchange in accordance with the Rules, Bye Laws and Regulations of that Exchange.

Note:—The terms defined above shall mean the same when used in lower case in the Rules, Bye Laws and Regulations, unless the context indicates otherwise.

CHAPTER II: BOARD

1. The Board is empowered to organise, maintain, control, manage, regulate and facilitate the operations of the Clearing Corporation and all activities of the Clearing Members
2. The Board is empowered to make Rules, Bye Laws and Regulations from time to time, for all or any matters relating to the conduct of business of the Clearing Corporation, the business and transactions of Clearing Members, between Clearing Members inter-se as well as the business and transactions between Clearing Members and persons who are not Clearing Members, and to control, define and regulate all such transactions and dealings and to do such acts and things which are necessary for the purposes of the Clearing Corporation.
3. Without prejudice to the generality of the foregoing, the Board is empowered to make Regulations for all or any of the following matters:
 - (1) conduct of business of the Clearing Corporation;
 - (2) appointment and dissolution of Committee or Committees for any purpose of the Clearing Corporation;
 - (3) manner of operations and interfacing with exchanges, custodians, depository and clearing bank(s);
 - (4) norms, procedures, terms and conditions for admission to membership of the Clearing Corporation;
 - (5) conditions, levy for admission or subscription for admission or continuance of Clearing Membership of the Clearing Corporation;
 - (6) conduct of Clearing Members with regard to the business of the Clearing Corporation;
 - (7) prescription, from time to time, of capital adequacy and other norms which shall be required to be maintained by different categories of Clearing Members;
 - (8) charges payable by Clearing Members for business transacted through the Clearing Corporation as may be laid down from time to time;
 - (9) maintenance of records and books of accounts by Clearing Members as may be specified from time to time;
 - (10) Investigation of the financial condition, business conduct and dealings of the Clearing Members;
 - (11) prescription from time to time, and administration of penalties, fines and other consequences, including suspension/expulsion of Clearing Members from Clearing Corporation for violation of any requirements of the Rules, Bye Laws and Regulations and the codes of conduct;
 - (12) disciplinary action/ procedures against any Clearing Member;
 - (13) penalties for non-compliance with or contravention of the Bye Laws, Rules and Regulations or of general discipline of the Clearing Corporation, including expulsion or suspension of the Clearing Members; declaration of any Clearing Member as a defaulter or suspension or expulsion or surrender from Clearing Membership and consequences thereof;
 - (14) such other matters in relation to the Clearing Corporation as may be specified under the provisions of the Articles of Association, Bye Laws or these Rules or as may be necessary or expedient for the organisation, maintenance, control, management, regulation and facilitation of the operations of the Clearing Corporation.
4. The Board is empowered to delegate, from time to time, to any committee(s) or to the Managing Director or to any person, such of the powers vested in it and on such terms as it may think fit, to manage all or any of the affairs of the Clearing Corporation and from time to time, to revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.
5. The Board may, from time to time, constitute one or more committees comprising of members of the Board or such others as the Board may in its discretion deem fit or necessary and delegate to such committees such powers as the Board may deem fit and the Board may from time to time revoke such delegation.
6. The Board shall have the authority to issue directives from time to time to any Committees or any other person or persons to whom any powers have been delegated by the Board. Such directives issued in exercise of this power, which may be of policy nature or may include directives to dispose off a particular matter or issue, shall be binding on the concerned Committee(s) or person(s).
7. The Board is empowered to vary, amend, repeal or add to Bye Laws and Rules framed by it with prior approval of SEBI, if any.
8. The Members of the Board and of such committees as may be identified by the Board shall adhere to the Code of Ethics as specified by SEBI.

CHAPTER III : COMMITTEE(S)

1. CONSTITUTION

One or more Committee(s) may be appointed by the Board for the purposes of managing the day to day affairs of the Clearing Corporation. The Board may decide on the constitution, duration and powers of the Committee(s),

nomination and vacation of the nominees from the Committee(s) and appointment of office bearers and rules and procedures for the functioning of the Committee(s).

2. **POWERS OF COMMITTEE(S)**

- (1) The Board may delegate from time to time to the Committee(s) such of the powers vested in it and upon such terms as it may think fit, to manage all or any of the affairs of the Clearing Corporation and from time to time, to revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.
- (2) The Committee(s) shall be bound and obliged to carry out and implement any directives issued by the Board from time to time and shall be bound to comply with all conditions of delegation and limitations on the powers of the Committee(s) as may be specified.

CHAPTER IV: CLEARING MEMBERSHIP

1. **MULTIPLE CATEGORY**

The rights, privileges duties and responsibilities of a Clearing Member shall be subject to and in accordance with the Rules, Bye Laws and Regulations. The relevant authority may define and admit one or more than one category of Clearing Members and may specify different norms including eligibility, admission and cessation of membership.

2. **ADMISSION AND FEES**

- (1) The relevant authority may specify different categories of Clearing Members and requirements regarding qualification, net-worth, infrastructure and other relevant norms for each such category.
- (2) The relevant authority may specify pre-requisites, conditions, formats and procedures for application for admission, termination, re-admission, etc. of Clearing Members. The relevant authority may, at its absolute discretion, refuse permission to any applicant to be admitted as Clearing Member. Such fees, security deposit, contribution and other money as are specified by the relevant authority would be payable on or before admission as Clearing Member and for continued appointment thereof.

3. **ELIGIBILITY**

- (1) The following persons shall be eligible to become Clearing Members of the Clearing Corporation:
 - a. Companies as defined in the Companies Act, 2013; and
 - b. Any other entity as may be permitted by SEBI

4. **ADDITIONAL ELIGIBILITY CRITERIA**

No entity shall be eligible to be admitted to the Clearing Membership unless the entity satisfies such additional eligibility criteria as the relevant authority may prescribe from time to time for different classes of Clearing Members;

Provided however that the relevant authority may waive compliance with any or all of the admission conditions and at its discretion waive the requirements set out as above, if it is of the opinion that the person seeking admission is considered by the relevant authority to be otherwise qualified to be admitted as a Clearing Member by reason of his means, position, integrity, knowledge and experience of business in securities.

5. **ADMISSION**

- (1) Any person desirous of becoming a Clearing Member shall apply to the Clearing Corporation for admission to the relevant category of Clearing Membership. Every application shall be dealt with by the relevant authority which shall be entitled to admit or reject such applications at its discretion.
- (2) The application for admission of Clearing Members shall be made in such formats as may be specified by the relevant authority from time to time.
- (3) The application shall have to be submitted along with such fees, security deposit and other monies in such form and in such manner as may be specified by the relevant authority from time to time.
- (4) The applicant shall have to furnish such declarations, undertakings, certificates, confirmations and such other documents or papers as may be specified from time to time by the relevant authority.
- (5) The relevant authority shall have the right to call upon the applicant to pay such fees or deposit such additional security in cash or kind, deposit or contribution to Settlement Guarantee Fund and any other fund that may be maintained by Clearing Corporation from time to time, to furnish any additional guarantee or to require contribution to computerisation fund, training fund or fee, if any, as the relevant authority may prescribe from time to time.
- (6) The relevant authority may provisionally admit the applicant to Clearing Membership provided that the applicant satisfies the eligibility conditions and other procedures and requirements of application subject to such terms and conditions as may be specified by the relevant authority. Upon the relevant authority being satisfied that all other terms and conditions and other requirements for the Clearing Membership have been complied with, the applicant may be admitted as a Clearing Member. The granting of provisional membership shall not entitle the applicant to any privileges and rights of Clearing Membership.

- (7) The relevant authority may at its absolute discretion reject any application for admission without communicating the reason thereof.
- (8) If for any reason the application is rejected, the application fee or admission fee, if any, as the case may be or part thereof as may be decided by the relevant authority may at its discretion be refunded to the applicant, without any interest.
- (9) The relevant authority may at any time from the date of admission to the Clearing Membership withdraw the admission and expel a Clearing Member if he has in or at the time of his application for admission to membership or during the course of the inquiry made by the relevant authority preceding his admission –
 - i. made any wilful misrepresentation; or
 - ii. suppressed any material information required of him as to his character and antecedents; or
 - iii. has directly or indirectly given false particulars or information or made a false declaration.
- (10) a. The membership admission does not confer any ownership right as a member of the Clearing Corporation and shall not be transferable or transmittable except as herein mentioned.
- b. The relevant authority may permit the transfer of Clearing Membership in the following circumstances subject to such terms and conditions including payment of such transfer fee as may be prescribed from time to time with the prior written approval of the relevant authority:-
 - i. amalgamation or merger of a Clearing Member company with a non-Clearing Member company resulting in the loss of majority shareholding and/or control of management by the majority shareholders of the Clearing Member company;
 - ii. takeover of the Clearing Member company by non-Clearing Member(s) resulting in the loss of majority shareholding and/or control of management by the majority shareholders of the Clearing Member company;

Explanation I

For the purpose of sub-clauses (i) and (ii) above, the term "loss of majority shareholding" means a shareholder or a group of shareholders holding 51% or more shares / interest in the Clearing Member company ceases to hold 51% of shares / interest in the Clearing Member company or in the amalgamated company which shall take up Clearing Membership upon amalgamation of the Clearing Member company with a Non Clearing Member company.

Explanation II

For the purpose of sub-clauses (i) and (ii) above, the term "loss of control in management" means the loss of the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decision exercisable by person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner.

- c. Without prejudice to any other provision of the Rules, the Clearing Membership may be suspended, for such period as the relevant authority may deem fit, in the following circumstances :
 - i. upon any deadlock in the management of a Clearing Member company, which, in the opinion of the relevant authority will affect the ability of such Clearing Member company to carry on its business. The Clearing Member shall be entitled for an opportunity for representation before the relevant authority, before being suspended under this sub-clause, but the decision of the relevant authority shall be final.

Explanation I

For the purposes of this sub-clause, the term "Deadlock in the Management" means a situation wherein there is a loss of confidence or disagreement among the directors/shareholders of a Clearing Member company, which, in the opinion of the relevant authority, will affect or is likely to affect the conduct of business by the Clearing Member company, as the case may be or an equality of vote at a meeting of the directors or shareholders of a Clearing Member company.

- (11) A Clearing Member shall not assign, mortgage, pledge, hypothecate or charge his right of membership or any rights or privileges attached thereto nor shall he have the right to give license or grant power of attorney in respect of such rights and privileges and no such attempted assignment, mortgage, pledge, hypothecation or charge or license or power of attorney shall be effective as against the Clearing Corporation for any purpose, nor shall any right or interest in any Clearing Membership other than the personal right or interest of the Clearing Member therein be recognised by the Clearing Corporation. The relevant authority may suspend any Clearing Member of the Clearing Corporation who acts or attempts to act in violation of the provisions of this rule or take any other disciplinary action as it may deem fit.

6. CONDITIONS

- (1) Clearing Members shall adhere to the Rules, Bye Laws and Regulations and shall comply with such operational parameters, rulings, notices, guidelines and instructions of the relevant authority as may be applicable.

- (2) All contracts issued for admitted deals shall be in accordance with and subject to Rules, Bye Laws and Regulations.
- (3) Clearing Members shall furnish declarations, undertakings, confirmation and such other documents and papers relating to such matters and in such forms as may be specified by the relevant authority from time to time.
- (4) Clearing Members shall furnish to the Clearing Corporation, within such time as may be specified, an annual Auditors' Certificate certifying that specified requirements as may be specified by the relevant authority from time to time pertaining to their operations have been complied with.
- (5) Clearing Members shall furnish such information and periodic returns pertaining to their operations as may be required by the relevant authority from time to time.
- (6) Clearing Members shall furnish to the Clearing Corporation such audited and/or unaudited financial or qualitative information and statements and in such manner as may be required by the relevant authority from time to time.
- (7) Clearing Members shall comply with such requirements as may be specified by the relevant authority from time to time with regard to advertisements, booklets and issue of circulars in connection with their activities as Clearing Members.
- (8) Clearing Members shall extend full cooperation and furnish such information and explanation and in such manner as may be required by the relevant authority or authorised person of the Clearing Corporation for inspection or audit or in regard to any dealings, settlement, accounting and/or other related matters.

7. TERMINATION OF MEMBERSHIP

- (1) Any Clearing Member may cease to be a member, if one or more apply:
 - a. by surrender of clearing membership
 - b. by expulsion in accordance with the provisions contained in the Bye Laws, Rules and regulations;
 - c. by being declared a defaulter in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations ;
 - d. by winding up of the Clearing Member;
- 1(A) Notwithstanding anything contained in the Byelaws and Rules of Clearing Corporation, a clearing member shall ipso facto cease to be clearing member of the Clearing Corporation, on cessation of his membership/trading membership on one or more Specified Exchanges in accordance with the provisions contained in the Byelaws, Rules and Regulations of such Specified Exchange(s) and in such cases, such clearing member shall not be entitled for any opportunity of being heard or explanation in such an event.
- (2) The termination of Clearing Membership shall not in any way absolve the Clearing Member from any obligations and liabilities incurred by the Clearing Member prior to such termination.

8. FAILURE TO PAY CHARGES

Save as otherwise provided in the Bye Laws, Rules and Regulations if a member fails to pay his annual subscription, fees, deposit or contribution to Settlement Guarantee Fund(s), fines, penalties, other charges or other monies which may be due by him to the Clearing Corporation within such time as the relevant authority may prescribe from time to time after notice in writing has been served upon him by the Clearing Corporation, he may be suspended by the relevant authority until he makes payment and if within a further period of time as may be specified from time to time, he fails to make such payment, he may be declared a defaulter or may be expelled by the relevant authority.

9. CONTINUED ADMITTANCE

The relevant authority shall from time to time prescribe conditions and requirements for continued admittance to Clearing Membership which may, inter alia, include maintenance of deposit, contribution to Settlement Guarantee Fund, minimum net worth and capital adequacy. The Clearing Membership of any person who fails to meet these requirements shall be liable to be terminated.

10. RE-ADMISSION OF DEFAULTERS

- (1) A Clearing Member's right of membership shall lapse and vest with the Clearing Corporation immediately when he is declared a defaulter. The Clearing Member who is declared a defaulter shall forfeit all his rights and privileges as a Clearing Member, including any right to use of or any claim upon or any interest in any property or funds of the Clearing Member with the Clearing Corporation.
- (2) The relevant authority reserves the right to re-admit a defaulting member and it may re-admit a defaulter as a Clearing Member subject to the provisions, terms and conditions as may be specified by the relevant authority from time to time.
- (3) The relevant authority may readmit only such defaulter who in its opinion :
 - a. has paid up all dues to the Clearing Corporation, other Clearing Members and constituents;
 - b. has no insolvency proceedings/winding up proceedings against him in any Court or not been declared insolvent/wound up by any Court;

- c. has defaulted owing to the default of principals or Constituents whom he might have reasonably expected to be good for their commitments;
- d. has not been guilty of bad faith or breach of the Bye Laws, Rules and Regulations;
- e. has been irreproachable in his general conduct.

CHAPTER V: DISCIPLINARY PROCEEDINGS, PENALTIES, SUSPENSION AND EXPULSION

1. DISCIPLINARY JURISDICTION

The relevant authority may expel or suspend and/or fine and/or penalise under censure and/or warn and/or withdraw all or any of the membership rights of a Clearing Member if he is guilty of contravention, non-compliance, disobedience, disregard or evasion of any of the Bye Laws, Rules and Regulations or of any resolutions, orders, notices, directions or decisions or rulings of the Clearing Corporation or the relevant authority or of any other Committee or officer of the Clearing Corporation authorised in that behalf or of any conduct, proceeding or method of business which the relevant authority in its absolute discretion deems dishonourable, disgraceful or unbecoming a Clearing Member or inconsistent with just and equitable principles or detrimental to the interests, good name or welfare of the Clearing Corporation or prejudicial or subversive to its objects and purposes.

2. PENALTY FOR BREACH OF RULES, BYE-LAWS AND REGULATIONS

Every Clearing Member shall be liable to suspension, expulsion or withdrawal of all or any of his Clearing Membership rights and/or to payment of fine and/or to be censured, reprimanded or warned for contravening, disobeying, disregarding or wilfully evading of any of these Rules, Byelaws and Regulations or any resolutions, orders, notices, directions, decisions or rulings thereunder of the Clearing Corporation, Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and/or Rules and Regulations thereunder, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and/or Rules, Regulations or directions or guidelines thereunder, the Board of Directors, Committee(s), Managing Director or any officer of the Clearing Corporation or for any disreputable or fraudulent transactions or dealings or method of business which the Board of Directors in its absolute discretion deems unbecoming a Clearing Member of the Clearing Corporation or inconsistent with just and equitable principles.

3. PENALTY FOR MISCONDUCT, UNBUSINESSLIKE CONDUCT AND UNPROFESIONAL CONDUCT

A Clearing Member shall be liable to expulsion or suspension or withdrawal of all or any of his membership rights and/or to payment of a fine and/or penalty and/or to be censured, reprimanded or warned for any misconduct, unbusiness like conduct or unprofessional conduct as provided in the provisions in that behalf as provided herein.

1. Misconduct

- a. Fraud : If he is convicted of a criminal offence or commits fraud or a fraudulent act which in the opinion of the relevant authority renders him unfit to be a Clearing Member;
- b. Violation : If he has violated provisions of any statute governing the activities, business and operations of the Clearing Corporation, Clearing Members and securities business in general;
- c. Improper Conduct : If in the opinion of the relevant authority he is guilty of dishonourable or disgraceful or disorderly or improper conduct on the Clearing Corporation or of wilfully obstructing the business of the Clearing Corporation;
- d. Breach of Rules, Bye Laws and Regulations : If he shields or assists or omits to report any Clearing Member whom he has known to have committed a breach or evasion of any Bye Laws, Rules and Regulation or of any resolution, order, notice or direction thereunder of the relevant authority or of any Committee or officer of the Clearing Corporation authorised in that behalf; Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 and/or Rules and Regulations thereunder, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and/or Rules Regulations or directions or guidelines thereunder.
- e. Failure to comply with Resolutions : If he contravenes or refuses or fails to comply with or abide by any resolution, order, notice, direction, decision or ruling of the relevant authority or of any Committee or officer of the Clearing Corporation or other person authorised in that behalf under the Bye Laws, Rules and Regulations ;
- f. Failure to submit to or abide by Arbitration : If it neglects or fails or refuses to submit to arbitration or to abide by or carry out any award, decision or order of the arbitrators made in connection with a reference under the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange;
- g. Failure to testify or give information : If he neglects or fails or refuses to submit to the relevant authority or to a Committee or an officer of the Clearing Corporation authorised in that behalf, such books, correspondence, documents and papers or any part thereof as may be required to be produced or to appear and testify before or cause any of its partners, attorneys, agents, authorised representatives or employees to appear and testify before the relevant authority or such Committee or officer of the Clearing Corporation or other person authorised in that behalf;
- h. Failure to submit Special Returns : If he neglects or fails or refuses to submit to the relevant authority within the time notified in that behalf special returns in such form as the relevant

authority may from time to time prescribe together with such other information as the relevant authority may require whenever circumstances arise which in the opinion of the relevant authority make it desirable that such special returns or information should be furnished by any or all the Clearing Members;

- i. Failure to submit Audited Accounts : If he neglects or fails or refuses to submit its audited accounts to the Clearing Corporation within such time as may be specified by the relevant authority from time to time;
 - j. Failure to compare or submit accounts with Defaulter : If he neglects or fails to compare his accounts with the relevant authority or to submit to it a statement of its accounts with a defaulter or a certificate that he has no such account or if he makes a false or misleading statement therein;
 - k. False or misleading Returns : If he neglects or fails or refuses to submit or makes any false or misleading statement in his clearing forms or returns required to be submitted to Clearing Corporation under the Bye Laws, Rules and Regulations;
 - l. Vexatious complaints : If he or his agent brings before the relevant authority or a Committee or an officer of the Clearing Corporation or other person authorised in that behalf a charge or complaint which in the opinion of the relevant authority is frivolous, vexatious or malicious;
 - m. Failure to pay dues and fees: If he fails to pay his subscription, fees, arbitration charges or any other money which may be due by it or any fine or penalty imposed on him.
2. Unbusiness like Conduct:
- A Clearing Member shall be deemed guilty of unbusiness like conduct for any of the following or similar acts or omissions namely:
- a. Fictitious Names : If he transacts his own business or the business of his constituent in fictitious names
 - b. Circulation of rumours : If he, in any manner, circulates or causes to be circulated, any rumours;
 - c. Unwarrantable Business : If he engages in reckless or unwarrantable or unbusiness like dealings in the market or effects purchases or sales for his constituent's account or for any account in which he is directly or indirectly interested which purchases or sales are excessive in view of his constituent's or his own means and financial resources or in view of the market for such security;
 - d. Compromise : If he connives at a private failure of a Clearing Member or accepts less than full and bona fide money payment in settlement of a debit due by a Clearing Member arising out of a deal in securities;
 - e. Dishonoured Cheque : If he issues to any other Clearing Member or to its constituents or to the Clearing Corporation a cheque which is dishonoured on presentation for whatever reasons;
 - f. Failure to carry out transactions with Constituents : If he fails in the opinion of the relevant authority to carry out its committed transactions with its constituents;
3. Unprofessional Conduct: A Clearing Member shall be deemed guilty of unprofessional conduct for any of the following or similar acts or omissions namely :
- a. Business in Securities in which dealings not permitted : If he enters into dealings in securities in which dealings are not permitted;
 - b. Business for Defaulting Constituent : If he deals or transacts business directly or indirectly or executes an order for a constituent who has within his knowledge failed to carry out engagements relating to securities and is in default to another Clearing Member unless such constituent shall have made a satisfactory arrangement with the Clearing Member who is his creditor;
 - c. Business for Insolvent : If without first obtaining the consent of the relevant authority he directly or indirectly is interested in or associated in business with or transacts any business with or for any individual who has been insolvent even though such individual shall have obtained his final discharge from an Insolvency Court;
 - d. Business without permission when under suspension : If without the permission of the relevant authority he does business on his own account or on account of a principal with or through a Clearing Member during the period he is required by the relevant authority to suspend business on the Clearing Corporation;
 - e. Business for or with suspended, expelled and defaulter Clearing Members: If without the special permission of the relevant authority he shares brokerage with or carries on business or makes any deal for or with any Clearing Member who has been suspended, expelled or declared a defaulter;
 - f. Business for Employees of other Clearing Members : If he transacts business directly or indirectly for or with or executes a deal for an authorised representative or employee of another Clearing Member without the written consent of such employing Clearing Member;

- g. Evasion of Margin Requirements : If he wilfully evades or attempts to evade or assists in evading the margin requirements specified in these Bye Laws and Regulations;
- h. Clearing Fees: If he wilfully evades or attempts to evade or assists in evading the Bye Laws and Regulations relating to clearing fees.
- i. Advertisement: If he advertises for business purposes or issues regularly circular or other business communication to persons other than his own Constituents, Trading Members of the Exchange, Banks and Joint Stock Companies or publishes pamphlets, circulars or any other literature or report or information relating to the stock markets, without the prior written permission of the Clearing Corporation or in contravention of the advertisement code prescribed by the Clearing Corporation.

4. **CLEARING MEMBER RESPONSIBLE FOR ACTS AND OMISSIONS**

A Clearing Member shall be fully responsible for the acts and omissions of its authorised officials, attorneys, agents, authorised representatives and employees and if any such act or omission be held by the relevant authority to be one which if committed or omitted by the Clearing Member would subject it to any of the penalties as provided in the Bye Laws, Rules and Regulations then such Clearing Member shall be liable thereof to the same penalty to the same extent as if such act or omission had been done or omitted by him.

5. **SUSPENSION ON FAILURE TO PROVIDE MARGIN DEPOSIT, DEPOSIT OR CONTRIBUTION TO DEFAULT FUND OR MEET CAPITAL ADEQUACY NORMS**

The relevant authority may suspend a Clearing Member and/or require a Clearing Member to suspend his business if he fails to provide the margin deposits, deposits and contributions to Settlement Guarantee Fund and/or meet capital adequacy norms as provided in these Bye Laws, Rules and Regulations and the suspension of business shall continue until the Clearing Member furnishes the necessary margin deposit or deposit/contribution to Settlement Guarantee Fund or meet capital adequacy norms. The relevant authority may expel a Clearing Member acting in contravention of this provision.

6. **SUSPENSION OF BUSINESS**

The relevant authority may suspend a Clearing Member and/or require a Clearing Member to suspend its business in part or in whole:

- a. Unwarrantable Business: When in the opinion of the relevant authority the Clearing Member engages in unwarrantable business or effects deals for its constituents' account or for any account in which he is directly or indirectly interested which deals are excessive in view of his constituent's or his own means and financial resources or in view of the market for such security, or
- b. Unsatisfactory Financial Condition: When in the opinion of the relevant authority the Clearing Member is in such financial condition that he cannot be permitted to do business with safety to his creditors or the Clearing Corporation.

7. **REMOVAL OF SUSPENSION**

The suspension of business as mentioned above shall continue until the Clearing Member has been allowed by the relevant authority to resume his business on paying such deposit or his doing such act or providing such thing as the relevant authority may require.

8. **PENALTY FOR CONTRAVENTION**

A Clearing Member who is suspended or who is required to suspend his business or part thereof may be expelled by the relevant authority, if he acts in contravention of such suspension or requirement.

9. **CLEARING MEMBERS AND OTHERS TO TESTIFY AND GIVE INFORMATION**

A Clearing Member shall appear and testify before and cause its attorneys, agents, authorised representatives and employees to appear and testify before the relevant authority or before other Committee(s) or an officer of the Clearing Corporation authorised in that behalf and shall produce before the relevant authority or before other Committee(s) or an officer of the Clearing Corporation authorised in that behalf, such books, correspondence, documents, papers and records or any part thereof which may be in its possession and which may be deemed relevant or material to any matter under inquiry or investigation.

10. **PERMISSION NECESSARY FOR LEGAL REPRESENTATION**

No person shall have the right to be represented by professional counsel, attorney, advocate or other representative in any investigation or hearing before the relevant authority or any other Committee unless the relevant authority or other Committee so permits.

11. **EXPLANATION BEFORE EXPULSION**

A Clearing Member shall be entitled to be summoned before the relevant authority and afforded an opportunity for explanation before being expelled but in all cases the findings of the relevant authority shall be final and conclusive.

12. IMPOSITION OF PENALTIES

The penalty of suspension, withdrawal of all or any of the membership rights, fine, censure or warning may be inflicted singly or conjointly by the relevant authority. The penalty of expulsion may be inflicted by relevant authority.

13. PRE-DETERMINATION OF PENALTIES

The relevant authority shall have the power to pre-determine the penalties, the period of any suspension, the withdrawal of particular membership rights and the amount of any fine that would be imposed on contravention, non-compliance, disobedience, disregard or evasion of any Bye Law, Rules or Regulations of the, or of any resolution, order, notice, direction, decision or ruling thereunder of the Clearing Corporation, the relevant authority or of any other Committee or officer of the Clearing Corporation authorised in that behalf.

14. COMMUTATION

The relevant authority in its discretion may in any case suspend a Clearing Member in lieu of the penalty of expulsion or may withdraw all or any of the membership rights or impose a fine in lieu of the penalty of suspension or expulsion and may direct that the guilty Clearing Member be censured or warned or may reduce or remit any such penalty on such terms and conditions as it deems fair and equitable.

15. RECONSIDERATION/REVIEW

The relevant authority may of its own or on appeal by the Clearing Member concerned, within 90 days from the date of communication of decision of the relevant authority to the member, reconsider and rescind, revoke or modify its order fining, censuring, warning or withdrawing all or any of the membership rights of the Clearing Member. In a like manner the relevant authority may rescind, revoke or modify its resolution expelling or suspending any Clearing Member.

16. FAILURE TO PAY FINES AND PENALTIES

If a Clearing Member fails to pay any fine or penalty imposed on him within such period as specified from time to time by the relevant authority he may be suspended by the relevant authority until he makes payment and if within a further period as specified from time to time he fails to make such payment he may be expelled by the relevant authority.

17. CONSEQUENCE OF SUSPENSION

The suspension of a Clearing Member shall have the following consequences:

- (1) Suspension of Membership Rights: A suspended Clearing Member shall during the terms of his suspension, be deprived of and excluded from all rights and privileges of membership but he may be proceeded against by the relevant authority for any offence committed by him before or after suspension and the relevant authority shall not be debarred from taking cognisance of and dealing with adjudicating on claims made against him by other Clearing Members.
- (2) Rights of creditors unimpaired: The suspension shall not affect the rights of Clearing Members who are creditors of the suspended Clearing Members and rights of the Clearing Corporation.
- (3) Fulfilment of Deals and Obligations: The suspended Clearing Member shall be bound to fulfil obligations and deals outstanding at the time of his suspension.
- (4) Further business prohibited: The suspended Clearing Member shall not during the terms of his suspension transact any business provided that he may with permission of the relevant authority close the deals outstanding at the time of his suspension.

18. CONSEQUENCES OF EXPULSION

The expulsion of a Clearing Member shall have the following consequences namely:

- (1) Clearing Membership Rights forfeited: The expelled Clearing Member shall forfeit to the Clearing Corporation its right of Clearing Membership and all rights and privileges as a Clearing Member including any right to the use of any claim upon or any interest in any property or funds of the Clearing Corporation but any liability of any such Clearing Member to the Clearing Corporation or to any Clearing Member shall continue and remain unaffected by its expulsion.
- (2) Office vacated: The expulsion shall create a vacancy in any office or position held by the expelled Clearing Member.
- (3) Rights of Creditors unimpaired: The expulsion shall not affect the rights of the Clearing Members who are creditors of the expelled Clearing Member.
- (4) Fulfilment of Deals and Obligations: The expelled Clearing Member shall be bound to fulfil deals and obligations outstanding at the time of his expulsion and he may with the permission of the relevant authority close such outstanding transactions.
- (5) Clearing Members not to deal: No Clearing Member shall transact business for or with the expelled Clearing Member except with the previous permission of the relevant authority.

- (6) (5A) Provisions of byelaws regarding consequences of declaration of default to follow: The provisions regarding consequences of declaration of defaulter contained in Chapter IX of the Byelaws of the Clearing Corporation shall apply to the expelled Clearing Member as if such Clearing Member has been declared defaulter.
- (7) Expulsion Rules to Apply: When a Clearing Member ceases to be a Clearing Member under the provisions of these Bye Laws and Rules otherwise than by default or surrender of membership, it shall be as if such Clearing Member has been expelled by the relevant authority and in that event all the provisions relating to expulsion contained in these Rules shall apply to such Clearing Member in all respects.

19. NOTICE OF PENALTY AND SUSPENSION OF BUSINESS

- (1) Notice shall be given to the Clearing Member concerned and to the Clearing Members in general by such mode as may be decided by the relevant authority from time to time of the expulsion or suspension or default of or of the suspension of business by a Clearing Member or of any other penalty imposed on it or on its employees. The relevant authority may in its absolute discretion and in such manner as it thinks fit notify or cause to be notified to the Clearing Members or to the public that any person who is named in such notification has been expelled, suspended, penalised or declared a defaulter or has suspended his business or ceased to be a Clearing Member. No action or other proceedings shall in any circumstances be maintainable by such person against the Clearing Corporation or the relevant authority or any officer or employee of the Clearing Corporation for the publication or circulation of such notification. The application for Clearing Membership or the application for registration as the constituted attorney or authorised representative or by the person concerned shall operate as license and these Bye Laws and Rules shall operate as leave to print, publish or circulate such advertisement or notification and be pleadable accordingly.
- (2) Notwithstanding anything contained in these provisions, if in the opinion of the relevant authority it is necessary to do so, he may, for reasons to be recorded in writing, temporarily suspend forthwith the Clearing Member, pending completion of appropriate proceedings for suspension under this chapter by the relevant authority, and no notice of hearing shall be required for such temporary suspension and such temporary suspension shall have the same consequences of suspension under this chapter, provided that appropriate proceedings provided in this chapter shall be commenced by issue of a notice to show cause to the Clearing Member within 10 days of such temporary suspension. Any such temporary suspension may be revoked at the discretion of the relevant authority, for reasons to be recorded in writing, if the relevant authority is satisfied that the circumstances leading to the formation of opinion of the relevant authority to suspend, has ceased to exist or are satisfactorily resolved.

FOR NSE IFSC CLEARING CORPORATION LIMITED

NILESH TINAIKAR

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

The provisions contained in the Memorandum of Association and Article of Association of NSE IFSC Clearing Corporation Limited are given hereunder:

**THE COMPANIES ACT, 2013
COMPANY LIMITED BY SHARES**

**MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF
NSE IFSC CLEARING CORPORATION LIMITED**

- I. The name of Company is NSE IFSC Clearing Corporation Limited.
- II. The Registered office of the Company will be situated in the State of Gujarat.
- III. The objects for which the Company is established are
 - A. **THE MAIN OBJECTS TO BE PURSUED BY THE COMPANY ON ITS INCORPORATION ARE:**
 - 1. To set up and operate a clearing corporation as a unit in an International Financial Service Centre (IFSC) in any Special Economic Zone as approved by the Government of India under the relevant statute (including the Gujarat International Finance Tec-city) or anywhere globally to provide such services in such IFSCs or globally as may be permitted by the regulatory authorities in order to facilitate, promote, assist, set up and carry on the business of clearing and settlement of any kinds including physical settlement and cash settlement in securities, shares, stock, debentures, bonds, units, deposit certificates, notes, warrants and other securities of all kinds, depository receipts, currency, derivatives of all kinds, commodity and commodity derivatives and other commodities of all kinds and all other instruments and products of all kinds as specified and permitted by the regulatory authorities in IFSC or globally and to ensure completion and guarantee of all kinds of settlements.
 - 2. To initiate, facilitate, promote, assist, undertake and manage all activities in relation to Stock Exchanges, Commodity Exchanges, Derivatives Exchanges, Money Markets, Debt Markets, Securities Markets, Capital Markets, Currency markets, OTC markets, Trade Repositories, custodial and depository services

including but not limited to taking measures for ensuring greater liquidity, facilitating intra and inter market dealings in IFSC or globally and generally to facilitate Clearing and Settlement of transactions in IFSC or globally in securities, depository receipts, derivatives, commodity, currency and products of all kinds as specified and permitted by the regulatory authorities for trading in IFSC or globally.

B. MATTERS WHICH ARE NECESSARY FOR FURTHERANCE OF THE OBJECTS SPECIFIED IN CLAUSE 3(A) ARE:

3. To frame and enforce Rules, Bye-laws and Regulations as may be required for regulating the mode and manner, the conditions subject to which the business of the Company shall be transacted and the rules of conduct of the clearing members of the Company, including all aspects relating to clearing membership, trading, settlement, including guarantee of settlements, settlement fund, constitution of committees, delegation of authority and general diverse matters pertaining to the Company and also including code of conduct and business ethics for the clearing members and from time to time to amend or alter such Rules, Bye-laws and Regulations or any of them and to make any new or additional Rules, Bye-laws or Regulations for the purpose aforesaid.
4. To settle disputes and to decide all questions of trading, clearing and settlement methods, practices, usages, custom or courtesy in the conduct of trade and business of the Company.
5. To fix, charge, recover, receive security deposits, admission fee, fund subscriptions, subscription from clearing members of the corporation or the company in terms of the Articles of Association and rules and regulation of the corporation and also to fix, charge and recover deposits, margins, penalties, ad hoc levies and other charges.
6. To facilitate resolution of disputes by arbitration or to nominate arbitrators or umpires on such terms and in such cases as may seem expedient; to set up Regional or local arbitration panels and to provide for arbitration of all disputes and claims in respect of all transactions relating to or arising out of or in connection with or pertaining to the business of the corporation and including arbitration of disputes between clearing members of the corporation and between clearing members of the corporation and persons who are not clearing members of the corporation but constituents of clearing members of the Corporation; and to remunerate such Arbitrators, Regional arbitration panels or local Panels and to make, amend and alter rules, bye-laws and regulations in relation to such arbitration proceedings, the fees of arbitrators; the costs of such arbitration, and related matters and to regulate the procedures thereof and enforcement of awards and generally to settle disputes and to decide all questions of usage, custom or courtesy in the conduct of trade and business in securities.
7. To act as a custodian or depository of securities and instruments of all kinds including derivatives thereof, by itself or in association with or through any other company or person or department of the Government or authority for purposes of storage, in any form gratuitously or otherwise, letting on hire and otherwise disposing off safes, strong rooms and other receptacles for money, securities and documents or securities of all kinds.
8. To establish and maintain or to arrange or appoint agents, to establish and maintain clearing house for the objects and purposes of the company or maintain a stock holding and creating corporation, depository clearing house or division and to control and regulate the working and administration thereof.
9. To enter into any arrangements with the government which may seem desirable and to obtain from such Government any powers, rights, licenses, privileges or concessions which may be deemed necessary and desirable for the purposes set out in the Memorandum.
10. To act as Trustees of any deeds constituting or securing any debentures, debenture stock or other securities or obligations and to undertake and execute any other trusts and also undertake the office of or exercise the powers of executor, administrator, receiver, custodian and trust corporation.
11. To enter into arrangements with any State or Authority central state municipal local or otherwise which may seem conducive to Company's objects or any of them and to obtain from any such Government or Authority any concession grants or decrees rights or privileges whatsoever which the Company may think fit or which may seem to the Company capable of being turned to account and to comply with work, develop, carry out, exercise and turn to account any such arrangements, concessions, grants, decrees, rights or privileges.
12. To acquire, collect, preserve, disseminate or sell statistical or other information in connection with the trade to maintain a library and to print, publish, undertake, manage and carry on any newspaper, journal, magazine, pamphlet, official year book, daily or other periodical quotation lists or other works in connection with or in furtherance of the object of the Corporation.
13. To improve and elevate the technical and business knowledge of persons engaged in or about to be engaged in trade, banking, commerce, finance or company administration or dealing in stocks, shares and securities of any other kind or in connection therewith and with a view thereto to provide for delivery of lectures and the holding of classes and to test by examination or otherwise the competence of such persons and to award certificates and diplomas and to institute and establish scholarships, grants and other benefactions and to set up or form any such technical or educational institutions and to run and administer it.

14. To subscribe for becoming a member of and co-operate with any other association whether incorporated or not, whose objects are to promote the interests represented by Corporation or to promote general commercial and trade interests and to procure from and communicate to such association such information as may further the objects of the Corporation or promote measures for the protection of the trade or any interest therein.
15. To take part in the management of or set up an advisory or research division and act as consultants and advisers for the setting up and organizing of dealing in securities or clearing and settlement in India or abroad, and to act as consultants for securities and their marketing and advising on the incidents and features of the business of the Corporation and to enter into an association with any Exchange in India or abroad whether by subscription or on a co-operation principle for furthering the objects of the company.
16. To enter into any partnership or arrangement in the nature of a partnership, co-operation or union of interest, with any person or persons, company or corporation engaged or interested or about to become engaged or interested in the carrying on or conduct of any business or enterprises which this company is authorised to carry on or conduct or from which the company would or might derive any benefit whether direct or indirectly.
17. To acquire and take over either the whole or any part of the business, goodwill, trademarks, patents, property, assets and liability of any person or persons, firm, body corporate or corporation carrying on any business which it is authorised to carry on.
18. To open Banking accounts with any Bank and pay into and draw money from such accounts.
19. To pay out of the funds of the Company all costs, charges and expenses which the company may lawfully pay with respect to the promotion, formation, establishment and registration of the Company and/or the issue of its capital or which the Company shall consider to be preliminary including therein the cost of printing and stationary, professional, lawyers or any other experts fees and expenses.
20. To appoint trustee or trustees (whether individuals or corporations) to hold securities on behalf of and to protect the interest of the company.
21. To amalgamate with any Company or companies or associations having objects altogether or in part similar to those of this company.
22. To form, promote, subsidise or organise and assist or aid in forming, constituting, promoting, subsidising organising and assisting or aiding companies or partnership of all kinds for the purpose of acquiring any undertaking or any property whether movable or immovable, whether with or without liability of such undertaking or company or any other company, for advancing directly or indirectly the objects hereof and to take or otherwise acquire hold and dispose of shares, debentures and other securities in or of any such company and to subsidise or otherwise assist or manage or own any such company.
23. To do in India or any other part of the world either as principals, agents, trustees, contractors or otherwise either alone or in conjunction with others and either by or through agents contractors trustees or otherwise to the attainment of objects of the Company.
24. To own, establish or have and maintain offices, branches and agencies in or out of India for its business and for securing its customers.
25. To exercise all or any of its corporate powers, rights and privileges and to conduct its business in all or any of its branches in the Union of India and in any or all states and territories thereof and in any or all foreign countries and for this purpose and agencies therein as may be convenient.
26. To subscribe, contribute, make donations or grants or guarantee money for any general or useful object or fund or institution and to aid pecuniarily or otherwise, any association, body or movement.
27. To establish and support or assist in the establishment and support of any funds (whether settlement Fund or Investor Protection Fund or any other funds) trusts and conveniences calculated to advance and further the objects and purposes of the Company and the Capital and Financial markets in general.
28. To make payments or disbursements out of the funds or other movable property of the Company for any of the purposes specified in those presents and the Articles of Association and Rules, Bye-laws and Regulations of the Corporation and to make draw, accept, endorse, discount, execute warrants, debentures or other negotiable or transferrable documents.
29. To seek for and secure openings and opportunities for the employment of capital with the view to prospect, inquire, examine, explore and test the capital and security markets and despatch and employ expeditions, commissions and other agents for the business of the Company.
30. To borrow, raise loans in any form, receive deposits, create indebtedness, to receive grants or advances (whether interest free or not) equity loans or raise any monies required for the objects and purposes of the company upon such terms and in such manner and with or without security as may from time to time be determined and in particular by the issue of debentures, debenture stock, bonds or other securities, provided always and it is hereby expressly declared as an original and fundamental condition of any such borrowing or raising of monies, that in all cases and under all circumstances any person claiming payment

whether of principal or interest or otherwise howsoever in respect of the monies so borrowed or raised shall be entitled to claim such payment only out of the funds, properties and other assets of the Company which alone shall be deemed to be liable to answer and make good all claims and demands whatsoever under and in respect of the monies so borrowed or raised and not the personal funds, properties and other assets of all or any one or more of the Members of the Board of Directors or members of the Company, their or his heirs, executors, administrators, successors and assigns who shall not and shall not be deemed to in any way incur any personal liability or render themselves or himself personally subject or liable to any claims or demands or be charged under and in respect of the monies so borrowed or raised and in the event of the funds, properties and other assets of the Company being insufficient to satisfy the claims of all persons claiming payment as aforesaid, the right of any such person shall be limited to and he shall not be entitled to claim anything more than his part or share of such funds, properties and other assets of the Company in accordance with the terms and conditions on which the monies have been so borrowed or raised;

31. To invest, lend or advance the monies of the Company not immediately required in or upon such security and with or without interest and in such other investments as may from time to time be determined by the company.
32. For all or any of the purposes of the Company to draw, make, accept, endorse, discount, execute, issue, negotiate and sell bills of corporation, promissory notes, cheques, bills of lading, warrants, debentures and other negotiable instruments with or without security and also to draw and endorse promissory notes and negotiate the same and also take and receive advances by discounting or otherwise with or without security, upon such terms and conditions as the company deems fit and also to advance any sum or sums of monies upon materials or other goods or any other things upon such terms and securities as the company may deem expedient.
33. To receive money on deposit or otherwise upon such terms and conditions and to give guarantee and indemnities in respect of debts and contracts of others.
34. To secure or discharge any debt or obligation of or binding in such manner as may be thought fit and in particular by mortgages and charges upon the undertaking and all or any of the assets and property (present and future) and the uncalled capital of the Company or by the creation and issue on such terms as may be thought expedient, of debentures, debenture - stock, or other securities of any description or by the issue of shares credited as fully or partly paid-up;
35. To remunerate any person or company for the services rendered or to be rendered in acting as trustees for debentures, debenture stocks holders, or placing or assisting to place or guarantee the placing of any of the shares in the company's capital or debenture, debenture stock or other securities of the company or in or about the formation or promotion of the company or the conduct of its business or for guaranteeing the payment of such debentures or debenture stock and interest.
36. To insure any of the properties, undertakings, contracts, risks or obligations of the company in any manner whatsoever.
37. To give guarantee, and carry on and transact every kind of guarantee and counter guarantee business and in particular the payment of any principal monies, interest or other monies secured by or payable under debentures, bonds, debenture-stock, mortgage, charges, contracts, obligations, securities and instruments and the payment of dividends on and the repayment of the capital stocks, shares, securities and instruments of all kinds and descriptions.
38. To undertake and subscribe for, conditionally or unconditionally, stocks, shares and securities of any other company;
39. To issue derivatives or acquire and sell any such shares, stocks, debentures, debenture-stock, bonds, obligations or securities by original subscription, tender, purchase, incorporation or auction or otherwise and to subscribe for the same either conditionally or, otherwise, and to guarantee to the subscription thereof and to exercise and enforce all rights and powers conferred by or incident to the ownership thereof in furtherance of the objects of the Company.
40. To erect, construct, extend and maintain suitable building(s) or premises for the use by the Company or its members and for any other purposes of the Company and to alter, add, modify, change to or remove or replace or substitute, or augment space in any such building or buildings.
41. To acquire by purchase, taking on lease or hire purchase or on suppliers credit or otherwise and to develop any property movable or immovable and any rights or privileges necessary or convenient for the purposes of the company and in particular any land, buildings, easements or safe deposit vaults or depositories or custody facilities.
42. To sell, mortgage, exchange, lease, let, underlease or sub-let, grant licences, easement and other rights over, improve, manage, develop and turn to account and in any other manner deal with or dispose of the undertaking, investments, property, assets, rights and effects of the Company or any part thereof for such considerations as may be thought fit, including any stocks, shares or securities of any other company, whether partly or fully paid up.

43. To apply for, purchase or otherwise acquire any patents, brevets, inventions, licences, concessions, rights, privileges and the like conferring of any exclusive or limited right to use any secret or other information as to invention which may seem capable of being used for any of the purposes of the Company or may appear likely to be advantageous or useful to the Company and to use, exercise, develop or grant licences, privileges in respect of or otherwise turn to account the property rights or information so acquired and to assist, encourage and spend money in making experiments of all inventions, patents and rights which the Company may require or propose to acquire.
44. To appoint attorneys and agents whether on commission or otherwise and constitute agencies and sub-agencies of the Company in India and elsewhere.
45. To distribute any of the property of the Company in specie among the members in the event of winding up subject to the provisions of the Companies Act, 2013 or any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force.
46. To train or pay for the training in India or abroad of any of the company's employees or any candidate in the interest of or for the furtherance of the company's objects.
47. To provide for the welfare of employees or ex-employees of the company and the wives and families or the dependents or connections of such person by building or contributing to the building of houses or dwellings or by grants of money pensions, allowances, bonus or other payments or by creating from time to time, subscribing or contributing to provident and other associations institutions funds or trustees and by providing or subscribing or contributing towards place of instruction and recreation hospitals and dispensaries medical and other attendance and other assistance as the company shall think fit.
48. To indemnify officers, Directors, promoters and servants of the company against proceedings, costs, damages, claims and demands in respect of anything done or ordered to be done, for and in the interest of the Company or for any loss or damages or misfortune whatever happens in execution of duties of their offices or in relation thereto.
49. To do all such other things as are incidental or conducive to the above objects or any of them.
50. To take part in the management, supervision or control of the business of operations of any company or undertaking and for that purpose to render technical and professional services and act as administrators or in any other capacity, and to appoint and remunerate any directors, administrators or accountants or other experts or agents for consideration or otherwise.

AND it is hereby declared that:

- a. The word "Company" save when used in reference to this Company, in this clauses shall be deemed to include any partnership or other body of persons whether incorporated and not incorporated whether domiciled in India or elsewhere, and
- b. The several sub-clauses of this Clause and all the powers thereof are to be cumulative and in no case is the generality of any one sub-clause to be narrowed or restricted by any particularity of any sub-clause nor is any general expression in any sub-clause to be narrowed or restricted by any particularity of expression in the same sub-clause or by the application of any rule of construction ejusdem generis or otherwise.
- c. The term "India" when used in this clause unless repugnant to the context shall include all territories from time to time comprised in the Union of India.

IV. The liability of the member(s) is limited and this liability is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them.

V.* The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 1,00,00,00,000 (Rupees One Hundred Crores only) divided into 10,00,00,000 (Ten crores) equity shares of Rs. 10/- (Rupee Ten only) each, with power to increase and reduce the capital of the Company.

*Amended vide special resolution passed by the members at the Extraordinary General Meeting held on April 5, 2017 for increasing the Authorised Share Capital from Rs. 50 crores to Rs. 100 crores.

We the several persons, whose names, addresses, discriptions and and occupations are subscribed below, are desirous od being formed into company in pursuance of this Memorandum of Association And we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company indicated against our respective names.

SL. No.	Name,Address, Occupation & father's name of the Subscriber(s)	Number of Equity Shares agreed to be taken by each Subscriber	Signature of the Subscriber	Name, Address, Occupation and Signature of the Witness
1	National Securities Clearing Corporation limited	49,994(Forty nine thousand nine hundred and ninety four	Sd-/	I Witness to Subscribers who have Subscribe and signed in my presence, Further I have

2	Amit K Amlani	1 (One)		verified their identity details (ID) for their identification and satisfied myself of their identification particulars as filled in sign- Jatin H kapadia Company Secretary ACS: 26725 CP:12043
3	Natarajan Ramasamy	1 (One)		
4	Huzefa Mahuvawala	1 (One)		
5	Ravindra Bathula	1 (One)		
6	R. Jayakumar	1 (One)		
7	Nilesh Tinaikar	1 (One)		
		50000 (Fifty Thousand)		

Place: Mumbai

Date: 16 November 2016

THE COMPANIES ACT, 2013
COMPANY LIMITED BY SHARES
ARTICLE OF ASSOCIATION OF

NSE IFSC CLEARING CORPORATION LIMITED

The Regulations contained in Table marked 'F' in Schedule I to the Companies Act, 2013 shall not apply to the Company, but the regulations for the management of the Company and for the observances by the members thereof and their representatives, shall subject to any exercise of the statutory powers of the Company with reference to the repeal or alteration of, or addition to its regulations by Special Resolution, or as prescribed by the Companies Act, 2013 be such as are contained in these Articles.

INTERPRETATION:

1. In these presents, the following words and expressions shall have the following meaning unless excluded by the subject or the context,

(a) "The Act" or "the said Act" shall mean The Companies Act, 2013 and includes all rules made thereunder, clarifications, circulars, notifications and every statutory modification or replacement thereof, for the time being in force, and the relevant provisions of the Companies Act, 1956, to the extent such provisions have not been superseded by the Companies Act, 2013 or de-notified as the case may be.

(b) "Bye-laws", "Rules" and "Regulations" shall mean the Bye-Laws, Rules and Regulations of the Corporation, for the time being in force.

Explanation: 'Rules' shall include Memorandum and Articles of Association of the Company.

(c) "Company" shall mean "NSE IFSC Clearing Corporation Limited" and shall be a Public Company as defined under the provisions of Section 2(71) of the Companies Act, 2013.

(d) "Corporation" shall mean one or more undertakings of the Company wherein the business of the Company shall be conducted.

(e) "Board", "Board of Directors" or "the Directors" shall mean the Board of Directors of the Company or the Directors of the Company collectively.

(f) "Clearing Member of the Corporation" shall mean any person admitted to the clearing membership of the Corporation but does not denote the membership of the Company.

Explanation: There may be more than one class of clearing members of the Corporation as may be determined by the Board from time to time. A clearing member of the Corporation shall not have any rights as a member of the Company. A 'Clearing Member' of the Corporation is not necessarily required to be a member of the Company.

(g) "Members of the Company" or "Members" shall mean the duly registered holders, from time to time, of the shares of the Company and include the subscribers to the Memorandum of Association of the Company.

(h) "The Office" shall mean the registered office for the time being of the Company.

(i) "Register" shall mean the register of the members to be kept pursuant to Section 88 of the Act.

(j) "SCR Act" shall mean the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and include any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force.

(k) "Seal" shall mean the Common Seal for the time being of the Company.

(l) "SEBI Act" shall mean the securities and Exchange Board of India Act, 1992 and include any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force.

(m) "Writing" shall include printing, typewriting, lithography and any other usual substitutes for writing.

(n) "Year" shall mean "Financial Year of the Company".

2. (a) Words importing persons shall include companies, corporations, firms, joint families or joint bodies, association of persons, societies, trusts, public financial institutions, subsidiaries of any of the public financial institutions or banks or companies;
- (b) Words importing the masculine gender shall include the feminine gender and vice versa and neutral gender in the case of companies, corporations, firms, etc.
- (c) Words importing the singular shall include the plural and vice versa.
- (d) Unless otherwise defined in these presents or unless the context requires or indicates a different meaning, any words or expression occurring in these presents shall bear the same meaning as in the Act and the SCR Act and the SEBI Act, or any modifications or re-enactments thereof or any Rules framed thereunder.
- (e) Marginal notes shall not affect the construction hereof.

SHARE CAPITAL

3. **Authorised Share Capital**

The Authorised Share Capital of the Company shall be of such amount and of such description as is stated for the time being or at any time, in the Memorandum of Association of the Company and the Company shall have power to increase or reduce the share capital from time to time in accordance with the regulations of the Company and the legislative provisions for the time being in force in this regard.

4. **Register of Members and Debenture holders etc.**

The Company shall cause to be kept a Register of Members, an Index of members, a Register of Debenture-holders and an Index of Debenture-holders in accordance with Section 88 of the Act.

5. **Inspection of Register of Members and Debenture holders etc.**

The Register of Members, the Index of Members, the Register and Index of Debenture-holders, copies of all returns prepared under the Act, together with the copies of certificate and documents required to be annexed thereto under the Act shall, except when the Register of Members or Debenture-holders is closed under the provisions of the Act or these presents, be open during business hours, (subject to such reasonable restriction as the Company may impose) to inspection of any Member or Debenture-holder gratis and to inspection of any other person on payment of such sum as may be prescribed by the Act for each inspection. Any such Member or person may take extracts therefrom on payment of such sum as may be prescribed by the Act.

6. **The Company to send extracts of Register, etc.**

The Company shall send to any Member, Debenture-holder or other person on request, a copy of the Register of Members, the Index of Members, the Register and Index of Debenture-holders or any part thereof required to be kept under the Act, on payment of such sum as may be prescribed by the Act. The copy shall be sent within a period of seven days, or such other time as may be prescribed under the Act or rules made thereunder

7. **Restriction on allotment**

The Board shall observe the restriction as to allotment contained in Section 39 of the Act and shall cause to be made the returns as to allotment provided for in Section 39 of the Act.

8. **Shares at the disposal of the Governing Board**

Subject to the provisions of the Act and these presents, the shares in the Capital of the Company for the time being (including any shares forming part of any increased capital of the Company) shall be under the control of the Directors who may allot or otherwise dispose off the same or any of them to such persons in such proportions and on such terms and conditions and either at a premium or at par or (subject to compliance with the provisions of Section 53 of the Act) at a discount and at such times as they may from time to time think fit and proper with the sanction in the General Meeting to give to any person or persons the option or right to call for any Shares either at par or premium during such time and for such consideration as the Directors think fit, and may issue and allot Shares in the capital of the Company on payment in full or part of any property sold and transferred or for any services rendered to the Company in the conduct of its business and any Shares which may so be allotted may be issued as fully paid up Shares and if so issued, shall be deemed to be fully paid Shares;

Provided that option or right to call shares shall not be given to any person except with the sanction of the Company in General Meeting.

9. **Board may allot shares as fully paid-up or partly paid-up**

Subject to the provisions of the Act and these presents, the Board may allot and issue shares in the capital of the Company as payment or part payment for any property sold or goods transferred or machinery supplied or for services rendered to the Company and any shares which may be so allotted may be issued

as fully paid-up or partly paid-up and if so issued shall be deemed to be fully paid-up shares or partly paid-up shares.

10. Acceptance of shares

Any application signed by or on behalf of an applicant for shares in the Company, followed by an allotment of any shares therein, shall be an acceptance of shares within the meaning of these presents; and any person who thus or otherwise accepts any shares and whose name is on the Register of Members shall for the purpose of these presents be a Member.

11. Deposits and calls, etc. to be a debt payable immediately

The money, (if any), which the Board shall, on allotment of any shares being made by them, require or direct to be paid by way of deposit, call or otherwise, in respect of any shares allotted by them, shall, immediately on insertion of the name of allottee in the Register of Members as the name of the holder of such shares, become a debt due to and recoverable by the Company from the allottee thereof, and shall be paid by him accordingly.

12. Installments on shares

If, by the conditions of allotment of any shares, the whole or part of the amount or issue price thereof shall be payable by installments, every such installment shall, when due, be paid to the Company by the person who, for the time being and from time to time, shall be the registered holder of such share or his legal representative.

13. Calls on shares of the same class to be on uniform basis

Where any calls for further share capital are made on shares, such call shall be made on a uniform basis on all shares falling under the same class. For the purpose of this Article, shares of the same nominal value on which different amounts have been paid-up shall not be deemed to fall under the same class.

14. Company not bound to recognise any interest in shares other than that of the registered holders.

Save as herein otherwise provided, the Company shall be entitled to treat the person whose name appears on the Register of Members as the holder of any shares as the absolute owner thereof and accordingly shall not (except as ordered by a Court of Competent jurisdiction or as by law required) be bound to recognize any benami, trust or equity or equitable, contingent or other claim to or interest in such share on the part of any other person whether or not it shall have express or implied notice thereof.

15. Company's funds may not be applied in purchase of or lent on shares of the Company.

Except to the extent permitted by Section 67 of the Act, no part of the funds of the Company shall be employed in the purchase of or lent on the security of the shares of the Company

15A. Buy back of own shares or securities

Notwithstanding anything contained in these articles, the Company may, when and if thought fit, buy back such of the Company's own equity shares or securities as it may think necessary, subject to such limits, upon such terms and conditions, and subject to such approvals, as may be required under the provisions of section 68, 69, 70 and other applicable provisions, if any, of the Act and rules framed thereunder.

16. Liability of Members

Every member shall pay to the Company the portion of the capital representation by his share or shares, which may for the time being remain unpaid thereon, in such amounts at such time or times and in such manner as the Board shall, from time to time, require or fix payment thereof.

17. Trusts not recognised

Except as required by law, no person shall be recognised by the company as holding any share upon any trust, and the company shall not be bound by, or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as by these regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.

UNDERWRITING COMMISSION

18. Commission for placing of shares

- (i) The Company may at any time pay a commission to any person for subscribing or agreeing to subscribe (whether absolutely or conditionally) for any shares, debentures or debenture stock or any other security of the Company or for procuring or agreeing to procure subscriptions (whether absolute or conditional) for any share debentures or debenture stock or any other security of the Company but so that if the commission in respect of shares shall be paid or payable out of the proceeds of the respective issue or profit or both, the statutory conditions and requirements shall be observed and complied with and the amount or rate of commission shall not exceed the rates prescribed by the Act. The Commission may be paid or satisfied in cash or in shares, debenture or debenture stock of the Company.

Brokerage

- (ii) The Company may also, on issue of such shares, pay such brokerage as may be permissible under the Act.

CERTIFICATES**19. Certificates how to be issued and limitation of time for issue of certificates**

The certificate of title to securities shall be issued under the Seal of the Company in presence of and bearing the signature of two Directors or persons duly authorised by the Board or its committee, as the case may be and the secretary or some other persons appointed by the Board for the purpose. If the composition of the Board permits of it, at-least one of the aforementioned two Directors shall be a person other than a managing director or a whole time director. The certificate of such shares shall subject to provisions of Section 56 of the Act be delivered in accordance with the procedure laid down in the Act within two months after the allotment in case of allotment of shares or within one month from the date of receipt by the Company of the instrument of transfer in case of transfer or within one month from the date of receipt of intimation of transmission by the Company or in case of allotment of debentures within six months from the date of allotment such debentures, as the case may be. Provided always that notwithstanding anything contained in this Articles, the certificate of title to share may be executed and issued in accordance with such other provisions of the Act or Rules made thereunder, as may be in force for the time being and from time to time. In respect of a share or shares held jointly by several persons, the Company shall not be bound to issue more than one certificate and delivery of a certificate of shares to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holder. Notwithstanding the above, the certificates of securities, shall be issued in accordance with the provisions of the Act, the SCR Act, as amended, and any other applicable laws.

19A. Dematerialisation of equity shares

Notwithstanding anything contained in these Articles, the Company shall be entitled to dematerialise its securities and to offer securities in a dematerialised form pursuant to the Depositories Act, 1996. In respect of the securities so dematerialised, the relevant SEBI circulars and directives besides the provisions of the Depositories Act, 1996 and the relevant regulations shall apply. For securities dealt with in a depository, the Company shall intimate the details of allotment of securities to depository immediately on allotment of such securities.

20. Member's right to Certificates

Every Member shall be entitled without payment to one or more certificates in marketable lots for all the shares of each class or denomination registered in his name or, if the Directors so approve (upon paying such fee or fees or at the discretion of the Directors without payment of fees as the Directors may from time to time determine) to several certificates each for one or more shares of each class. Every certificate of shares shall contain such particulars and, shall be in such form as prescribed by the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, as amended or any other Rules in substitution or modification thereof. Where a Member has transferred a part of the shares comprised in his holding he shall be entitled to a certificate for the balance without charge.

21. As to issue of new certificate in place of one defaced, lost or destroyed

- (1) A certificate may be renewed or a duplicate of a certificate may be issued within the period prescribed under applicable law if (a) such certificate(s) is proved to have been lost or destroyed to the satisfaction of the Company and on execution of such indemnity as the Company deem adequate, or (b) having been defaced or mutilated or torn or worn out or has no further space on the back thereof for endorsement or transfer, is produced and surrendered to the Company. Every certificate under this Article shall be issued on payment of fees if the Directors so decide, or on payment of such fees (not exceeding Rs.50 for each certificate) as the Directors shall prescribe.
- (2) The manner of issue or renewal of a certificate or issue of a duplicate thereof, the form of a certificate (origin or renewed) or of a duplicate thereof, the particulars to be entered in the Register of Members or in the Register or renewed or a duplicate certificates, the form of such Registers, the fee on payment of which the terms and conditions on which a certificate may be renewed or a duplicate thereof may be issued, shall be such as prescribed by the Act and rules made thereunder, rules or regulation or requirements of any recognised stock exchange, the SCR Act and or any other act or rules applicable in this behalf.

The provisions of the foregoing Articles relating to issue of certificates shall mutatis mutandis apply to issue of certificates for any other securities including Debentures (except where the Act otherwise requires).

CALLS**22. Calls**

The Directors may, from time to time, make such calls as they think fit upon the Members in respect of all monies unpaid on the shares held by them respectively and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times, and each Member shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the times and places appointed by the Directors. A call may be made payable by installments.

23. Notice of call

A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorising such call was passed and may be made payable by Members on the Register of Members on such date or at the discretion of the Directors on such subsequent date as shall be fixed by the Directors.

24. Not less than fourteen days' notice of every call shall be given specifying the time of payment provided that before the time for payment of such call the Directors may, by notice in writing to the Members, revoke the same.**25. Board may extend time**

The Directors may from time to time, at their discretion, extend the time fixed for the payment of any call and may extend such time as to all or any of the Members whom the Directors may deem entitled to such extension save as a matter of grace and favour.

26. Liability of Joint-holders

The joint-holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof

27. Amount payable at fixed time or by installments as calls

If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is made payable at any fixed time or by installments at fixed times, whether on account of the nominal value or by way of premium, every such amount or installments shall be payable as if it were a call duly made by the Directors and of which due notice has been given and all the provisions herein contained in respect of calls shall relate to such amount or installments accordingly.

28. When interest on call or installment payable

If the sum payable in respect of any call or installment be not paid on or before the day appointed for payment thereof the holders for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made or the installment shall be due shall pay interest on the same at such rate as the Directors shall fix from time to time from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Directors may waive payments of such interest wholly or in part. A call may be revoked or postponed at the discretion of the Board.

29. Partial payment not to preclude forfeiture

Neither a judgment nor a decree in favour of the Company for calls or other monies due in respect of any shares nor any payment or satisfaction thereunder nor the receipt by the Company of a portion of any money which shall from time to time be due from the Member in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by the Company in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such shares as herein provided.

30. Payment in anticipation of calls may carry interest

The Directors may, if they think fit (subject to the provisions of the Act) agree to and receive from any Member willing to advance the same the whole or any part of the moneys due upon the shares held by him beyond the sums actually called for, and upon the moneys so paid or satisfied in advance or so much thereof as from time to time exceeds the amount of the calls then made upon the shares in respect of which such advance has been made the Company may pay interest at such rate as the Member paying such sum in advance and the Directors agree upon and the Directors may at any time repay the amount so advanced upon giving to such Member one month's notice in writing; provided that moneys paid in advance of calls on Shares may carry interest but shall not confer a right to dividend or to participate in profits.

No Member paying any such sum in advance shall be entitled to voting rights in respect of the moneys so paid by him until the same would but for such payment become presently payable. The provisions of this Article shall mutatis mutandis apply to calls on Debentures issued by the Company.

31. Members not entitled to privilege of membership until all calls are paid

No Member shall be entitled to receive any dividend or exercise any privilege as a Member until he shall have paid all calls from the time being due and payable on every share held by him, whether alone or jointly with any person, together with interest and expenses if any.

32. If call or installment not paid notice must be given

If any Member fails to pay the whole or any part of any call or installment of any money due in respect of any shares either by way of principal or interest on or before the day appointed for the payment of same the directors may at any time thereafter during such time as the call or installment or any part thereof or other monies remain unpaid or a judgment or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole or in part serve a notice on such Member or on the person (if any) entitled to the share by transmission requiring him to pay such call or installment or such part thereof or other moneys as remain unpaid together with any interest that have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by the Company by reason of such non-payment.

33. Form of Notice

The notice shall name a day not being less than fourteen days from the day of the notice and the place or places on and at which such call or installment or such part or other moneys as aforesaid and such interest and expenses as aforesaid are to be paid. The notice shall also state that in the event of non-payment at or before the time and at the place appointed the share in respect of which the call was made or installment is payable will be liable to be forfeited.

34. In default of payment, shares to be forfeited

If the requisitions of any such notice as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter before payment of all calls or installments, interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by resolution of the Directors to the effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture, subject to the provisions contained in the Act.

35. Entry of forfeiture on Register of Members

When any share shall have been so forfeited, an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the Register of Members.

36. Forfeited shares to be property of the Company and may be sold etc

Any share so forfeited shall be deemed to be the property of the Company and may be sold, reallocated or otherwise disposed of either to the original holder thereof or to any other person upon such terms and in such manner as the Directors shall think fit.

37. Power to annul forfeiture.

The Directors may at any time before any share so forfeited shall have been sold, reallocated or otherwise disposed of, annul the forfeiture thereof upon such conditions as they think fit.

38. Shareholders still liable to pay money owing at the time of forfeiture and interest

Any Member whose share have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to the company all calls, installments, interest, expenses and other monies owing upon or in respect of such shares at the time of the forfeiture together with interest thereon from the time of the forfeiture until payment, at such rates as may be prescribed by the Directors and the Directors may enforce the payment of the whole or a portion thereof if they think fit but shall not be under any obligation to do so. Liability of such person shall cease if and when the Company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares.

39. Company's lien on shares/debentures.

The Company shall have no lien on its fully paid shares. In the case of partly paid up shares/debentures, registered in the name of each member (whether solely or jointly with another or others) and upon the proceeds of sale thereof, the Company shall have a first and paramount lien only for all monies called or payable (whether presently payable or not) at a fixed time in respect of such shares/debentures and no equitable interest in any share shall be created except upon the footing and condition that this Article will have fullest effect. Any such lien shall extend to all dividends, from time to time, and bonus declared in respect of such shares/ debentures subject to the Act. Unless otherwise agreed, the registration of a transfer of shares/ debentures shall operate as a waiver of the Company's lien, if any, on such shares/ debentures; Provided that the Board may at any time declare any Share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.

40. As to enforcing lien by sale

For the purpose of enforcing such lien, the Directors may sell the shares subject thereto in such manner as they think fit, but no sale be made unless certain sum in respect of which the lien exists is presently payable nor until notice in writing of the intention to sell shall have been served on such Member or the person (if any) entitled by transmission to the share and default shall have been made by him in payment of the sum presently payable for seven days after such notice.

41. Application of proceeds of sales

The net proceeds of any such sale after payment of the costs of such sale shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is presently payable and the residue (if any) paid to the Member or the person (if any) entitled to the transmission of the shares so sold.

42. Certificate of forfeiture

A certificate in writing under the hands of any Directors, Manager or the Secretary of the Company that the call in respect of a share was made, and that the forfeiture of the share was made, by a resolution of the Directors to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such share.

43. Title of purchaser and allottee of forfeited shares

The Company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale, re-allotment or other disposition thereof and the person to whom such share is sold re-allotted or disposed of may be registered as the

holder of the share and such person shall not be bound to see the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, allotment or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Company exclusively.

44. Application of the forfeiture provisions

The provisions of these presents as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by terms of issue of a share become payable at a fixed time, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.

TRANSFER AND TRANSMISSION OF SHARES

45. Form of Transfer

The instrument of transfer of any share shall be in writing in the form prescribed under Section 56 of the Act.

46. Execution of instrument of transfer

Every such instrument of transfer shall be executed both by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of such share until the name of the transferee shall have been entered in the Register of members in respect thereof

47. The Company, the transferor and the transferee of the shares shall comply with provisions of Section 56 of the Act.

48. Transfer instrument to be presented with evidence of title

Every instrument of transfer shall be presented to the Company duly stamped for registration within a period of sixty days from the date of execution, or such lesser period as may be prescribed under the applicable law, accompanied by the relative share certificates and such evidence as the Board may require to prove the title of the transferor, his right to transfer of shares and generally under and subject to such conditions and regulations as the Board shall from time to time, prescribe and every registered instrument of transfer shall remain in the custody of the Company until destroyed by order of the Board of Directors, subject to the provisions of law.

49. Title of shares of deceased member

The executors or administrators or holders of a succession certificate or the legal representative of a deceased (not being one of two or more joint holders) shall be the only persons recognised by the Company as having any title to the shares registered in the name of such member and Company shall not be bound to recognise such executors or administrators or holders of succession certificate or the legal representatives unless they shall have first obtained Probate or Letters of Administration or Succession Certificate or other legal representation as the case may be, from a duly constituted court in the Union of India provided that in any case where the Board in its absolute discretion thinks fit, the Board may dispense with production of probate or letters of Administration or Succession certificate, upon such terms as to indemnity or otherwise as the Board, in its absolute discretion may think necessary and under Article 51 register the name of any person who claims to be absolutely entitled to the shares standing in the name of the deceased member as a member.

50. Insolvency or liquidation of one or more joint holders of the shares

In the case of insolvency or liquidation of one or more of the persons named in the Register of Members as the joint-holders of any share, the remaining holder or holders shall be the only persons recognised by the Company as having any title to, or interest in, such share, but nothing herein contained shall be taken to release the estate of the person under insolvency or liquidation from any liability on shares held by him jointly with any other person.

51. Registration of persons entitled to shares otherwise than by transfer

Subject to the provisions of the Act, any person becoming entitled to shares in consequences of death, lunacy, bankruptcy, insolvency or liquidation of any Member, by any lawful means other than by a transfer in accordance with this Articles, may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either (a) to be registered himself as holder of the share; or (b) to make such transfer of the share as the deceased or insolvent member could have made. The Board shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent member had transferred the share before his death or insolvency.

Provided nevertheless, that the person who shall elect to have his nominee registered shall testify the election by executing in favour of his nominee an instrument of transfer in accordance with the provisions herein contained, and until he does so, he shall not be freed from any liability in respect of the shares.

52. Fee on transfer or transmission

53. No fee shall be charged for registration of transfer, transmission, probate, succession certificate and letters administration, certificate of death or marriage, power of attorney or similar other document.

54. Register of Transfers to be kept.

The Company shall keep a book, to be called the "Register of Transfer" and therein shall be fairly and distinctly entered particulars of every transfer or transmission of any share.

55. Closure of transfer books

The Board shall have power on giving at least seven days', or such lesser period as may be prescribed under the applicable law, previous notice, in such manner as may be prescribed, by advertisement at least once in a vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district and having a wide circulation in the place where the Registered Office of the Company is situated, in English language in an English newspaper circulating in that district and having wide circulation in the place where the Registered Office of the Company is situated and publish the notice on website as may be notified by the Central Government and on the website of the Company, to close the Transfer Books, the Register of Member or Register of Debenture Holders at such time or times and for such period or periods not exceeding thirty days at a time and not exceeding in aggregate forty-five days, or such lesser period as may be prescribed under the applicable law, in each year as it may deem expedient.

56. Directors may refuse to register transfers Subject to the provisions of the Act, these Articles, as amended, and any other applicable law, the Board may, at its absolute and uncontrolled discretion refuse with cause whether in pursuance of any power of the Company under these Articles or otherwise to register or acknowledge the transfer of, or the transmission by operation of law of the right to, any shares, whether fully paid or not, or interest of a member therein, or debentures of the Company, and the right of refusal, shall not be affected by the circumstances that the proposed transferee is already a member of the Company but in such cases, and the Company shall within thirty days or such lesser period as may be prescribed under the applicable law, from the date on which the instrument of transfer, or the intimation of such transmission, as the case may be, was delivered to the Company, send notice of the refusal to the transferee and the transferor or to the person giving intimation of such transmission, as the case may be.

Provided that the registration of a transfer shall not be refused on the grounds of the transferor being either alone or jointly with any other person or persons indebted to the Company on any account whatsoever except where the Company has a lien on shares. Transfer in whatever lot shall not be refused.

57. Rights to shares through transmission by operation of law

Nothing contained in Article 48 shall prejudice any power of the Company to register as shareholder any person to whom the right to any shares in the Company has been transmitted by operation of law.

58. Transfer by legal representative

A transfer of shares or other interest in the Company of a deceased member thereof made by legal representative shall, although the legal representative is not himself a member, be as valid as if he had been a Member at the time of the execution of the instrument of transfer.

59. Company's power to refuse transfer

Nothing in these presents shall prejudice the powers of the Company to refuse to register the transfer of any shares subject to the provisions of the Act and these Articles, as amended.

60. Transferor liable until the transferee entered on register

The transferor shall be deemed to remain the holder of such shares until the name of the transferee is entered into the Register of Members in respect thereof.

61. Custody of transfer

The instrument of transfer shall after registration be retained by the Company and shall remain in its custody. All the instruments of transfer which the Director may decline to register shall on demand be returned to the person depositing the same. The Directors may cause to be destroyed all transfer deeds lying with the Company after such period as they may determine.

62. The Company not liable for disregard of a notice

The Company shall incur no liability or responsibility whatever in consequence of their registering or giving effect to any transfer of shares made or purporting to be made by the apparent legal owner thereof (as shown or appearing in the register of Members) to the prejudice of persons having or claiming any equitable right title or interest to or in the same shares notwithstanding that the Company may have had notice of such equitable right title or interest or notice prohibiting registration of such transfer and may have entered such notice or referred thereto in any book of the Company and the Company shall not be bound or required or regard or attend or give effect to any notice which may be given to them of any equitable title or interest or be under any liability whatsoever for refusing or neglecting so to do, though it may have been entered or referred in some book of the company but the Company shall nevertheless be at liberty to regard and attend to any such notice and give effect thereto, if the Directors shall so think fit.

63. Transfer Of Debentures

The provisions of these Articles shall mutatis mutandis, apply to the allotment and transfer of or the transmission by law of the right to Debentures of the Company.

63. (1) Issue, acquisition and holding of shares subject to SEBI Regulations

Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles, the provisions of Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 or any modification thereto, as the case may be, shall apply in respect of issue, acquisition and holding of equity shares of the Company.

Restriction on the transfer

- (2) As provided in the foregoing Articles and without prejudice to the provisions of Articles 55, a member shall be at liberty to transfer the share:

Provided however that the Board may refuse the transfer if in its opinion –

- (a) the transfer is being made otherwise than in accordance with relevant SEBI circulars and directives beside the provisions of Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 or any modification thereto, as the case may be; or
- (b) the transfer, if made, will not be in the interest of the Company.

CONVERSION OF SHARES INTO STOCK**64. Conversion of Shares into stock and reconversion**

The Directors with the sanction of a resolution of the Company in General Meeting may convert any paid-up shares into stock and may convert all or any stock into paid-up shares of any denomination. When any shares have been converted into stock, the several holders of such stock may thenceforth transfer their respective interests therein or any part of such interest in the same manner and subject to the same regulations as and subject to which fully paid-up shares in the Company's capital may be transferred or as near thereto as circumstances will admit.

65. Rights of stockholders

The stock shall confer on the holders thereof respectively the same privileges and advantages as regards voting at meeting of the Company and for other purposes as would have been conferred by shares of equal amount in the capital of the Company of the same class as the shares from which such stock is converted but so that none of such privileges or advantages, except the participation in profits of the Company or in assets of the Company on winding up, shall be conferred by any such shares allotted part of stock as would not if existing in shares have conferred such privileges or advantages. Such conversion shall not affect or prejudice any preference or other special privileges attached to the shares so converted. Save as aforesaid, all the provisions herein contained shall, so far as circumstances shall admit, apply to stock as well to the shares.

66. Increase of Capital

The Company may from time to time in General Meeting increase its Authorised Share Capital by issuing further shares of such amount as it thinks expedient.

67. Further issue of capital

- (1) Where at any time the Board or the Company, as the case may be, may, propose to increase the subscribed capital by the issue of further shares then such shares shall be offered, subject to the provisions of section 62 of the Act, and the rules made thereunder :-
- (A)
 - (i) to the persons who at the date of the offer are holders of the equity shares of the Company in proportion as nearly as circumstances admit to the paid-up share capital on those shares by sending a letter of offer subject to the conditions mentioned in (ii) to (iv) below;
 - (ii) The offer aforesaid shall be made by notice specifying the number of shares offered and limiting a time not being less than fifteen days and not exceeding thirty days from the date of the offer, within which the offer if not accepted, shall be deemed to have been declined;
 - (iii) The offer aforesaid shall be deemed to include a right exercisable by the person concerned to renounce the shares offered to him or any of them in favour of any other person and the notice referred to in sub-clause (ii) shall contain a statement of this right;
 - (iv) After the expiry of time specified in the notice aforesaid or on receipt of earlier intimation from the person to whom such notice is given that the person declines to accept the shares offered, the Board of Directors may dispose of them in such manner which is not disadvantageous to the Shareholders and the Company;
 - (B) subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 or any modification thereto, to employees under any scheme of employees' stock option subject to special resolution passed by the Company and subject to the Rules and such other conditions, as may be prescribed under applicable law; or

- (C) to any person(s), if it is authorised by a special resolution, whether or not those persons include the persons referred to in clause (A) or clause (B) above either for cash or for a consideration other than cash, if the price of such shares is determined by the valuation report of a registered valuer subject to such conditions as may be prescribed under the Act and the rules made thereunder.
- (2) Nothing in sub-clause (iii) of Clause (1)(A) shall be deemed:-
- (i) To extend the time within which the offer should be accepted; or
 - (ii) To authorise any person to exercise the right of renunciation for a second time on the ground that the person in whose favour the renunciation was first made has declined to take the shares compromised in the renunciation.
- (3) Nothing in this Article shall apply to the increase of the subscribed capital of the Company caused by the exercise of an option as a term attached to the Debentures issued or loan raised by the Company to convert such Debentures or loans into Shares in the Company or to subscribe for Shares of the Company:
- Provided that the terms of issue of such Debentures or loan containing such an option have been approved before the issue of such Debentures or the raising of loan by a special resolution passed by the Company in a General Meeting.
- (4) Notwithstanding anything contained in Article 67(3) hereof, where any debentures have been issued, or loan has been obtained from any Government by the Company, and if that Government considers it necessary in the public interest so to do, it may, by order, direct that such debentures or loans or any part thereof shall be converted into Shares in the Company on such terms and conditions as appear to the Government to be reasonable in the circumstances of the case even if terms of the issue of such debentures or the raising of such loans do not include a term for providing for an option for such conversion:
- Provided that where the terms and conditions of such conversion are not acceptable to the company, it may, within sixty days from the date of communication of such order, appeal to the National Company Law Tribunal which shall after hearing the Company and the Government pass such order as it deems fit.

A further issue of shares may be made in any manner whatsoever as the Board may determine including by way of preferential offer or private placement, subject to and in accordance with the Act and the rules made thereunder.

68. Shares under control of General Meeting

In addition to and without derogating from the powers for the purpose conferred on the Directors under Articles 8, the Company in the General Meeting may in accordance with the provisions of Section 62 of the Act determine that any shares (whether forming part of the original capital of the Company or not) shall be offered to such persons (whether Members or holders of Debentures of the company or not) in such proportion and on such terms and conditions and either at a premium or at par or (subject to compliance with the provisions of Section 53 of the Act) at a discount, as such General Meeting shall determine.

69. Same as original capital

Except so far as otherwise provided by the conditions of issue or by these presents any capital raised by issue of further shares shall be considered part of the original capital and shall be subject to the provisions herein contained with reference to the payment of calls and installments, transfer and transmissions, forfeiture, lien, surrender, voting and otherwise.

70. Reduction of capital

The Company from time to time by Special Resolution reduce its share capital (including the Capital Redemption Reserve Account if any) in any way authorised by law and in particular may pay off any paid up share capital upon the footing that it may be called up again or otherwise and if and so far as necessary alter its Memorandum by reducing the amount of its share capital and of its share accordingly.

71. Division and sub- division

The Company may in the General Meeting by Ordinary Resolution alter the conditions of its Memorandum as follows:-

- (a) Consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares; Provided that no consolidation and division which results in changes in the voting percentage of shareholders shall take effect unless it is approved by the National Company Law Tribunal on an application made in the prescribed manner
- (b) Sub-divide shares or any of them into shares of smaller amount than originally fixed by the Memorandum subject nevertheless to the provisions of the Act in that behalf. Subject to these presents the resolution by which any shares are sub-divided may determine that as between the holders of the shares resulting from such sub-division one or more of such shares may be given any preference or advantage or otherwise over the others or any other such shares.
- (c) Cancel shares which at the date of such General Meeting have not been taken or agreed to be taken by any person and diminish the amount of the shares so canceled.

JOINT HOLDERS

72. Joint Holders

Where two or more persons are registered as the holders of any share, the person first named in the Register of Members shall be deemed the sole holder for matters connected with the Company subject to the following and other provisions contained in the Articles:

- (a) The Company shall be entitled to decline to register more than four persons as the joint holders of any share.
- (b) The joint holders of any share shall be liable severally as well as jointly for and in respect of all calls and other payments which ought to be made in respect of such share.
- (c) on the death of any such joint holders, the survivor(s) shall be the only person(s) recognised by the Company as having any title to the share but the Directors may require such evidence of death as they may deem fit and nothing herein contained shall be taken to release the estate of a deceased joint holder from any liability on shares held by him jointly with any other person(s).
- (d) Any one of such joint holders may give effectual receipts for any dividends or other monies payable in respect of such share.
- (e) Only the person whose name stands first in Register of Members as one of the joint holders of any share shall be entitled to delivery of the certificate relating to such share or to receive document (which expression shall be deemed to include all documents mentioned in Article 188) from the Company and any notice given to or document served on such person shall be deemed service on all the joint holders.
- (f) Any one of two or more joint holders may vote at any meeting either personally or by attorney or by proxy in respect of such shares as if he were solely entitled thereto and if more than one of such joint holders be present at any meeting personally or by proxy or by attorney then that one of such persons so present whose name stands first or higher (as the case may be) on the Register in respect of such shares shall alone be entitled to vote in respect thereof but the other or others of the joint holder shall be entitled to vote in preference to a joint holder present by attorney or by proxy although the name of such joint holders present by attorney or proxy stands first or higher (as the case may be) in the Register in respect of such shares.

BORROWINGS POWERS

73. Conditions on which money may be borrowed

Subject to the provisions of the Act, the Board may from time to time, by a resolution passed at a Meeting of the Board accept deposits or borrow moneys from members, either in advance of calls or otherwise or accept deposits from public and may generally raise and secure the payment of such sum or sums in such manner and upon such terms and conditions in all respects as they think fit and in particular by the issue of bonds perpetual or redeemable debentures or debentures or debenture stock, or any mortgage or charge or other security on the undertaking or the whole or any part of the property of the Company (both present and future) including its uncalled capital for the time being.

74. Bond, Debentures, etc. to be subject to control of Directors

Any bonds, debentures, debentures stock or other securities issue or to be issued by the Company shall be under the control of the Directors who may issue them upon such terms and conditions and in such manner and for such consideration as they shall consider to be for the benefit of the Company.

75. Securities may be assignable free from equities

Debenture, debenture stock, bonds or other securities may be assignable free any equities between the Company and the person to whom the same may be issued.

76. Issue at discount, etc. or with special privileges

Any bonds, debentures, debenture stocks or other debt securities may be issued at a discount, premium or otherwise and may be issued on condition that they shall be convertible into shares of any denomination and with any special privilege as to redemption, surrender, drawing, allotment of shares, attending at General Meetings of the Company, appointment of Directors and otherwise. Debenture with the right to conversion into or allotment of shares shall be issued only with the consent of the Company in the General Meeting by a special resolution.

77. Mortgage of uncalled capital

If any uncalled capital of the Company is included in or charged by any mortgage or other security, the Directors may authorise the person in whose favour such mortgage or security is executed or any other person in trust for him to make calls on the Members in respect of such uncalled capital and the provisions herein before contained in regard to call shall mutatis mutandis apply to calls made under such authority and such authority may be made exercisable either conditionally or unconditionally and either presently or contingently and either to the exclusion of the Board's power or otherwise and shall be assignable, if expressed so to be.

78. Indemnity may be given

If the Directors or any of them or any other person shall become personally liable for the payment of any sum primarily due from the Company, the Directors may execute or cause to be executed any mortgage, charge or security over or affecting the whole or any part of the assets of the Company by way of indemnity to secure the Directors or person so becoming liable as aforesaid from any loss in respect of such liability.

79. Register of charges to be kept

The Board shall cause a proper Register to be kept in accordance with the provisions of the Act of all mortgages, debentures and charges specifically affecting the property of the Company, and shall duly comply with the requirements of the said Act in regard to registration of mortgages and charges and in regard to inspection to be given to creditors or Members of the Register of Charges and copies of instruments creating charges. Such sums as may be prescribed by the Act shall be payable by any person other than a creditor or Member of the Company for each inspection of the Register of Charges.

MEETINGS**80. Annual General Meeting**

- (a) (i) The Company shall, in addition to any other meeting hold a general meeting which shall be styled as "Annual General Meeting" at the intervals and in accordance with the provisions, specified below:
 - (ii) The Annual General Meeting of the Company, subsequent to the first Annual General Meeting shall be held by the Company within six months after the expiry of the financial year in which the first General Meeting was held; and thereafter an Annual General Meeting shall be held in each year by the Company within six months after the expiry of each financial year;
 - (iii) Not more than fifteen months shall elapse between the date of one Annual General Meeting and that of the next;
- (b) Every Annual General Meeting shall be called for a time during business hours i.e. between 9 a.m. to 6 p.m. on a day that is not a national holiday, and shall be held either at the Registered Office of the Company or at some other place within the city where the registered office is situated and the notices calling the meeting shall specify it as Annual General Meeting.

81. Extra-Ordinary General Meeting

All general meetings other than Annual General Meeting shall be called Extra-Ordinary General Meetings.

82. Calling of Extra- Ordinary General Meeting

- (a) The Board may whenever they think fit, and shall, on the requisition of such number of Members of the Company as is hereinafter specified, forthwith proceed to call an Extra-ordinary General Meeting of the Company and in case of such requisition the following provision shall apply :
- (b) The requisition shall set out the matters for the consideration of which the meeting is to be called and shall be signed by the requisitionists and shall be deposited at the Registered Office of the Company.
- (c) The requisition may consist of several documents in like form each signed by one or more requisitionists.
- (d) The number of Members of the Company entitled to requisition a meeting in regard to any matter shall be such number of them as hold at the date of deposit of the requisition, not less than one-tenth of such of the paid-up capital of the Company as at the date carries the right of voting in regard to that matter.
- (e) Where two or more distinct matters are specified in the requisition, the provisions of clause (d) shall apply separately in regard to each such matter, and the requisition shall accordingly be valid only in respect of those matters in regard to which the condition specified in that sub-article is fulfilled.
- (f) If the Board does not, within twenty one days from the date of deposit of a valid requisition in regard to any matters, proceed duly to call a meeting for the consideration of those matters on a day not later than forty five days from the deposit of the requisition, the meeting may be called and held by the requisitionists as represent either majority in value of the paid-up share capital held by all of them or not less than one-tenth of such of the paid-up share capital of the Company as is referred to in Clause (d) whichever is less, within a period of three months from the date of requisition. However, the purpose of this Clause the Board shall, in the case of a meeting at which a resolution is to be proposed as a Special Resolution give, such notice thereof as is required by the Act;
- (g) a meeting called under clause (f) by the requisitionists or any of them:
 - (i) shall be called in the same manner, as nearly as possible, as that in which the meetings are to be called by the Board, but
 - (ii) shall not be held after the expiration of three months from the date of the deposit of the requisition; Provided that nothing contained in this sub-clause (ii) shall be deemed to prevent a meeting duly commenced before the expiry of the period of three months aforesaid, from adjourning to some day after the expiry of that period;

- (h) Where two or more persons hold any shares or interest in the Company jointly, a requisition, or a notice calling a meeting, signed by one or some only of them shall, for the purpose of this Article have the same force and effect as if it had been signed by all of them.
- (i) Any reasonable expenses incurred by the requisitionists by reason of the failure of the Board to call a meeting shall be reimbursed to the requisitionists by the Company, and any sum so reimbursed shall be retained by the Company out of any sums due or to become due from the Company by way of fees or other remuneration for their services to such of the Directors as were in default.

83. Notice of meeting

- (b) A General Meeting of the Company may be called by giving not less than twenty one days' notice in writing;
- (c) A General Meeting may be called after giving shorter notice than that specified in Clause (a) if consent is accorded thereto in writing or by electronic mode by not less than ninety-five per cent of the members entitled to vote at such meeting;

Provided that where any Members of the Company are entitled to vote only on some resolution to be moved at a meeting and not on the others, those members shall be taken into account for the purposes of this sub clauses in respect of the former resolution or resolutions and not in respect of the latter.

84. Consent and manner of service of notice and persons on whom it is to be served

- (a) Every Notice of a meeting of the Company shall specify the place and the day and the hour of the meeting, and shall contain a statement of business to be transacted thereat;
- (b) Notice of every meeting of the Company shall be given
 - (i) to every Member of the Company, legal representative of any deceased member or the assignee of an insolvent member;
 - (ii) to every director of the Company; and
 - (iii) to the Auditor or Auditors for the time being of the Company in any manner authorised by Section 20 of the Act in the case of any Member or Members of the Company;

Omission to give notice not to invalidate proceedings at the meeting

- (c) The accidental omission to give notice to or the non-receipt of notice by, any Member or other person to whom it should be given shall not invalidate the proceedings at the meeting.

85. Business at General Meeting

- (a) In the case of an Annual General meeting all business to be transacted at the meeting shall be deemed special, with the exception of business relating to:
 - i. the consideration of financial statements and reports of the Board of Directors and Auditors;
 - ii. the declaration of dividend;
 - iii. the appointment of Directors in the place of those retiring;
 - iv. the appointment of and fixing the remuneration of the Auditors.

- (b) In the case of any other meeting all business shall be deemed special.

- (c) Where any items of business to be transacted at the meeting are deemed to be special as aforesaid, there shall be annexed to the notice of meeting a statement setting out all material facts concerning each such item of business, including in particular the nature of the concern or interest, if any, therein, of every Director, and the Manager, if any, every other key managerial personnel and relatives of such Director, Manager and the key managerial personnel.

Provided that where any item of Special business as aforesaid to be transacted at a meeting of the Company relates to, or affects any other company, the extent of shareholding interest in that other company of every Director, manager, if any, and every other key managerial personnel of the Company shall also be set out in the statement if the extent of such shareholding interest is not less than two percent of the paid-up capital of that other Company.

- (d) Where any item of business consist of the according of approval to any document by the meeting, the time and place where the document can be inspected shall be specified in the statement aforesaid.

86. ORDINARY AND SPECIAL RESOLUTION

- (1) A resolution shall be an Ordinary Resolution when at a general meeting of which the notice required under the Act has been duly given, the votes cast (whether on a show of hands, or on a poll, as the case may be), in favour of the resolution (including the casting vote, if any, of the Chairman) by Members who, being entitled to do so, vote in person or where proxies are allowed, by proxy exceed the votes, if any, cast against the resolution by Members entitled and voting.

- (2) A resolution shall be a Special Resolution when:-
- i. the intention to propose the resolution as a Special Resolution has been duly specified in the notice calling the General Meeting or other intimation given to the Members of the resolution.
 - ii. The notice required under the Act has been duly given of the General Meeting;
 - iii. The votes cast in favour of the resolution (whether on show of hands, or on a poll as the case may be), by Members who, being eligible so to do vote in person, or where proxies are allowed, by proxy, are not less than three times the number of votes, if any, cast against the resolution by Members so entitled and voting.

87. Resolution requiring Special Notice

- (1) Whereby any provisions contained in the Act or in these presents, Special Notice is required of any resolution, notice of the intention to move the resolution shall be given to the Company by such number of members as prescribed under the Act, not earlier than three months but at least fourteen days before the meeting at which it is to be moved, exclusive of the day on which the notice is served or deemed to be served and the day of the meeting.
- (2) The Company shall, immediately after the notice of the intention to move any such resolution has been received by it, give its members notice of the resolution in the same manner as it gives notice of the meeting, or if that is not practicable, shall give them notice thereof, either by advertisement in a newspaper in the manner prescribed under the Act or in any other mode allowed by these presents and such notice shall also be posted on the website, not less than seven days before the meeting.

PROCEEDINGS AT GENERAL MEETING

88. Quorum at General Meeting

Subject to the provisions of Section 103 of the Act, five Members personally present shall be a quorum for General Meeting and no business shall be transacted at any general meeting unless the requisite quorum be present at the commencement of the business.

89. Business confined to election of Chairman whilst chair vacant

No business shall be discussed at any General Meeting except the election of a Chairman whilst the Chair is vacant.

90. The Chairman of the Board shall be entitled to take the Chair at every General Meeting. If there be no Chairman or if at any meeting he shall not be present within fifteen minutes after the time appointed for holding such meeting, or is unwilling to act as Chairman of the meeting and on default of their doing so, the Members present shall choose one of the Directors to take the Chair and if no Director present be willing to take the Chair, the Members present shall choose one of their number to be the Chairman of the Meeting.

91. Proceedings when quorum not present

If within half an hour after the time appointed for the holding of a General Meeting a quorum be not present the meeting if commenced on the requisition of shareholders shall be dissolved and in any other case shall stand adjourned to the same day in the next week; at the same time and place or to such other day and at such time and places as the Directors may determine. If at such adjourned meeting also a quorum be not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting the Members present shall be a quorum and may transact the business for which the meeting was called. However, in case of an adjourned meeting or of a change of day, time or place of meeting, the Company shall give not less than three days notice to the members either individually or by publishing an advertisement in the newspaper in the manner as prescribed under the Act.

92. Adjourned Meeting

The Chairman with the consent of meeting may adjourn any meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than business might have been transacted at the meeting from which the adjournment took place. No notice of adjourned meeting shall be necessary to be given unless the meeting is adjourned for more than thirty days.

93. What is to be evidence of the passing or resolution where poll not demanded

At any General Meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands unless a poll is (before or on the declaration of the result on the show of hands) demanded in the manner hereinafter mentioned or the voting in carried out electronically, and unless a poll is so demanded, a declaration by the Chairman that a resolution has, on a show of hands, been carried or carried unanimously or by a particular majority, or lost and an entry to that effect in the book of the proceedings of the Company shall be conclusive evidence of the fact or against such resolution.

94. Demand for poll

- (a) Before or on the declaration of the result or the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any member or members present in person or by proxy and holding shares in the Company:-

- i. which confer a power to vote on the resolution not being less than one-tenth of the total voting power in respect of the resolution; or
 - ii. on which an aggregate sum of not less than five lakh rupees has been paid-up.
 - (b) The demand for a poll, may be withdrawn at any time by the person who made the demand.
- 95. Time of taking poll**
- (a) If a poll is demanded on the election of a Chairman or on a question of adjournment, it shall be taken forthwith and without adjournment.
 - (b) A poll is demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman may direct.
- 96. Rights of Members to use his votes differently**
- On a poll taken at a meeting of the Company, a Member entitled to more than one vote, or his proxy or other persons entitled to vote for him as the case may be, need not, if he votes, use all his votes or cast in the same way all the votes he uses.
- 97. Scrutinisers at poll**
- (a) Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutinizers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him in the manner as prescribed under the Act;
 - (b) The Chairman shall have power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineer from office and to fill vacancies in the office of the scrutineer arising from such removal
 - (c) Of the two scrutineers appointed under this Article, one shall always be a member (not being an Officer or employee of the Company) present at the Meeting, provided that such a member is available and willing to be appointed.
- 98. Manner of taking poll and result thereof**
- (a) Subject to the provisions of the Act, the Chairman of the meeting shall have the power to regulate the manner in which a poll shall be taken,
 - (b) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken
- 99. Motion how decided in case of equality of votes**
- In the case of equality of votes, whether in show of hands or on a poll, the Chairman of the meeting at which the show of hands takes place or at which a poll is demanded, shall be entitled to a casting vote in addition to his own vote or votes to which he may be entitled as a member.
- 100. Demand of poll not to prevent transaction of other business**
- The demand for a poll shall not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business other than the question on which the poll has been demanded.
- 101. Minutes of General Meeting**
- The Company shall cause minutes of all proceedings of General Meetings to be entered in the books kept for that purpose. The Minutes of each Meeting shall contain a fair and correct summary of the proceedings thereat. All the appointment of officers made at any of the Meetings shall be included in the minutes of the meeting. Any such meetings, if purported to be signed by the Chairman of the Meeting at which the proceedings took place or in the event of the death or inability of that Chairman by a Director duly authorised by the Board for the purpose, shall be evidence of the proceedings.
- 102. Inspection of Minutes books**
- The books containing minutes of proceedings of General Meetings of the Company shall be kept at the Registered Office of the Company and shall be open to the inspection of any member without charges between 11 a.m. and 2.00 p.m. on all working days.
- 103. Copies of Minutes**
- Any Member shall be entitled to be furnished within seven working days after he had made a request in that behalf to the Company with copy of any minutes referred to above at such charges as may be prescribed by the Act.

VOTES OF MEMBERS

- (a) Upon a show of hands, every Member of the Company entitled to vote and present in person or by attorney or proxy shall have one vote.
 - (b) Upon a poll every Member of the Company who being an individual is present in person or by attorney or by Proxy or being a Corporation is present by a representative or proxy shall have a voting right in proportion to his share of the Paid-up Capital of the Company

105. Voting by Corporation

Any Member who is a Corporation present by a representative duly authorised by resolution of the Directors or other governing body of such corporation in accordance with the provisions of Section 113 of the Act may vote on a show of hands as if he was a Member of the Company. The Production at the Meeting of such resolution duly signed by one director of such Corporation or by a member of its governing body and certified by him as being a true copy of the resolution shall on production at the meeting be accepted by the Company as sufficient evidence of the validity of his appointment.

106. No Member to vote unless calls are paid up

Subject to the provision of the Act, no Member shall be entitled to be present or to vote at any General Meeting either personally or by proxy or attorney or as a proxy or as attorney in respect of shares registered in his name, on which calls or other sum shall be overdue and payable to the company in respect of any of the shares of such Members for more than one month

107. Qualification of Proxy

- (a) Any member of the Company entitled to attend and vote at a meeting of the Company shall be entitled to appoint another person (whether a member or not) as his proxy to attend and vote instead of himself but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.
- (b) In every notice calling a meeting of the Company, there shall appear with reasonable prominence a statement that a Member entitled to attend and vote is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself and that a proxy need not be a member.

108. Votes may be given by proxy or attorney

Votes may be given either personally or by attorney or by proxy or in case of a corporation also by a representative duly authorised as aforesaid.

109. Execution of instrument of proxy

The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney or if such appointer is a company or corporation under its common seal or under the hand of a person duly authorised by such company or corporation in that behalf or under the hand of its attorney who may be the appointer.

110. Deposit of instrument of appointment and inspection

- (i) No person shall act as proxy unless the instrument of his appointment and the power of attorney or other authority if any under which it is signed of a notarially certified copy of that power of authority shall be deposited at the Office at least forty eight hours before the time of holding the meeting at which the person named in the instrument of proxy proposes to vote and in default the instrument appointing the proxy shall not be treated as valid. No attorney shall be entitled to vote unless the Power of Attorney or other instrument appointing him as attorney or a notarially certified copy thereof has either been registered in the records of the Company at any time not less than forty eight hours before the time of the meeting at which the attorney proposes to vote or is deposited at the office not less than forty eight hours before the time of same meeting as aforesaid
- (ii) Notwithstanding that a power of Attorney or other authority has been registered in the records of the company, the company may by notice in writing addressed to the Member of that attorney at least seven days before the date of a meeting require him to produce the original Power of Attorney of authority and unless the same is thereupon deposited with the Company not less than forty eight hours before the time fixed for the meeting the attorney shall not be entitled to vote at such meeting unless the Directors in their absolute discretion excuse such non production and deposit.
- (iii) Every member entitled to vote at a meeting of the Company or any resolution to be moved thereat shall be entitled during the period beginning twenty four hours before the time fixed for the commencement of the meeting and ending with the conclusion of the meeting to inspect the proxies lodged at any time during the business hours of the Company provided that not less than three days' notice in writing of the intention so to inspect is given to the Company.

111. Custody of the Instrument.

If any such instrument of appointment be confined to the object of appointing a proxy or substitute for voting at meeting of the Company it shall remain permanently or for such time as the Director may determine, in the custody of the Company, and if embracing other objects a copy thereof, examined with the original, shall be delivered to the Company to remain in custody of the Company

112. Instrument appointing Proxy

Every instrument of proxy whether for a specified meeting or otherwise shall be in writing under the hand of the appointee or his attorney authorised in writing or if such appointer is a Corporation, under its Common Seal, if any, or the hand of an officer or an attorney duly authorised by it and shall as nearly as circumstances will admit be in the form specified in Section 105 of the Act.

113. Validity of votes given by proxy notwithstanding death of Member, etc.

A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous death of the principal or revocation of the Proxy or of any power of attorney under which such proxy was signed to the transfer of the shares in respect of which the vote is given provided that no intimation in writing of the death, revocation or transfer shall have been received at the office before the meeting.

114. Time for objections to votes

No Objection shall be made to the validity of any vote except at the meeting or poll at which such vote shall be tendered, and every vote whether given personally or by proxy not disallowed at such meeting or poll shall be deemed valid for all purposes of such meeting or poll whatsoever

115. Chairman of any meeting to be the judge of validity of any vote.

The Chairman of any meeting shall be the sole judge of the validity of every vote tendered at such meeting. The Chairman present at the time of taking of a poll shall be the sole judge of the validity of every vote tendered at such poll.

DIRECTORS**116 Number of Directors**

Unless otherwise determined by a General Meeting of the members of the Company, the number of Directors shall not be less than three or more than fifteen including Public Interest Directors, Shareholder Directors (including employee Directors) and the Managing Director and the number of Directors may be increased beyond fifteen with the approval of the Central Government.

116A Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles, directives issued by SEBI and/ or provided in the Rules from time to time with regard to composition of the Board, general requirements related to manner of appointment of directors, chief executive, code of conduct and other incidental and consequential matters relating to governance of the Company, to the extent applicable, shall be complied with.**117.** The present hereinafter named are the first Directors of the Company

1. Mr. Natarajan Ramasamy
2. Ms. Supriya Dutta
3. Mr. Ravindra Mohan Bathula

118.(A) SEBI Nominee Directors

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) may from time to time nominate not more than three person as Directors on the Board of the Company. The Directors appointed under this Article are herein referred to as "SEBI Nominee Directors". The SEBI Nominee Directors shall not be subject to retirement by rotation or be removed from office except by the SEBI. Subject as aforesaid, the SEBI Nominee Directors shall be entitled to the same rights and privileges and be subject to the same obligations as any other Director of the Company.

118(AA) Public Interest Directors

Securities and Exchange Board of India (SEBI) may from time to time, generally after taking into consideration the names of the persons forwarded by the Board of Directors of the Company nominate on the Board of Directors of the Company not more than three persons referred to as "Public Interest Directors" who shall be 'independent directors' as per the provisions of the Act from amongst the persons of integrity having necessary professional competence and experience in the areas related to securities markets. SEBI shall however, have the right to nominate persons, whose names have not been forwarded by the Board of Directors of the Company. However, SEBI may at any time appoint more than three Public Interest Directors so that the total number of Directors nominated under Article 118A & 118AA may not exceed the total number of directors representing shareholders.

The Public Interest Directors shall continue till the time new Public Interest Directors are appointed in their place.

Subject to as aforesaid, the Public Interest Directors shall be entitled to the same rights & privileges and be subject to the same obligations as any other Director of the company. Any vacancy caused by the resignation, removal, death or otherwise of such nominated Public Interest Directors shall be filled in, by a similarly nominated person.

(B) Debenture Director

Any Trust Deed or Loan Agreement covering the issue of debentures of the Company, or loans advanced to the Company, may provide for the appointment of a Director (in these present referred to as the Debenture Director) for and on behalf of the Debenture- Holder/ Lender for such period as therein provided, not exceeding the period for which the Debentures or any of them shall remain outstanding or the loan remains unpaid, and for the removal from office of such Debenture Directors, and on vacancy being caused, whether by resignation, death, removal or otherwise for appointment, of a Debenture Director in the vacant place. The Debenture Director shall not be liable to retire by rotation

119. Managing Director /Whole-time Director

- (i) Subject to the provisions of the Act and the approval of Securities and Exchange Board of India, the Board may, from time to time, appoint or re-appoint one or more of their body to be Managing Director or Managing Directors or Whole-time Director or Whole-time Directors, by whatever name he or they may be called, of the Company, on such conditions and for such term not exceeding five years at a time and subject to such terms and conditions as they may think fit.

- (ii) Subject to the provisions of the Act, the Managing Director or Whole-time Director shall not, whilst he continues to hold that office, be subject to retirement by rotation under Article 131 but shall be subject to the same provisions as to the resignation and removal as the other Directors of the Company and shall, ipso facto, and immediately cease to be a Managing Director or Whole-time Director if he ceases to hold the office of a Director from any cause.

Subject to the provisions of the Act, Directors may, from time to time, entrust and confer upon the Managing/Whole-time Director(s) for the time being such of the powers exercisable by them upon such terms and conditions and with such restrictions as they may think fit either collaterally with, or to the exclusion of their power and from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

120. Alternate Director

- (i) Subject to Section 161 of the Act, the Board of Directors may appoint an Alternate Director to act for a Director (hereinafter in this Article called "the original Director") at his suggestion or otherwise, during his absence for a period of not less than three months from India in which meetings of the Board are ordinarily held.
- (ii) An alternate Director appointed under clause (a) shall not hold office for a period longer than permissible to the original Director in whose place he has been appointed and shall vacate office if and when the original Director returns to India.
- (iii) If the term of office of the original Director is determined before he so returns to India any provision for the automatic reappointment of the retiring Directors in default of another appointment shall apply to the original and not to the Alternate Director.

121. Qualification of Directors

No Director shall be required to hold any share or qualification shares of the Company

122. (i) Remuneration of Directors

The remuneration payable to Directors, including the Managing Director/Whole-time Director shall, subject to the applicable provisions of the Act and of these presents and of any contract between him and the Company, be fixed by the Company in General Meeting from time to time, and may be by way of fixed salary and /or perquisites or commission on profits of the Company or participation in such profits, or by any or all these modes not expressly prohibited by the Act.

(ii) Sitting Fee to Directors attending meeting

A Directors may receive remuneration by way of a fee for each meeting of the Board or a Committee thereof attended by him, subject to the maximum prescribed under the Act.

123. Director's not bona fide residents of place where a meeting is held may receive extra compensation.

The Board of Directors may allow and pay to any Director who is not a bona fide resident of the place where a meeting of the Board is held and who shall come to such place for the purpose of attending a meeting or for attending its business at the request of the Company, such sum as the Directors may consider fair compensation for traveling, hotel and other expenses and if any Director be called upon to go or reside out of the ordinary place of his residence on the Company's business he shall be entitled to be reimbursed any travelling or other expenses incurred in connection with the business of the Company.

124. Special remuneration to Director performing extra services.

If any Director, be called upon to perform extra services or special exertions or efforts (which expression shall include work done by Directors as a member of any Committee formed by the Directors), the Board may arrange with such Director for such special remuneration for such special services or special exertions or efforts either by a fixed sum or otherwise as may be determined by the Board and subject to the provisions of the Act.

125. Additional Directors

The Directors shall have power at any time and from time to time appoint subject to the provisions of these presents any person as a Director either to fill a casual vacancy or as an additional Director to the Board but so that the total number shall not at any time exceed the maximum number fixed as above; but any Director so appointed as an additional Director shall hold office only up to the date of the next following Annual General Meeting of the Company and the shall then be entitled for re-election and any Director so appointed to fill a casual vacancy shall hold office only up to the date up to which the Director in whose place he is appointed would have held office had it not been vacated.

126. Directors may act notwithstanding.

Subject to the provisions of the Act, the continuing Directors may act notwithstanding any vacancy in their body; but so that if the number falls below the minimum number fixed the Directors shall not except in emergencies or for the purpose of filling up vacancies or for summoning a General Meeting of the Company act so long as the number is below the minimum and they may so act notwithstanding the absence of a necessary quorum under the provisions of Article 145.

127. Directors vacating.

- (1) Subject to the provision of Section 164 of the Act, the office of a Director shall become vacant if:
 - (a) he is unsound mind and stands so declared by a Court of competent jurisdiction;
 - (b) he has applied to be adjudicated an insolvent and his application is pending;
 - (c) he is an undischarged insolvent;
 - (d) he is convicted by a court of any offence, whether involving moral turpitude or otherwise; and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence;
 - (e) an order disqualifying him for appointment as a director has been passed by a court or Tribunal and the order is in force;
 - (f) he has not paid any calls in respect of shares of the Company held by him, whether alone or jointly with others, and six months has elapsed from the last date fixed for the payment of such calls;
 - (g) he has been convicted of the offence dealing with related party transactions under Section 188 of the Act at any time during the last preceding five years; or
 - (h) he has not complied with sub-section (3) of section 152 of the Act.
- (2) Notwithstanding anything contained in clauses (d), (e) and (g) of sub-article (1), the disqualification referred to in those clauses shall not take effect:
 - (a) For thirty days from the date of conviction or order of disqualification;
 - (b) Where any appeal or petition is preferred within thirty days as aforesaid against the conviction resulting in the sentence or order. Until the expiry of seven days from the date on which such appeal or petitions disposed of; or
 - (c) Where any further appeal or petition is preferred against order or sentence within seven days, until such further appeal or petition is disposed off.

128. Disclosure of interest

- (a) Every Director of the Company who is in any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in a contract or arrangement or proposed contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of the Company, shall disclose the nature of his concern or interest at a meeting of the Board of Directors.
- (b)
 - (i) In the case of proposed contract or arrangement, the disclosure required to be made by a Director under Clause (a) shall be made at the meeting of the Board at which the question of entering into the contract or arrangement is first taken into consideration, or if the Director was not at the date of that meeting, concerned or interested in the proposed contract or arrangement at the first meeting of the Board held after he becomes so concerned or interested
 - (ii) In the case of any other contract or arrangement, the required disclosure shall be made at the first meeting of the Board held after the Director becomes concerned or interested in the contract or arrangement.
- (c)
 - (i) For the purpose of Clause (a) and (b), a general notice given to the Board of a Director to the effect that he is a Director or a Member of a specified body corporate or is a Members of a specified firm and is to be regarded as concerned or interested in any contract or arrangement which may after the date of the notice, be entered into with that body corporate or firm, shall be deemed to be a sufficient disclosure of concern or interest to any contract or arrangement so made.
 - (ii) Any such general notice shall expire at the end of the financial year in which it is given, but may be renewed for further periods of one financial year at a time, by a fresh notice given in the last month of the financial year in which it would otherwise expire.
 - (iii) No such general notice and no renewals thereof shall be of effect unless either it is given at a meeting of the Board or the Director concerned takes reasonable steps to secure that it is brought up and read at the first meeting of the Board after it is given.
- (d) Nothing in this Article shall be taken to prejudice the operation of any rule of law restricting a Director of the Company from having any concern or interest in any contracts or arrangements with the Company.

- (e) Nothing in this Article shall apply to any contract or arrangement entered into or to be entered into between the Company and any other company where any of the Directors of the Company or two or more of them together holds or hold not more than two percent of the paid up share capital in the other company.
- (f) The provisions of this Article shall mutatis mutandis apply to a member of the Executive Committee who shall disclose the nature of his interest at a meeting of the Executive Committee.

129. Interested Directors not to participate or vote in Board Proceedings

- (1) No Director of the Company shall as a Director take any part in the discussion of, or vote on any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of the Company, if he is in anyway whether directly or indirectly, concerned or interested in the contract or arrangements; nor shall his presence count for the purpose of forming a quorum at the time of any such discussion or vote; and if he does vote his vote shall be void.
- (2) This Article shall not apply to
 - (a) any contract of indemnity against any loss which the Directors or any one or more of them may suffer by reason of becoming or being surety or sureties for the Company;
 - (b) any contract or arrangement entered into or to be entered into with a public company or a private company which is a subsidiary of a public company, in which the interest of the Director aforesaid consists solely –
 - (i) in his being a Director, of such company and the holder of not more than shares of such number or value therein as is requisite to qualify him for appointment as a Director thereof, he having been nominated as such Director by the Company, or
 - (ii) in his being a member holding not more than 2 % (two percent) of the paid up share capital of such other company.

130. Directors may be Directors of companies promoted by the Company

A Director may be or become a Director of any company promoted by the Company, or in which the Company may be interested as a vendor, member or otherwise and subject to the provisions of the Act and these presents no such Director shall be accountable for any benefits received as a Director or member of such company

ROTATION OF DIRECTORS

131. Directors to retire Annually by rotation

At every Annual General Meeting of the Company other than the first Annual General Meeting, one-third of such of the directors for the time being as are liable to retire by rotation or, if their number is not three or a multiple of three, then the number nearest to one-third shall retire from office.

132. Which Directors to retire

The Directors to retire by rotation at every Annual General Meeting shall be those who have been longest in office since their last appointment, but as between persons who became Directors on the same day those who are to retire shall in default of and subject to any agreement among themselves, be determined by lot.

133. Retiring Director eligible for re-election

A retiring Director shall be eligible for re-election

134. Company to fill up vacancy

The Company at the Annual General Meeting at which a Director retires in manner aforesaid may fill up the vacancy, by appointing the retiring Director or some other person in that vacancy.

135. Retiring Directors to remain in office until successors appointed

If the place of the retiring Director is not so filled up and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall stand adjourned till the same day in the next week at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place and if at the adjourned meeting also, the place of the retiring Director is not filled up and that meeting also has not expressly resolved not to fill the vacancy, the retiring Director shall be deemed to have re-appointed at the adjourned meeting unless –

- (i) at that meeting or at the previous meeting a resolution for the re-appointment of such Director has to be put to the meeting and lost.
- (ii) the retiring Director has by a notice in writing addressed to the Company or its Board of Directors, expressed his unwillingness to be so reappointed.
- (iii) he is not qualified or is disqualified for appointment
- (iv) a resolution, whether Special or Ordinary is required for his appointment or re-appointment by virtue of any provisions of the Act, or
- (v) the proviso to sub-article (2) of Article 136 is applicable to the case.

136. Appointment of Directors to be voted on individually

- (1) At every Annual General Meeting of the Company, a motion shall not be made for the appointment of two or more persons as Directors of the Company by a single resolution, unless a resolution that it shall be so made has first been agreed to by the meeting without any vote being given against it.
- (2) A resolution moved in contravention of sub-article (1) of this Article shall be void whether or not objection was taken at the time to this being so moved; provided that where a resolution so moved is passed, no provision for the automatic re-appointment of the retiring Director in default of another appointment shall apply.
- (3) For the purpose of this Article, a motion for approving a person's appointment or for nominating a person for appointment shall be treated as motion for his appointment.

137. Rights of persons other than retiring Directors to stand for Directorship

- (1) No person, not being a retiring Director, shall be eligible for election to the office of Director at any General Meeting, unless he or some other Member intending to propose him has at least fourteen clear days before the meeting, left at the office a notice in writing under his hand signifying his candidature for the office of Director or the intention of such Member to propose him, as a candidate for that office along with a deposit of one lakh rupees which shall be refunded to such person or as the case may be to such member, if the person succeeds in getting elected as a Director.
- (2) The Company shall inform its Members of the candidature of a person for the office of Director or the intention of a Member to propose such person as a candidate for that office for serving individual notices on the Members not less than seven days before the Meeting. Provided that it shall not be necessary for the Company to serve individual notices upon the Members as aforesaid if the Company advertises such candidature or intention not less than seven days before the Meeting, in at least two newspapers circulating in the place where the Registered Office of the Company is located, of which one is published in the English language and the other in the vernacular language of that place.

138. Removal of Directors

- (a) The Company may, subject to the Article 118A and 118AA, the provisions of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 or any modification thereto and the provisions of Section 169(1) of the Act, by ordinary resolution of which special notice according to Section 169(2) of the Act has been given remove any Director before the expiry of his period of office and may by ordinary resolution of which special notice has been given, appoint another person instead of the removed Director. A Director so appointed shall hold office until the date up to which his predecessor would have held office if he had not been so removed. If the vacancy created by the removal of a Director under the provisions of this Article is not so filled by the meeting at which he is removed, the Board may at any time thereafter fill such vacancy under the provisions of these Articles.
- (b) Special Notice shall be required of any resolution to remove a Director under this Article or to appoint somebody instead of a Director so removed at the meeting at which he is removed.
- (c) On receipt of notice of a resolution to remove a Director under this Article, the Company shall forthwith send a copy thereof to the Director concerned, and the Director (whether or not he is a Member of the Company) shall be entitled to be heard on the resolution at the meeting.
- (d) Where notice is given of a resolution to remove a Director under this Article and the Director concerned makes with respect to thereto representations in writing to the Company (not exceeding a reasonable length) and requests their notification to Members of the Company, the Company shall unless the representations are received by it too late for it to do so :-
 - (i) in any notice of the resolution given to Members of the Company, state the fact of the representation having been made, and
 - (ii) send a copy of the representation to every Member of the Company to whom notice of the meeting is sent (whether before or after receipt of the representations by the Company) and if a copy of the representations is not sent as aforesaid because they were received too late or because of the Company's default, the Director may (without prejudice to his right to be heard orally) require that the representations shall be read out at the meeting provided that copies of the representations need not be sent out and the representations need not be read out at the meeting, if on the application either of the Company or any other person who claims to be aggrieved, the Court is satisfied that the rights conferred by this clause are being abused to secure needless publicity for defamatory matter.
- (e) A vacancy created by the removal of a Director under this Article may, if he had been appointed by the Company in the General Meeting or by the Board, be filled by the appointment of another Director in his stead, by the meeting at which he is removed, provided special notice of the intended appointment has been given under clause (b) of this Article. A Director so appointed shall hold office until the date up to which his predecessor would have held office if he had not been removed as aforesaid.

- (f) If the vacancy is not filled under sub-article (c) of this Article, it may be filled as a casual vacancy in accordance with the provisions so far as they may be applicable of Article 125 and all the provisions shall apply accordingly; provided that the Director who was removed from office shall not be reappointed as a Director by the Board.
- 139.** (i) Each member shall annually intimate to the Board in writing by such date as may be fixed from time to time by the Board for the time being, the name of its candidate for being elected to the Board at the next Annual General Meeting.
- (ii) A writing or notice under this Article shall be deemed to have been only given if it is signed by a Director of such member and accompanied by a certified copy of the resolution passed by the Board of such member giving effect to any removal or appointment
- (iii) The provisions of Article 136 to 138 (both inclusive) shall be read subject to and in accordance with the provisions of this Article 139

PROCEEDINGS OF THE DIRECTORS

140. Meeting of Directors

The Board of Directors may meet for conduct of business, adjourn and otherwise regulate their meetings and proceedings as they think fit provided however that there shall be a minimum of four such meetings of the Board every year in such a manner that not more than 120 (one hundred and twenty) days shall intervene between two consecutive meetings of the Board.

141. When meeting to be convened

The Chairman at any time and the Manager or such other Officer of the Company as may be authorized by the Directors shall upon the request of a Director convene a meeting of the Directors.

142. Notice of Meeting

Notice of every meeting of the Board of the Company shall be given in writing to every Director at his address registered with the Company by giving not less than seven days notice.

143. Chairman of the Board

The Directors may elect their Chairman and determine the period for which he is to hold office. All meetings of the Board shall be presided over by such Chairman if present, but if at any meetings of Directors the Chairman be not present, at the time appointed for holding the same, then and in that case the Directors shall choose one of the Public Interest Directors then present to preside at the meeting.

144. Questions at a meeting of the Governing Board, how decided

Questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes and in case of an equality of votes, the Chairman of the meeting (whether the Chairman appointed by virtue of these presents or the Director presiding at such meeting) shall have a second or casting vote.

145. Quorum and its competence to exercise powers

The quorum for meeting of the Board of Directors of the Company shall be one-third of its total strength (any fraction contained in that one-third being rounded off as one) or two Directors whichever is higher and the participation of the directors by video conferencing or by other audio visual means shall also be counted for the purposes of quorum provided that when at any meeting the number of interested Directors exceeds or is equal to two-third of the total strength, the Directors who are not interested, present at the meeting being not less than two shall be the quorum during such time and provided further that the aforesaid proviso shall not be applicable when any contract or arrangement is entered in to by or on behalf of the company with a Director or with any firm of which a Director is Member or with any private company of which a Director or member for

- (a) The underwriting or subscription of shares or debentures of the company; or
- (b) the purchase or sale of shares or debentures of any other Company; or
- (c) a loan by the Company

For the purpose of this Article :-

- (i) "total strength" means the total strength of the Directors of the Company as determined in pursuance of the Act after deducting there from the number of the Directors, if any, whose place may be vacant at the time."
- (ii) "Interested Directors" shall mean a director within the meaning of Section 184(2) of the Act for the purpose of this article.

146. Procedure where meeting adjourned for want of quorum.

- (a) If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then unless the Directors present at each meeting otherwise decide, the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next

week at the same time and place or if that day is a national holiday till the next succeeding day which is not a national holiday at the same time and place.

- (b) the provisions of Article 141 shall not be deemed to have been contravened merely by reason of the fact that a meeting of the board which had been called in compliance with the terms of that Article could not be held for want of quorum.

147. Board may appoint Committee

The Directors may subject to the provisions of the Act delegate any of their powers to committees consisting of such member or members of their body or person or persons as they think fit, and they may from time to time revoke such delegation. Any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regulations that may from time to time be imposed on it by the Directors. The Executive Committee of the Corporation shall be considered as a Committee of the Company, where the context so admits.

148. Meeting of Committees how to be governed

The meetings and proceeding of any such Committee shall be governed by the provisions of these presents for regulating the meeting and proceeding of the Directors so far as the same are applicable thereto and are not superseded by any regulations made by the Directors under the last preceding Article.

149. Acts of the Board or Committee valid not withstanding defect of appointment.

All acts done at any meeting of the Board or a Committee thereof or by any person acting as a Director, shall be valid notwithstanding that it may be afterwards discovered that the appointment of any one or more of such Directors or of any person acting as aforesaid was invalid by reason of defect or disqualification or had terminated by virtue of any provision contained in the Act of these presents provided that nothing in this Article shall be deemed to give validity to acts done by a Director after his appointment has been shown to the company to be invalid or to have been terminated.

150. Resolution by Circulation

No resolution shall be deemed to have been duly passed by the Board or by a Committee thereof by circulation unless the resolution has been circulated in draft together with the necessary papers, if any, to all the Directors or to all the Members of the Committee then in India (not being less in number than the quorum fixed for a meeting of a Board or Committee as the case may be) and to all other Directors or Members at their usual address in India and has been approved by such of the directors as are then in India or by majority of such of them as are entitled to vote on the resolution. Where not less than one-third of the total number of directors of the Company for the time being require that any resolution under circulation must be decided at a meeting, the chairperson shall put the resolution to be decided at a meeting of the Board.

151. Minutes of proceedings of Directors and Committees

The Company shall cause minutes of Meetings of the Board of Directors and all Committees of the Board to be duly entered in a book or books provided for this purpose. The minutes shall contain:-

- (a) a fair correct summary of the proceedings at the Meeting.
- (b) The names of the Directors present at the Meeting of the Board of Directors or any Committee of the Board
- (c) all orders made by the Board and Committee of the Board and all appointments of Officers and Committees of Directors
- (d) all resolutions and proceedings of meetings of the Board and the Committees of the Board : and
- (e) in the case of each resolution passed at a Meeting of the Board or Committee of the Board the names of the Directors if any dissenting from, or not concurring in the resolution.

152. By whom Minutes to be signed and the effect of such Minutes

Any minutes of any Meeting of the Board or any Committees of the Board if purporting to be dated and signed by the Chairman of such meeting or by the Chairman of the next succeeding meeting in accordance with the provisions of Section 118 of the Act, shall for all purposes whatsoever be evidence of the actual passing of the resolutions and the actual and regular transaction or occurrence of the proceeding so recorded and of the regularity of the meeting at which the same shall appear to have taken place.

153. Provisions of the Act

The Directors shall comply with the provisions of Section 92, 170, 184, 185, 188 of the Act which pertain to annual return, register of directors and key managerial personnel and their shareholding, disclosure of interest by director, loan to directors, etc, and Related party transactions, to the extent applicable.

POWERS OF DIRECTORS

154. General powers of the Company vested in Directors.

Subject to the provisions of the Act and these presents the business of the Company shall be managed by the Directors who may exercise all such powers and do all such acts and things as the Company is by its Memorandum of Association or otherwise authorized to exercise and do and are not by these presents or by statute

directed or required to be exercised or done by the Company in General Meeting, but subject nevertheless to the provisions of the Act and of the Memorandum of Association and these presents and to any regulations not being inconsistent with the Memorandum from time to time made by the Company in General Meeting provided that no such regulation shall invalidate any prior act of Directors which have been valid if such regulation had not been made.

155. Certain powers to be exercised by the Board meeting only

The Board shall exercise the powers in respect of the matters covered in the Section 179(3) of the Act and the rules made thereunder, only by means of resolution passed at its Meetings.

Provided that the Board may, by a resolution passed at a meeting delegate to any Committee of Directors, the Managing Director, the Manager or any other principal officer of the Company or in the case of a branch office, the principal officer of the branch office, the powers specified in Section 179(3) (d) to (f) of the Act on such conditions as the Board may prescribe.

156. Consent of the Company necessary for exercise of certain powers

The Board shall exercise the following powers only with the consent of the Company in the General Meetings by a special resolution:-

- (a) To sell, lease or otherwise dispose of the whole or substantially the whole of the undertaking of the Company, or where the Company owns more than one undertaking of the whole, or substantially the whole of any such undertaking
- (b) To remit or give time for the re-payment of any debt due from a Director
- (c) To invest, otherwise than in trust securities, the amount of compensation received by the Company as a result of any merger or amalgamation.
- (d) To borrow moneys where the moneys to be borrowed together with the money already borrowed by the Company (apart from temporary loans obtained from the Company's bankers in the ordinary course of business) will exceed the aggregate of the paid up capital of the Company and its free reserves.
- (e) To Contribute to charitable and other funds in case any amounts the aggregate of which all, in any financial year, exceed five percent of its average net profits for three immediately preceding financial year.

157. Special powers given to Directors

Without prejudice to the general powers conferred by Article 154 and the other powers conferred by these presents but subject to the provisions of the Act, it is hereby expressly declared that the Board shall have the following powers :-

- (1) To pay the costs, charges and expenses, preliminary and incidental to the promotions, formation, establishment and registration of the Company.
- (2) To have an Official Seal for use abroad
- (3) To keep Foreign Register in accordance with the provisions of the Act.
- (4) To purchase or otherwise acquire for the Company any property rights or privileges which the Company is authorized to acquire at such price and generally on such terms and conditions as they think fit.

(5) To pay for property

At their discretion to pay for any property or rights or privileges acquired by or services rendered to the Company, either wholly or partially in cash, or in shares, bonds, debentures stock or other securities of the Company, and any shares may be issued whether as fully paid up or with such amount credited as paid up thereon as may be agreed upon; any such bonds, debentures, debenture stock or other securities may be either specially charged upon all or any part of the property of the Company and its uncalled capital or not so charged.

(6) To Insure properties

To insure and keep insured against loss or damage by fire or otherwise for such period and to such extent as they may think proper all or any part of the buildings, machinery, goods, stores. Produce and other moveable property of the Company either separately or jointly; also to insure all or any portion of the goods. Produce machinery and other articles imported or exported by the Company and to sell assign surrender or discontinue any policies of assurance effected in pursuance of this power.

(7) To open bank accounts

To open accounts with any bank or bankers or with any company. Firm or individual and to pay money into and draw money from any such account from time to time as the Directors may think fit.

-
-
- (8) **To secure contracts**
To secure the fulfillment of any contracts or engagements entered into by the Company by mortgage or charge of all or any of the property of the Company and its unpaid capital for the time being in such other manner as they think fit.
- (9) **To attach conditions**
To attach to any shares to be issued as the consideration or part of the consideration for any contract with or property acquired by the Company, or in payment for services rendered to the Company, such conditions as to transfer thereof as they think fit.
- (10) **To accept surrender of Shares**
To accept from any Member on such terms and conditions as shall be agreed a surrender of his shares or stocks or any part thereof.
- (11) **To appoint Trustees.**
To appoint any person or persons (whether incorporated or not) to accept and hold in trust for the Company any property belonging to the Company or in which it is interested, or for any other purposes and to execute and do all such acts and things as maybe requisite in relation to any such trust and to provide for the remuneration of such trustee or trustees.
- (12) **To institute and defend legal proceedings.**
To institute, conduct, defend, compound or abandon any legal proceedings by or against the Company or its officers or otherwise concerning the affairs of the Company, and also to compound and allow time for payment of satisfaction of any debt due or of any claims or demands by or against the Company.
- (13) **To refer to arbitration**
To refer any claim or demand by or against the Company to arbitration and observe and perform the awards.
- (14) **To act in matters of bankruptcy**
To act on behalf of the Company in all matters relating to bankruptcy and insolvency.
- (15) **To give receipts**
To make and give receipts, release and other discharges for moneys payable to the Company and for the claims and demands of the Company.
- (16) **To authorize enquiry of bills**
To determine from time to time who shall be entitled to sign on the Company's behalf bills, notes, receipts, acceptances, endorsements, cheques, divided warrants, releases, contracts and documents.
- (17) **To invest monies**
To invest and deal with any of the monies of the Company not immediately required for the purposes thereof, in such securities and in such manner as they may think fit and from time to time to vary or realize such investments.
- (18) **To provide for the welfare of employees etc.**
To provide for the welfare of employees or ex-employees of the Company and their wives, and families or the dependents or connections of such persons, by building or contributing to the building of houses or dwellings or by grants or money pensions, allowances, bonus or other payments or by creating and from time to time subscribing or contributing to provident and other associations, institutions, funds or trusts and by providing or subscribing or contributing towards places of instruction and recreation, hospitals and dispensaries, medical and other attendance and other assistance as the Company shall think fit. To subscribe for Charitable fund etc.
- (19) **To subscribe for Charitable Fund etc.**
Subject to the provisions of Section 181 of the Act to subscribe or guarantee money for any national, charitable, benevolent, public, general or useful object or for any exhibition or any institution, club, society or fund.
- (20) **To establish Reserve Fund.**
The Directors may, before recommending any divided, set aside out of the profits of the Company such sums as they may think proper for Depreciation or to a Depreciation Fund or as Reserve or to a Reserve Fund or Sinking Fund or any Special Fund to meet contingencies or to repay redeemable preference shares or Debentures or for payment of dividends or for equalising dividends or for repairing, improving, extending and maintaining any part of the property of the Company, or for such other purposes as the Directors may in their absolute discretion think conducive to the interests of the Company, and the Directors may invest the several sums so set aside or so much thereof as required to be invested upon such investments (subject to the restrictions imposed by the Act) as the Directors may think fit and from

time to time deal with and vary such investments and dispose of and apply and expend all or any part thereof for the benefit of the Company, in such manner and for such purposes as the Directors (subject to such restrictions as aforesaid) in their absolute discretion think conducive to the interest of the Company notwithstanding that the matters to which the Directors, apply or upon which they expand the same or any part thereof may be matters to or upon which the Capital moneys of the Company might rightly be applied or expended and the Directors may divide the reserve or any fund into such special fund and transfer any sum from one fund to another as a Directors may think fit and may employ the assets constituting all or any of the above funds including the Depreciation Fund, in the business of the Company or in the Purchase or repayment of redeemable preference shares and Debentures and that without being bound to keep the same separate from the other assets, and without being bound to pay interest on the same, with power however, to the Directors at their discretion to pay or allow to the credit to such fund interest at such rate as the Directors may think proper.

(21) To appoint officers etc.

To appoint and at their discretions remove or suspend such committee or committees of exports, technicians and advisers or such Managers, officers, clerks employees and agent for permanent, temporary or special services as they may from time to time think fit, and to determine their powers and duties and fix their salaries and emoluments and require security in such instances and to such amounts as they may think fit, and also without prejudice as aforesaid, from time to time to provide for the management and transaction of the affairs of the company in any specified locality in India in such manner as they think fit and the provisions contained in sub-articles 22 and 23 following shall be without prejudice to the general powers conferred by this sub-article.

(22) To ensure compliances of local laws.

To comply with the requirements of any local law which in their opinion it shall in the interest of the company be necessary or expedient to comply with.

(23) To establish local Boards.

From time to time and at any time, to establish any Local Board for managing any of the affairs of the company in any specified locality in India or elsewhere and to appoint any persons to be members of any Local Boards and to fix their remuneration. And from time to time and at any time, but subject to provisions of the Act and of these presents, to delegate to any person so appointed any of the powers. Authorities and discretions for the time being vested in the Directors, and to authorize the members for the time being of any such Local Board, or any of them to fill up any vacancies therein and to act notwithstanding vacancies and any such appointment or delegation may be made on such terms and subject to such conditions as the Directors may think fit, and the Directors may at any time remove any persons so appointed and may annul or vary any such delegation. Any such delegates may be authorized by the Directors to sub-delegate all or any of the powers, authorities and discretions for the time being vested in them.

(24) At any time and from time to time but subject to the provisions of the Act and Article 147 by power of Attorney to appoint any person or persons to be the attorney or attorneys of the company for such purposes and with such powers, authorities and discretion (not exceeding those vested in or exercisable by the Directors under these presents) and for such period and subject to such conditions as the Directors may from time think fit, and any such appointment (if the Directors think fit) may be made in favour of the members, or any of the members of any Local Board established as aforesaid or in favour of any company or members, directors, nominees or managers of any company or firm or otherwise in favour of any fluctuating Body of persons whether nominated directly or indirectly by the Directors, and any such power of Attorney may contain such powers for the protection or convenience of persons dealing with such attorneys as the Directors may think fit.

(25) Delegation of powers.

Generally subject to the provisions of the Act and these Articles to delegate the powers, authorities and discretion vested in the Directors to any person, firm, company or fluctuating body or persons.

(26) Such Delegation of powers by Delegates.

Any such delegate or attorney as aforesaid may be authorised by the Directors to sub-delegate all or any of the powers authorities and discretion for the time being vested in him.

(27) To enter into contracts.

To enter into all such negotiations and contracts and reassign and vary all such contracts and execute and do all such acts, deeds and things in the name and on behalf of the company as they may consider expedient for or in relation to any of the matter aforesaid or otherwise for the purpose of the company.

(28) To frame, amend, alter, modify and enforce rules, regulations, bye-laws and codes of conduct for the clearing members of the Corporation, companies seeking enlistment and other participants in such dealings in securities on the Corporation by whatsoever name called provided that the power under this clause shall be exercised only by a three-fourths majority of the Directors present and voting at a duly convened meeting of the Board.

158. Powers of the Board.

- (1) The Board shall have power to organize, maintain, control, manage, regulate and facilitate the operations of the Corporation subject to the provisions of these Articles and any other applicable legal provisions.
- (2) Subject to the provisions of these Articles and any other applicable legal provisions, the Board shall have power and wide authority to make Rules, Bye-laws and Regulations from time to time for any or all matters relating to the conduct of the business of the Corporation and to control, define and regulate all such transactions and to do such acts and things which are necessary for the purposes of the Corporation or of the company.
- (3) Without prejudice to the generality of the foregoing, the Board shall have power to make rules, bye-laws and regulations, amongst other purposes, for all or any of the following matters:-
 - (a) Conditions for admission to clearing membership of the Corporation.
 - (b) Conduct of business of the Corporation.
 - (c) Conduct of clearing members of the Corporation with regard to the business of the Corporation subject to Rules, Bye-Laws, Regulations or Usage of the Corporation.
 - (d) Time, place and manner for transacting business on the Corporation.
 - (e) Penalties for disobedience or contravention of the Rules, Bye-Laws and Regulations or of general discipline of Corporation, including expulsion or suspension of the clearing members of Clearing Corporation.
 - (f) Declaration of any clearing member of the Corporation as defaulter or suspension, or resignation or exclusion from clearing membership of the Corporation and of consequences thereof;
 - (i) Scale of commission or brokerage which clearing members of the Corporation can charge;
 - (j) Conditions, levy for admission or subscription for admission to or continuance of clearing membership of Corporation.
 - (k) Charge payable by clearing members of the Corporation for transactions as may be laid down from time to time.
 - (l) Investigations of the financial conditions, business conduct and dealings of clearing members of Corporation
 - (m) Settlements of disputes, complaints, claims arising between clearing members of the Corporation and persons who are not clearing members inter se as well as between clearing members of the Corporation and persons who are not clearing members of the Corporation relating to any transaction in securities made subject to the Rules, Byelaws and regulations and usage of the Corporation including settlement by arbitration in accordance with the Rules, Bye-laws and regulations and usage of the Corporation in force from time to time.
 - (n) Establishment and functioning of Clearing Houses(s) or other arrangements for clearing;
 - (o) Appointment of Committee or Committees for any purposes of the Corporation.
- (4) The Board shall be empowered to delegate to Executive Committee(s) or to any person, all or any of the powers vested in it, to manage all or any of the affairs of the Corporation.
- (5) Subject to the provisions of these presents and the SCR Act and the Rules framed thereunder and the SEBI Act and Rules thereunder or any SEBI directives, the Board shall be empowered to vary, amend or repeal or add to Rules, Byelaws and Regulations, framed by it.

THE SEAL**159. The Seal, its custody and use**

The Board shall provide a Common Seal for the purpose of the Company and shall have power from time to time to destroy the same and substitute a new seal in lieu thereof, and the Board shall provide for the safe custody of the Seal for the time being and the Seal shall never be used except by or under the authority of the Board or a Committee of Directors, except in the presence of one Director, or of the secretary or any other person who may have be authorised in this regard at the least, who shall sign every instrument to which the Seal is affixed provided that certificates of shares may be under the signatures of such persons as provided by the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 in force from time to time. Save as otherwise expressly provided by the Act a document or proceeding, requiring authentication by the Company may be signed by a Director, or the Secretary or any other officer authorised in that behalf by the Board and need not be under its Seal.

DIVIDENDS**160. Division of profits**

The profit of the Company, subject to any special rights relating thereto created or authorised to be created by the Memorandum of Association or these presents and subject to the provisions of the Act, and these presents shall

be divisible among the Members in proportion to the amount of capital paid up in the shares held by them respectively.

161. Capital paid up in advance at interest not to earn dividend

Where capital is paid up in advance of calls upon the footing that the same shall carry interest, such capital shall not, whilst carrying interest, confer a right (to dividend) to participate in profits.

162. Dividends in proportion to amount paid up

The Company may pay Dividends in proportion to the amounts paid up of credited as paid up on each share, where a large amount is paid up or credited as paid up on some shares then on others.

163. The Company in General Meeting may declare a dividend

The Company in General Meeting may declare a dividend to be paid to the Members according to their respective rights and interests in the profits and may fix the time for payment.

164. No larger dividend than recommended by Directors

No larger dividend shall be declared than is recommended by the Directors but the Company in General Meeting may declare a smaller dividend, subject to the provisions of Section 123 of the Act, and no dividend shall carry interest as against the Company. The declaration of the Directors as to the amount of the net profits of the Company shall be conclusive.

165. Interim dividend

The Directors may from time to time, pay to the Members such interim dividends as in their judgment the position of the Company justifies.

166. Retention of Dividends until completion of transfer under Article 58

The Directors may retain the dividends payable upon shares in respect of which any person is under Article 57 hereof, entitled to transfer until such person shall become a Member in respect of such shares.

167. No member to receive dividend while indebted to the Company and Company's right to reimbursement thereof

Subject to Section 123 of the Act, no Member shall be entitled to received payment of any interest or dividend in respect of his share or shares whilst any money may be due or owing from him to the Company in respect of such share or shares or otherwise howsoever either alone or jointly with any other person or persons and the Directors may deduct from the interest or dividend payable to any Member all sums of money so due from him to the Company.

168. Right to Dividend pending registration of transfer of shares

Where any instrument of transfer of shares has been delivered to the Company for registration and the transfer of such shares has not been registered by the Company, it shall, notwithstanding anything contained in these Articles transfer the dividend in relation to such shares to the Unpaid Dividend Account unless the Company is authorised by the registered holder of such shares in writing to pay such dividend to the transferee specified in such instrument of transfer.

169. Special provision with reference to dividend

No dividend shall be payable except in cash, provided that nothing in this Article shall be deemed to prohibit the capitalisation of profits or reserves of the Company for the purpose of issuing fully paid up bonus shares or paying up any amount for the time being unpaid on any shares held by the Members of the Company.

170. Dividend how remitted

Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of Shares may be paid by electronic mode or by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the register of Members, or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct.

170A. Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent. Payment in any way whatsoever shall be made at the risk of the person entitled to the money paid or to be paid. The Company will not be responsible for a payment which is lost or delayed. The Company will be deemed to having made a payment and received a good discharge for it if a payment using any of the foregoing permissible means is made.

170B. Any one of two or more joint holders of a Share may give effective receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of such Share.

171. Unclaimed or unpaid dividends whom the money is due

No dividend shall bear interest against the Company.

(1) Where the Company has declared a dividend but which has not been paid or the dividend warrant in respect thereof has not been posted within 30 (thirty) days from the date of declaration to any Shareholder entitled to the payment of the dividend, the Company shall within 7 (seven) days from the date of expiry of the said period of 30 (thirty) days, open a special account in that behalf in any scheduled bank called "Unpaid

dividend Account of NSE IFSC Clearing Corporation Limited” and transfer to the said account, the total amount of dividend which remains unpaid or in relation to which no dividend warrant has been posted.

- (2) Subject to the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013, any money transferred to the Unpaid dividend Account of the Company which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (the “Fund”).
- (3) No unclaimed or unpaid dividend shall be forfeited by the Board before the claim becomes barred by law provided that a recognized stock exchange may provisionally admit to dealing the securities of a company which undertakes to amend articles of association at its next General Meeting so as to fulfill the foregoing requirements and agrees to act in the meantime strictly in accordance with the provisions of this clause. All unclaimed and unpaid dividends shall be dealt with as per Section 125 of the Companies Act, 2013 and the rules made there under.
- (4) The Company shall not be responsible for the loss of any cheque, dividend warrant or postal order sent by post in respect of dividends, whether by request or otherwise, at the registered address or the address communicated to the office before hand by the Member or for any dividend lost to the Member or person entitled thereto by the forged endorsement of any cheque or warrant or the fraudulent recovery thereof by any other means.

172. Dividends and call together

Subject to the Act, any General Meeting declaring a dividend may make a call on the Members in respect of moneys unpaid on shares for such amount as the meeting fixes but so that the call on each Member shall not exceed the dividend payable to him and so that the call made payable at the same time as the dividend, and the dividend may, if so arranged between the Company and the Members be set off against the call.

CAPITALISATION

173. Capitalisation

- (A) The Company in general meeting may, upon the recommendation of the Board, resolve—
 - (i) that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company’s reserve accounts, or to the credit of the profit and loss account, or otherwise available for distribution; and
 - (ii) that such sum be accordingly set free for distribution in the manner specified in clause (B) below amongst the Members who would have been entitled thereto, if distributed by way of dividend and in the same proportions.
- (B) The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provision contained in clause (3) below, either in or towards:
 - (a) paying up any amounts for the time being unpaid on any Shares held by such Members respectively;
 - (b) paying up in full, unissued Shares or other securities of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such Members in the proportions aforesaid;
 - (c) partly in the way specified in sub-clause (A) and partly in that specified in sub-clause (B);
 - (d) issuing fully paid-up bonus Shares; and
 - (e) A securities premium account and a capital redemption reserve account or any other permissible reserve account may, for the purposes of these Articles, be applied in the paying up of unissued Shares to be issued to Members as fully paid bonus Share.
- (C) A securities premium account and a capital redemption reserve account or any other permissible reserve account may, for the purposes of this Article, be applied in the paying up of unissued Shares to be issued to Members of the Company as fully paid bonus Shares;

ACCOUNTS

174. Accounts

The Board shall cause to be kept in accordance with Section 128 of the Act proper books of account (with respect to: (a) all sums of money received, expended by the Company and the matters in respect of which such receipt and expenditure take place (b) all sales and purchases of goods and services by the Company and (c) the assets credits and liabilities of the Company) and generally of all its commercial financial and other affairs, transaction and engagement and of all other matters, necessary for showing the true financial state and condition of the Company, and the accounts shall be kept in English and in the manner provided in Section 128 of the Act and the books of accounts shall be kept at the Registered Office or such place or places in India subject to

compliance of the provisions of the Act as the Board think fit (where such a decision is taken, the Company shall, within seven days thereof, file with the Registrar a notice in writing giving the full address of that other place) and shall be open to inspection by the Directors during business hours.

175. Inspection of Members of account and books of the Company

The Board shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations the accounts and books of the Company or any of them shall be open to the inspection of Members not being Directors and no Member (not being a Director) shall have any right to inspecting and Account or book or document of the Company except as conferred by law or authorised by the Directors or by the Company in the General Meeting.

176. Financial Statements and Report to be furnished at every Annual General Meeting

At every Annual General Meeting of the Company, the Board of the Company shall lay before such meeting the financial statements for the financial year and shall as required by Section 134 of the Act, be accompanied by a Report (to be attached hereto) of the Directors as to the state and condition of the Company

177. Form and contents of financial statements

Every financial statements of the Company shall give a true and fair view of the state of affairs of the Company and shall, subject to the provisions of Section 129 and 133 of the Act, be in the Forms set out in Parts I and II respectively of Schedule III of the Act, or as near thereto as circumstances admit.

178. Authentication of financial statements and other documents; Copies thereof to be sent to Members

- (i) The financial statements of the Company shall be signed by the chairperson of the company where he is authorised by the Board or by two Directors out of which one shall be Managing Director and the Chief Executive Officer, if he is a director in the company, the Chief Financial Officer and the company secretary of the company, wherever they are appointed. The financial statements shall be approved by the Board before they are signed on behalf of the Board in accordance with the provisions of this Article and before they are submitted to the Auditor for their report thereon. The Auditor's report shall be attached to the financial statements or there shall be inserted at the foot of the financial statements a reference to the Report.
- (ii) A copy of such financial statements of audited together with a copy of the Auditor's Report shall at least twenty one days before the meeting at which the same are to be laid before the Members of the Company, subject to the provisions of Section 101 of the Act, be sent to every Member of the Company, to every trustee for the holders of any debentures issued by the Company, whether such member or trustee is or is not entitled to notices of General Meeting of the Company to be sent to him and to all other persons other than such members or trustees, being persons so entitled and a copy of the same shall be made available at the Office for inspection by the Members of the Company during a period of at least twenty one days before that meeting.

179. Copies of financial statements and Auditor's Report to be filed.

After the financial statements have been laid before the Company at a General Meeting, three copies thereof signed by the Manager or Secretary or as required by Section 137 of the Act shall together with the requisite Returns in accordance with the requirements of Section 92 of the Act be filed with the Registrar of Companies within the time specified in Section 137 of the Act.

AUDIT

180. Accounts to be audited

Once at least in every year the accounts of the Company shall be balanced and audited and the correctness of the financial statements ascertained by one or more Auditor or Auditors.

181. Appointment, Qualifications and remuneration of Auditors

Appointment, re-appointment, rotation, removal, resignation, eligibility, qualification, disqualification, remuneration, powers and duties etc. of the Statutory Auditors shall be in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder.

182. Auditors : their powers and duties

- (1) Every Auditor of the Company shall have a right of access at all the times to the books and accounts and vouchers of the Company and shall be entitled to require from the Directors and officers of the Company, such information and explanations as may be necessary for the performance of the duties of the Auditors and the Auditors shall make report to the Shareholders on the accounts examined by them and on every financial statements which are required by and under the Act are laid before the Company in General Meeting, and the report shall state whether in their opinion and to the best of their information and knowledge, the said Accounts, give a true and fair view the state of the Company's affairs as at the end of its financial year and profit and loss and cash flow for the year and the such other matters as may be prescribed.

(2) The Auditors Report shall also state the matters prescribed under the Section 143 of the Act.

183. Auditors' right to attend Meetings

All notices of and other communications relating to any General Meeting of the Company which any Member of the Company is entitled to have sent to him shall also be forwarded to the Auditors of the Company and the Auditors shall be entitled to attend either by himself or through his authorized representative, who shall also be qualified to be an auditor, and to be heard at any General Meeting which they attend or any part of the business which concerns them as Auditors.

NOTICE

184. Notice

- (1) A document (which includes any summons, notice, requisition, order, declaration, form and register) may be served on any member by sending it to him by post or by registered post or by speed post or by courier or by delivering at his office or address, or by electronic mode or any other modes as prescribed under the Act.
- (2) Such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a Meeting at the expiry of forty eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post. The Member may request for delivery of any document through a particular mode, for which he shall pay such fees as may be determined in accordance with the Act.

185. Persons entitled to notice of General Meetings

Notice of every General Meeting shall be given in same manner hereinbefore authorised to (a) every member of the company (including bearers of share warrants), (b) every person entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a Member who but for his death or insolvency would be entitled to receive notice of the meeting to (c) the Auditor or Auditors of the company and also to (d) every Director of the Company.

186. Notice by company and signature thereto.

Any notice to be given by the company shall be signed by the secretary (if any) or by such officer as the Directors may appoint, such signature may be written, printed or lithographed.

187. Transfers etc. bound by prior notice.

Every person who, by operation of law, transfer or other means whatsoever, shall become entitled to any share, shall be bound by every notice in respect of such share, which previously to his name and address and title to the share being notified to the company, shall have been duly given to the person from whom he derives his title to such share.

188. Notice valid though Member deceased

Subject to the provisions of the Act, any notice given in pursuance of these presents or documents delivered or sent by post to or left at the registered address of any Member or at the address given by him under Article 185 in pursuance of these presents, shall notwithstanding such Member be then deceased and whether or not the company have notice of his decease be deemed to have been duly served in respect of any registered share, whether held solely or jointly with other persons by such Member until some other persons be registered in his stead as the holder or the joint holder thereof, and such service shall for all purposes of these presents be deemed a sufficient service of such notice or document on his or her heir executors or administrators and all persons, if any jointly interested with him or her in any such share.

SECURITY CLAUSE

189. Secrecy Clauses

No member shall be entitled to require discovery of or any information respecting any detail of the company's trading (or of the exchange.) or any matter which may be in the nature of a trade secret, mystery of trade or secret process which may relate to the conduct of the business of the company and which in the opinion of the Directors, will be inexpedient in the interest of the Members of the company to communicate to the public.

INDEMNITY AND RESPONSIBILITY

190. Directors and Other's right to indemnity

- (1) Subject to the provisions of the Act, the Board of Directors, Managing Director, Managers, Secretary and other officers or other employees for the time being of the company, Auditor and the Trustees, if any, for the time being acting in relation to any of the affairs of the company and every one of them and every one of their heirs, executors and administrators shall be indemnified and secured harmless out of the assets and profits of the company from and against all actions, costs, charges, losses, damages and

expenses which they or any of them, their heirs, executors or administrators shall or may incur or sustain by or reason of any act done, concurred in or omitted in or about the execution of their duty, or supposed duty in their respective offices or trusts except such, if any, as they shall incur or sustain through or by their own willful neglect or default respectively.

- (2) Save and except so far the provisions of this Article shall be avoided by the Act, none of them shall be answerable for the acts, receipts, neglects or defaults of the other or other of them, or for joining in any receipt for the sake of conformity, or for insolvency of any bankers or other persons with whom any money's or effects belonging to the company shall or may be lodged or deposited for safe custody or for the insufficiency or deficiency of any security upon which any money's belonging to the company shall be placed out or invested or invested or for any other loss, misfortune or damage which may happen in the execution of their respective offices or trusts or in relation thereto, except when the same shall happen by or through their own willful neglect or default respectively.
- (3) Subject to the provisions of the Act, no Director or other officer of the company shall be liable for the acts, receipts, neglect or default of any other Director or officer of the company or for joining in any receipt or other act for conformity for any loss or expenses happening to the company through the insufficiency or deficiency to title to any property acquired by the order of the Director for or on behalf of the company or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the moneys of the company shall be invested or for any loss damage arising from the bankruptcy, insolvency or tortuous act or any person with whom any moneys, securities or effects shall be deposited or for any loss occasioned by any error of judgment or oversight on his part, or for any other loss, or damage whatsoever, which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto unless the same happens through his own negligence or dishonesty.
- (4) Subject to the provisions of the Act (including Section 197 read with Section 196 and Schedule V) and rules made thereunder, if the Company has obtained an insurance on behalf of its Managing Director, Whole-Time Director, Manager, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer or Company Secretary for indemnifying any of them against any liability in respect of any negligence, default, misfeasance, breach of duty or breach of trust for which they may be guilty in relation to the Directors and other's right to indemnity treated as part of the remuneration payable to any such personnel. Provided that if such person is proved to be guilty, the premium paid on such insurance shall be treated as part of the remuneration.

WINDING UP

191. Distribution of assets on winding up

- (1) If the company shall be wound up and assets available for distribution among the Members as such shall be insufficient to repay the whole of the paid-up capital, such assets shall be distributed so that as nearly may be, the losses shall be borne by the Members in proportion to the capital paid-up or which ought to have been paid up at all commencement of the winding up on the shares held by them respectively and if in a winding up the assets available for distribution among the Members shall be more than sufficient to repay the whole of the capital paid-up at the commencement of the winding up, the excess shall be distributed among the Members in proportion to the capital at the commencement of the winding up paid up or which ought to have been paid up on the shares held by them respectively.

- (2) **Manner of distribution of assets**

If the company shall be wound up, whether voluntarily or otherwise, the Liquidator may with the sanction of special resolution divide among the contributors, in specie or in kind, the whole or any part of the assets of the company and may, with like sanction, vest any part of the assets of the Company in trustees upon such trusts for the benefit of the contributors or any of them, as the Liquidator, with the like sanction shall think fit, but so that no contributor shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.

GENERAL POWER

- 192A.** Wherever in the Act, it has been provided that the Company shall have any right, privilege or authority or that the Company could carry out any transaction only if the Company is so authorized by its articles, then and in that case this Article authorizes and empowers the Company to have such rights, privileges or authorities and to carry such transactions as have been permitted by the Act, without there being any specific Article in that behalf herein provided.
- 192B.** Further, where the Act or rules empowers the Board to exercise any powers for and on behalf of the Company, the Board shall be entitled to exercise the same, irrespective of whether the same is contained in this Articles or not.
- 192C.** The provisions of the Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles. Any provision contained in these Articles shall, to the extent to which it is repugnant to the provisions of the Act, become or be void, and the same shall without affecting other provisions contained in these Articles.
- 192D.** The provisions of these Articles must be read in conjunction with the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 as amended, and other rules, regulations, circulars,

notifications, orders or directions issued by Securities and Exchange Board of India from time to time (each to the extent applicable).

The Article shall be signed by each subscriber of Memorandum of association who shall add his address, description and occupation, if any, in the presence of at least one witness who shall attest the signature and shall likewise add his address, description and occupation, if any, and such signatures shall be in form specified below:

Sl. No.	Name,Address, Occupation & father's name of the Subscriber(s)	Signature of the Subscriber	Name, Address, Occupation and Signature of the Witness
1	National Securities Clearing Corporation limited	Sd-/	I Witness to Subscribers who have Subscribe and signed in my presence, Further I have verified their identity details (ID) for their identification and satisfied myself of their identification particulars as filled in sign- Jatin H kapadia Company Secretary ACS: 26725 CP:12043
2	Amit K Amlani	Sd-/	
3	Natarajan Ramasamy	Sd-/	
4	Huzefa Mahuvawala	Sd-/	
5	Ravindra Bathula	Sd-/	
6	R. Jayakumar	Sd-/	
7	Nilesh Tinaikar	Sd-/	

FOR NSE IFSC CLEARING CORPORATION LIMITED

NILESH TINAIKAR

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

The provisions contained in the Byelaws of the NSE IFSC Clearing Corporation Limited are given hereunder:

NSE IFSC CLEARING CORPORATION LIMITED

BYE LAWS

ARRANGEMENT OF CHAPTERS

<u>Chapter</u>	<u>Description</u>
I.	Definitions
II.	Regulations
III.	Clearing Members
IV.	Clearing and Settlement of Deals
V.	Dealings by Clearing Members
VI.	Margins
VII.	Arbitration
VIII	Settlement Guarantee Fund
IX	Default
X.	Miscellaneous

CHAPTER I: DEFINITIONS

1. BOARD
"Board" means Board of Directors of the Clearing Corporation
2. BYELAWS
Unless the context indicates otherwise, Byelaws means the Byelaws of the Clearing Corporation for the time being in force.
3. CLEARING AND SETTLEMENT
"Clearing and Settlement" means clearing or settlement or clearing and settlement of deals in such manner and subject to such conditions as may be specified by the Relevant Authority from time to time, unless the context indicates otherwise.
4. CLEARING BANK(S)
Clearing Bank(s) is/are such bank(s) as the Clearing Corporation may appoint to act as a funds settling agency, for the collection of margin money for all deals cleared through Clearing Corporation and any other funds movement between clearing members and the Clearing Corporation and between clearing members as may be directed by the Clearing Corporation from time to time.

5. CLEARING CORPORATION

Clearing Corporation means NSE IFSC Clearing Corporation Limited.

6. CLEARING MEMBER

"Clearing Member" means a member of the Clearing Corporation and includes all categories of clearing members as may be admitted as such by the Clearing Corporation but does not denote the shareholders of the Clearing Corporation.

7. CONSTITUENT/ CLIENT

A client/Constituent means a person, on whose instructions and on whose account the Clearing Member clears and settles deals. For this purpose, the term "Client" shall include all registered constituents of trading members of Specified Exchange.

Explanation 1: The terms 'Constituent' and 'Client' are used interchangeably in the Byelaws, Rules & Regulations and shall have the same meaning assigned herein.

Explanation 2: The term 'Constituent' in relation to trades shall also include a trading member where such trades done on the Specified Exchange are cleared and settled on his behalf by a Clearing Member.

8. DEAL

"Deal" means, unless the context indicates otherwise, trades executed on a Specified Exchange which are admitted to be cleared and settled through the Clearing Corporation.

9. DELIVERING MEMBER

"Delivering Member" means a clearing member who has to or has delivered documents including original share/bond/other securities certificates, transfer documents etc. as required for delivery in fulfillment of contract to which these Rules, Bye Laws and Regulations apply unless the context indicates otherwise.

10. RECEIVING MEMBER

"Receiving Member" means a clearing member who has to receive or has received documents including original share/bond/other securities certificates, transfer documents etc. as required for delivery in fulfillment of contracts to which these Rules, Bye Laws and Regulations apply unless the context indicates otherwise.

11. IFSC

IFSC means International Financial Services Centre as defined by SEBI under the Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015.

12. NETTING

"Netting" means the determination by Clearing Corporation of net payment or delivery obligations of the clearing members by setting off or adjustment of the inter se obligations or claims arising out of buying and selling of securities including the claims and obligations arising out of the termination by the Clearing Corporation, in such circumstances as the Clearing Corporation may specify in Byelaws, of the deals admitted for settlement at a future date, so that only a net claim be demanded, or a net obligation be owed.

13. NOVATION

"Novation" means the act of a clearing corporation interposing itself between both parties of every trade, being the legal counterparty to both.

14. REGULATIONS

"Regulations" means Regulations of the Clearing Corporation for the time being in force and includes business rules, code of conduct and such other procedures and regulations, circulars, directives and orders as issued by the relevant authority from time to time.

15. RELEVANT AUTHORITY

"Relevant Authority" means the Board or such other authority as specified by the Board from time to time as relevant for a specified purpose.

16. RULES

Unless the context indicates otherwise, "Rules" means the Rules of the Clearing Corporation for the time being in force.

17. SEBI

"SEBI" means the Securities and Exchange Board of India.

18. SECURITIES

"Securities" shall mean securities as permitted by SEBI from time to time to be traded on a stock exchange in IFSC.

19. SETTLEMENT GUARANTEE FUND

Settlement Guarantee Fund means a fund established and maintained in accordance with the relevant provisions of the Bye Laws.

20. SPECIFIED EXCHANGE

"Specified Exchange" or "specified exchange" means a recognised stock exchange in IFSC under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 dealings on which may be admitted to be cleared and settled by the Clearing Corporation subject to such terms and conditions as may be specified from time to time by the relevant authority.

21. TRADING MEMBER

"Trading Member" means any person admitted as a member in any Specified Exchange in accordance with the Rules, Bye Laws and Regulations of that Exchange.

The terms defined above shall mean the same when used in lower case in the Rules, Bye Laws and Regulations, unless the context indicates otherwise.

CHAPTER II: REGULATIONS

1. The Board may prescribe Regulations from time to time for the functioning and operations of the Clearing Corporation and to regulate the functioning and operations of the clearing members.
2. Without prejudice to the generality of the above, the Board may prescribe regulations from time to time, inter alia, with respect to :
 - (1) norms, procedures, terms and conditions for admission of Exchanges;
 - (2) norms, procedures, terms and conditions to be complied with for admission of deals for clearing and settlement by the Clearing Corporation; norms, procedures, terms and conditions for clearing and settlement of deals forms and conditions of deals to be entered into, and the time, mode and manner for performance of deals between clearing members inter se or between clearing members and their constituents; norms, procedures, terms and conditions for guaranteed settlement prescription, from time to time, and administration of penalties, fines and other consequences, including suspension/expulsion of clearing members for defaults;
 - (3) norms, procedures, terms and conditions for imposition and administration of different types of margins and other charges and restrictions that may be imposed from time to time.
 - (4) determination from time to time, of fees, system usage charges, deposits, margins and other monies payable to the Clearing Corporation by clearing members and the scale of clearing and other charges that may be collected by such clearing members;
 - (5) supervision of the clearing operations and promulgation of such Business Rules and Codes of Conduct as it may deem fit;
 - (6) inspection and audit of records and books of accounts;
 - (7) settlement of disputes, complaints, claims arising between clearing members inter se as well as between clearing members and persons who are not clearing members relating to any deal in securities cleared and settled through Clearing Corporation including settlement by arbitration;
 - (8) norms, procedures, terms and conditions for arbitration;
 - (9) administration, maintenance and investment of the corpus of the Fund(s) set up by the Clearing Corporation
 - (10) establishment, norms, terms and conditions, functioning and procedures of clearing house, clearing through depository or other arrangements including custodial services for clearing and settlement;
 - (11) norms, procedures, terms and conditions in respect of, incidental to or consequential to closing out of deals;
 - (12) dissemination of information and announcements;
 - (13) any other matter as maybe decided by the Board.

CHAPTER III : CLEARING MEMBERS

1. The relevant authority is empowered to admit Clearing Members in accordance with Rules and Regulations subject to the minimum financial requirements prescribed by SEBI. Such Clearing Members shall pay such fees, security deposits and other monies as may be specified by the relevant authority from time to time, on admission as Clearing Members and for continued admission.
2. The fees, security deposits, other monies and any additional deposits paid, whether in the form of cash, bank guarantee, securities or otherwise, with the Clearing Corporation, by a Clearing Member from time to time, shall be subject to a first and paramount lien for any sum due to the Clearing Corporation and all other claims against the Clearing Member for due fulfilment of engagements, obligations and liabilities of Clearing Members arising out of or incidental to any dealings made subject to the Byelaws, Rules and Regulations of the Clearing Corporation. The Clearing Corporation shall be entitled to adjust or appropriate such fees, deposits and other monies for such dues and claims, to the exclusion of the other claims against the Clearing Member, without any reference to the Clearing Member.
3. Clearing Members may clear and settle deals either on their own account or on behalf of their constituents unless otherwise specified by the relevant authority and subject to such terms and conditions which the relevant authority may prescribe from time to time.

CHAPTER IV : CLEARING AND SETTLEMENT OF DEALS**A. DEALS FOR CLEARING AND SETTLEMENT****1. CLEARING AND SETTLEMENT OF DEALS**

- (1) The Clearing Corporation shall clear and settle such deals as provided in the Bye Laws and Regulations and save as so provided, no other deals shall be cleared and settled.
- (2) Without prejudice to the generality of the above, the relevant authority may in its discretion and subject to such conditions as it may deem fit admit any other deals.

2. ADMISSION OF DEALS

- (1) Clearing and settlement shall be permitted on the Clearing Corporation in deals which are from time to time admitted by the relevant authority in accordance with the provisions of the Bye Laws and Regulations.
- (2) The relevant authority may specify securities from time to time dealings on which may be admitted in accordance with the provisions of the Bye Laws and Regulations in that regard.
- (3) The relevant authority may specify stock exchanges from time to time dealings on which may be admitted for clearing and settlement in accordance with the provisions of the Bye Laws and Regulations.

3. CONDITIONS AND REQUIREMENTS OF CLEARING AND SETTLEMENT

The relevant authority may grant admission of deals dealt in the Exchange provided all the conditions and requirements specified in the Bye Laws and Regulations and such other conditions and requirements as the relevant authority may prescribe from time to time are complied with.

4. REFUSAL OF ADMISSION OF DEALS

The relevant authority may, in its discretion, approve admission of deals or reject admission of deals for clearing and settlement, subject to such terms as it deems fit.

5. SPECIFIC DEALS

The relevant authority may permit in appropriate cases as it may at its discretion decide from time to time specific deals to be cleared and settled through the Clearing Corporation in case of securities which are not admitted or are for the time being prohibited or suspended.

6. SUSPENSION OF ADMISSION OF DEALS

The relevant authority may suspend at any time the admission of deals including of any security or of specified exchange on Clearing Corporation for such period as it may determine and reinstate such deals subject to such conditions as it may deem fit.

7. WITHDRAWAL OF ADMISSION OF DEALS

The relevant authority may where it deems necessary withdraw the admission to dealings of a specified exchange either for breach of or non-compliance with any of the conditions or requirements of admission of dealings or for any other reason whatsoever

8. READMISSION OF DEALS

The relevant authority in its discretion may readmit deals of a specified exchange which has been previously withdrawn.

B. CLEARING AND SETTLEMENT OF DEALS**9. CLEARING AND SETTLEMENT**

Settlement shall be effected by clearing members giving and receiving delivery and paying and receiving funds as may be specified by the relevant authority from time to time in the Bye Laws and Regulations.

9(A). Settlement Finality

- i. The payment and settlement in respect of a deal shall be determined in accordance with the netting or gross procedure as specified by the relevant authority with the prior approval of SEBI in the circulars issued from time to time.
- ii. Payment and settlement in respect of a deal shall be final, irrevocable and binding on the Clearing Members.
- iii. When a settlement has become final and irrevocable, the right of the Clearing Corporation to appropriate any collaterals or deposits or margins contributed by the clearing member towards its settlement or other obligations in accordance with these Byelaws shall take priority over any other liability of or claim against the said clearing member.
- iv. For removal of doubts, it is hereby declared that the settlement, whether gross or net, referred to in Clause (1) above is final and irrevocable as soon as the money, securities or other transactions payable as a result of such settlement is determined, whether or not such money, securities or other transactions is actually paid.

- v. For the purpose of Clause (1) above, "netting" means the determination by Clearing Corporation of net payment or delivery obligations of the clearing members by setting off or adjustment of the inter se obligations or claims arising out of buying and selling of securities including the claims and obligations arising out of the termination by the Clearing Corporation, in such circumstances as the Clearing Corporation may specify in Byelaws, of the deals admitted for settlement at a future date, so that only a net claim be demanded, or a net obligation be owed.
- vi. For removal of doubts, it is hereby declared that claims and obligations arising out of the termination by the Clearing Corporation referred to in clause (5) above shall mean claims and obligations arising out of deals closed out in accordance with these Byelaws.

9 (B). Right of Clearing Corporation

The right of clearing corporation to recover the dues from its clearing members, arising from the discharge of their clearing and settlement functions, from the collaterals, deposits and the assets of the clearing members, shall have priority over any other liability of or claim against the clearing members.

10. PRIVACY OF CONTRACT

- i. Except as provided herein, clearing members giving and receiving delivery as provided in the Bye Laws and Regulations shall be deemed, notwithstanding that no direct contract may exist between them, to have made a contract with each other as sellers and buyers. However the rights and liabilities of delivering and receiving member in relation to their immediate contracting party shall not be deemed to be affected thereby except that the selling member (unless he be himself the delivering member) shall be released from all responsibility in regard to the title, ownership, genuineness, regularity and validity of the documents received by the receiving member and in regard to the loss and damages arising therefrom, which shall be dealt with in accordance with the provisions of Bye Laws and Regulations thereof.
- ii. In cases where the Clearing Corporation may specify either generally or specifically, clearing members giving and receiving delivery and paying and receiving funds as provided in the Bye Laws and Regulations shall be deemed, notwithstanding that no direct contract exists between them, to have made a contract with the Clearing Corporation through full novation as sellers and buyers and between themselves as delivering and receiving members; provided further however that in such event the rights and liabilities of delivering and receiving member shall not be deemed to be affected thereby except that the Clearing Corporation shall not be responsible in respect of the title, ownership, genuineness, regularity and validity of the documents delivered or received and in regard to the loss and damages arising therefrom, which shall be dealt with in accordance with the provisions of Bye Laws and Regulations.
- iii. Notwithstanding anything contained above, the Clearing Corporation may specify either generally or specifically, where Clearing Members clearing and settling deals as provided in the Bye laws and Regulations shall be deemed, notwithstanding that no direct contract exists between them, to have made a contract between themselves as buyers and sellers and where such contract shall be submitted with the Clearing Corporation as the buyer to the seller and as the seller to the buyer.

11. ARRANGEMENT FOR CLEARING AND SETTLEMENT

- i. Clearing and settlement of deals shall be effected by clearing members by adopting and using such arrangements, systems, agencies or procedures as may be specified by the relevant authority from time to time. Without prejudice to the generality of the above, the relevant authority may prescribe or specify from time to time such custodial, depository and other services for adoption and use by clearing members and their constituents to facilitate smooth operation of the clearing and settlement arrangement or system.
- ii. The clearing and settlement function may be performed by the Clearing Corporation or it may take assistance of any agency identified by the relevant authority for the purpose.

12. OPERATIONAL PARAMETERS FOR CLEARING

- i. The relevant authority may determine and announce from time to time operational parameters regarding clearing of deals through the Clearing Corporation which the clearing members shall adhere to.
- ii. The operational parameters may, inter alia, include:
 - A. clearing/exposure limits allowed which may include clearing/exposure limits with reference to net worth and capital adequacy norms;
 - B. clearing volumes and limits at which it will be incumbent for clearing members to intimate the Clearing Corporation ;
 - C. fixation of delivery lots for different settlement types;
 - D. other matters which may affect smooth operation of clearing of deals keeping in view larger interest of the public;
 - E. determining types of deals permitted for a clearing member and for a security;
 - F. determining functional details of the clearing and settlement system including the system design, user infrastructure and system operation.

13. CLEARING HOURS

- i. The hours for clearing and settling of the Clearing Corporation shall be during such time as may be decided by the relevant authority from time to time. The relevant authority may, from time to time, specify clearing hours for different types of deals.
- ii. The relevant authority may declare a list of holidays in a calendar year. The relevant authority may from time to time alter or cancel any of the holidays fixed in accordance with these provisions. It may, for reasons to be recorded, suspend clearing and settlement operations on days other than or in addition to holidays.

14. DELIVERY OF SECURITIES

- i. Delivery and settlement of all securities, documents and papers and payment in respect of all deals be in such manner and such place(s) as may be specified by the relevant authority from time to time.
- ii. The relevant authority shall specify from time to time, the securities, documents and papers which, when delivered in specified manner, shall constitute good delivery. Where circumstances so warrant, the relevant authority may determine, for reasons to be recorded, whether or not a delivery constitutes a good delivery, and such findings shall be binding on parties concerned. Where the relevant authority determines that a delivery does not constitute a good delivery, the delivering party shall be required to substitute good delivery instead within such time as may be specified.
- iii. The norms and procedures for delivery with respect to market lot, odd lot, minimum lot, part delivery, delivery of partly paid securities etc., shall be as specified by the relevant authority from time to time.
- iv. The requirements and procedures for determining disputed deliveries or defective deliveries, and measures, procedures and system of resolving the dispute or defect in deliveries or of consequences of such deliveries or their resolution shall, subject to these Bye Laws, be as specified by the relevant authority from time to time.

15. TRANSFER OF POSITION

A deal admitted for clearing and settlement may be transferred to another non defaulting clearing member with his consent on the failure of a clearing member to comply with any of the provisions relating to delivery, payment and settlement of deals or on any failure to fulfil the terms and conditions subject to which the deal has been made, or such other circumstances as the relevant authority may specify from time to time. The deal may be transferred to another non defaulting clearing member by the Clearing Corporation in such manner, within such time frame, and subject to such conditions and procedures as the relevant authority may prescribe from time to time

16. CLOSE OUT

- i. A deal admitted for clearing and settlement may be closed out on failure of a clearing member to comply with any of the provisions relating to delivery, payment and settlement of deals or on any failure to fulfil the terms and conditions subject to which the deal has been made, or such other circumstances as the relevant authority may specify from time to time. The deal may be closed out by the Clearing Corporation in such manner, within such time frame and subject to such conditions and procedures as the relevant authority may prescribe from time to time.
- ii. Without prejudice to the generality of the foregoing, the relevant authority may close out deals, inter alia, by buying in or selling out against a clearing member as follows:-
 - A. in case of the selling clearing members, on failure to complete delivery on the due date; and
 - B. in case of the buying clearing members, on failure to pay the amount due on the due date,
 - C. and any loss, damage or shortfall sustained or suffered as result of such closing out shall be payable by the clearing members who failed to give due delivery or to pay amount due.
- iii. In case of default by a clearing member to the Clearing Corporation arising out of the positions the relevant authority shall be entitled to close-out the positions of a clearing member.
- iv. The Clearing Corporation shall be entitled to hold the positions in its own name, either fully or part thereof in the above clause till expiry at its discretion subject to such terms and conditions as it may deem fit.

17. FAILURE TO MEET OBLIGATIONS

In the event a clearing member fails to meet obligations to the Clearing Corporation arising out of clearing and settlement operations of admitted deals, the relevant authority may charge such interest, impose such penalties and fines and take such disciplinary action against the clearing member as it may determine from time to time. Any disciplinary action which the relevant authority takes pursuant to the above shall not affect the obligations of the clearing member to the Clearing Corporation or any remedy to which the Clearing Corporation may be entitled under applicable law.

CHAPTER V : DEALINGS BY CLEARING MEMBERS**1. JURISDICTION**

- (1) All deals admitted by the Clearing Corporation for clearing and settlement shall be deemed to have been entered into in IFSC unless provided otherwise expressly by the relevant authority.
- (2) The relevant authority may, from time to time, specify deals as subject to a particular jurisdiction, having regard to the type or nature of the deal, the exchange on which the deal was struck and other relevant factors.

2. RECORD FOR EVIDENCE

The record as maintained by a central processing unit or a cluster of processing units or computer processing units, whether maintained in any other manner shall constitute the agreed and authentic record in relation to any deals cleared and settled through the Clearing Corporation. For the purposes of any disputes regarding clearing and settlement of deals, the records as maintained by the Clearing Corporation shall constitute valid evidence in any dispute or claim between the constituents and the clearing member or between the clearing members inter-se or between the clearing members and the Clearing Corporation.

3. CLEARING MEMBER ONLY PARTIES TO DEALS

The Clearing Corporation does not recognise as parties to deals any persons other than its own clearing members, and every clearing member is directly and wholly liable in accordance with whom such clearing member has any deal for due fulfilment of the deal or as may be specified by the relevant authority, whether such deal be for account of the clearing member effecting it or for account of a constituent.

4. ALL DEALS SUBJECT TO RULES, BYE LAWS AND REGULATIONS

All deals shall be made subject to the Rules, Bye Laws and Regulations and this shall be a part of the terms and conditions of all such deals and the deals shall be subject to the exercise by the relevant authority of the powers with respect thereto vested in it by the Bye Laws, Rules and Regulations.

5. INVIOABILITY OF ADMITTED DEALS

All the dealings in securities made subject to the Byelaws, Rules and Regulations shall be in- violable and shall be cleared and settled in accordance with the Byelaws, Rules and Regulations. However, the Clearing Corporation may act on the annulment of a deal by any Specified Exchange and in such an event, the Clearing Member shall be entitled to cancel the relevant deal(s) with its constituents.

6. DEALS BY REPRESENTATIVE CLEARING MEMBERS

A clearing member may authorise another clearing member to act as his representative for a specified period with the prior permission of the relevant authority.

7. EXCLUSION OF LIABILITY OF CLEARING CORPORATION

The Clearing Corporation shall not be liable for any activity of Clearing member or any person acting in the name of the clearing member whether authorized or unauthorized including deals cleared and settled through the Clearing Corporation save and except as and to the extent provided in the Bye-laws and Regulations.

CHAPTER VI : MARGINS**1. MARGIN REQUIREMENTS**

- (1) The relevant authority may from time to time prescribe requirements of margins for deals cleared and settled through the Clearing Corporation and the clearing member shall furnish such margin as a condition precedent.
- (2) Without prejudice to clause (1) above, the relevant authority may provide cross margin benefit for deals cleared and settled through the Clearing Corporation for such positions subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.
- (3) Every Clearing Member has a continuing obligation to maintain margins at such levels and during such periods as may be stipulated by the Clearing Corporation from time to time.

2. FORM OF MARGIN

The margins to be provided by a clearing member under the Bye Laws and Regulations shall be in cash and cash equivalents. The relevant authority may at its discretion accept deposit receipts, guarantee of a bank(s) approved by the relevant authority or securities approved by it or such other mode as may be approved and subject to such terms and conditions as the relevant authority may impose from time to time. Any such substitute like deposit receipt, securities approved by it or any other mode duly approved shall be deemed to have been pledged and/or hypothecated as the case may be in favour of the Clearing Corporation.

3. QUANTUM OF MARGIN

The Clearing Member depositing margins, in the form of securities by way of pledge or otherwise or in such other mode as may be specified by the relevant authority from time to time, shall always maintain the value thereof at not less than the quantum of margin required for the time being covered by them by providing further security to the

satisfaction of the relevant authority which shall determine the said value and whose valuation shall conclusively fix the amount of any deficiency to be made up from time to time.

4. **MARGIN TO BE HELD BY THE CLEARING CORPORATION**

The margins shall be held by the Clearing Corporation and when they are in the form of bank deposit receipts and securities, such receipts and securities may be transferred to such persons or to the name of a custodian or such other entity approved by the Clearing Corporation. All margin deposits shall be held by the Clearing Corporation and/or by the approved persons and/or by the approved custodian in such form and on such account as the Clearing Corporation may deem fit without any right whatsoever on the part of the depositing clearing member or those in its right to call in question the exercise of such discretion.

5. **LIEN ON MARGINS**

The monies paid by way of margin or bank deposit receipts or other securities or assets pledged or hypothecated by a clearing member in lieu of margin under the provisions of the Bye Laws and Regulations shall be subject to a first and paramount lien for all sums due to the Clearing Corporation. Margin shall be available in preference to all other claims against the clearing member for the due fulfilment of his obligations and liabilities arising out of or incidental to any deals made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations or anything done in pursuance thereof.

6. **UTILISATION FOR FAILURE TO MEET OBLIGATIONS**

- (1) In the event a clearing member fails to meet obligations to the Clearing Corporation arising out of clearing and settlement operations of such deals as provided in the Bye Laws and Regulations, the relevant authority shall be entitled to utilise any amount paid by the said clearing member in the form of margin or any other payment retained by the Clearing Corporation for the purpose of clearing and settlement.
- (2) In case of default by a clearing member to the Clearing Corporation arising out of the positions, the relevant authority shall be entitled to utilise the margins or any other monies of such a clearing member in order to meet the obligations arising out of such positions.

7. **EVASION OF MARGIN REQUIREMENTS FORBIDDEN**

A clearing member shall not directly or indirectly enter into any arrangement or adopt any procedure for the purpose of evading or assisting in the evasion of the margin requirements specified under the Bye Laws and Regulations.

8. **SUSPENSION ON FAILURE TO PAY MARGIN**

If a clearing member fails to pay margin as required in the Bye Laws and Regulations, the relevant authority may take such action as it may deem fit and specify from time to time including suspension.

9. **INTEREST, DIVIDEND AND CALLS**

- (1) The receiving member shall be entitled to receive all vouchers, coupons, dividends, cash bonus, bonus issues, rights and other privileges which may relate to securities bought cum voucher, cum coupons, cum dividends, cum cash bonus, cum bonus issues, cum rights, etc. The delivering member shall be entitled to receive all vouchers, coupons, dividends, cash bonus, bonus issues, rights and other privileges which may relate to securities sold ex voucher, ex coupons, ex dividends, ex cash bonus, ex-bonus issues, ex rights, etc.
- (2) The manner, mode, information requirements, alterations, date and timing etc., of adjustment with respect to vouchers, coupons, dividends, cash bonus, bonus issues, rights and other privileges between the receiving and delivering member shall be as specified by the relevant authority from time to time. Save as otherwise provided in the Bye Laws and Regulations, the clearing members shall be responsible between themselves and to their constituents for effecting such adjustments.
- (3) In respect of a deal in securities which shall become or are exchangeable for new or other securities under a scheme of reconstruction or reorganisation, the delivering member shall deliver to the receiving member, as the relevant authority directs, either the securities contracted for or the equivalent in securities and/or cash and/or other property receivable under such scheme of reconstruction or reorganisation.

10. **FEES & CHARGES**

The relevant authority may prescribe from time to time fees and charges to be levied on the clearing members in respect of clearing and settlement of deals.

CHAPTER VII: ARBITRATION

1. All claims, disputes, differences, arising between Clearing Members and Constituents or between Clearing Members inter se or between such other parties as specified by the relevant authority from time to time, arising out of or related to deals admitted for clearing and settlement by the Clearing Corporation or with reference to anything done in respect thereto or in pursuance of such deals shall be referred to and decided by arbitration, mediation and other dispute resolution mechanisms offered by such International Arbitration Centres in IFSC as specified by the relevant authority from time to time.

2. CHAPTER VIII : SETTLEMENT GUARANTEE FUND**1. CLEARING CORPORATION TO MAINTAIN SETTLEMENT GUARANTEE FUND**

- (1) The Clearing Corporation shall maintain Settlement Guarantee Fund for such purposes as may be specified by the relevant authority from time to time. The Clearing Corporation shall have such a fund to guarantee the settlement of trades executed on the Specified Stock Exchange. In the event a Clearing Member fails to fulfil the settlement obligations, the Settlement Guarantee Fund shall be used to fulfil the settlement obligations of the Clearing Member.
- (2) The relevant authority may prescribe from time to time the norms, procedures, terms and conditions governing Settlement Guarantee Fund which may inter-alia specify the amount of deposit or contribution to be made by each clearing member to the fund, the terms, manner and mode of deposit or contributions, conditions of repayment of deposit or withdrawal of contribution from the fund, charges for utilisation, penalties and disciplinary actions for non-performance thereof.

2. CONTRIBUTION TOWARDS SETTLEMENT GUARANTEE FUND

- (1) The contributions of various contributors including specified Exchange to Settlement Guarantee Fund shall be subject to circulars/directions issued by SEBI from time to time and as specified by Clearing Corporation. Clearing Corporation shall have the flexibility to collect Clearing Member primary contribution either upfront or staggered over a period of time. In case of staggered contribution, the remaining balance shall be met by Clearing Corporation to ensure adequacy of Settlement Guarantee Fund corpus at all times. Such Clearing Corporation contribution shall be available to Clearing Corporation for withdrawal as and when further contributions from Clearing Members are received;
- (2) Any penalties levied by Clearing Corporation shall be credited to Settlement Guarantee Fund;
- (3) Interest on cash contribution to Settlement Guarantee Fund shall also accrue to the Settlement Guarantee Fund and pro-rata attributed to the respective contributors in proportion to their cash contribution;
- (4) Clearing Corporation shall ordinarily accept cash collateral for Settlement Guarantee Fund contribution. However, Clearing Corporation may accept Clearing Member contribution in the form of bank FDs. Clearing Corporation shall adhere to specific guidance which may be issued by SEBI from time to time in this regard.

3. FORM OF CONTRIBUTION

The relevant authority shall prescribe from time to time the form of contribution to the Settlement Guarantee Fund. The relevant authority in its discretion, may permit a clearing member to contribute either in the form of cash, fixed deposit, or by such other method and subject to such terms and conditions as may be specified from time to time.

4. ADMINISTRATION AND UTILISATION OF THE SETTLEMENT GUARANTEE FUND

- (1) The Settlement Guarantee Fund shall be utilised for such purposes as may be provided in the Bye Laws and Regulations and subject to such conditions as the relevant authority may prescribe from time to time which shall include:
 - (a) to defray the expenses of creation, maintenance and repayment of the Default Fund;
 - (b) investment in such approved securities and other avenues subject to such terms and conditions as may be decided by the relevant authority from time to time;
 - (c) the application of Settlement Guarantee Fund to meet premium on insurance cover(s) which the relevant authority may take from time to time;
 - (d) the application of Settlement Guarantee Fund to meet shortfalls and deficiencies arising out of the clearing and settlement of such deals as provided in the Bye Laws and Regulations;
 - (e) the application of the Settlement Guarantee Fund to satisfy any loss or liability of the arising out of clearing and settlement operations of such deals as provided in these Bye Laws and Regulations;
 - (f) repayment of the balance after meeting all obligations under these Rules, Bye Laws and Regulations to the clearing member when he ceases to be a member pursuant to the provisions regarding the repayment of deposit;
 - (g) any other purpose as may be specified by the Board from time to time.
- (2) The Clearing Corporation shall have full power and authority to pledge, re-pledge, hypothecate, transfer, create a security interest in, or assign any or all of the (i) Settlement Guarantee Fund cash or other instruments in which Settlement Guarantee Fund cash is invested by a clearing member any other instrument issued on behalf of a clearing member in favour of the Clearing Corporation towards deposit to the Settlement Guarantee Fund.

5. UTILISATION FOR FAILURE TO MEET OBLIGATIONS

In the event a clearing member fails to meet obligations to the Clearing Corporation arising out of clearing and settlement operations of such deals as provided in these Bye Laws and Regulations, the relevant authority may

utilise the Settlement Guarantee Fund and other monies to the extent necessary to fulfil the obligation under such terms and conditions as the relevant authority may specify from time to time.

6. UTILISATION IN CASE OF DEFAULT

The default waterfall of Clearing Corporation shall generally follow the following order:

1. Monies of defaulting member (including defaulting member's primary contribution to Settlement Guarantee Fund).
2. Insurance, if any.
3. Clearing Corporation resources (equal to 5% of the MRC*).
4. Settlement Guarantee Fund in the following order:
 - i. Penalties
 - ii. Clearing Corporation contribution to the extent of at least 25% of the MRC
 - iii. Remaining Settlement Guarantee Fund: Clearing Corporation contribution, Specified Stock Exchange contribution and non-defaulting members' primary contribution to Settlement Guarantee Fund on pro-rata basis.
5. Remaining Clearing Corporation resources (excluding an amount equivalent to INR 100 Crore)
6. Capped additional contribution by non-defaulting members.
7. Any remaining loss to be covered by way of pro-rata haircut to payouts.

* The Relevant Authority shall specify from time to time the Minimum Required Corpus (MRC) of the Settlement Guarantee Fund of the Clearing Corporation in accordance with the norms prescribed by SEBI from time to time.

7. REFUND OF SETTLEMENT GUARANTEE FUND CONTRIBUTION

A clearing member shall be entitled to the refund of contribution repayment of deposit made by him to the Settlement Guarantee Fund after –

- (a) the clearing member ceases to be a member, and
- (b) all pending deals at the time the clearing member ceases to be a clearing member which could result in a charge to the Settlement Guarantee Fund have been closed and settled, and
- (c) all obligations for which the clearing member was responsible while he was a member have been satisfied or, at the discretion of the relevant authority, have been deducted by the Clearing Corporation from the clearing member's actual contribution ;
- (d) a suitable amount as may be determined by the relevant authority at its discretion towards such other obligations as may be perceived to exist or may be perceived to arise in future.

CHAPTER IX: DEFAULT

1. DECLARATION OF DEFAULT

A clearing member may be declared a defaulter by direction/circular/notification of the relevant authority if:

- 1) he is unable to fulfil his clearing or settlement obligations; or
 - 2) he admits or discloses his inability to fulfil or discharge his duties, obligations and liabilities; or
 - 3) he fails or is unable to pay within the specified time the damages and the money difference due on a closing-out effected against him under the Rules, Bye Laws and Regulations; or
 - 4) he fails to pay any sum due to the Clearing Corporation as the relevant authority may from time to time prescribe; or
 - 5) if he fails to pay or deliver all moneys, securities and other assets due to a clearing member who has been declared a defaulter within such time of declaration of default of such clearing member in such manner and to such person as the relevant authority may direct; or
 - 6) if he fails to abide by the arbitration award as laid down under the Rules, Bye Laws and Regulations; or
 - 7) if he has been adjudicated as an insolvent by a court of competent jurisdiction in the petition filed by any of his creditors, he shall ipso facto be declared a defaulter though he may not have at the same time defaulted on any of his obligations on the Clearing Corporation; or
 - 8) if he files a petition before a court of competent jurisdiction for adjudication of himself as an insolvent; or
 - 9) under any other circumstances as may be decided by the relevant authority from time to time.
- 1A. Without prejudice to the foregoing provisions contained in Byelaw (1) of this chapter, where a clearing member, who is also a member/ trading member of any of the recognised Stock Exchanges, is declared a defaulter by such Stock Exchange, the said clearing member shall ipso facto stand declared a defaulter by the Relevant Authority.

- 1B. Notwithstanding anything contained in the Byelaws and Rules of Clearing Corporation, if a clearing member is an Associate of a member/ trading member declared a defaulter by any recognised stock exchange, the said clearing member shall render itself liable to be declared a defaulter by the Relevant Authority.

Explanation:

The expression "Associate" for the purpose of the above Byelaw shall have the meaning as maybe defined by SEBI from time to time.

2. **CLEARING MEMBER'S DUTY TO INFORM**

A clearing member shall be bound to notify the Clearing Corporation immediately if there be a failure by any clearing member to discharge his liabilities in full.

3. **COMPROMISE FORBIDDEN**

A clearing member shall not accept from any clearing member anything less than a full and bona fide money payment in settlement of a debt arising out of a deal cleared through the Clearing Corporation.

4. **NOTICE OF DECLARATION OF DEFAULT**

On a clearing member being declared a defaulter, a notice shall be forthwith issued to all the clearing members of the Clearing Corporation.

5. **NOTICE TO THE STOCK EXCHANGE**

On a clearing member being declared a defaulter, a notice shall be forthwith issued to the Exchange if the clearing member is also a trading member of that Exchange.

6. **DEFAULTER'S BOOKS AND DOCUMENTS**

When a clearing member has been declared a defaulter, the relevant authority shall take charge of all his books of accounts, documents, papers and vouchers to ascertain the state of his affairs and the defaulter shall hand over such books, documents, papers and vouchers to the relevant authority.

7. **LIST OF DEBTORS AND CREDITORS**

The defaulter shall file with the relevant authority within such time of the declaration of his default as the relevant authority may direct, a written statement containing the complete list of his debtors and creditors and the sum owing by and to each.

8. **DEFAULTER TO GIVE INFORMATION**

The defaulter shall submit to the relevant authority such statement of accounts, information and particulars of his affairs as the relevant authority may from time to time require and if so desired shall appear before the relevant authority at its meetings held in connection with his default.

9. **INQUIRY**

The relevant authority may conduct a strict inquiry into the accounts and dealings of the defaulter in the market and shall report anything improper, un-business like or unbecoming a clearing member in connection therewith which may come to its knowledge.

10. **DEFAULTER'S ASSETS**

The Relevant Authority shall call in and realise the security deposits in any form, margin money, other amounts lying to the credit of and securities deposited by the defaulter and recover all moneys, securities and other assets due, payable or deliverable to the defaulter by any other Clearing Member in respect of any deal or dealing made subject to the Bye-laws, Rules and Regulations of the Clearing Corporation and such assets shall vest ipso facto, on declaration of any Clearing Member as a defaulter, in the Clearing Corporation for the benefit of and on account of the Clearing Corporation, the relevant Specified Exchange, Securities and Exchange Board of India, Constituents of the defaulter, approved banks and any other persons as may be approved by the Relevant Authority and other recognised stock exchanges / clearing corporations.

11. **PAYMENT TO RELEVANT AUTHORITY**

(1) All monies, securities and other assets due, payable or deliverable to the defaulter must be paid or delivered to the relevant authority within such time of the declaration of default as the relevant authority may direct. A clearing member violating this provision may be declared a defaulter.

(2) A clearing member who shall have received a difference on account or shall have received any consideration in any deal prior to the date fixed for settling such account or deal shall, in the event of the clearing member from whom he received such difference or consideration being declared a defaulter, refund the same to the relevant authority for the benefit and on account of the creditor members. Any clearing member who shall have paid or given such difference or consideration to any other clearing member prior to such settlement day shall again pay or give the same to the relevant authority for the benefit and on account of the creditor member in the event of the default of such other member.

- (3) A clearing member who receives from another clearing member during any clearing a claim note or credit note representing a sum other than difference due to him or due to his constituent which amount is to be received by him on behalf and for the account of that constituent shall refund such sum if such other clearing member be declared a defaulter within such number of days as specified by the relevant authority after the settling day. Such refunds shall be made to the relevant authority for the benefit and on account of the creditor members and it shall be applied in liquidation of the claims of such creditor members whose claims are admitted in accordance with the Rules, Bye Laws and Regulations.

12. DISTRIBUTION

The relevant authority shall at the risk and cost of the creditor members pay all assets received in the course of realisation into such bank and/or keep them with the Clearing Corporation in such names as the relevant authority may from time to time direct and shall distribute the same in accordance with the Rules, Bye Laws and Regulations.

13. CLOSING-OUT

- (1) Clearing members having open deals with the defaulter shall close out such deals after declaration of default. Such closing out shall be in such manner as may be specified by the relevant authority from time to time. Subject to the regulations in this regard specified by the relevant authority, when in the opinion of the relevant authority, circumstances so warrant, such closing out shall be deemed to have taken place in such manner as may be determined by the relevant authority.
- (2) Differences arising from the above adjustments of closing out shall be claimed from the defaulter or paid to the relevant authority for the benefit of creditor clearing members of the defaulter.

14. CLAIMS AGAINST DEFAULTER

Within such time of the declaration of default as the relevant authority may direct every clearing member carrying on business shall, as it may be required to do, either compare with the relevant authority his accounts with the defaulter duly adjusted and made up as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations or furnish a statement of such accounts with the defaulter in such form or forms as the relevant authority may prescribe or render a certificate that he has no such account.

15. DELAY IN COMPARISON OR SUBMISSION OF ACCOUNTS

Any clearing members failing to compare his accounts or send a statement or certificate relating to a defaulter within the time specified shall be called upon to compare his accounts or send such statement or certificate within such further time as may be specified.

16. PENALTY FOR FAILURE TO COMPARE OR SUBMIT ACCOUNTS

The relevant authority may take such action as it may deem fit including levying of fine and suspension on any clearing member who fails to compare his accounts or submit a statement of its account with the defaulter or a certificate that he has no such account within the specified time.

17. MISLEADING STATEMENT

The relevant authority may take such action as it may deem fit including levying of fine and suspension, if it is satisfied that any comparison statement or certificate relating to a defaulter sent by such clearing member was false or misleading.

18. ACCOUNTS OF RELEVANT AUTHORITY

The relevant authority shall keep a separate account in respect of all monies, securities and other assets payable to a defaulter which are received by it and shall defray therefrom from all costs, charges and expenses incurred in or about the collection of such assets or in or about any proceedings it takes in connection with the default.

19. APPLICATION OF ASSETS

The Relevant Authority shall apply the net assets remaining in its hands after defraying all such costs, charges and expenses as are allowed under the Rules, Byelaws and Regulations to be incurred by the Clearing Corporation, in satisfying the claims in the order of priority provided hereunder:-

- (a) Dues to the Clearing Corporation, the relevant Specified Exchange, Securities and Exchange Board of India.

The payment of such subscriptions, debts, fines, fees, charges and other money/ies due to Clearing Corporation, the relevant Specified Exchange and Securities and Exchange Board of India on a pro-rata basis,

- (b) Dues to Constituents of the defaulter

The payments as may be admitted by the Relevant Authority, as being due to Constituents of the defaulter for debts, liabilities, obligations and claims arising out of any contracts made by the defaulter subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Clearing Corporation, provided that if the amount is insufficient then the amounts shall be distributed pro-rata amongst all the Constituents of the defaulter,

- (c) Dues to the Approved Banks and claims of any other persons as approved by the Relevant Authority
After making payments under (b) above, the amounts remaining, if any, shall be utilised to meet the claims of the approved banks and of any other person as may be admitted by the Relevant Authority. The claims of the approved banks should have arisen by virtue of Clearing Corporation or the relevant Specified Exchange invoking any bank guarantee issued by the bank concerned to the Clearing Corporation or the relevant Specified Exchange as the case may be on behalf of the defaulter to fulfil his obligation of submitting bank guarantee, guaranteeing discharge of obligations under the Byelaws, Rules and Regulations of Clearing Corporation / the relevant Specified Exchange. The claims of other persons should have arisen out of or incidental to the clearing and settlement of a deal on the Clearing Corporation or requirements laid down by the Clearing Corporation, provided that if the amount available be insufficient to pay all such claims in full, they shall be paid pro-rata,
- (d) Dues to any other recognised stock exchange/clearing Corporation
After meeting the claims under (c) above, the remaining amounts, if any, shall be disbursed to any other recognised stock exchange / clearing corporation for the purpose of meeting the obligations of the defaulter as a member of that exchange/clearing corporation. If the defaulter is a member of more than one recognised stock exchange/clearing corporation, then the remaining amounts shall be distributed amongst all such recognised stock exchanges / clearing corporations and if the remaining amount is insufficient to meet the claims of all such stock exchanges/clearing corporations, then the remaining amount shall be distributed pro-rata among all such stock exchanges/clearing corporations; and
- (e) Surplus
The surplus amounts, if any, remaining after meeting all the above claims, shall be paid to the Clearing Member.

20. CERTAIN CLAIMS NOT TO BE ENTERTAINED

The relevant authority shall not entertain any claim against a defaulter:

- (1) which arises out of a contract in securities, dealings in which are not permitted or which are not made subject to Bye Laws, Rules and Regulations or in which the claimant has either not paid himself or colluded with the defaulter in evasion of margin payable on bargains in any security ;
- (2) which arises out of a contract in respect of which comparison of accounts has not been made in the manner specified in the Rules, Bye Laws and Regulations or when there has been no comparison if a contract note in respect of such deals has not been rendered as provided in the Rules, Bye Laws and Regulations;
- (3) which arises from any arrangement for settlement of claims in lieu of bonafide money payment in full on the day when such claims become due;
- (4) which is in respect of a loan with or without security ;
- (5) which is not filed with the relevant authority within such time of date of declaration of default as maybe specified by the relevant authority.

21. ASSIGNMENT OF CLAIMS ON DEFAULTERS' ESTATE

A Clearing member being a creditor of a defaulter shall not sell, assign or pledge the claim on the estate of such defaulter without the consent of the relevant authority.

22. PROCEEDINGS IN THE NAME OF OR AGAINST THE DEFAULTER

The Relevant Authority shall be empowered to (a) initiate any proceedings in a court of law either in the name of the Clearing Corporation or in the name of the defaulter against any person for the purpose of recovering any amounts due to the defaulter; (b) initiate any proceedings in a court of law either in the name of Clearing Corporation or in the name of the creditors (who have become creditors of the defaulter as a result of deals cleared and settled subject to Byelaws, Rules and Regulations of the Clearing Corporation) of the defaulter against the defaulter for the purpose of recovering any amounts due from the defaulter. The defaulter as well as the creditors of the defaulter shall be deemed to have appointed the Clearing Corporation as their constituted attorney for the purpose of taking such proceedings.

23. PAYMENT OF RELEVANT AUTHORITY

If any clearing member takes any proceedings in a court of law against a defaulter whether during the period of its default or subsequent to its re-admission to enforce any claim against the defaulter's estate arising out of any admitted deals in the market made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations before it was declared a defaulter and obtains a decree and recovers any sum of money thereon, it shall pay such amount or any portion thereof as may be fixed by the relevant authority for the benefit and on account of the creditor members having claims against such defaulter.

CHAPTER X : MISCELLANEOUS

1. Save as otherwise specifically provided in the Bye Laws and Regulations specified by the relevant authority regarding clearing and settlement arrangement, in promoting, facilitating, assisting, regulating, managing and

operating the Clearing Corporation should not be deemed to have incurred any liability, and accordingly no claim or recourse in respect of or in relation to any dealing in securities or any matter connected therewith shall lie against the any authorised person(s) acting for the Clearing Corporation.

2. No claim, suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any authorised person(s) acting for Clearing Corporation in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order or other binding directive issued to Clearing corporation under any law or delegated legislation for the time being in force.

FOR NSE IFSC CLEARING CORPORATION LIMITED

NILESH TINAIKAR

CHIEF EXECUTIVE OFFICER